



# षट्कृदर्शन-सहस्र्य

पण्डित नङ्गनाथ पाठक

विहार-राष्ट्रभाषा-परिपद  
पठना

प्रकाशक

विहार-राष्ट्रभाषा-परिपद्

पटना-३

प्रथम संस्करण

विक्रमान्द २०१५; शकान्द १८८०; खृष्णान्द १६५८

सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य—सजिल्ड पाँच रुपये

मुद्रक

श्रीरामकिशोर मिश्र

युगान्तर प्रेस

पटना-४

‘मधु द्योरस्तु नः पिता ।’

परमाराध्य पूज्य पिनाजी के  
श्रीचरणों में सादर  
समर्पित

यस्य मन्त्रप्रभावेण मूकोऽपि वाग्मतामितः ।  
प्रियतां स पिता श्रीमद्‌रामजीवनपण्डितः ॥

विनीत  
रङ्गनाथ पाठक





पद्मर्शन-रहस्य—



अन्थकार

## वर्ताव्य

‘सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध पूर्व सः ।’

मनोपियों का कथन है कि हिंदे की आँखों के लिए दर्शनशास्त्र असृताञ्जन का काम करता है। वे यहाँ तक कह गये हैं कि संयत चित्र में दर्शनशास्त्र का अध्ययन-मनन करते रहने से आत्मदर्शन होता है और आत्मदर्शन होने पर अखिल ब्रह्माण्ड-रहस्य प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस दर्शनशास्त्र की ऐसी श्रमोघ शक्ति बतलाई गई है, वह सारा-का-सारा संस्कृत-भाषा में है। संस्कृत में पारज्ञत हुए विना दर्शनशास्त्र का अनुशीलन और रहस्योदयाणि सम्भव नहीं है।

दुर्मिथवश, आज बहुत ही कम लोगों को संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान है। दर्शन का गूढ़ मर्म समझने और असंस्कृतज्ञ को सुबोध दीति से समझाने की यथए ज्ञानता रखनेवाले संस्कृतज्ञ तो हिन्दी-संसार में सम्भवतः कनिष्ठिकाधिष्ठित ही होंगे। अतः, दर्शनशास्त्र के निष्पाठ विद्वानों का यह कर्त्तव्य है कि वे स्वदेश में सबसे अधिक प्रचलित और सर्वतोऽधिक लोकप्रिय भाषा हिन्दी में दर्शनशास्त्र के तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए उसका हृदय-पटल खोलकर रख दें, जिससे इस देश की जनता में जो स्वभावतः दार्शनिक रुचि है, उसका परिष्कारं और परितोष हो।

इस पुस्तक के पह्ददर्शनाचार्य लेखक ने अपने उसी कर्त्तव्य का पालन किया है। अब उनकी सफलता-असफलता का विचार दर्शनशास्त्रियों को करना है।

इस स्वयं दर्शनशास्त्र का कक्षारा भी नहीं जानते, इसलिए पुस्तक के गुण-दोष के सम्बन्ध में कुछ भी लिखने के अधिकारी नहीं हैं। जो पाठक दर्शनशास्त्रियों अथवा जो दर्शनशास्त्री हैं, वे ही इसकी विशेषताओं और त्रुटियों को परख सकते हैं।

यों तो, शास्त्र किसी के अधिकार में नहीं होता। उसे मुट्ठी में कर हेना सहज काम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान् रामचन्द्र के श्रीमुख से कहवाया है—

‘साक्ष सुचिन्तित पुनिःपुनि देविश,  
भूप भुसेवित यस नहिं खेत्रिश्...  
... ... ... ...

क्षुब्धी साक्ष नृपति यस भूम्ही । [अरण्यकाण्ड]

अतएव, लेखक ने जो कुछ लिखने का प्रयास किया है, वह कहाँ तक शास्त्रज्ञत और सुधी-सम्भव है, इसका विचार अधिकारी उज्ज्ञ नहीं कर सकेंगे। स्वयं लेखक ने मी अपने प्राक्कथन में सहृदय उज्ज्ञों से पुस्तकगत दोषों के सम्बन्ध में स्पष्ट निवेदन किया है।

हिन्दों में दार्शनिक साहित्य का आभाव नहीं है। कई अधिकारी दार्शनिकों ने अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। दार्शनिक विचारों के प्रचारक और प्रोपक कुछ पत्र भी निकलते हैं। संस्कृतशब्द विद्वानों ने भी हिन्दी में दार्शनिक विषयों को सरलता से समझाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। हम नहीं कह सकते कि शब्द तक के प्रकाशित एतद्विषयक ग्रन्थों में इस पुस्तक का कैसा स्थान होगा। किन्तु, पुस्तक पढ़नुकर्ता पर ऐसी धारणा का उत्पन्न होना विस्मयजनक नहीं कि अनेक सुन्दर पुस्तकों के रहते हुए भी इसने हिन्दी के एक आभाव की पूर्ति की है।

लेखक महोदय आपनी इसी पुस्तक द्वारा हिन्दी-संसार में सर्वप्रथम पदार्पण कर रहे हैं। अतः, हिन्दी-पाठकों की जानकारी के लिए उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना आवश्यक प्रतीत होता है।

पण्डितजी का शुभजन्म बिहार-राज्य के शाहाबाद जिले में, विक्रमान्द १६४२ में, हुआ था। इस समय आपकी अवस्था ७३ वर्ष की है। बाल्यावस्था में आपने अपने पृज्य पिता पं० रामजीवन पाठक और सेमरिया-ग्राम-निवासी पं० हरगोविन्द पाण्डेय से संस्कृत की आरम्भिक शिक्षा पाई थी।

युवावस्था में अपने पिताजी के गुरु बिनगाँवा-ग्राम-निवासी पं० हरिप्रसाद त्रिपाठी ने और उसके बाद उन्हीं के चचेरे भाई तथा उस समय के प्रकाशदैनेयायिक पं० शिवप्रसादजी से आपको संस्कृत की उच्च शिक्षा मिली। उक्त नैयायिकजी से आपको टीका-ग्रन्थों के पढ़ने में विशेष सहायता प्राप्त हुई।

ग्रामीण पाठशालाओं की शिक्षा के बाद आप आरा-नगर के सुप्रसिद्ध शास्त्राचार्य पं० गणपति मिथ के पास पढ़ने के लिए गये। महामहोपाध्याय पं० उक्तनारायणशर्मा उक्त मिथजी के ही प्रथम शिष्य थे।

आरा-नगर में पाण्डित्य प्राप्त कर आप काशी चले गये। वहाँ के स्वनामधन्य विद्वान्-महामहोपाध्याय पं० गङ्गाधर शास्त्री और पं० शिवकुमार शास्त्री से आपने यदेष्ट विद्या अर्जित की। काशी के तात्कालिक संस्कृत-समाज में अपने दुराग्रह-शून्य शास्त्रार्थ के लिए आप विशेष प्रसिद्ध थे।

पटना की पण्डित-मण्डली के शिरोभूषण वृद्धविठ्ठल आचार्य पण्डित हरिशङ्कर पाण्डेयजी को आप भी गुह्यस्थानीय मानते हैं, जिनके सतत सत्सङ्घ और पठाठ में आपकी शास्त्रीय उपलब्धियाँ सनाय हुई हैं। इसका संरेत आपने अपने प्राक्षयन के अन्त में कर दिया है।

आप बिहार-संस्कृत-योग्यियेशन की कॉरिज़िस्ट के बदस्य हैं। इस समय आप चिरेयाटीक (पटना) के संस्कृत-विषयालय के प्रधानाध्यापक हैं। संस्कृत में लिखे आपके कुछ प्रकाशित निबन्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं। यथा—मोहन-मोर्मिया, मायावाद, रक्तश्वाद आदि। उपर्युक्त प्रथम दो निबन्ध बिहार-संस्कृत-मिनित से पुगकर हो चुके हैं और तीसरे में आपके स्वतन्त्र विधार व्यक्त हुए हैं।

आपने संस्कृत में दर्शन-सिद्धान्त-मञ्जूरा, बौद्धदर्शन, चार्वाक-दर्शन, रामानुज-दर्शन, वेदान्त-दर्शन आदि पुस्तकों लिखी हैं, जो अवधिक अप्रकाशित हैं। उक्त मञ्जूरा में ११०० श्लोक हैं। ये पुस्तकों जब प्रकाशित होंगी, तभी आपकी दार्शनिकता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

पुस्तक की पारहुलिपि का सम्पादन ही चुकने पर आपने पुनः दुबारा पूरी पुस्तक को नये चिरे से लिख डाला। पुस्तक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के सरलार्थ भी लिख डाले, जो परिशिष्ट में द्रष्टव्य हैं। दूसरी बार शास्त्रीय पद्धति से संस्कार करके आपने पुस्तक का कायाकल्प कर दिया। कहाँ आपका जराजर्जर शरीर और कहाँ विशुद्ध संस्कृत द्वाकर भी दुर्लभ विषय को हिन्दी में लिखने का कठोर परिश्रम, आधुनिक युग के लिए यह एक आदर्श ही है।

आशा है कि पाठकजी को पुस्तक को पाठक पसन्द करेंगे।

श्रीकृष्णजन्माष्टमी }  
शकाब्द १८८० }

शिवपूजनसहाय  
(संचालक)



## ग्रन्थकार का प्राक्थंन

इत्येतच्छ्रुतिशास्त्रसारनिष्ठयं संगृह्य पठनान्मया  
संदेपेण निर्दर्शितं निजमनस्तोपाय वोधाय च ।  
सारं ग्राहमपास्य फल्नु सुधिया ध्यानेन वै पश्यता  
आकांच्छा यदि सर्वशास्त्रविषये द्युष्टचिमाप्तुं भवेद् ॥

—ग्रन्थकर्त्तुः

मुझे स्वाध्याय-काल में ही हिन्दी की पञ्च-ग्रन्थिकाओं में प्रकाशित कुछ दार्शनिक लेखों को देखने का भौमाय प्राप्त हुआ था। उसी समय मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हिन्दी में भी संस्कृत के दार्शनिक ग्रन्थों के अनुसार कोई सुबोध ग्रन्थ लिखा जाय, जो बहुजनहिताय हो।

संयोगवश मित्रवर पं० बलदेव उपाध्यायजी की 'भारतीय दर्शन' नामक पुस्तक देखने का अवसर मिला। यह पुस्तक यद्यपि विद्वापूर्ण है, तथापि इसमें नवीनता और ऐतिहासिक विषयों पर जितना ध्यान दिया गया है, उतना यदि मूल सिद्धान्तों के विश्लेषण पर भी ध्यान दिया गया होता, तो संस्कृतज्ञ दार्शनिकों और संस्कृत न जाननेवाले हिन्दी-पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी होती।

पञ्च-ग्रन्थिकाओं में प्रकाशित कुछ दार्शनिक लेखों के देखने से मेरी यह धारणा हुई कि कुछ ऐसे अनधिकारी व्यक्ति भी दार्शनिक लेख लिखने का प्रयत्न करते हैं, जिन्होंने मूल दर्शन-ग्रन्थों को मली भाँति देखा तक नहीं है। एक बड़े विद्वान् का 'खण्डनखण्डखाद्य' पर बहिरङ्ग समालोचनात्मक विचार भी मुझे पढ़ने को मिला, जिससे भी उक्त धारणा की विशेष पुष्टि हुई। इससे यह भी प्रतीत हुआ कि बहुत-से बुद्धिमान् उत्त्याही लेखक भी संस्कृत के ज्ञान की न्यूनता के कारण दुर्लभ मूलग्रन्थों को देखने का कष्ट भी नहीं करते, केवल पञ्च-ग्रन्थिकाओं में प्रकाशित लेखों और हिन्दी की आधुरी दार्शनिक पुस्तकों के आधार पर असम्भव बातें लिख देते हैं। अतः, मैंने ऐसा विचार किया कि संस्कृत के मननीय मूलग्रन्थों के गूढ़ सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान हिन्दी-भाषा के द्वारा भी कराया जाय, तो हिन्दी-पाठकों को दार्शनिक रहस्यों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

मेरे विचार से दार्शनिक ग्रन्थ लिखने में ऐतिहासिक या धार्मिक विषयों का विवेचन उतना उपयुक्त नहीं होता, जितना दार्शनिक तत्त्वों का विशद् विवेचन। यही खोचकर मैंने संस्कृत-ग्रन्थों के आधार पर भारतीय दर्शनों के मूल सिद्धान्तों का स्पष्ट, पूर्ण और विशद् विवेचन करने के लिए यह पुस्तक लिखी। जिन-जिन विषयों पर दार्शनिकों में मतभेद है और जिन-जिन विषयों पर एकवाक्यता है, तथा ऐसे विशेष

विषय, जिनपर सब दर्शनकारों ने उमन्धयात्मक विचार प्रकट किये हैं, उन सभी पर मैंने प्रामाणिक ढङ्ग से प्रकाश डाला है।

जब ग्रन्थ-लेखन का श्रीगणेश किया, तब आरम्भ में बड़ी कठिनाई भालूम पड़ी। विशेषतः, दर्शन-शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों को हिन्दी-पाठकों के लिए सुगम बनाने की चिन्ता मन में व्याप्त रही। अन्त में, स्वाध्याय से यह पता चला कि हिन्दी में भी दर्शन-शास्त्र के पारिभाषिक शब्द अधिकतर मूल रूप में ही प्रचलित हैं, नये नहीं गढ़े गये हैं; क्योंकि तद्देव और देशज शब्दों से दार्शनिक तथ्यों का स्पष्टीकरण होना सम्भव भी नहीं है। इसलिए, मैंने संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों को हिन्दी में भी मूल रूप में ही व्यवहृत किया है और हिन्दी-पाठकों को सुविधा के लिए कठिन पारिभाषिक शब्दों का सरलार्थ और भावार्थ पुस्तक के अन्त में दे दिया है।

यह पुस्तक वेदभाष्यकार साधणमाधवाचार्य-कृत 'सर्व-दर्शन-संग्रह' के आधार पर आधित है। मेरे परमादरणीय पं० वासुदेव अम्बुद्धरजी ने उक्त ग्रन्थ की एक मुन्दर और सरल टीका लिखी है, जो बहुत उपादेय है। उससे मुझे बहुत सहायता मिली है, जिसके लिए मैं टीकाकार का भूषणी हूँ। किन्तु, मैंने टीकाकार के विचारों का कहीं-कहीं खण्डन भी किया है। आशा है, मेरे खण्डनात्मक विचार सहृदय विशेषज्ञों को औचित्यपूर्ण प्रतीत होगे।

मैं इस पुस्तक के लिखने में कितना सफल हुआ हूँ, इसका निर्णय तो विद्वान् पाठकों के अधीन है। परन्तु, मेरा सो पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक को आद्योपान्त ध्यान देकर पढ़ने से समस्त भारतीय दर्शनों का परिचय मिल जायगा। इस पुस्तक में छह दर्शनों के मूल सिद्धान्तों का विवेचन पृथक्-पृथक् किया गया है। सिद्धान्त की व्यवस्था करने में पूर्वपक्षियों की शङ्काओं का समाधान तत्त्व-दर्शनों के अनुसार ही करने की चेष्टा की गई है, जिससे उन दर्शनों में पूर्ण प्रीढ़ि प्राप्त हो। इसके विषय-प्रवेश में आस्तिक, नास्तिक, तार्किक, श्रीत आदि सभी दर्शनों का समालोचनात्मक विचार के साथ तारतम्य दिखाया गया है। श्रुतियों के गूढ़ार्थ होने के कारण सम्भावित शङ्काओं के समाहित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है, साथ ही श्रीत तत्त्व तथा शास्त्रों में वर्णित तत्त्वों में भेद के भान होने का कारण भी घताया गया है। मूल कारण में आरम्भवाद, संघातवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद आदि चादों और सख्याति, असत्त्वयाति, अन्यथास्थाति आदि स्थातियों का भी पूर्ण विश्लेषण किया गया है। प्रमाणों में मतभेद, परस्पर सम्बन्ध और उनमें वाद्य-वाचक भाव के आलोचन के साथ-साथ बन्व और मोक्ष की भी पूरी व्याख्या की गई है।

मैंने इस पुस्तक के लिखने में किसी हिन्दी-दार्शनिक ग्रन्थ से सहायता न लेकर केवल मूल संस्कृत-ग्रन्थों से ही सहायता ली है। इस पुस्तक में कोई ऐसी नई बात नहीं है, जो संस्कृत के ग्रन्थों में कहीं-न-कहीं न हो और मेरी अपनी कल्पना हो। इसमें जहाँ से जो बात ली गई है, उसका निर्देश यथास्थान कर दिया गया है। यदि कहीं वैसा न हुआ हो, तो स्थान वा उद्दरण की प्रतिद्वंद्वि तथा स्थानाभाव को ही कारण समक्कर मुझे छापा करेंगे। मैंने इस ब्रात की चेष्टा की है कि इसमें कोई

प्रतिद्वं विषय छूटने न पावे। 'नामूलं लिख्यते किञ्चित्ज्ञानमेति तु मुच्यते' पर भी मैंने विशेष ध्यान दिया है। इसमें कितने विषयों पर विचार किया गया है, यह पुस्तक देखने से ही मालूम होगा। जहाँ तक हो सका है, कठिन-से-कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। सम्भव है, मनुष्यसुलभ सहज प्रमादवश कहीं विपरीत भी हो गया हो, इसलिए विज्ञ पाठकों से ज्ञानार्थी हूँ। और भी, जो दोपहर इस पुस्तक में हो, अथवा गम्भीर विषयों के समझाने के लिए उपयुक्त शब्द का कहाँ प्रयोग न हुआ हो, तो उदार सज्जन तदथं मेरे आशान को ही कारण रमझें।

मेरे परम आदरणीय, विहार-राज्य के भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री तथा विहार-राष्ट्रमाध्य परिषद् के तात्कालिक अध्यक्ष आचार्य बद्रीनाथ वर्मा ने इस पुस्तक को 'अवश्य प्रकाशनीय' कहकर मेरा उत्साह बढ़ाया था। यह पुस्तक उन्होंके प्रोत्साहन का सुपरिणाम है।

छपरा-निवासी वैद्यराज परिणाम रामरक्ष पाठक, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद-मार्चेड ने, जो आजकल जामनगर ( सीरापू ) में सेराट्ल आयुर्वेदिक रिसर्च-इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, चार-बार हिन्दी में एक सर्वाङ्गी पूर्ण दर्शन-ग्रन्थ लिखने के लिए परामर्श दिया था और इस पुस्तक की पारंपरिक देखकर बड़ा सन्तोष प्रकट किया था। उनकी सम्मति से मैं इस कार्य में सोत्साह अग्रसर हुआ।

इस पुस्तक का आराम्भक अंश मैंने पटना-कॉलेज के संस्कृताध्यापक पं० चन्द्रकान्त पाण्डेय, एम० ए०, व्याकरणाचार्य को दिखाया था। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की, जिससे मेरे मन को बड़ा बल मिला और यह पुस्तक निर्विघ्न समाप्त हुई।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि और समस्तीपुर-कॉलेज के प्रिन्सिपल श्रीकलक्टर सिंह 'केसरी' ने मुझे इस पुस्तक को विहार-राष्ट्रमाध्य-परिषद् में प्रकाशनार्थ देने के लिए विशेष उत्साहित किया। उन्होंके सुझाव के अनुसार परिषद् के अधिकारियों से यह पुस्तक दिखाने का प्रयत्न किया।

मोतिहारी-कॉलेज के संस्कृत-हिन्दी-अध्यापक पं० मिरिजादत्त त्रिपाठी, एम० ए०, व्याकरण-न्यायाचार्य तथा उनके भ्राता पं० दुर्गादत्त त्रिपाठी, काव्यतीर्थ, हिन्दी-विशारद समय-समय पर मुझे चलाइ देते रहे कि हिन्दी में दर्शनशास्त्र-सम्बन्धी कोई ऐसी पुस्तक लिखिए, जो केवल संस्कृत के मूलग्रन्थों पर आधृत हो। उन दोनों की चलाइ से भी मेरा मन इस दिशा में प्रवृत्त हुआ।

मेरे गौव के ज्ञात्रियकुमार श्रीरामप्रवेश सिंह तथा मेरे अन्तरङ्ग-घर्गं के पं० वेणीप्रसाद मिश्र एवं पं० गीतम पाण्डेय ऐसी पुस्तक के लिखने के लिए अहरिनिश्च प्रेरणा तथा आपेक्षिक सहायता देते रहते थे। इन तीनों स्नेहियों के निरन्तर उक्तसति रहने से मैं उमझ के साथ चराचर इस कार्य में तत्पर रहा।

उपर्युक्त सज्जनों को मैं यथायोग्य हार्दिक आशीर्वाद और धन्यवाद देने हुए उनके प्रति धार्द फूतशता प्रकट करता हूँ।

यहाँ पर मैं अपने दो स्वर्गीय हितैषियों का सधन्यवाद समरण करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ, जिनसे सर्वप्रथम मुझे इस कार्य में संलग्न होने का संवेत मिला। वे दोनों सज्जन पटना के उच्च न्यायालय के एडबोकेट थे। उनमें प्रथम स्मरणीय हैं श्रद्धेय श्रीलक्ष्मीनारायण सिंह, जो पटना के परम प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ० उम्प्रताप सिंह के पिता थे। इन्होंने संस्कृत-पञ्चिकाओं में प्रकाशित मेरे दार्शनिक लेखों को देखकर यह सम्मति प्रकट की थी कि मैं उन विषयों को यदि हिन्दी में लिख दूँ, तो साधारण जनता का महान् उपकार होगा। इस प्रकार, सर्वप्रथम ये ही मेरे इस कार्य में प्रेरक हुए। दूसरे उल्लेखनीय सज्जन हैं श्रीकृष्णदेवप्रसाद, जो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान् थे। इन्होंने भी मेरे संस्कृत-निबन्धों को देखकर हिन्दी में दार्शनिक विषय पर प्रामाणिक पुस्तक लिखने के लिए बार-बार उत्साहित किया था। अतः मैं उन दोनों महानुभावों की दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धाङ्गि अर्पित करता हूँ।

बिहार-राज्य के समाज-शिक्षण-विभाग के उपनिदेशक और परिषद्-सदस्य पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' को परिषद् ने इस पुस्तक के संशोधन-सम्पादन का भार सौंपा था। उन्होंने इसे हिन्दी पाठकों के लिए विशेष बोधगम्य बनाया। उनके उस सत्प्रयाप के लिए मैं उनका सादर आमार-अङ्गीकार करता हूँ।

अन्त में, 'अन्ते गुरुः' के अनुसार अपने पूर्य गुरु आचार्यप्रबर पं० द्विशंकुर पाण्डेय के श्रीचरणों का समरण करता हूँ। उनकी मेरे प्रति सदिच्छा, सद्भावना और सत्येरणा<sup>१</sup> बाल्यावस्था से आज तक एक रूप से बनी हुई है। उसीका यह फल है कि इस पुस्तक के लेखक होने का थ्रेय मुझे प्राप्त हुआ है। उन आराध्य चरणों में केवल शिरोनमन के अतिरिक्त कोई भी ऐसा उपयुक्त शब्द नहीं मिलता, जिसको समर्पित कर अपने को कृतार्थ समझूँ।

बिहार-राष्ट्रमापा-परिषद् के सज्जालक-मण्डल के सदस्य भी अनेकशः धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशनार्थ स्वीकृत कर अपनी सोदार गुणग्राहिता का परिचय दिया है।

नाग्रातीव प्रकर्त्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः ।

दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥

—उदयनाचार्यस्य

संस्कृत-विद्यालय, चिरैयाटांड, पटना } .  
श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी, शकाब्द १८८० } .

रङ्गनाथ पाठक

## विपय-सूची

भारतीय दर्शन और तत्त्व-ज्ञान—

[ पृ० ४० १—११७ ]

निरतिशय मुख या हुःल की निवृत्ति में कारण क्या है ?—मोक्ष का स्वरूप—मोक्ष का साधन—तत्त्व-विचार—आत्मसाक्षात्कार के उपाय—पुनर्जन्म-विचार—सूक्ष्मशरीर की सत्ता—प्रतीकोपासना—उपाध्युपाधना—ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है—अनुमान का अनुभवकत्व—श्रुतियों की गूढार्थता से उत्पन्न संशय—प्रमाण के विषय में मतभेद—प्रमाणों में परस्पर सम्बन्ध—प्रमाणों में बाध्य-बाधक-भाव—प्रमाणएध्य प्रमेय—आत्मसाक्षात्कार का स्वरूप—रामानुजाचार्य के मत में प्रमाण-गति—ब्रह्म में प्रमाण-गति : शाङ्कर मत—श्रुति और प्रत्यक्ष में अन्यता का आरोप—शब्द-प्रमाण से श्रावण-प्रत्यक्ष का भी भाव—बाध्य-बाधक भाव में स्थूल विचार—बाध्य-बाधक भाव में सूक्ष्म विचार—तार्किक दर्शनकार—सर्वाल्लाचार्य का तर्कप्रिह—पातञ्जलि की तार्किकता—नैयायिकों का तर्कप्रिह—वैशेषिक भी तार्किकहै—आस्तिक और नास्तिक—धीरों और तार्किकों में मूलभेद—(वेद के) पौष्ट्रेयत्व और अपौष्ट्रेयत्व का विचार—सत्ता के भेद से श्रुति और प्रत्यक्ष में अविरोध—प्रमेय-विचार—ईश्वर के विषय में चार्वाक-मत—ईश्वर के विषय में मतान्तर—ईश्वर के विषय में नैयायिक आदि का मत—ईश्वर के विषय में अद्वैतवादियों का मत—ईश्वर-सत्ता में प्रमाण—आत्म-प्रत्यक्ष में श्रुति का प्राधान्य—ईश्वर के विषय में भी अनुमान से पूर्व श्रुति की प्रवृत्ति—जीव का स्वरूप—आत्मा के कूटस्थ नित्य होने में आक्षेप—आत्मा का कूटस्थल-समर्पण—जीव के विषय में अन्य मत—जीव-परिमाण—जीव का कर्त्तृत्व—अचिद्वर्ग विचार—आरम्भ आदि वाद-विचार—ख्याति-विचार—सत्ख्यातिवाद—अख्याति-वाद—कार्यकारण में भेदाभेद का विचार—जड़-वर्ग की सृष्टि का प्रयोगजन—इन्द्रियों की भौतिकता—इन्द्रियों का परिमाण—कर्मेन्द्रियों का भौतिकत्व—मन—ज्ञान—पदार्थ-विचार—चार्वाक आदि के मत से तत्त्व-विचार—रामानुजाचार्य के मत में तत्त्व—माध्य-मत से पदार्थ-विवेचन—माहेश्वर आदि के मत से तत्त्व-विचार—अद्वैतमत से तत्त्व-विचार—अन्धकार आदि के विषय में मतभेद—बन्ध—प्रामाणयवाद—मोक्ष—दर्शन-भेद में बीज—तत्त्वान्वेषण का उपयोग—तत्त्व-ज्ञान से मोक्ष-साधन—भारतीय दर्शनकार—दर्शन-तारतम्य-विचार—आस्तिक-

दर्शन—शास्त्रकारों का उद्देश्य—अद्वैतमत में कर्म की अपेक्षा—सूत्र-कार का श्रौतत्व—भाष्यकार की प्रवृत्ति—श्रुतियों का चलावल-विचार—चार अर्थ—आत्मसाक्षात्कार-विवेचन—आत्मेकत्व का उपणादन—आत्म-प्रत्यक्ष का स्वरूप—पाश-विमोक का स्वरूप—आत्मस्वरूप—सम्पत्ति—श्रुति का अर्थ—साम्य का उपपादन—शोकादि-राहित्य का विचार—आत्म-विश्वान आदि में क्रम—मोक्ष में कर्म के सम्बन्ध का निषेध—शङ्कराचार्य के अद्वैतदर्शन का श्रौतत्व—अविद्या का विचार—ईश्वर और जीव—अध्यात्म का स्वरूप—जीव और ईश्वर के स्वरूप—ब्रह्म में श्रुति प्रमाण की गति—बन्ध का स्वरूप—कर्म का उपयोग—साक्षात्कार के साधन—मोक्ष का तात्त्विक स्वरूप।

न्याय-दर्शन—

[ पृ० ४० ११८—१४४ ]

प्रमाण आदि सोलह पदार्थों पर विचार—निग्रह-स्थान—मोक्ष, अपवर्ग या मुक्ति—ईश्वर और उसकी सत्ता—आगम-प्रमाण से ईश्वर-सिद्धि।

वैशेषिक-दर्शन—

[ पृ० ४० १४५—१७४ ]

द्रव्यादि के लक्षण—गुण के भेद—द्रित्वादि-निवृत्ति-प्रकार—पीलुपाक—पिठरपाक—विभागज-विभाग—अन्धकार-विचार—अभाव-विचार—द्रव्यों का गुणबोधक चक्र।

योग-दर्शन—

[ पृ० ४० १७५—२१५ ]

‘अथ’ शब्द का विवेचन—योग-विवेचन—योग और समाधि—आत्मा की अपरिणामिता—परिणाम-विवेचन—सुपुत्रि और योग—सम्प्रज्ञात समाधि—असम्प्रज्ञात समाधि अविद्या-विचार—निरोध-लक्षण—निरोध का उपाय—वैराग्य-लक्षण—क्रियायोग-विचार—अष्टाङ्गयोग-विवेचन—सिद्धि-चतुष्पद और प्रकृति-कैवल्य—पुरुष-कैवल्य—योगशास्त्र के चार घूँह।

सांख्य-दर्शन—

[ पृ० ४० २१६—२३५ ]

प्रकृति के स्वरूप का विवेचन—गुणों के स्वभावों का विचार—महत्त्व-विवेचन—अद्वार-विचार—सांख्यीय सृष्टि-क्रम—मौतिक पदार्थ और तत्त्व—सत् और असत् की उत्पत्ति का विवेचन—मूल-प्रकृति की अिगुणात्मकता—प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष का मोक्ष—प्रकृति-पुरुष की परस्परापेक्षिता।

मीमांसा-दर्शन—

[ पृ० पृ० २३६—२६८ ]

कुमारिलभट्ट के मतानुसार अधिकरण का विवेचन—विचार (मीमांसा)-शास्त्र की प्रयोजनीयता का व्यालोचन—प्रभाकर (गुरु) के मतानुसार अधिकरण-स्वरूप—वेद के श्रपोष्येत्व का विचार—वेद का अनित्यत्व-साधन—जाति-विचार—शब्द का नित्या-नित्यत्व-विचार—प्रामाण्यवाद का विवेचन ।

वेदान्त-दर्शन—

[ पृ० पृ० २६६—३१५ ]

ब्रह्म की जिज्ञासा तथा ब्रह्मविचार-शास्त्र की प्रयोजनीयता—मन्थ-तात्पर्य-निर्णायिक-निरूपण—‘अहम्’-अनुमत के विषय का विवेचन—जैनदर्शन के मतानुसार आत्मस्वरूप-विवेचन—बौद्धों के मतानुसार आत्मस्वरूप-विवेचन—आत्मस्वरूप-विचार-समन्वय—ब्रह्म में प्रमाण—अध्यासवाद-विवेचन—अखण्डतिवादी मीमांसक (प्रभाकर) के मतानुसार अध्यास-निरूपण—बौद्धमतानुसार अध्यास का विवेचन—जैयायिकों के मत से अध्यास-निरूपण—माया और अविद्या में भेदभाव का विचार—अविद्या में प्रमाण—अविद्या में अनुमान-प्रमाण—अविद्या में शब्द-प्रमाण—अविद्या का आश्रय—अद्वैतमत में तत्त्व और सुषिक्षण—उपसंहार ।

पारिभाषिकशब्द-विवरणिका—

[ पृ० पृ० ३१७—३२५ ]

अनुक्रमणिका—

[ पृ० पृ० ३२६—३४० ]



ਏਕੁਦਾਂਗਨ-ਰਹਸ਼ਿ



## भारतीय दर्शन और तत्त्वज्ञान

भारतीय दर्शनों में प्रत्येक की एक विशिष्ट परम्परा है। प्रत्येक दर्शन परम प्राप्तव्य को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट मार्ग का निर्देशन करता है। सूक्ष्म दृष्टि से समालोचना करने पर सभी दर्शनों का सामाजिक और समन्वय एक परम लक्ष्य की प्राप्ति में ही छिद्र हो जाता है। दूसरे शब्दों में, साधन के मेद होने पर भी साध्य की एकता के कारण सभी दर्शन-शास्त्रों का तात्पर्य एक ही है। और, वह है—निरतिशय दुःख की निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति। इसी को आत्मनितक दुःख-निवृत्ति और आत्मनितक सुख-प्राप्ति भी कहते हैं।

दुःख के तीन मेद हैं—आधिमीतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकार के दुःखों का ऐसा निश्चेष हो जाना, जिसमें दुःख के लेश की भी सम्मावना न रह जाय, निरतिशय दुःख-निवृत्ति का लक्षण है। इस प्रकार सभी तरह के दुःखों से छुटकारा पाना ही समस्त दर्शनों का परम लक्ष्य है।

अब निरतिशय सुख-प्राप्ति का क्या स्वरूप है, इसपर भी धोड़ा विचार करना चाहिए। निरतिशय सुख-प्राप्ति उस अवस्था का नाम है, जहाँ परम सुख की प्राप्ति हो जाने पर किसी प्रकार के भी सुख की अभिलापा नहीं रह जाय। दूसरे शब्दों में, परम सुख के मिल जाने पर प्राप्तव्य कोई वस्तु ही नहीं रह जाती है। आत्मनितक सुख वही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई सुख होता ही नहीं है।

इसी परम लक्ष्य को—चरम-लक्ष्य, परम पुरुषार्थ, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य आदि अनेक विभिन्न शब्दों से अभिहित किया गया है, और इसी को प्राप्त करने के लिए प्रायः सभी दर्शनकारी ने पृथक्-पृथक् अपनी दृष्टि के अनुसार सुगम मार्ग चर्चा की है। जीवमात्र—मनुष्य से पशु, पक्षी, कीट, पतंग तक—सभी में यह सहज चारना रहती है कि सब प्रकार के दुःखों से छुटकारा पा जाऊँ। यह अभिलापा प्राणिमात्र के हृदय में किसी-न-किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है, इसीलिए प्रत्येक प्राणी अपने ज्ञान और किया आदि के द्वारा सर्वाधिक सुख की प्राप्ति तथा सभी प्रकार के दुःखों से निवृत्ति की चेष्टा करता रहता है, और इस प्रयत्न का फल प्राप्त हो जाने पर भी किसी-न-किसी प्रकार अधिक-से-अधिक सुख पाने के लिए उसकी चाह बनी ही रहती है। इतना ही नहीं, बल्कि तृष्णा और भी बलवती होती जाती है। यह वैष्णविक सुख-साधन हमारा परम लक्ष्य नहीं, प्रत्युत तृष्णा की उत्पत्ति का कारण है।

इससे इतना स्पष्ट है कि जबतक हमारे मन में चाह या तृष्णा बनी हुई है, तबतक हमारा अभाव समाप्त नहीं हुआ है। परम सुख की प्राप्ति के अनन्तर किसी प्रकार की चाह या तृष्णा को उत्पत्ति होती ही नहीं है। परमार्थ का अर्थ ही यह है कि उस वस्तु की प्राप्ति हो जाय, जिसके पा चुकने पर पुनः किसी और वस्तु की प्राप्ति की

चाह न रह जाय, और न कोई ऐसी वस्तु ही बच जाय, जिसके लिए इच्छा उत्पन्न हो इसी को निरतिशय सुख या निरतिशय दुःख की निवृत्ति कहते हैं।

अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है—इस आत्मविकल्प सुख का ज्ञान किस प्रकार होता है, संसार में देखा जाता है कि शब्द, स्वर्ण, रूप, रस, गम्भ आदि वैष्णविक सुख की पराकाष्ठा ही कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, यह भी समझना कठिन है कि इनमें से कीन-या सुख थ्रेष्ट है और कीन-या निष्ट। सुख-विशेष की उत्तमता या तुच्छता का ज्ञान भोक्ता के अधीन है। भोक्ता अनन्त है और उनकी दृष्टियाँ भी अनन्त। कोई सुख किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा। इस प्रकार, लौकिक सुखों के विषय में कुछ निश्चय करना कठिन है, तो पारलीकिक सुखों के विषय में भी कुछ कहना दुष्कर है।

दुःख-निवृत्ति के सम्बन्ध में भी ठीक यही कठिनाई है। दुःख-निवृत्ति दो प्रकार की हो सकती है—एक, वर्तमान दुःख की निवृत्ति; दूसरी, भावी दुःख की निवृत्ति। उठमें वर्तमान दुःख-निवृत्ति की अपेक्षा भावी दुःख-निवृत्ति ही अच्छी मानी जाती है। कारण, वर्तमान दुःख की अपेक्षा भावी दुःख ही प्रबल होता है। इसीलिए, भगवान् पतञ्जलि ने भी कहा है—“हैय दुःखमनागतम्”<sup>१</sup> अर्थात्, भावी दुःख त्वाज्य है। तात्पर्य यह है कि अतीत दुःख तो भोग से निवृत्त हो चुका है, वर्तमान दुःख भी भुक्त हो रहा है, अर्थात् भुक्तप्राय है। अतएव, अनागत दुःख की निवृत्ति के लिए यत्न करना ही उपयुक्त समझा जाता है।

लेकिन, अनागत दुःख की निवृत्ति के लिए चिन्ता ही क्यों? यह तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। अनुत्पन्न शब्द के वध के लिए कोई भी शुद्धिमान् व्यक्ति चेष्टा नहीं करता। इसका उत्तर यह है कि अनागत दुःख यथापि वर्तमान नहीं है, तथापि उसका कारण तो वर्तमान ही है, अतः उसके नाश के लिए प्रयत्न करना समुचित ही है, इसलिए कि कारण-नाश से कार्य उत्पन्न न हो। यहाँ कारण-नाश से कार्य-रूप दुःख का उत्पन्न न होना (दुःख-निवृत्ति) ही अभीष्ट है।

### निरतिशय सुख या दुःख की निवृत्ति में कारण क्या है?

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि निरतिशय सुख या दुःख की निवृत्ति का ज्ञान नहीं होता, तो उसके मानने की आवश्यकता ही क्या है? कारण, जिस वस्तु की सत्ता रहती है, वह कभी किसी को अवश्य उपलब्ध होती है, और निरतिशय सुख या दुःख-निवृत्ति की उपलब्धि किसी को कभी नहीं होती, इसलिए उसको न मानना ही समुचित प्रतीत होता है। यदि कहें कि अदृष्ट पारलीकिक सुख निरतिशय होता है, वह भी युक्त नहीं है, कारण यह कि लोक में जितने प्रकार के सुख देखे जाते हैं, उब सातिशय<sup>२</sup> ही हैं, इस साहचर्य से अदृष्ट सुख भी सातिशय ही होगा, इस अनुमान से भी यही सिद्ध होता है कि निरतिशय सुख या दुःख-निवृत्ति कोई पदार्थ नहीं है।

इसका समाधान यह है कि जिस अनुपलब्धि के बल से निरतिशय सुख

या दुःख-निवृत्ति का अपलाप करते हैं, उसकी अनुपलब्धि कतिपय व्यक्ति को ही है, या व्यक्ति मात्र को। पहला पक्ष तो कह नहीं सकते; क्योंकि बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनकी सत्ता संसार में है, और वे कुछ व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं होता, कारण यह है कि व्यक्ति मात्र को वे उपलब्ध नहीं हैं, यह कैसे शात हुआ? क्योंकि, सबके ज्ञान या अज्ञान का निश्चय एक मनुष्य के लिए असम्भव है। इस अवस्था में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि निरतिशय सुख या दुःख-निवृत्ति का ज्ञान किसी को नहीं है।

दूसरी बात यह है कि प्रत्येक प्राणी सबसे बढ़कर सुखी होना चाहता है। यदि सबसे बढ़कर कोई सुख या उसका आश्रय न हो, तो उसकी इच्छा निर्विपयक हो जायगी, जो अनुभव-विकृद है। यह मानी हुई बात है कि असद् वस्तु की इच्छा नहीं होती; और सबसे बढ़कर सुख की इच्छा होती है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस सुख की मी सत्ता है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। यही बात दुःख-निवृत्ति में भी है।

ऊपर जो कुछ हम कह आये हैं, उसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने प्राप्त सुख की अपेक्षा अधिक सुख की अभिलाप्य करता है, और प्राप्त दुःख-निवृत्ति की अपेक्षा अधिक दुःख-निवृत्ति चाहता है, यही स्वाभाविक स्थिति है। मोक्ष या अपवर्ग उसी अवस्था को कहते हैं, जिसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य के लिए कोई अभिलपणीय या प्राप्तव्य वस्तु नहीं रह जाती, जिसके लिए उसकी इच्छा या प्रयत्न हो। इसी अवस्था को सुख या दुःख-निवृत्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। श्रुतियों ने विभिन्न प्रकार से इसी अवस्थाविशेष का वर्णन किया है। जैसे—‘योऽस्तुते सर्वान् कामान्’, ‘सोऽभयं गतो भवति’, ‘अमृतत्वञ्च गच्छति’। यह अमृतत्व या अभयत्व परम मोक्ष की अवस्था है और निरतिशय दुःख-निवृत्ति से ही मनुष्य अभय होता है। यहाँ ‘सर्वान् कामान् अशतुते’ से निरतिशय सुख-प्राप्ति और ‘अभयं गतो भवति’, ‘अमृतत्वञ्च गच्छति’ से निरतिशय दुःख-निवृत्ति ही सूचित होती है।

भावी दुःख की आशङ्का से चित्त में जो विकलता उत्पन्न होती है, उसी का नाम है भय। दुःख का लेशमात्र रहने से भी भय की सम्भावना बनी रहती है, इसलिए सर्वथा दुःख से रहित होना निरतिशय दुःख-निवृत्ति की अवस्था में ही सम्भव है। जन्म-मरण से उत्पन्न होनेवाला दुःख तो सबसे भयहर दुःख है, और इस जन्म-मरण के चक्रकर से छूटना ही दुःख से आत्मनिक रूप में छूटना है। इसीलिए, श्रुतियाँ मोक्ष का वर्णन करते समय कहती हैं—‘न स भूयोऽभिजायते’, ‘सोऽमृतत्वाय कपलते’।

एक बात और विचारणीय है—यदि निरतिशय सुख की प्राप्ति और निरतिशय दुःख की निवृत्ति में प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही, तब तो प्राणिमात्र को मुमुक्षु होना चाहिए। परन्तु, संसार में ऐसा देखा नहीं जाता। चिरले ही पुष्प मुमुक्षु होते हैं। इसका समाधान यह है कि जिसे निरतिशय सुख-प्राप्ति और निरतिशय दुःख-निवृत्ति-स्वल्प मोक्ष का ज्ञान ही नहीं है, उसकी प्रवृत्ति मोक्ष में कैसे हो सकती है? क्योंकि, ज्ञान सुख के लिए ही प्रवृत्ति होना सर्वतन्त्रसिद्ध है। कुम्हार को जबतक

मिट्टी, चाक, दण्ड आदि साधनों का ज्ञान न हो, तबतक घड़ा बनाने में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, साधन के ज्ञान होने पर भी साधन की अनिवितता में प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान, कि हमारा परम प्राप्तव्य लक्ष्य मोक्ष है, हजारों में दोन्हार को ही होता है, और इस प्रकार के ज्ञान न होने के कारण ही बहुत कम मुमुक्षु होते हैं। मोक्ष की इच्छा तो दूर की बात है, पारलौकिक सुख की इच्छा ही कितनों को होती है ?

सुख, दुःख आदि की दृष्टि से मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं—एक वे हैं, जो अपनी स्थिति के अनुसार सुख के सब साधनों को प्राप्त किये हुए हैं। दूसरे वे हैं, जिन्हें सुख के सब साधन प्राप्त नहीं हैं, किन्तु प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे वे हैं, जिन्हें सुख-साधन प्राप्त करने की योग्यता तो है, परन्तु नहीं प्राप्त कर सकते। प्रथम कक्षा के लोगों में, जिन्हें सब सुख-साधन प्राप्त हैं, प्रतिशत दो या एक ही होंगे, जिनकी प्रवृत्ति, पूर्वांजित सुकृत कर्म के उदय होने से, परमार्थ की ओर होती है। परन्तु, अधिकांश व्यक्ति ग्रायः सुख-साधनों में ही लिप्त होकर अन्धे हो जाते हैं, और उनकी दृष्टि परलोक-साधनों की ओर कथमपि नहीं जाती। द्वितीय कक्षावालों में कुछ अधिक लोगों की परलोक की ओर प्रवृत्ति होती है। कारण यह है कि जबतक दृष्टि सुख प्राप्त करने में समर्थ होकर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते, तबतक आशा में बँधे रहने और प्रयत्न करने पर भी यदि सुख नहीं मिलता, तो अगस्त्या पारलौकिक सुख की ओर कुछ प्रवृत्ति होने लगती है। परन्तु, ऐदिक सुख के आशा उनको नहीं छोड़ती, इसलिए इय कक्षा के भी अधिकांश लोग ऐदिक सुख के न प्राप्त होने पर भी आशा में फँसे रहने के कारण परलोक की ओर ध्यान नहीं देते। तीसरी कक्षा के लोग उससे कुछ अधिक परलोक के लिए भी ध्यान देते हैं, कारण यह है कि उनके लिए ऐदिक सुख प्राप्तव्य होने पर भी वे उसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उनकी आशा भी दुर्बल हो जाती है।

जिय प्रकार युना हुआ बीज अंकुरोत्पादन में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार दुर्बल आशा भी भावी सुख के अनुसन्धान को उत्पन्न नहीं कर सकती है। परन्तु, इतना होने पर भी बहुत कम आदमी परलोक के लिए चेष्टा करते हैं। कारण, जबतक ऐदिक सुख के लिए आशा का सेश भी बना हुआ है, तबतक पारलौकिक मुख के लिए प्रयत्न अयम्भवः सा होता है। आशा-पिण्याची से प्रस्त द्वाने के कारण ही जब हम पारलौकिक सुख के लिए ध्यान नहीं दे सकते, तब मोक्ष के लिए यत्न करने को यात ही कहा उटती है। इस प्रकार के अनेक मोहक विषयों की अभिलाषा, शौर आशा-पिण्याची के रहते भी कुछ लोगों की मोक्ष की ओर जो प्रवृत्ति होती है, उसमें देखर को कृपा ही यमकर्ता पारिए। भूति कहती है—‘यमेवैष वृत्तुते तेन लभ्यः।’ अपांत्, जिहको परमात्मा चारता है, उसी दी परमार्थ में प्रवृत्ति होनी है।

### मोक्ष का स्वरूप

अब मोक्ष का यात्याक्षर स्वरूप क्या है, इसके विचार होगा। ऊपर से प्रकार का मोक्ष कहा गया है—आत्मनिष्ठ मुक्त प्रवृत्ति और आत्मनिष्ठ

दुःख-निवृत्ति । यहाँ प्रश्न होता है कि क्या ये दोनो सम्मिलित मोक्ष हैं, अथवा भिन्न ? केवल एक मानने में भी प्रश्न होता है कि क्या केवल आत्यन्तिक सुख-प्राप्ति ही मोक्ष है, या केवल आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति ही ? उत्तर में केवल आत्यन्तिक सुख को ही मोक्ष नहीं कह सकते, कारण यह है कि आत्यन्तिक सुख रहने पर भी यदि आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति न हुई, तो दुःख के लेश रहने से वह सुख आत्यन्तिक नहीं कहा जा सकता । कारण, उब्र प्रकार के दुःखों के लेश से भी असंस्पृष्ट जो सुख है, उसी को आत्यन्तिक या निरतिशय कहा जाता है । किसी प्रकार के दुःख का लेश रहने पर वह सातिशय हो जाता है । इसलिए, किसी प्रकार भी वह निरतिशय या आत्यन्तिक नहीं कहा जा सकता । यदि यह कहें कि इतर उब्र सुखों की अपेक्षा अधिक होने के कारण, लेशतः दुःख रहने पर भी, वह निरतिशय कहा जा सकता है; क्योंकि लेशतः दुःख निरतिशय सुख के स्वरूप में कुछ न्यूनता-सम्पादन नहीं कर सकता, किन्तु सुख के अनुभव में ही कुछ न्यूनता ला सकता है । इस प्रकार, लेशतः दुःख रहने पर भी सर्वाधिक निरतिशय सुख को मोक्ष माना जाय, तो किसी प्रकार केवल सुख को मोक्ष कह सकते हैं । परन्तु, वह मोक्ष शब्द का स्वारसिक<sup>१</sup> अर्थ नहीं हो सकता । मोक्ष शब्द का स्वारसिक अर्थ है—मुक्ता, अर्थात् उब्र प्रकार के दुःखों से छूटना । और, जहाँ दुःख का लेश-मात्र भी है, वहाँ मुक्ति कहाँ ? लेशतः दुःख विद्यमान रहने पर भी प्रगाढ़ सुख के अनुभव-काल में उसकी प्रतीति नहीं होने से वह अविद्यमान-सा रहता है, इसलिए वह आत्यन्तिक सुख या मोक्ष कहा जा सकता है । यदि ऐसा कहें, तो किसी प्रकार हो सकता है, वह भी उन्हीं के मत में सम्भव है, जो आत्मा में परस्पर भेद मानते हैं, और जो आत्मा को एक मानते हैं, उनके मत में नहीं ।

कारण यह है कि आत्मैक्यवादी के मत में प्रतीयमान भेद को श्रीपाधिक मानना आवश्यक होता है, अन्यथा अद्वैत-सिद्धान्त भंग हो जायगा और मोक्षावस्था में श्रीपाधिक भेद के भी बिलय होने से एक अखण्ड पूर्ण स्वतन्त्र सर्वनियन्ता परमेश्वर ही नित्य रह जाता है । इस अवस्था में आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति स्वयं हो जाती है, अतएव केवल निरतिशय सुख-प्राप्ति ही मोक्ष इनके मत में नहीं बनता । दूसरे शब्दों में, केवल सुख-स्वरूप को मोक्ष माननेवाले को चित् और जड़ में भी भेद अवश्य मानना होगा; क्योंकि अभेद मानने में जड़ का आरोपित होना अनिवार्य हो जायगा । और, यदि मोक्षावस्था में आरोपित वस्तु का भान नहीं होता, तो सुख भी मोक्षावस्था में उत्पन्न नहीं हो सकता; क्योंकि वह भी अचेतन होने से आरोपित ही होगा । इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा और अनात्मा तथा परस्पर आत्मा में भी जो भेद मानते हैं, उन्हीं के मत में केवल आत्यन्तिक सुख कथमपि मोक्ष हो सकता है, और जो इनमें भेद नहीं मानते, उनके मत में केवल सुख मोक्ष नहीं हो सकता ।

यहाँ कुछ और विस्तार से विचार करना चाहिए कि क्यों निरतिशय सुख-प्राप्ति और निरतिशय दुःख-निवृत्ति को सम्मिलित रूप में मोक्ष कहते हैं । पूर्ण स्वतन्त्रता का

ही नाम आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति है; क्योंकि परतन्त्रता ही दुःख का बीज है और पूर्ण स्वतन्त्रता तो केवल परमात्मा को ही है। मुक्त पुरुषों को परमात्मा से भिन्न माना जाय, तो भी ईश्वर के परतन्त्र उन्हें मानना ही होगा, और यदि सब मुक्तात्माओं को ईश्वर से भिन्न होने पर भी स्वतन्त्र मान लिया जाय, तो जगत् का व्यापार चल कैसे चलेगा? क्योंकि, पूर्ण स्वतन्त्रता की अवस्था में दो में भी मतभेद देखा जाता है, तो बहुतों की स्वतन्त्रता में फिर कहना ही क्या है। फिर भी, जगत् का व्यापार सुव्यवस्थित रूप से नियमतः चल रहा है; अस्तु। यह एकतन्त्र ही है, अनेकतन्त्र नहीं। इस दृष्टि से मुक्तात्मा को भी ईश्वर के परतन्त्र ही मानना होगा, और परतन्त्रता में आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति की घमाघना ही नहीं हो सकती, इसलिए एकात्मवाद; अर्थात् आत्मा और परमात्मा में अभेद का सिद्धान्त मानना ही होगा। एकात्मवाद मानने से मुक्तात्मा पूर्ण स्वतन्त्र ईश्वर-स्वरूप ही हो जाता है। इस स्थिति में, आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति मोक्षावस्था में स्वयं सिद्ध हो जाती है। परन्तु, मोक्षावस्था में आत्यन्तिक सुख-प्राप्ति तभी सम्भव है, जब आत्मा और अनात्मा में भेद मानें; क्योंकि शरीर और विषयों के सम्बन्ध से ही सुख उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श आदि विषय और यह शरीर भी तो जड़ ही है। मोक्षावस्था में सुखोत्पादन के लिए शरीर और विषयों का अस्तित्व मानना ही होगा, और उसको सत्य ही मानना होगा, कारण यह कि आरोपित मानने से मोक्षावस्था में सुख का भान नहीं हो सकता।

इससे यह सिद्ध होता है कि जब आत्मा और अनात्मा, अर्थात् चित् और जड़ में भेद है और आत्मा-परमात्मा में अभेद, तभी आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति और आत्यन्तिक सुख-प्राप्ति, समिलित मोक्षावस्था में, ही सकती है और यह प्रत्यभिज्ञावादियों के ही मत में सम्भव है।

मोक्षावस्था का प्रतिपादन करनेवाली श्रुति कहती है—‘अशारीरं वावसन्ते न प्रियाऽप्रिये स्मृशतः’ (छान्दोग्य० दा१२।१), अर्थात् मोक्षावस्था में प्रिय और अप्रिय, अर्थात् सुख या दुःख का स्पर्श नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जिस अवस्था में सुख या दुःख का लेश भी नहीं रहता, उसी को केवल अत्यन्तिक सुख-प्राप्ति या समिलित आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति और आत्यन्तिक सुख-प्राप्ति—इनमें कोई भी मोक्षावस्था में श्रुति-सम्मत नहीं है। किन्तु, केवल आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति ही मोक्षावस्था में श्रुति-सम्मत है। मोक्षावस्था में सुख-दुःख दोनों में से किसी का भी लेश नहीं रहता, यही श्रुति का तात्पर्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आत्मा पापाण के सदृश जड़ है, जिसे सुख-दुःख का स्पर्श अर्थात् अनुभव नहीं होता? अथवा, क्या मुक्तात्मा स्वमावतः अभोक्ता, असंग और निलेप है? आत्मा को पापाण की तरह अचेतन मान लेना अशान है। जिसमें दुःख की सम्भावना हो, फिर भी दुःख से मुक्त हो, वही मुक्तात्मा है। इसलिए, पापाण की तरह जीव को अचेतन मानना युक्त नहीं है।

इस जीवात्मा को पापाण की तरह सर्वदा अचेतन नहीं मानते, किन्तु

मोक्षावस्था से पहले जीवात्मा चेतन रहता है, और मोक्षावस्था में ही वह जड़ हो जाता है। कारण यह है कि ज्ञान का ही नाम चैतन्य है, इसलिए ज्ञानी को चेतन कहा जाता है। ब्रह्मावस्था में जीव को ज्ञान रहता है, इसलिए मुख-दुःख का अनुभव वहाँ होता है, और मुक्तावस्था में ज्ञान-गुण का ही सर्वथा लोप हो जाता है, इसलिए मुख-दुःख का अनुभव भी नहीं हो सकता। यद्यपि इस प्रकार, मोक्षावस्था में केवल आत्मनितक दुःख-निवृत्ति भी सिद्ध हो जाती है, तथापि इस प्रकार की मोक्षावस्था को श्रुति नहीं मानती; क्योंकि मोक्षावस्था में सर्वात्मैक्यदृष्टि को श्रुति मानती है—‘यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात्’ (बृ० आ० २।४।४)। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, वहाँ किससे किसको देखें, किससे किसको जानें। यह श्रुति मोक्षावस्था में दर्शन और ज्ञानादि का अभाव-बोधन करती है, परन्तु जड़ होने के कारण नहीं, किन्तु ‘सर्वमात्मैवाभूत्’ सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, इसलिए दर्शनादि के साधन न रहने के कारण यह सर्वात्मैक्यदृष्टि-प्रयुक्त ज्ञानादि के ही अभाव का बोधन करती है।

यहाँ एक रहस्य और समझना चाहिए कि जब सर्वात्मैक्यदृष्टि पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाती है, तब द्रष्टा और दृश्य का भाव नहीं होता। वहाँ दृष्टि स्वरूपतः विद्यमान रहने पर भी दृष्टि शब्द से व्यवहार करने योग्य नहीं रह जाती। इसलिए, श्रुति में ‘सर्वमात्मैवाभूत्’ यहाँ ‘अभूत्’ इस सचार्थक ‘भू’ धातु का प्रयोग हुआ। ‘आत्मैव दृश्यते’, ऐसा नहीं कहा गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा को स्वाभाविक अभोक्ता स्वीकार करने पर ही मोक्ष में आत्मनितक दुःख-निवृत्ति सिद्ध होती है, पाषाणादि की तरह जड़ मानने से नहीं। एक बात और है कि यदि हम आत्मा को स्वाभाविक अभोक्ता मान लेते हैं, तो उसका भेद या अभेद स्वीकार करने में कोई भी विरोध नहीं होता, और मुख-दुःख के लेश नहीं रहने से आत्मनितक दुःख-निवृत्ति भी मोक्ष में सिद्ध हो जाती है।

इस प्रकार मोक्ष के सामान्य स्वरूप का वर्णन किया गया, और प्रत्येक दर्शनकार ने अपने-अपने अभिमत प्रमाणों के आधार पर मोक्ष के स्वरूप में जो भेद माना है, उसका विवेचन उनके दर्शनों के सिद्धान्त-निर्दर्शन के समय किया जायगा।

### मोक्ष का साधन

अब मोक्षावस्था की प्राप्ति का साधन क्या है, इसके बारे में कुछ विचार करना चाहिए। मोक्ष के साधन की जिश्चसा होने पर मोक्ष के स्वरूप-ज्ञान की अपेक्षा होती है। उक्त मोक्ष के स्वरूपों में दुःख-निवृत्ति को ही सर्वाभिमत माना गया है, और दुःख-निवृत्ति के सामान्यतः दो प्रकार माने गये हैं। जिसे, शारीरिक या मानसिक रोगों का चिकित्सक दुःख के असद्य होने पर मादक श्रीपथियों के द्वारा दुःख-संबोधन को रोक देता है और जो चतुर चिकित्सक है, वह दुःख के कारणों को समझकर उन कारणों को ही निर्मूल करने की चेष्टा करता है। इन दोनों उपायों में दूसरा ही उच्चम समझा जाता है; वयोंकि पहले उपाय से दुःख-संबोधन एक जाने पर भी उसका मूल विद्यमान होने के कारण पुनः दुःख होने की सम्भावना चनी रहती है। इसलिए, दुःख के

मूल कारण का परिहार करना ही दुःख-निवृत्ति का सर्वोच्चम उपाय है। मूल कारण के परिहार के लिए उसका स्वरूप-ज्ञान आवश्यक होता है। लोक में अनेक प्रकार के दुःख देखे जाते हैं, उन सबका परिहार मुमुक्षुओं का कर्तव्य है। कारण, एक छोटे-से-छोटे दुःख के रहने पर आत्मनिक दुःख-निवृत्ति नहीं हो सकती। यह प्रकट है कि अप्रिय वस्तु के संसर्ग से दुःख होता है, परन्तु एक अप्रिय वस्तु का परिहार करने पर दूसरी अप्रिय वस्तु आ जाती है, और परिणाम यह होता है कि अप्रिय वस्तुओं का एक ताँता-सा लगा रहता है। इन सबका परिहार करना कठिन होने पर भी अत्यावश्यक है।

एक और भी विचारणीय बात है कि एक किसी प्रकार के दुःख का यही मूल कारण है, यह निश्चय करना कठिन ही नहीं, चलिक असम्भव है। इस स्थिति में नाना प्रकार के दुःखों का यही मूल कारण है, यह निश्चय करना तो और भी कठिन हो जाता है। जो वस्तु एक व्यक्ति के लिए दुःख का साधन है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए सुख का साधन हो जाती है। और, जो वस्तु एक सभ्य में किसी व्यक्ति के लिए दुःख का साधन है, वही वस्तु उसी व्यक्ति के लिए कालान्तर या देशान्तर में सुख का साधन हो जाती है।

इस परिस्थिति में, भिन्न-भिन्न अनेक प्रकार के दुःखों का यही मूल कारण है, ऐसा विचार बहुत सूक्ष्म दृष्टि से ही करना होगा। ऊपर कह आये हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धवाली जितनी भौतिक वस्तुएँ संसार में उपलब्ध होती हैं, उनका इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होने पर ही सुख या दुःख का अनुभव होता है। उनमें कुछ वस्तुएँ सुख को और कुछ दुःख को उत्पन्न करती हैं। यहाँ यह प्रश्न सहज ही उठता है कि सुख-दुःख की उत्पादक जो वस्तुएँ हैं, उनका कारण क्या है? और, उस कारण का भी कौन कारण है? इस प्रकार मूल कारण की खोज करने पर सुखोत्पादक और दुःखोत्पादक वस्तुओं के मूल कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत हों, तब तो वस्तुओं का सुखोत्पादकत्व या दुःखोत्पादकत्व-स्वरूप मूल कारण का ही स्वरूप है, ऐसा स्वीकार करना होगा। यदि सुखोत्पादक और दुःखोत्पादक वस्तुओं का मूल कारण एक ही होगा, तब तो सुख-दुःखोत्पादकत्व-स्वरूप मूल कारण का स्वरूप नहीं है, यह मानना होगा; क्योंकि एक कारण से विशद दो तत्त्वों की उत्पत्ति कारण-स्वभाव के विशद है। यदि सुख-दुःखोत्पादकत्व मूल कारण में नहीं माना जाय, तो इस स्थिति में यह मानना होगा कि मूल कारण से कार्योत्पादन-परम्परा के मध्य में ही किसी वस्तु में किसी निमित्त से सुखोत्पादकत्व और दुःखोत्पादकत्व-स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। अतएव, संसार में भूत-भौतिक निलिल पदार्थों के मूल कारण के अन्वेषण में मुमुक्षुजनों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है।

इस जगत् में जितने भूत-भौतिक पदार्थ देखे जाते हैं, उनमें ये वस्तुएँ सुख-राधन हैं, और ये दुःख-राधन, इस प्रकार उन्हें दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। कारण यह है कि सुखोत्पादकत्व और दुःखोत्पादकत्व ये वस्तु के ही अधीन नहीं हैं, अर्थात् सुख और दुःख वस्तु के ही घर्म नहीं हैं, किन्तु वे भोक्ता पुरुष के भी अधीन

होते हैं। उदाहरण के लिए, कामिनी और कनक सुख-साधनों में सबसे उत्तम माने जाते हैं; परन्तु वे ही वीतरागों के लिए सुखकारक नहीं होते, प्रत्युत उद्वेगकारक ही हो जाते हैं। कहा गया है—

‘वस्तुतस्तदनिर्देशं नहि वस्तु व्यवस्थितम् ।

कामिनीकनकेभ्योऽपि न सुखं शान्तचेतसाम् ॥’

तात्पर्य यह है कि यह वस्तु सुखकारक है और यह दुःखकारक, इस प्रकार का निर्देश नहीं कर सकते; क्योंकि कोई भी वस्तु व्यवस्थित नहीं है। वीतरागों को कामिनी और कनक से सुख नहीं मिलता। इसलिए, भीका पुरुष में भी सुखोत्पादक और दुःखोत्पादक धर्म विशेष रूप से मानना ही होगा। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि पुरुष का जो सुख-दुःखोत्पादक धर्मविशेष माना जाता है, वह अनादिकाल से ही पुरुष में रहता है या चीच में किसी निमित्त से उत्पन्न हो जाता है? इस बात का निर्णय करने के लिए जड़ वस्तुओं के मूल कारण का अन्वेषण करना आवश्यक है, उसी प्रकार अपने मूल कारण का भी पता लगाना आवश्यक हो जाता है।

## तत्त्व-विचार

उक्त जड़ या चेतन वस्तु का जो मूल स्वरूप है, उसी का ‘तत्त्व’ शब्द से व्यवहार शास्त्रकारों ने किया है। ‘तस्य भावस्तत्त्वम्’ इस व्युत्पत्ति से जड़ और चेतन पदार्थों का जो मूल स्वरूप है, वही ‘तत्त्व’ कहलाता है। जिसका ज्ञान मोक्ष-प्राप्ति में उपयोगी हो, उसको भी आचार्यों ने ‘तत्त्व’ माना है। जड़ और चेतन के मूल स्वरूप का ज्ञान मोक्ष-प्राप्ति में उपयोगी माना गया है, अतएव जड़ और चेतन का मूल स्वरूप ही तत्त्व शब्द का वास्तविक अर्थ होता है। इस प्रकार, सामान्यतः दो तत्त्व सिद्ध होते हैं—एक, जड़ पदार्थों का मूल कारण और दूसरा, चेतन पदार्थों का मूल कारण।

अब श्रुति-सम्मत कौन-कौन तत्त्व हैं, इसका विचार किया जायगा—यद्यपि श्रुति-सम्मत तत्त्वों के विषय में शास्त्रकारों का विवाद नहीं है, तथापि प्रत्येक दर्शनकार ने अपने-अपने ज्ञान के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से तत्त्वों का वर्णन किया है। तत्त्व-जिज्ञासा का प्रकार यह है कि स्थूल कार्य देखकर सूक्ष्म कारण के लिए जिज्ञासा होती है, इसी प्रकार विशेष भूत से उसके कारण-सामान्य और मूर्च्छ कार्य से अमूर्च कारण की जिज्ञासा होती है। इस प्रकार, कार्य देखकर कारण-विषयक जिज्ञासा स्वभावतः हुआ करती है। कारण के ज्ञान होने पर मूल कारण का अन्वेषण सुलभ हो जाता है। इसी अभिप्राय से, परमात्मा से शरीरादि सकल स्थूल प्रवृच्चर्पर्यन्त कार्य-कारण-प्राप्त के ज्ञापन के लिए, सृष्टि-क्रम का वर्णन श्रुति ने किया है। यद्यपि, सृष्टि-क्रम वस्तुतः एक ही प्रकार का है, तथापि वर्णन-शैली विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। एक ही वस्तु का विभिन्न प्रकार से वर्णन ज्ञान-सौकर्य के लिए प्राप्त: सर्वत्र देखा जाता है। उदाहरण के लिए, काव्यों में एक ही चन्द्रोदय या सूर्योदय का वर्णन विभिन्न उपमाओं के साथ विभिन्न प्रकार से किया गया है। यह विभिन्न-प्रकार का वर्णन भी, विभिन्न रुचिवाले श्रोताओं के हृदय में विषय-वस्तु के सुलभतया प्रवेश करने के लिए ही, प्रसंगानुसार किया गया है।

सुष्टि का प्रतिपादन करनेवाली जितनी श्रुतिर्थी है, उनकी एकवाक्यता भगवान् बादरायण ने ब्रह्म-ब्रह्म के द्वितीयाध्याय के शुल्कों में उच्चम प्रकार से की है। श्रुति में वर्णित सुष्टि-क्रम के अनुसार ये तत्त्व पाये जाते हैं—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये पाँच भूत—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र—ये पाँच तन्मात्र। इन तन्मात्रों का भ्रहण करनेवाली श्रोत्र, त्वक्, अङ्गि, रसना और प्राण—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा इनका प्रेरक मन। वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ और इनके अध्यन्त्र प्राण, बुद्धि, महान् आत्मा और अव्यक्त पुक्षप—ये ही तत्त्व सुष्टि-प्रक्रिया में गिनाये गये हैं। इन्हीं सब तत्त्वों में परस्पर कार्य-कारण-भाव श्रुतियों ने दिखाया है। कार्य-कारण की परम्परा में सबका मूल कारण परमात्मा का साक्षात्कार ही है। कार्य-कारण-भाव दीखने का यही अभिप्राय है। इसी अभिप्राय से तत्त्वों में परापर-भाव भी श्रुतियों द्वारा वर्णित है—‘इन्द्रियेन्यः परा ह्यर्था अर्थेन्यश्च परं मनः’ इत्यादि कठ-श्रुतियों के द्वारा इन्द्रियों से परे अर्थ, अर्थ से परे मन, मन से परे बुद्धि, इस प्रकार परापर-भाव बताया गया है। तात्पर्य यह कि पहले इन्द्रियों के ज्ञान होने के बाद ही विषयों का ज्ञान होता है। विषयों के ज्ञान के बाद मन का, उसके बाद बुद्धि का, इस प्रकार पूर्व-पूर्व के बाद उत्तरोत्तर का ज्ञान करते-करते सबसे परे परमात्म-तत्त्व का साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार बाह्य वस्तु के ज्ञान होने के बाद ही उसके अन्तःस्थ, अर्थात् भीतरी वस्तु का ज्ञान होना सम्भव है। इसी कारण, परमात्मा का सर्वान्तःस्थ और सर्वान्तर्यामी होना श्रुति बताती है। एवम्प्रकारेण, स्थूल पदार्थ के ज्ञान के बाद ही सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान होना सम्भव है। सूक्ष्म के ज्ञान होने के बाद ही उसकी अपेक्षा सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम का ज्ञान या साक्षात्कार भी होता है। इस प्रकार, अनेक प्रकार के उपाय परमात्मा के साक्षात्कार के लिए श्रुति बतलाती है।

### आत्मसाक्षात्कार के उपाय

समस्त कारणों का भी कारण, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर या सूक्ष्मतम, सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही है। और, अत्यन्त सूक्ष्म कुशाग्रबुद्धियों को श्रुति की सहायता से आत्मा का साक्षात्कार सम्भव है। परमात्मा का यथावत् स्वरूप बताने में श्रुति भी अपने को असमर्थ पाती है, और इसीलिए बार-बार कहती है—‘नेति नेति’, ‘यतो वाचो निवर्त्तने अप्राप्य मनसा सह ।’ इतना ही नहीं, बृहदारण्यक में लिखा है—‘वेदाः अवेदाः’, अर्थात् समस्त पदार्थों का वोध करानेवाले वेद भी परमात्मा का सम्यक् वोध कराने में असमर्थ रहते हैं। श्रुतियों ने परमात्मा का वोध कराने में जो कुछ भी प्रयास किया है, वह मुख्यतः नियेषात्मक ही है। जैसे—‘अस्थूलम् अनण्’; ‘नान्तः प्रज्ञं, न वहिःप्रज्ञं, नोमयतः प्रज्ञं, न प्रज्ञानधनं, न प्रज्ञं, नाप्रज्ञम्, अदृष्टम्, अप्राणम्, अलक्षणम्, अचिन्त्यम्, अव्यपदेश्यम्’ इत्यादि। उससे भिन्न के नियेष में ही श्रुति की सफलता है। इस प्रकार, दुर्बोध होने पर भी परमात्मा का वोध कराने में श्रुति अपना प्रयत्न नहीं छोड़ती। इतना ही नहीं, ‘अब्दं ब्रह्म’ कहकर अत्यन्त मन्दबुद्धियों की भी

ब्रह्म-भावना को दृढ़ कराती है। किसी भी यस्तु में सर्वोत्तम ब्रह्म की भावना हो, यही श्रुति का मुख्य उद्देश्य है। माता की तरह 'अध्रं ब्रह्म' कहकर वह हमें ब्रह्म-ज्ञान की ओर उत्प्रेरित करती है। उहज स्नेहमयी जननी की तरह भगवती श्रुति भी कभी वचना नहीं कर सकती, प्रत्युत यथाधिकार अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से बुद्धि की ओर हमें उत्प्रेरित करती है। बाद में, पूर्णाधिकार प्राप्त हो जाने पर 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' का उपदेश देती है, और 'आनन्दं ब्रह्म', 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन' इत्यादि वचनामृतों से हमें निर्भय बनाकर कृतार्थ कर देती है।

श्रुतियों में अधिकार के भेद से अनेक प्रकार के मार्ग ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए बताये गये हैं। वे श्रुतियाँ प्रणवादि मन्त्रों का जप और प्रतिमादि-पूजन से परम लक्ष्य ब्रह्म-साक्षात्कार तक की ओर हमें केवल उत्प्रेरित ही नहीं करतीं, प्रत्युत उसमें प्रतिष्ठित कराने के लिए उपाय भी बताती हैं। श्रुति कहती है—परमात्म-सदन में, प्रवेश-द्वार पर ही द्वारपालों की तरह प्रतिबन्धक-रूप में, विषय और इन्द्रियाँ विद्यमान रहती हैं। इनको किसी प्रकार मिलाकर वश में करना आवश्यक है। इनको वश में करने का उपाय भी श्रुति बताती है—'यस्तु विज्ञानवान् भवति, युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदध्या इव सारथेः' (कठोपनिषद्)।

इसके बाद श्रुति कहती है—मन और प्राण जो अधिकारिवर्ग हैं, उन्हें ब्रह्म-रूप में ही देखो। यथा—'मनो ब्रह्म व्याजानात्', 'प्राणो ब्रह्म व्याजानात्' (तै० उ०)। इसके बाद भी श्रुति अपना व्यापार नहीं छोड़ती, और कहती है—अनन्य भाव से ब्रह्म में निष्ठा करो, प्रमाद न करो, 'ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठाः' (प्र० उ०); 'अप्रमत्तेन बोद्धव्यम्' (म० उ०)। इस प्रकार, श्रुत्युपदेश के अनुष्ठान से ब्रह्मजिज्ञासु को जब पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है, तभी परमात्मा उसको आत्मीय समझकर देखता है, उसी को आत्मसाक्षात्कार होता है, यही परमात्मा का वरण अर्थात् स्वीकृति है—'यमेवैप वृणुते तेन लभ्यः तस्यैप आत्मा वृणुते तनूं स्वाम्।' आत्मसाक्षात्कार ही मोक्ष का कारण है।

इस प्रकार सामान्यतः पर्यालोचन करने पर श्रीत दर्शनों में दो प्रकार के तत्त्व सिद्ध होते हैं—एक द्रष्टा, दूसरा दृश्य ! ज्ञानस्वरूप चैतन्य का नाम द्रष्टा है। अचेतन अनात्मभूत जड़ का नाम दृश्य है। वह अनेक प्रकार का है—आकाशादि पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्र, दस इन्द्रियाँ, बुद्धि, आहङ्कार, चित्त, प्राण, ज्ञान सामान्य और अव्यक्त। ये दृश्यवर्ग कहे जाते हैं। इन तत्त्वों के मूल कारण का अन्वेषण तीन प्रमाणों से सुगम होता है—प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान। इन्हीं तीन प्रमाणों को 'द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः' कहकर श्रुति भी क्रमशः सूचित करती है। इनमें भी मूलतत्त्वभूत आत्मा, जो ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार होना मोक्ष के लिए आवश्यक है। इस साक्षात्कार के लिए गुण-मुख से श्रवण कर, श्रुति आदि से निश्चय कर मनन करना उपयुक्त है। विना प्रत्यक्ष दर्शन के श्रवणमात्र से कृतार्थता नहीं होती। दीप के श्रवणमात्र से अन्धकार की निवृत्ति नहीं होती। केवल शब्द-ज्ञान परोक्ष ही होता है, दर्शन ही प्रत्यक्ष है। परोक्ष और प्रत्यक्ष में बहुत अन्तर है, यह प्रायः सबको अनुभूत है। इससे प्रकृत में यही सिद्ध होता है कि केवल आत्मा के श्रवण-मात्र से ही कृतार्थता नहीं होती, कृतार्थता तो होती है

साक्षात्कार से। श्रवण से निश्चित जो शर्थ है, उसकी विपरीत भावना की निवृत्तिपूर्वक उपर्युक्ति के लिए मनन ही उपयुक्त होता है। और, मनन अनुमान के ही अधीन है। सबसे परे मूल तत्त्व के साक्षात्कार के लिए मुख्यतया शब्द, अर्थात् श्रुति-प्रमाण ही उपयुक्त है। अनुमान तो उसका पोषक होने से पार्पण ही कहा जाता है।

अब मूल तत्त्व के अन्वेषण का उपयोग क्या है, इसका विचार किया जाता है। लोक में देखा जाता है कि एक ही मृत्तिका की दो प्रतिमाएँ बनाई गई हैं—एक, सुन्दर देवता की; दूसरी, भयकर राज्ञस की। इन दोनों के नाम और उसके आकारविशेष रूप की समालोचना के समय दृष्टि में विप्रमत्ता अवश्य आ जाती है—देवता-भावना से प्रेम और राज्ञस-भावना से द्वेष अवश्य उत्पन्न होता है, जिस प्रकार प्रकृत में देवता या राज्ञस के नाम और रूप को हटा देने पर मृत्तिका ही मूल तत्त्व बनती है, और यह भी जान लेना चाहिए कि नाम और रूप के कारण ही राग या द्वेष का जन्म होता है। देवता के नाम और रूप की आलोचना से प्रेम और राज्ञस के नाम और रूप से ही द्वेष उत्पन्न होता है। दोनों का मूल तत्त्व मृत्तिका के अनुसन्धान से देवता और राज्ञस-बुद्धि नष्ट हो जाती है, केवल मृत्तिका-बुद्धि ही रह जाती है। इस अवस्था में राग-द्वेष बिलकुल नष्ट हो जाते हैं।

जिस प्रकार प्रतिमा का कारण मृत्तिका का अनुसन्धान किया, उसी प्रकार मृत्तिका के कारण का भी अनुसन्धान करे, इसके बाद उस कारण के कारण का, फिर उस कारण के कारण का; इस कारण-परम्परा के अन्वेषण में सबसे परे मूल कारण का साक्षात्कार हो जाता है। इस अवस्था में राग-द्वेष के समूल नष्ट हो जाने से चित्तवृत्ति प्रसन्न हो जाती है। चित्तवृत्ति के प्रसन्न होने से न कुछ प्रिय रहता है, न अप्रिय। प्रिय और अप्रिय का सम्बन्ध ही बन्ध, और उसका अभाव ही मोक्ष है। जैसा श्रुति-वचन पहले उपन्यस्त किया गया है—‘अशरीरं वा चसन्तं न प्रियाऽप्रिये सृष्टशतः’ (छा० उ०)। इस अवस्था में मुक्तात्मा और परमात्मा में कुछ भी भेद नहीं रह जाता। जिस प्रकार, शुद्ध जल में शुद्ध जल मिला देने से भेद भासित नहीं होता, उसी प्रकार मूल तत्त्व के साक्षात्कार करनेवाले महात्माओं को आत्मा परमात्मा से भिन्न भासित नहीं होता। श्रुति कहती है—

‘यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिकतं तादगेव भवति ।

एवं सुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥’—क० उ०, २।१।१५

इस प्रकार का मोक्ष केवल आत्मस्वलूप के साक्षात्कार से ही प्राप्त होता है, इसमें दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। साधनान्तर की अपेक्षा का निषेध स्वयं श्रुति करती है—‘तमेवं विद्वान्मृत इदं भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ (तै० आ०), अर्थात् उस परमात्मा को जानकर ही मनुष्य अमृत, अर्थात् मुक्त हो जाता है। मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पुनः श्रुति कहती है—‘सर्वभूतस्थमत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । संपश्यन् परमं ब्रह्म याति नान्वेन हेतुना ।’ अर्थात्, जो मनुष्य सब भूतों में अपने को और अपने में सब भूतों को देखता है, वह पञ्चम को प्राप्त करता है, इसमें कोई दूसरा हेतु नहीं है।

इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चय ही मोक्ष-मार्ग में आत्मज्ञान परमावश्यक है; और भी कर्म, उपासना, तप आदि मोक्ष के जो साधन बताये गये हैं, उनका निपेद भी नहीं होता; क्योंकि चित्तशुद्धि के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति में उसकी उपयोगिता अवश्य रहती है। ज्ञान-प्राप्ति के बाद उनकी उपयोगिता नहीं रह जाती। 'तमेतं वदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिष्पन्ति यज्ञेन दानेन तपसा' (बृ० आ० उ० ४४४२) — इस श्रुति का भी तात्पर्य यही प्रतीत होता है कि केवल विविदिषा अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति में ही यज्ञ, दान और तप आदि का उपयोग होता है, ज्ञान-प्राप्ति के बाद नहीं।

श्रुतियों में मुक्ति के दो भेद बताये गये हैं—सद्योमुक्ति और क्रममुक्ति। 'तस्य तावदेव चिरं यावत्त्र विमोक्षेऽथ संपत्से' (छा० उ० ६१४४२) — इस श्रुति से सद्योमुक्ति का वर्णन किया गया है। और—

'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थोः संन्यासयागाद् यतयः शुद्धसत्त्वाः।'

ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे ॥'

—म० न० उ० १२३

इस श्रुति से क्रममुक्ति का वर्णन किया गया है। क्रममुक्ति के प्रसङ्ग में ही देवं-यान-मार्ग का वर्णन छान्दोग्य और वृहदारण्यक में विस्तृत रूप से किया गया है।

## पुनर्जन्म-विचार

इन दो प्रकार की मुक्तियों में भूल भेद यह है कि मोक्ष के प्रतिबन्धक प्रारब्ध कर्म का जब समूल नाश हो जाता है, और आत्मविज्ञान पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, उस अवस्था में सद्योमुक्ति होती है। यदि प्रारब्ध कर्म का समूल नाश न हो, अर्थात् आत्मविज्ञान पराकाष्ठा को न पहुँचे, तब तो क्रममुक्ति ही होती है। जन्मतक आत्मविज्ञान नहीं होता, केवल मरने से संसार से मुक्ति नहीं मिलती, कर्मफल के उपयोग के लिए बार-बार जन्म-मरण का चक्रकर लगा ही रहता है। कहा भी है—‘जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः’, ‘पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः, (कैवल्योपनिषद्, ११४) इत्यादि श्रुति, तथा ‘जातस्य हि प्रुयो मृत्यु प्रुयं जन्म मृतस्य च’ इत्यादि स्मृति-वाक्यों से पुनर्जन्म तो सिद्ध ही है, इसके अतिरिक्त अनुमानादि प्रमाणों से भी उसकी पुष्टि होती है।

लोक में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही राजकुल में उत्पन्न होने के कारण सुखोपभोग करता है, और दूसरा व्यक्ति दरिद्र-कुल में जन्म लेकर दुःख भोगता है। इस वैषम्य का कारण केवल पुनर्जन्म के अतिरिक्त दूसरा क्या हो सकता है? क्योंकि, यह सब प्रमाणों से सिद्ध है कि सुख और दुःख पुण्य-पाप कर्मों का ही फल है। नवजात शिशु के किसी कर्म की सम्भावना नहीं है, इसलिए अगत्या पूर्व-जन्म के कर्म का अनुमान किया जाता है। अन्यथा, विना कर्म के ही सुख-दुःख का उपभोग मानना होगा, इस स्थिति में कारण के विना कार्य नहीं होता, यह विद्वान्त भंग हो जायगा। दूसरी बात यह है कि अकृताभ्यागम-दोष भी हो जाता है। विना कर्म किये ही उसका फल भोगना अकृताभ्यागम-दोष कहा जाता है, जैसे—नवजात

राजकुमार तथा दरिद्र बालक। यदि पुनर्जन्म न माना जाय, तो इस जन्म में जो कुछ भला या बुरा कर्म किया, और उसका कल भोगे विना उसका शरीरान्त हो गया, इस स्थिति में उसका कर्म व्यर्थ हो जाने से कृतप्रणाश-दोष हो जाता है।

और भी, किसी काम में प्रवृत्ति के प्रति इष्टसाधनता का ज्ञान कारण होता है। तात्पर्य यह है कि तबतक मनुष्य या किसी जन्म की उस काम में प्रवृत्ति नहीं होती, जबतक उसे यह ज्ञान न हो कि इसमें प्रवृत्ति होने से मेरा इष्टसाधन होगा। लोक में देखा जाता है कि गाय, भैंस आदि जानवरों के बच्चे जन्म लेते ही स्तन-पान में प्रवृत्ति हो जाते हैं। अब यहाँ सहज ही प्रश्न उठता है कि क्या उन बच्चों की स्तन-पान में प्रवृत्ति इष्टसाधनता-ज्ञान के विना ही आकर्षित है, या इष्टसाधनता के पारम्परिक ज्ञान से है? यदि कारण के विना आकर्षित प्रवृत्ति मानें, तब तो कारण के विना ही आकर्षित कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, जो असम्भव है। यदि इष्टसाधनता का ज्ञान मानें, तब तो पुनर्जन्म सिद्ध हो जाता है; क्योंकि पूर्व-जन्म के अनुभव के विना इष्टसाधनता का स्मरण होना असम्भव है।

इन्हीं सब कारणों से प्रायः सभी दर्शनकारों ने, केवल चार्वाक को छोड़कर, पुनर्जन्म के सिद्धान्त को माना है। यहाँ तक कि ज्ञानभंगवादी या शून्यवादी वौद्ध लोग भी पुनर्जन्म-सिद्धान्त को मानते ही हैं।

## सूक्ष्मशरीर की सत्ता

पुनर्जन्म-सिद्धान्त में स्थूलशरीर के अन्दर एक सूक्ष्म और कारणशरीर की भी सत्ता मानी जाती है, जो स्थूलशरीर के अभाव में भी कार्यकारी होता है। पञ्चभूत, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, प्राण और मन—इन्हीं सबह पदार्थों से सूक्ष्मशरीर निर्मित है, इसका कारण अविद्या या प्रकृति है। सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीर का कारण होता है, इसीलिए स्थूलशरीर के अभाव में भी सूक्ष्मशरीर की सत्ता और कार्यकारिता सिद्ध है। कार्य के अभाव में भी कारण की सत्ता सर्वसिद्धान्त से सिद्ध है। इन्हीं पञ्चसूक्ष्मभूत, दस इन्द्रियाँ, प्राण और मन को सूक्ष्मशरीर-संज्ञा आचार्यों ने भी दी है। वाचस्पति मिथ्र ने भी 'प्राणगतेश्च' इस सूत्र के भाष्य की व्याख्या करते हुए लिखा है—'सचैपामतुविषेः सूक्ष्मी देहो भूतेन्द्रियमनोमय इति गम्यते' (भास्ती, अ० ३)। 'शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तज्ज्ञमुच्यते'—पञ्चदशी के इस श्लोक का भी यही तात्पर्य है। यही सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीर का कारण होता है। कार्योत्पत्ति के पहले कारण की सत्ता अवश्य मानी जाती है। इससे सिद्ध है कि कार्य के अभाव में भी कारण की सत्ता अवश्य रहती है। और, स्थूलशरीर से जो शुम या अशुम कर्म होता है, उसका संस्कार सूक्ष्मशरीर के ऊपर भी अवश्य होता है। इसी कर्मजन्य संस्कार से प्रेरित होकर जीवात्मा पूर्वदेह को छोड़कर देहान्तर को प्राप्त करता है। सूक्ष्मशरीर का परलोक-गमन भगवान् वेदव्याप्ति ने भी—'तदन्तरप्रतिपत्ती रंहति संवरिष्वकः प्रश्न-निरूपणाम्याम्', 'प्राणगतेश्च' इत्यादि—वेदान्तन्दूरों से सूचित किया है। इसका भाष्य करते हुए भगवान् शङ्कराचार्य ने स्पष्ट लिखा है—'जीवः मुञ्यप्राणसचिवः सेन्द्रियः'

समनस्कोडविद्याकर्म पूर्वप्रश्नापरिग्रहः पूर्वे देहं विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यते, इत्येतदवगन्तव्यम्।<sup>१</sup> यहाँ जीवात्मा के जितने विशेषण हैं, उनसे पूर्वोक्त सूक्ष्मशरीरविशिष्ट जीवात्मा का ही देहान्तरगमन सूचित होता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्थूलशरीर के विना भी सूक्ष्मशरीर की सत्ता और कार्यकारिता आवश्य रहती है।

प्रतिदिन के स्वप्न का अनुभव भी उक्त विषय में प्रमाण होता है कि स्थूलशरीर के विना भी सूक्ष्मशरीर की सत्ता और कार्यकारिता विद्यमान रहती है। जिस समय घर के भीतर चारपाई के ऊपर स्थूलशरीर सो जाता है, उस समय भूतेन्द्रियमनोभय उसका सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीर की कर्मवासना से प्रेरित होकर शात-आशात नगर या जंगल में भ्रमण करता हुआ कर्मवासना के अनुसार सुख या दुःख का उपभोग करता है। इसी प्रकार जीवात्मा स्थूलशरीर के छूटने पर कर्म-वासना के अनुसार सूक्ष्मशरीर के साथ नाना योनियों में जाकर अनेक प्रकार के सुख-दुःख का उपभोग करता है।

छान्दोग्य और वृहदारण्यक-उपनिषद् में पञ्चाणि-विद्या से देवयान और पितृयान-मार्ग के द्वारा जीवात्मा के देहान्तर-गमन का जो वर्णन किया गया है, वह केवल कल्पनामात्र नहीं है, किन्तु उसमें वास्तविकता है। जिस प्रकार सूर्य-रश्मियों के द्वारा समुद्र से जाते हुए जल-विन्दुओं को कोई भी नहीं देखता, उसी प्रकार स्थूलशरीर से सूक्ष्मशरीर-सहित जीवात्मा को अर्चि (ज्योति) आदि के मार्ग से जाते हुए कोई नहीं देखता। यह सब काम सूर्य-चन्द्रमा की रश्मियों और धायु में विद्यमान आदृश्य आकर्षण-शक्तियों के द्वारा ही सम्बन्ध हुआ करता है।

इन सब वातों से यह सिद्ध होता है केवल मरणमात्र से मोक्ष नहीं होता, किन्तु आत्म-साक्षात्कार से ही मोक्ष होता है। आत्मसाक्षात्कार का हेतु उपासना है। इसके विना आत्मसाक्षात्कार होना असम्भव है। कारण यह है कि आत्मा अत्यन्त दुर्विजेय है, उसका साक्षात्कार विना उपासना के नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसी राजा से मिलने के लिए किसी अधिकारी की आवश्यकता होती है; क्योंकि उसी के द्वारा राजा का साक्षात्कार सम्भव है, उसी प्रकार आत्माधिकार के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार होना सम्भव है, अन्यथा नहीं। क्योंकि, सीमित शक्तियाले स्थूलशरीरधारी एक साधारण राजा के दर्शन के लिए भी यदि किसी अधिकारी की आवश्यकता होती है, तो जिसके ऐश्वर्य की सीमा नहीं, उस अचिन्त्य-शक्तियुक्त सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम परमात्मा के साक्षात्कार के लिए अधिकारी की आवश्यकता हो, इसमें आश्वर्य ही क्या है! राजा का दर्शन अधिकारी के विना भी किसी प्रकार हो सकता है; क्योंकि वह स्थूल दृश्यमान पदार्थ है। परन्तु, परमात्मा अत्यन्त आदृष्ट और आदृश्यमान है, इसलिए किसी प्रकार भी उसका साक्षात्कार होना, विना किसी के द्वारा, असम्भव है, अतएव यहाँ किसी माध्यम की कल्पना आवश्यक हो जाती है। इसी अभिप्राय से छान्दोग्योपनिषद् में 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत' इस धूति के द्वारा मन में ब्रह्म-भावना से उपासना का विधान किया गया है। कारण यह है कि प्रसिद्ध वस्तु में ही किसी की भावना सम्भव है, और प्राणिमात्र में मन की स्थिति साधारणतया प्रसिद्ध है, इसलिए उसमें वस्त्वन्तर की भावना कर सकते हैं।

## प्रतीकोपासना

जो काम शरीर से हो सकता है, उससे कहीं अधिक वचन से उसका प्रतिपादन कर सकते हैं; क्योंकि जो कार्य शरीर से नहीं हो सकता, उसका प्रतिपादन वाणी कर सकती है, और जिसका प्रतिपादन वाणी भी नहीं कर सकती, उसकी भी उपरपत्ति मन से कर सकते हैं। मन की गति अप्रतिहत है, वह कहीं नहीं रुकती। इसलिए, मन ही अप्रतिहत शक्तिवाले सर्वव्यापक ब्रह्म का किसी प्रकार शापक हो सकता है, इसी चिह्न से मन में परमात्मवरूप की कल्पना किसी प्रकार कर सकते हैं। इसी अभिप्राय से ब्रह्म-प्राप्ति का अधिकारी समझ मन में ब्रह्म-भावना की उपासना का विधान भगवती श्रुति करती है। इसमें ब्रह्मवरूप की प्रधानतया उपासना नहीं होती। जिस प्रकार, अत्यन्त तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर कोई कहे कि, 'सूर्योऽयं ब्राह्मणः'— यह ब्राह्मण सूर्य है, तो इस वाक्य से अत्यन्त तेजस्वी होने के कारण ब्राह्मण का ही महत्त्व प्रतीत होता है, सूर्य का नहीं। परन्तु, यदि यही वाक्य किसी श्लोकम्‌श्या राजमहिला के समीप कहा जाय, तो इसका अभिप्राय भिन्न हो जाता है। क्योंकि, सूर्य के स्वरूप को नहीं जाननेवाली राजमहिलाओं के समीप सूर्य का स्वरूप बताने के लिए समीप-स्थित तेजस्वी ब्राह्मण का निर्देश कर 'सूर्योऽयं ब्राह्मणः' कहा गया है। इसका सात्यर्थ, जिस प्रकार इस ब्राह्मण का विशिष्ट तेज है, उसी प्रकार अतिशय तेजः-पुञ्जविशिष्ट कोई सूर्य-पदार्थ होगा। यहाँ सूर्य का ही महत्त्व प्रतिपादित होता है, ब्राह्मण का नहीं। इसी प्रकार 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत'—इस वाक्य के द्वारा मन में ब्रह्म-भावना की उपासना का विधान करने से अप्रतिहत शक्ति-विशिष्ट सर्वव्यापक ब्रह्म-भावना को दृढ़ कराने में ही श्रुति का तात्पर्य प्रतीत होता है, मन को ब्रह्म बताने में नहीं। इसी उपासना का नाम प्रतीकोपासना है।

## उपाध्युपासना

जिल प्रकार शरीर के शान से शरीरोपाधिविशिष्ट जीवात्मा का शान होता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त सामर्थ्यविशिष्ट मन के शान से मन-उपाधिविशिष्ट परमात्मा का शान होना सुलभ होता है। और, जिस प्रकार शरीर में जो शरीरत्व है, शरीरोपाधि का उपाधेयभूत जो जीवात्मा है, वह तन्मूलक ही होता है, उसी प्रकार मन में जो पूर्वोक्त सामर्थ्यविशिष्ट मनस्त्व धर्म है, मन उपाधि का उपाधेयभूत जो परमात्मा है, वह भी तन्मूलक ही होता है। यहाँ शरीर और मन को उपाधि, अर्थात् विशेषण और जीवात्मा-परमात्मा को उपाधेय अर्थात् विशेष उपमना चाहिए। इस प्रकार की उपासना का नाम 'उपाध्युपासना' है। इसका वर्णन 'मनोमयः प्राणशारीरः' इस द्वान्दोग्य भुति में किया गया है। इस उपासना में उपास्य देव की ही प्रथानवा रहती है।

## ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त हैं

उपासना में, जिये रूप से जप्त यी भावना का विधान भूति ने घलाया है, वह गृह्य, ज्ञान और अनन्तस्यहृप है—'एत्यं शानमनन्तं जप्तः' (३०. २०. २१।)। यहाँ का धर्म ऐसा है कि काल की तीनों काल में कभी बाह्य न हो।

चित् को ज्ञान कहते हैं। जिसकी इयत्ता न हो, वह है अनन्त। इस सत्य, चित् और अनन्त रूप से किसी अन्य पदार्थ में भावना का नाम उपासना है। इस प्रकार, ब्रह्म के स्वरूप-लक्षण का निरूपण करने के बाद भी 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि तैत्तिरीय श्रुति, प्रत्यक्षतः अनुभूत्यमान जो पृथग्गी आदि भौतिक पदार्थ हैं, उनके साथ ब्रह्म का कार्य-कारण-भाव दिखाती है। ब्रह्म के स्वरूप-लक्षण करने के बाद भी कार्य-कारण-भाव दिखाने का तात्पर्य यही समझा जाता है कि श्रुति में जिनकी शब्दा नहीं हैं, उनको उसी ब्रह्म का, अनुमान के द्वारा भी, निखित बोध कराने के लिए ही श्रुति की पुनः प्रवृत्ति हुई, अथवा पूर्वोक्त ब्रह्म के सम्बन्ध में कार्य-कारण-भाव के द्वारा प्रमाण दिखाना ही श्रुति का उद्देश्य है। परमवत्सला श्रुति एक ही विषय को अनेक प्रकार से समझाने के लिए उद्यत देखी जाती है। छान्दोग्योपनिषद् में भी आत्मोपदेश करने के समय श्रुति अनेक प्रकार के विभिन्न दृष्टान्तों के द्वारा नी बार 'तत्त्वमसि', 'तत्त्वमस्ति' का उपदेश करती है। तैत्तिरीय-उपनिषद् में भी, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस स्वरूप-लक्षण के बाद पुनः 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि कार्य-कारण-भावमूलक अनुमान द्वारा उसी ब्रह्म का बोध कराया गया है। पहले भी बताया गया है कि शब्द-प्रमाण का पार्पद अर्थात् अनुगामी अनुमान होता है, और वह साक्षात्कार में अत्यन्त उपयोगी होता है। ब्रह्म में अनुमान का प्रमाणय श्रुति के पार्पद होने के कारण ही माना जाता है। श्रुति का भी यही अभिप्राय सूचित होता है, इसीलिए बृहदारण्यक में 'आत्मा वारे द्रष्टव्यः' (२४४५) इस वाक्य से आत्मदर्शन का विधान करने के बाद उसका उपाय दिखलाते समय 'श्रोतव्यो भन्तव्यः' इस वाक्य में शब्दण के बाद ही मनन का विधान श्रुति करती है—पहले 'श्रोतव्यः', बाद 'भन्तव्यः'। 'भन्तव्यः श्रोतव्यः; ऐसा पाठ नहीं करती। इससे सूचित होता है कि अवश्य अर्थात् श्रुति के बाद ही मनन अर्थात् अनुमान उपयुक्त होता है, यही श्रुति का अभिप्राय है। इसीलिए, अनुमान श्रुति का पार्पद अर्थात् अनुगामी कहा जाता है।

### अनुमान का अनुभवकल्प

एक बात और भी यहीं शातव्य है कि अनुमान का अनुभवकल्प 'सत्यं ज्ञान-मननन्तं ब्रह्म' से जो ब्रह्म सूचित होता है, वही कार्य-कारण-भावमूलक अनुमान से भी सिद्ध होता है, दूसरा नहीं। कारण यह है कि कार्य अपने अनुरूप ही कारण का अनुमापक अर्थात् सूचक होता है। और, यह भी प्रायः सिद्ध ही है कि कार्य की अपेक्षा कारण नित्य, अपरिच्छिन्न और चेतन-पुरस्कृत ही होता है। मृत्तिका के विकारभूत जो घटादि-कार्य हैं, उनका कारणीभूत जो मृत्तिका है, वह स्वयं विनाशशील होने पर भी घटादि-कार्य की अपेक्षा नित्य और अपरिच्छिन्न भी है। क्योंकि, घटोत्पत्ति के पहले और घटनाश के बाद भी मृत्तिका की सत्ता रहती है, और घटादि-कार्य का जो परिच्छेद अर्थात् इयत्ता है, वह मृत्तिका में नहीं रहता, इसलिए घटादि की अपेक्षा मृत्तिका नित्य और अपरिच्छिन्न होती है और घटोत्पत्ति-काल में मृत्तिका का जो कारण है, वह चेतन कुलाल से पुरस्कृत ही रहता है, अतः वह चेतन-पुरस्कृत भी है।

इसी प्रकार, 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इस श्रुति से उमस्त पाञ्चभौतिक लोकप्रयात्मक प्रपञ्च का कारण ब्रह्म है, ऐसा छिद्र होने के बाद उक्त समस्त कार्यभूत जगत् उमष्टि की अपेक्षा कारणभूत ब्रह्म भी नित्य, अपरिविद्युत, इयत्तारहित अर्थात् अनन्त और चेतन-पुरस्कृत भी छिद्र होता है। यहाँ एक और विशेषता है कि प्रपञ्च का कारण-भूत ब्रह्म स्वयं चेतन होने से किसी अन्य चेतन की अपेक्षा नहीं करता। कारणावस्था में चेतन होने से ही वह चेतन-पुरस्कृत कहा जाता है। मृत्तिका के सदृश ब्रह्म अचेतन नहीं है, जिससे वह अन्य चेतन की अपेक्षा करे। जगत् का कारण होने से ही ब्रह्म सत्य, शान और अनन्त छिद्र होता है। इसीलिए, जगत् और ब्रह्म में कार्य-कारण-भाव श्रुतिकारों ने दिखाया है।

### श्रुतियों की गूढार्थता से उत्पन्न संशय

इस प्रकार, श्रुति के द्वारा कार्य-कारण-भाव घोषित होने के बाद ही परमात्मा में अनुमान का भी अवकाश मिलता है। ध्रुति का यही अभिप्राय है, इस प्रकार का निर्णय करना कठिन है। कारण यह है कि कहीं तो श्रुति का अर्थ स्पष्ट है, कहीं गूढ़ है और कहीं गूढ़ से भी गूढ़। जिस श्रुति का अर्थ स्पष्ट है, उसमें संशय न होने पर भी श्रुति की गूढार्थता के विषय में, पुराणों में दृष्टि-भेद होने के कारण, संशय हो ही जाता है। जो श्रुतियाँ गूढतरार्थ हैं, उनके विषय में तो संशय होना अनिवार्य है।

गूढार्थ होने से श्रुति का तात्पर्य समझ में नहीं आता। इसी कारण संशयात्मक कुछ प्रश्न उठते हैं, उनमें कुछ प्रश्नों का निर्देश किया जाता है—

तत्त्व कितने प्रकार के होते हैं? उनका स्वरूप क्या है? तत्त्वों की छिद्रि किस प्रमाण से होती है? प्रमाण कितने हैं? कौन प्रमाण तत्त्वान्वेषण में पर्याप्त है? कौन प्रमाण प्रबल है, कौन दुर्बल? कौन प्रमाण स्वतः है, कौन परतः? वेद पौराणे या अपौराणे? शब्द नित्य है या अनित्य? कौन प्रमाण मुख्य है, कौन गीण? प्रमाण से सिद्र जो चेतन है, वह एक है या अनेक? ईश्वर समुण्ड है या निर्गुण? जीव एक है या अनेक? समुण्ड है या निर्गुण? नित्य है या अनित्य? आणुपरिमाण है या मध्यम या विभु? जह है या चेतन? कर्ता है या अकर्ता? भोक्ता है या अभोक्ता? अचेतन पदार्थ के जो मूल कारण हैं, वे उच्चरेणु हैं या उनके अवयव या परमाणु या शब्द या प्रकृति या आत्मशक्ति? अचेतन चित् से भिन्न है या अभिन्न? अचेतन मूल तत्त्व कितने हैं? इसी प्रकार आरम्भवाद, परिणामवाद, विवर्त्तवाद, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद इत्यादि वादों में कौन याद न्याय और शास्त्र-सम्मत है? आकाश, काल, दिक् और अन्यकार ये तत्त्वान्तर हैं या नहीं? कार्यरूप से जो परिणाम होता है, वह स्वाभाविक है अथवा नैमित्तिक? कार्य कारण से भिन्न है या अभिन्न? परमात्मा कार्य का उपादान है या निमित्त? या उभय से भिन्न? परमात्मा में जो कर्तृत्व है, वह कर्मसापेक्ष है या निरपेक्ष? अचेतन पदार्थ सत् है या असत्? सत् होने पर भी रित्यर है या लैणिक? आनंद है या बाह्य या उभयरूप? विनाशी है या अविनाशी? विनाश भी सान्वय है या निरन्वय? अचित् के साथ चित् का सम्बन्ध कैसा है? शान का स्वरूप क्या है?

वह द्रव्य है या गुण ? साकार है या निराकार ? स्वाति का स्वरूप क्या है ? मोक्ष कौन देता है ? इत्यादि उनेक प्रकार के संशय भूति के गूढ़ार्थ और मनुष्यों की मति के बाहुल्य के कारण हुआ करते हैं। इसमें कौन आचार्य क्या मानते हैं, यह उनके दर्शनों के संदिश निर्दर्शन के अवसर पर बताया जायगा।

## प्रमाण के विषय में मतभेद

दर्शन-रूपी समुद्र अत्यन्त गम्भीर होने से साधारण बुद्धिवालों के लिए अत्यन्त दुर्विगाल्य हो जाता है, इसलिए प्रत्येक पदार्थ में मतभेद का वर्णन आवश्यक हो जाता है। 'मानाधीना मेयसिद्धिः', अर्थात् प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती है, इस अभिप्राय से पहले प्रमाण के विषय में ही मतभेद का प्रदर्शन किया जाता है।

चार्वाकों के मत में यथार्थ ज्ञान का साधक एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण माना जाता है। इन्द्रिय से उत्पन्न जो ज्ञान है, वही इनके मत में यथार्थ है। इसके अतिरिक्त सब यथार्थ ही है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते।

आसवाक्य-स्थल में भी श्रोत्रेन्द्रिय के विषय होने के कारण शब्द-मात्र ही यथार्थ है; क्योंकि श्रोत्रेन्द्रिय शब्द-मात्र का ही ग्रहण कर सकता है, अर्थ का नहीं। दूसरे शब्दों में, श्रोत्रेन्द्रिय से गृह्णमाण शब्द के बल अपने स्वरूप का ही ग्रहण करा सकता है, अर्थ का नहीं। इनका कहना है कि आसवाक्य का अर्थ सत्य भी हो सकता है; परन्तु सत्य ही है, इस प्रकार का निश्चय न होने से प्रमाण नहीं हो सकता। नदी के किनारे फल है, वह कहने से सम्भव हो सकता है कि वहाँ फल हो; परन्तु अवश्य फल होगा, इस प्रकार निश्चय करना विना इन्द्रिय-सम्बन्ध के असम्भव है। अतएव, इनके मत में शब्द प्रमाण नहीं माना जाता।

चार्वाक अनुमान को भी प्रमाण नहीं मानते। इनका कहना है कि अनुमान व्याप्ति-ज्ञान के अधीन है, जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य है। इस प्रकार जो साहचर्य का नियम है, वही व्याप्ति की परिभासा है; परन्तु यह नियम व्यभिचरित हो जाता है। कारण यह है कि यदि वर्तमानकालिक सकल धूम और अग्नि के साथ इन्द्रिय के सम्बन्ध न रहने से व्यभिचार की शङ्का हो जाती है, तो अतीत अनागत धूमाग्नि में व्यभिचार की शङ्का अनिवार्य हो जाती है। भूतकाल में अग्नि के विना भी धूम हुआ हो, या भविष्य में ही कभी विना अग्नि के धूम हो जाय, इस प्रकार की व्यभिचार-शङ्का जबतक अनी रहेगी, तबतक धूम और अग्नि के साथ व्याप्ति का निश्चय होना असम्भव है। यदि यह कहें कि प्रत्यक्ष से सकल धूमाग्नि के व्याप्ति-ज्ञान न होने पर भी, घार-घार दर्शन-रूप अनुमान से ही, सकल धूम और अग्नि में व्याप्ति का निश्चय कर लेंगे, तो इसका उत्तर यह है कि जिस अनुमान से आप व्याप्ति का ज्ञान करते हैं, वह अनुमान भी व्याप्ति-ज्ञान के अधीन है, फिर उस व्याप्ति-ज्ञान के लिए अनुमान की अपेक्षा पुनः उसके लिए व्याप्ति-ज्ञान की, इस प्रकार अन्योन्याध्यय या अनवस्था-दोष हो जाता है, इसलिए इनके मत में अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता। यदि यह कहें कि शङ्कित व्याप्ति-ज्ञान से ही अनुभिति कर लें, तो क्या हानि है ? इसका

उत्तर यह है कि शङ्कित व्याप्ति-ज्ञान से शङ्कित ही अनुमिति होगी, निश्चित नहीं। कारण यह है कि व्याप्ति के निश्चित ज्ञान से जो अनुमान होता है, वही यथार्थ अर्थ का बोधक होता है। इन्हीं कारणों से ये लोग अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। उपमान आदि भी इनके मत में प्रमाण नहीं हैं। इसलिए, ये लोग 'प्रत्यक्षैकप्रमाणवादी' और 'आध्यात्मिक' कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त सब दर्शनकारों ने अनुमान को अवश्य प्रमाण माना है। यहाँ तक कि श्रौत दर्शनों के अलावा बौद्ध और जैन दार्शनिकों ने भी अनुमान को आवश्यक प्रमाण माना है।

अनुमान को प्रमाण माननेवालों के मत में कार्य-कारण-भाव, या स्वभाव से ही व्याप्ति का निश्चय हो जाता है। धूम और अग्नि में कार्य-कारण-भाव का निश्चय अन्वय और व्यतिरेक से होता है। अन्वय और व्यतिरेक की परिभाषा यह है—

**'तत्सच्चै तत्सत्त्वमन्वयः तदभावे तदभावो व्यतिरेकः'**

अर्थात्, जिसकी सत्ता से ही उसकी सत्ता रहे, उसे अन्वय और जिसके अभाव में उसका अभाव हो, वह व्यतिरेक कहा जाता है। कारण की सत्ता में ही कार्य की सत्ता और कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है, इसलिए कार्य-कारण में अन्वय-व्यतिरेक माना जाता है। अग्नि की सत्ता में ही धूम की उत्पत्ति होती है, और अग्नि के अभाव में धूम की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए अग्नि और धूम में अन्वय-व्यतिरेक होने से अग्नि कारण और धूम कार्य है, इस प्रकार का निश्चय किया जाता है। अग्नि और धूम में कार्य-कारण-भाव सिद्ध होने पर धूम को देखकर कारण अग्नि का अनुमान सहज ही हो जाता है। क्योंकि, कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता। इस प्रकार, धूम और अग्नि में कार्य-कारण-भाव सिद्ध हो जाने पर व्यभिचार की शङ्का ही नहीं उठती, इस अवस्था में व्याप्ति का ज्ञान भी सुलभ हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि अनुमान को प्रमाण नहीं माननेवाले चारोंकों की सबसे प्रधल युक्ति यही है कि अतीत और अनागत धूम में अग्नि के व्यभिचरित होने की शङ्का रहने से व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता, इसलिए अनुमान नहीं होगा। परन्तु, उनसे पूछना चाहिए कि जिस अतीत और अनागत धूमाग्नि में आप व्यभिचार की शङ्का करते हैं, उस धूम और अग्नि का ज्ञान आपको किस प्रमाण से हुआ? प्रत्यक्ष तो कह नहीं सकते; क्योंकि अतीत और अनागत धूम-अग्नि के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं होता, और विषय के साथ इन्द्रिय के सम्बन्ध होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को सब लोग प्रत्यक्ष मानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष से अतीत अनागत धूम और अग्नि का ज्ञान नहीं कर सकते और अनुमान आदि को आप प्रमाण मानते नहीं, इस स्थिति में आपने जो व्यभिचार की शङ्का की है, वह निराधार हो जाती है। अतीत अनागत धूम और अग्नि की सिद्धि के लिए अनुमान को प्रमाण मानना अत्यावश्यक हो जाता है। इसलिए, आपकी जो व्यभिचार-शङ्का है, वही अनुमान-प्रमाण की साधिका हो जाती है। इसी अभिप्राय से उदयनाचार्य ने भी लिखा है—

**'शङ्का चेदनुमाइत्येव न चेच्छङ्का सनस्तराम् ।'**

अर्थात्, यदि शङ्का है, तब तो अनुमान अवश्य मानना होगा, और यदि शङ्का नहीं है,

तब तो उससे भी अधिक अनुमान-प्रमाण की सत्ता सिद्ध हो जाती है; क्योंकि व्यभिचार-शक्ति के निवारण के लिए अनुकूल तर्क की भी आवश्यकता नहीं होती।

वौद्धों के मत में अनुमान को प्रमाण माना जाता है। शब्द को ये प्रमाण नहीं मानते। इनका कहना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध जो पदार्थ है, उसी को शब्द व्यक्त करता है, इसलिए पृथक् प्रमाण में इसकी गणना नहीं होती।

वैशेषिक भी उक्त रीति से प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण मानते हैं। शब्द और उपमान को ये प्रमाण नहीं मानते। इनका कहना है कि उन्मत्त के प्रलाप आदि के शब्द प्रमाण नहीं हो सकते, किन्तु प्रमाणभूत ईश्वर या महर्षि आदि से उच्चरित जो शब्द है, वही प्रमाण माना जाता है। इसलिए, प्रमाणभूत पुरुष से प्रोक्त होने के कारण ही शब्द में प्रामाण्य का अनुमान किया जाता है, इसलिए अनुमान-प्रमाण के अधीन शब्द में ही प्रामाण्य-ज्ञान होने से अनुमान से पृथक् शब्द को प्रमाण नहीं माना जाता। इसलिए विश्वनाथ भट्ट ने कहा है—

**'शब्दोपमानयोन्वै पृथक् प्रामाण्यमित्यते।'**

**अनुमानगतार्थव्यादिति वैशेषिकं मतम् ॥'**—कारिकावली

माध्व-सम्प्रदायवाले भी दो ही प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष और शब्द। इनका कहना है कि अनुमान यद्यपि प्रमाण है, तो भी श्रुति से सिद्ध अर्थ का बोध करानेवाला जो अनुमान है, वही प्रमाण हो सकता है, स्वतन्त्र अनुमान प्रमाण नहीं होता, इसलिए माध्व-सम्प्रदाय में अनुमान को स्वतन्त्र प्रमाण की कोटि में नहीं रखा जाता।

परन्तु, यद्यं लक्ष्य करने की बात यह है कि श्रुति की सहायता के बिना परमात्मा आदि अलौकिक पदार्थ की सिद्धि में उपाय भी क्या है? कूर्म-पुराण का वचन है—

**'श्रुतिसाहाय्यरहितमनुमानं न कुत्रिचित् ।'**

**निश्चयात्साधयेदर्थं प्रमाणान्तरमेव तत् ॥'**

तात्पर्य यह है कि श्रुति की सहायता के बिना स्वतन्त्र अनुमान, किसी भी निश्चित अर्थ का साधन नहीं कर सकता, इसलिए इसको प्रमाणान्तर नहीं माना जाता।

विशिष्यादैत में श्रीरामानुज-सम्प्रदायवाले प्रत्यक्ष, अनुमान; और शब्द—इन तीनों को स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। इनके मत में शब्द अनुमान की अपेक्षा नहीं करता, और न अनुमान ही शब्द की अपेक्षा करता है। दोनों अपने-अपने विषय में स्वतन्त्र हैं।

सांख्य-मत में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द—इन तीनों को स्वतन्त्र प्रमाण माना गया है—

**'दृष्टमनुभानमासपवचनं सर्वप्रमाणसिद्ध्वात् ।'**

**विविधं प्रमाणमित्यं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥'**—सांख्यकारिका

यहाँ 'दृष्ट' का अर्थ प्रत्यक्ष और 'आसपवचन' का अर्थ शब्द ही है। प्राचीन नैयायिक भी इन तीनों प्रमाणों को मानते हैं। पतञ्जलि ने भी इन्हीं तीन प्रमाणों को माना है—  
**'प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि'** इस पातञ्जल-सूत्र में 'शाराम' शब्द से 'शब्द' ही माना गया है। कुछ प्राचीन नैयायिकों ने भी इन्हीं तीन प्रमाणों को माना है। पर, अर्वाचीन

नैयायिक और गौतम उपमान-सहित चार प्रमाण मानते हैं—‘प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दः प्रमाणानि’। यह गौतम का सूत्र है। उक्त चार प्रमाण और अर्थापत्ति मिलाकर पाँच प्रमाण भीमांसकविशेष प्रमाकर मानते हैं। कुमारिल भट्ट के मत में छह प्रमाण माने जाते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अद्वैत वेदान्त भी इन्हीं छह प्रमाणों को मानते हैं। पीराणिक लोग सभव और ऐतिह्य को मिलाकर आठ प्रमाण मानते हैं। तान्त्रिक चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं, इसलिए इनके मत में नीं प्रमाण है।

अब थोड़ा यह विचारना है कि चार्वाक-मतवाले एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, इसलिए ये अत्यन्त स्थूलदृष्टिवाले होते हैं। अनुमान को प्रमाण माने विना जगत् का व्यवहार ही लुप्त हो जायगा।

अतीत और वर्तमान-मार्य के अनुसार ही अनागत-मार्य में संसार की प्रवृत्ति देखी जाती है और चार्वाक लोग भी औरों के समान व्यवहार में अनुमान की सहायता लेते ही हैं। दूसरों के इज्जित से उनका अभिप्राय चार्वाक भी समझते ही हैं, यह अनुमान नहीं, तो और क्या है? इस प्रकार, अनुमान से व्यवहार में काम लेने हुए भी यह कहना कि अनुमान प्रमाण नहीं है, अत्यन्त हास्यास्पद बात है। इसलिए, विद्वान् लोग इनको हेय दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मदत्तकार ने इनके मत को खण्डनीय मानकर भी उल्लेख नहीं किया है। इनका कहना है—‘निर्युक्तिकं ब्रुधाणस्तु नास्माभिविनिवार्यते’, अर्थात् किसी प्रकार विना युक्ति के बोलनेवाले को हमलोग मना नहीं करते।

चार्वाक से भिन्न दर्शनकारों में भी उक्त प्रकार का मतभेद देखा जाता है, परन्तु केवल प्रमाण-संख्या के विषय में ही, जैसे कोई दो प्रमाण मानते हैं, कोई तीन और कोई चार। इस प्रकार, संख्या में ही विवाद है, प्रभेय की सत्यता में प्रायः सब लोगों का एक मत है, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं। तार्किक लोग जिस ईश्वर या परलोक का साधन तर्क के द्वारा करते हैं, उसको चार्वाक मले ही न मानें, परन्तु उनसे मिल सब दर्शनकारों ने उसे स्वीकृत किया है। प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाण माननेवाले नैयायिक या छह प्रमाण माननेवाले वेदान्ती जिस ईश्वर या परलोक को शब्द-प्रमाण से सिद्ध करते हैं, उसको, प्रत्यक्ष और शब्द दो ही प्रमाण माननेवाले माध्य और प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण माननेवाले वैशेषिक भी स्वीकार करते ही हैं। भेद केवल इतना ही है—वैशेषिकों का कहना है कि इनकी सिद्धि अनुमान से ही है, शब्द से नहीं। और, जैसे अर्थापत्ति-प्रमाण को माननेवाले मीमांसक ‘पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न मुह्यक्ते’ यहाँ रात्रि-भोजन-रूप अर्थ को अर्थापत्ति-प्रमाण सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार अर्थापत्ति को प्रमाण न माननेवाले वैशेषिक और नैयायिक भी उसी रात्रि-भोजन-रूप अर्थ को अनुमान से ही सिद्ध करते हैं। और भी, जिस प्रकार अनुपलब्धि-प्रमाण माननेवाले वेदान्ती अनुपलब्धि से घटाभाव का साधन करते हैं, उसी प्रकार अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं माननेवाले नैयायिक आदि भी उसी घटाभाव को प्रत्यक्ष-प्रमाण का प्रमेय समझते हैं। इस प्रकार, प्रमाणों की संख्या में ही

परस्पर विवाद देखा जाता है। प्रमेय-रूप अर्थ की सच्चा, अर्थात् सत्यता में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, इसलिए यह 'शुष्कवाद' ही कहा जाता है। इसी अभिग्राय से पाणिनीय इस विषय में उदासीन नहीं रहते हैं। वेदान्ती यद्यपि छह प्रमाण मानते हैं, तथापि उनके मूलगृहकार व्यासजी ने नैयायिकों की तरह प्रमाण का कोई सब्ज़ नहीं बनाया।

### प्रमाणों में परस्पर सम्बन्ध

प्रमाणों में परस्पर चार प्रकार के सम्बन्ध पाये जाते हैं। कोई प्रमाण किसी प्रमाण का प्राणप्रद होता है, कोई किसी का उपजीव्य। कोई किसी का अनुग्राहक होता है, और कोई किसी का पार्षद। जिस प्रमाण का प्रामाण्य, प्रमाणान्तर अर्थात् दूसरे प्रमाण के अधीन होता है, वह (प्रमाणान्तर) उस प्रमाण का प्राणप्रद होता है।

यथा, नैयायिकों के मत में श्रुति-प्रमाण का प्रामाण्य-ज्ञान, अनुमान-प्रमाण के अधीन होता है, इसलिए इनके मत में अनुमान श्रुति का प्राणप्रद कहा जाता है। नैयायिक श्रुति का प्रामाण्य स्वतः नहीं मानते। इनका कहना है कि श्रुति इसीलिए प्रमाण है कि वह प्रमाणभूत ईश्वर से प्रणीत है। इसमें अनुमान का प्रकार यह है—  
 श्रुतिः (पञ्च) प्रमाणम् (साध्य), प्रमाणभूत-श्वरप्रणीतत्वात् (हेतु), यत् न प्रमाणं न तदीश्वरप्रणीतम् (व्यतिरेक-व्याप्ति), यथोन्मत्तप्रलपितम् (दृष्टान्त), अर्थात् श्रुति प्रमाण है, प्रमाणभूत ईश्वर-प्रणीत होने के कारण जो प्रमाण नहीं है, वह ईश्वर-प्रणीत भी नहीं है। इस प्रकार, अनुमान के द्वारा ही श्रुति का प्रामाण्य सिद्ध होता है, इसीलिए नैयायिकों के मत में अनुमान श्रुति का प्राणप्रद होता है। इसी प्रकार, स्मृति-प्रमाण की प्राणप्रद श्रुति ही है; क्योंकि स्मृति का प्रामाण्य श्रुति-प्रमाण के अधीन ही है। प्रातः प्रामाण्यवाले जिस प्रमाण का साधन प्रमाणान्तर (दूसरे प्रमाण) के अधीन हो, वह प्रमाणान्तर उस प्रमाण का उपजीव्य कहलाता है। जैसे, प्रत्यक्ष से भिन्न अनुमान आदि प्रमाण का साधन, प्रत्यक्ष-प्रमाण के ही अधीन है, इसलिए प्रत्यक्ष-प्रमाण अनुमान आदि प्रमाणों का उपजीव्य कहा जाता है। कारण यह है कि अग्नि के अनुमान का साधन जो धूम है, वह प्रत्यक्ष-प्रमाण के ही अधीन है, और शब्द-शेष का साधनीभूत जो शब्द है, उसका ज्ञान-शावण प्रत्यक्ष के ही अधीन है।

अनुग्राहक उसे कहते हैं, जिस प्रमाण का प्रामाण्य-ज्ञान उपलब्ध है, और साधन भी उपपत्ति है। उस प्रमाण के स्वीकार करने में जो प्रमाणान्तर सहायता करता है, उस प्रमाण का वह प्रमाणान्तर अनुग्राहक होता है। जैसे, 'आत्मा मन्तव्यः' (वृ० आ०), यह श्रुति आत्मा के मनन द्वारा अनुमान की प्राप्ति, अर्थात् प्रहरण करने योग्य बताती है। क्योंकि, अनुमान से आत्मविषयक विपरीत मावना निवृत्त हो जाती है। इसलिए, यहाँ श्रुति अनुमान की अनुग्राहिका होती है।

जिस प्रमाण का प्रामाण्य उपलब्ध हो, साधन भी उपपत्ति हो और प्रमाणान्तर से अनुग्रहीत भी हो, परन्तु किसी विशिष्ट विषय में बिना किसी प्रमाणान्तर की सहायता के उसकी प्रवृत्ति नहीं होती हो, अर्थात् प्रमाणान्तर से मार्ग-प्रदर्शन के बाद ही प्रवृत्ति होती हो, तो वह प्रमाण उस प्रमाणान्तर का पार्षद अर्थात् अनुग्रामी होता है, और

वह प्रमाणान्तर ही अग्रेसर रहता है। जिस प्रकार वेदान्तियों के मत में 'अचिन्त्याः खजु ये भावाः न तांस्तकेण योजयेत्', इस प्रबल सिद्धान्त के अनुसार अचिन्त्य और अतर्क्य जो परमात्मा आदि पदार्थ हैं, उनके विषय में स्वतन्त्र रूप से अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती, जब श्रुति-प्रमाण से मार्ग का प्रदर्शन होता है, तभी वहाँ अनुमान का प्रवेश होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए, अनुमान श्रुति का पार्पद, अर्थात् अनुगामी होता है, और श्रुति अग्रेसर रहती है। क्योंकि, पहले श्रुति मार्ग दिखाती है, और उसके पीछे अनुमान प्रवृत्त होता है।

किसी विषय-विशेष-स्थल में अनुमान और शब्द दोनों यदि स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्त हों, तो वहाँ कोई पार्पद या कोई अग्रेसर नहीं होता है, वहाँ यद्यप्ति से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात् दोनों का उल्लेख कर सकते हैं। दोनों के उल्लेख में भी यह नियम नहीं है कि किसका उल्लेख पहले करें, जो पहले बुद्धि पर आ जाय, उसी का उल्लेख पहले कर सकते हैं; क्योंकि इस विषय में दोनों स्वतन्त्र हैं।

## प्रमाणों में वाध्य-वाधक-भाव

अब यहाँ यह विचार किया जाता है कि किसी विषय में जहाँ परस्पर-विच्छद दो प्रमाणों का एक काल में सन्तुष्टि प्राप्त हो, वहाँ कौन किसका वाध्य और वाधक होता है। लोक में इस प्रकार का नियम नहीं है कि अमुक प्रमाण अमुक प्रमाण का वाधक ही होता है, या वाध्य ही। देखा जाता है कि कहीं प्रत्यक्ष का भी आसवचन से वाध हो जाता है, और कहीं प्रत्यक्ष से ही आसवचन का वाध हो जाता है। कहीं प्रत्यक्ष से अनुमान का और कहीं अनुमान से प्रत्यक्ष का ही वाध हो जाता है। जैसे—नेत्र में दोप रहने के कारण किसी रस्सी आदि में सर्प का प्रत्यक्ष हो जाता है, वहाँ 'नायं सर्पः' इस आसवाक्य से सर्प-प्रत्यक्ष का वाध हो जाता है। और, जहाँ 'नायं सर्पः' यह उन्मत्त-प्रलपित वाक्य है, वहाँ वास्तविक अदृष्टिपत नेत्र से उत्पन्न सर्प के प्रत्यक्ष से उस वाक्य का वाध हो जाता है। जो अन्यथासिद्ध है, वही वाध्य होता है। प्रथम उदाहरण में नेत्र दोपजन्य होने के कारण सर्प प्रत्यक्ष अन्यथासिद्ध है, अतएव उसका वाध होता है। द्वितीय उदाहरण में 'नायं सर्पः' यह जो वचन है, वह उन्माद-रूप दोप से जन्य है, इसलिए अन्यथासिद्ध होने से उसका वाध हो जाता है।

प्रमाण के विषय में तच्चत् दर्शनों के अनुसार उक्त रीति से यद्यपि मतभेद पाया जाता है, तथापि आजकल व्यवहार में मुख्य रूप से तीन ही प्रमाण माने जाते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अन्य प्रमाणों को तच्चत् दर्शनों के अनुसार पृथक् मानें अर्थात् तीन ही में उनका अन्तर्भूत मानें, परन्तु वाध्य-वाधक-भाव, जिस प्रमाण का जिस प्रमाण में अन्तर्भूत होगा, उसी के अनुसार माना जायगा। जैसे—जहाँ प्रत्यक्ष-प्रमाण की अपेक्षा अनुमान दुर्बल होता है, वहाँ अनुमान-प्रमाण में अन्तर्भूत जो अर्थात्-प्रमाण है, वह प्रत्यक्ष-प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल समझा जायगा, और इसलिए प्रत्यक्ष से उसका वाध होता है। कारण यह है कि प्रबलता और दुर्बलता के जो ऐसे हैं, वे दोनों में तुल्य हैं। जैसे, पर्यंत पर प्रत्यक्ष से ही अग्नि के अभाव का निश्चय कर-

कोई मनुष्य उत्तरा है, और उसके समीप कोई मनुष्य उसी पर्वत पर अग्नि का साधन अनुमान से करता है, इस अवस्था में वह अनुमान प्रत्यक्ष की अपेक्षा दुर्बल होने से वासित होता है। क्योंकि, दोष-जन्य होने से वह अन्यथासिद्ध है। यदि धूम-ज्ञान से अग्नि का अनुमान करता हो, तो वहाँ वाष्प या धूलि-पटल में धूम का भ्रम-दोष होता है, और यदि वृक्षादि हेतु से अग्नि का अनुमान करता हो, तो वहाँ वृक्ष और अग्नि में व्याप्ति का भ्रम-दोष समझना चाहिए।

इसी प्रकार, कोई मनुष्य किसी पर्वत के ऊपर अत्यन्त जाड़ा रहने पर भी किसी व्यक्ति को अत्यन्त स्वस्थ और पुष्ट देखकर सोचता है कि विना अग्नि के इस प्रकार के जाड़े में इतना स्वस्थ रहना अनुपम है, इस अनुपपत्तिमूलक अर्थापत्ति से अग्नि का साधन करता है, तो वह अर्थापत्ति-प्रमाण भी दोष-जन्य होने के कारण अन्यथासिद्ध होने से प्रत्यक्ष की अपेक्षा दुर्बल होता है। यहाँ अत्यन्त जाड़े में स्वस्थता का हेतु अग्नि से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, इस प्रकार का भ्रम ही वहाँ दोष है। यदि उसी पर्वत के ऊपर अग्नि के अभाव का निश्चय दोष-जन्य हो, तो दोष-जन्य अग्नि के अनुमान की अपेक्षा वह प्रत्यक्ष भी दुर्बल होता है। यदि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों दोष-जन्य हों, तो दोनों समान ही होते हैं।

### प्रमाणसाध्य प्रमेय

इस प्रकार दर्शन-मेद से प्रमाणों में मेद तथा प्रमाणों में परस्पर सम्बन्ध और वाध्य-बाधक-भाव का विचार संक्षेप में किया गया। अब उन प्रमाणों से किस वस्तु की चिद्रि होती है, और जगत् के मूल-कारण के अन्वेषण में किस दर्शन में कौन प्रमाण उपयुक्त होता है, इस विषय में विचार किया जायगा। इसके पहले यह जान लेना चाहिए कि प्रमाण से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, किन्तु पूर्वसिद्ध जो वस्तु है, उसके स्वरूप का ज्ञान प्रमाण से किया जाता है। अर्थात्, यह वस्तु इस प्रकार की है, ऐसा ज्ञान प्रमाण से बोधित किया जाता है। इस प्रकार, प्रमाण से शापित जो वस्तु है, वही प्रमाणसाध्य कही जाती है, और जो प्रमाण से साध्य है, उसी का नाम प्रमेय है।

वह प्रमेय दो प्रकार का होता है—एक चेतन, दूसरा अचेतन। इन दोनों में अचेतन अप्रधान और चेतन ही प्रधान है; क्योंकि अचेतन चेतन के ही अधीन रहता है। इसलिए, पहले चेतन का ही विचार करना चाहिए। चेतन में भी दो मेद प्रतीत होते हैं—एक ब्रह्म, अर्थात् परमात्मा, दूसरा जीवात्मा। इनमें जीवात्मा की अपेक्षा ब्रह्म ही प्रधान है; कारण यह है कि ब्रह्म-ज्ञान के लिए जीवात्मा का प्रयत्न देखा जाता है। इसलिए, पहले ब्रह्म का ही विचार करना उपयुक्त प्रतीत होता है। इस अवस्था में विचारणीय ब्रह्म में पूर्वोक्त प्रमाणों की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है, यह विचारणीय है। क्योंकि, प्रमाणों का जो प्रमाण-भाव अर्थात् प्रमाणय है, उसका उपजीव्य (कारण) ब्रह्म ही है, और वह प्रमाणातीत, अर्थात् प्रमाण से परे है। कारण यह है कि ब्रह्म की सत्ता से ही प्रमाणों का आत्म-भाव, अर्थात् प्रमाणय या प्रमाणकल्प

प्राप्त है। क्योंकि, सर्व, चन्द्र और अग्नि आदि जितने प्रकाशक-वर्ग हैं, उनका प्रकाश परमात्मा के ही प्रकाश से अनुपाण्यित है। इसी प्रकार प्रमेय के प्रकाशक प्रमाण की सत्ता भी उस ब्रह्म-सत्ता के ही आधित ( अधीन ) रहता है। ‘त्वमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य माता सर्वमिदं विभाति’ ( मु० उ० )। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है कि समस्त प्रकाशकत्व शक्ति का केन्द्र यही ब्रह्म-सत्ता है। इस अवस्था में प्रमाण ब्रह्म का प्रकाशक या प्रमापक नहीं हो सकता; क्योंकि ब्रह्म प्रमाणों का भी उपजीव्य, अर्थात् कारण होता है।

जिस प्रकार, अग्नि अपने उपजीव्य वायु को प्रकाशित या दरब नहीं करता, उसी प्रकार प्रमाण भी अपने उपजीव्य ब्रह्म का प्रकाशक या प्रमापक नहीं हो सकता। यहाँ शङ्का होती है कि ब्रह्म यदि प्रमाणों से परे है, तब तो उसकी सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि, प्रमाण की वहाँ गति ही नहीं है और प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के ही अधीन मानी जाती है—‘प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्विः’ ( सं० का० )। इसलिए, प्रमाण से सिद्ध न होने से ब्रह्म की सत्ता सिद्ध नहीं होती।

इसका उत्तर यह होता है कि यदि ब्रह्म की असत्ता हो, तब तो प्रमाण का ही असत्त्व हो जायगा। क्योंकि, प्रमाणों का उपजीव्य, अर्थात् कारण तो ब्रह्म ही है। और, कारण के अभाव में कार्य होता नहीं, यह सिद्ध है। इसलिए, प्रमाण का विषय न होने पर भी प्रमाणों का उपजीव्य होने के कारण ब्रह्म की सत्ता सिद्ध हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रमाणसिद्ध दो प्रकार का है—एक, प्रमाण का उपजीव्य होने से, दूसरा, प्रमाण का विषय होने से। पहले का उदाहरण—निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म, और दूसरे का भूत-भौतिक सकल प्रपञ्च। इस स्थिति में प्रमाणों का उपजीव्य होने से ब्रह्म की सिद्धि होने में कोई विरोध नहीं होता।

प्रमाणों के विषय में ऐसा समझना चाहिए कि प्रमाण अनेक हैं। यदि उनमें कोई प्रमाण किसी प्रमाणान्तर का विषय होने से सिद्ध भी हो जाता है, तो उस प्रमाणान्तर की सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाणान्तर की श्रेष्ठा बनी रहती है। इस अवस्था में अनवस्था दोनों की आपत्ति हो जाती है। इसलिए, किसी प्रमाण को प्रमाण का अविषय होने से स्वर्यसिद्ध मानना ही पड़ेगा, और उसको स्वतःप्रमाण भी मानना होगा। इस परिस्थिति में उस प्रमाण के साथक प्रमाणान्तर के न होने पर भी उसके अप्रमाणय की शङ्का नहीं हो सकती; क्योंकि उसका प्रामाणय स्वर्यसिद्ध है।

उदाहरण के लिए—सब दर्शनकारों के मत में प्रत्यक्ष को स्वतःप्रमाण माना गया है। प्रत्यक्ष-प्रमाण का प्रामाणय अनुमान आदि के द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता; क्योंकि, वह स्वतःसिद्ध है। अनुमान-प्रमाण का प्रामाणय प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध किया जाता है। जैसे—पूर्वत या किसी दूर-देश में धूम को देखकर अनुमान प्रमाण से अग्नि का निश्चय किया। बाद में वहाँ जाकर अग्नि को प्रत्यक्ष देखता है, इस प्रकार एक जगह अनुमान के प्रामाणय को प्रत्यक्ष-प्रमाण से सिद्ध कर उसी दृष्टान्त से सत्-हेतुमूलक अनुमान-प्रमाण का प्रामाणय अनुमान-प्रमाण से भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार शब्द-प्रमाण का भी प्रामाणय प्रत्यक्षमूलक ही होता है, किन्तु सर्वथा

प्रत्यक्षमूलक ही शब्द का प्रामाण्य होता है, इस प्रकार का कहीं नियम नहीं है, कारण यह है कि अदृष्ट अर्थ का प्रत्यक्ष होना हमलोगों के लिए असम्भव ही है। यह जो प्रमाणों का प्रामाण्य है, वह प्रमाणान्तर से उत्पन्न नहीं होता, किन्तु प्रमाणान्तर से गृहीत होता है, अर्थात् केवल उसका ज्ञान ही प्रमाणान्तर से होता है। प्रमाण की उत्पत्ति तो कहीं स्वतः, कहीं परतः होती है। इस विषय में आगे विचार किया जायगा।

### आत्मसाक्षात्कार का स्वरूप

ब्रह्म, प्रमाण से सिद्ध है, इस प्रकार का लोक में जो व्यवहार होता है, इसका तात्पर्य यही है कि प्रमाणों के प्राणप्रद होने से ब्रह्म प्रमाणसिद्ध है, प्रमाण के विषय होने से नहीं। द्वैतवादियों के मत में प्रमाण का विषय भी किसी प्रकार ब्रह्म हो सकता है, परन्तु अद्वैतवादियों के मत में किसी प्रकार भी ब्रह्म प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। कारण यह है कि अद्वैतात्मसाक्षात्कार होने पर त्रिपुरी का विलय हो जाता है, और उस समय न प्रमाता का प्रमातृत्व रहता है, न ब्रह्म का प्रमेयत्व ही। क्योंकि, प्रमातृ-प्रमेयभाव द्वैतमूलक होता है, और उस अवस्था में द्वैत का सर्वधा अभाव हो जाता है। दोनों के अभाव में प्रमाण का प्रमाणत्व भी स्वतः निवृत्त हो जाता है। इसी का नाम त्रिपुरी का विलय है।

यहाँ शङ्खा होती है कि यदि प्रमातृ-प्रमेय-भाव का विलय हो जाय, तब तो अद्वैतात्मसाक्षात्कार ही असम्भव हो जायगा। कारण यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव का ही नाम साक्षात्कार है। और, प्रत्यक्ष का अनुभव प्रमाता और प्रमेय के अधीन है। प्रमाता और प्रमेय के न रहने पर प्रत्यक्ष अनुभव-रूप आत्मसाक्षात्कार भी शश-भृङ्ग की तरह असम्भव हो जायगा।

इसका उत्तर यह होता है कि अद्वैत-साक्षात्कार का तात्पर्य है—द्वैत-साक्षात्कार का अभाव। अर्थात्, द्वैत-साक्षात्कार का न होना ही अद्वैतात्मसाक्षात्कार है। इस अवस्था में अन्यत्व का कुछ भी मान नहीं होता। इसी अवस्था-विशेष का वर्णन आनन्दस्वरूप 'भूमा' शब्द से छान्दोग्य-उपनिषद् में किया गया है—‘यो वै भूमा तत्सुखम्’, ‘यथा नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’, अर्थात् जिस अवस्था-विशेष में अन्यत्व का दर्शन, भवण और ज्ञान नहीं होता है, वही भूमा है, वही सुख अर्थात् आनन्द है। इसको समूल भेदभावना-निवृत्ति भी कहते हैं। इसी का नाम अद्वैतात्मसाक्षात्कार है। किसी प्रकार के द्वैत का मान न होना ही अद्वैतात्मसाक्षात्कार का वाच्य अर्थ है, यही इसका तात्पर्य है। मोहन बाईं आँख से देखता है, इस वाक्य का तात्पर्य यही होता है कि दाईं आँख से नहीं देखता। यहाँ याम नेत्र से दर्शन के सम्भव रहने पर भी, जिस प्रकार दक्षिण नेत्र से न देखने में ही उक्त वाक्य का तात्पर्य समझा जाता है, उसी प्रकार अद्वैतात्मसाक्षात्कार से द्वैत-साक्षात्कार का अभाव ही अर्थ समझा जाता है, यही भूति का तात्पर्य है। यहाँ अद्वैतात्मसाक्षात्कार की सम्भावना भी नहीं है; क्योंकि उस अवस्था में त्रिपुरी का

विलय होने से द्रष्टा और दृश्य का भेद ही नहीं रह जाता, जिसमें किसी प्रकार के अनुभव की सम्भावना हो। अतएव, द्वैत-साक्षात्कार का अभाव या समूल भेद-भावना की निवृत्ति में ही अद्वैतात्मसाक्षात्कार का तात्पर्य समझा जाता है।

अब यहाँ यह शङ्खा होती है कि, यदि ब्रह्म प्रमाण का विषय नहीं होता है, तो ब्रह्म का बोध कराने के लिए जो श्रुति की प्रवृत्ति होती है, वह किस प्रकार संगत होगी? और, ब्रह्म को उपनिषद्-प्रतिपाद्य भी बताया गया है—‘तं त्वैपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’, अर्थात् उस उपनिषद् से चिद्ब्रह्म को पूछता हूँ। ब्रह्म को प्रमाण का विषय न मानने से श्रुति से विरोध स्पष्ट हो जाता है।

इसका उत्तर यह होता है कि पूर्वोक्त जो अद्वैतात्मसाक्षात्कार की अवस्था है, उससे अव्यवहित पूर्वावस्था की प्राप्ति-पर्यन्त प्रमाणों की प्रवृत्ति निर्बाध रूप से होती है। क्योंकि, उसी अवस्था के अव्यवहित उत्तर-काल में अद्वैतात्मसाक्षात्कार होता है। आत्मसाक्षात्कार में ही विपुटी का विलय होता है, उस अद्वैतात्मसाक्षात्कार से अव्यवहित पूर्वावस्था प्राप्त कराने में ही उपनिषदों की सफलता है। इसी प्रकार, ब्रह्म में प्रमाणों की गति मानी जाती है। इससे यह चिद्ब्रह्म होता है कि अद्वैतवादियों के मत में प्रमाणों के प्राणप्रद होने से ब्रह्म की चिद्ब्रह्म होती है, और द्वैतवादियों के मत में प्रमाण के विषय होने से भी ब्रह्म चिद्ब्रह्म होता है।

### रामानुजाचार्य के मत में प्रमाण-नगति

अब यद्दृढ़ यद्विचार उपस्थित होता है कि किसी प्रकार भी ब्रह्म में प्रमाणों की गति हो, किन्तु जब ब्रह्म का बोध कराने के लिए प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है, उस समय द्वैत और अद्वैत में विरोध होने के कारण सन्देह होना अनिवार्य हो जाता है। कारण यह है कि प्रत्यक्ष-प्रमाण से द्वैत चिद्ब्रह्म होता है और श्रुति-प्रमाण से अद्वैत। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सन्देह होता है कि भेदग्राही प्रत्यक्ष-प्रमाण से अद्वैतप्रतिपादक श्रुति का बोध होता है, अथवा अभेदप्रतिपादक श्रुति से भेदग्राही प्रत्यक्ष प्रमाण का? इस विषय में कौन प्रमाण प्रबल है और कौन दुर्बल?

इसके उत्तर में रामानुजाचार्य का कथन है कि बलाबल का विचार यहाँ ही होता है, जहाँ बाध्य-बाधक-भाव रहता है। यहाँ बाध्य-बाधक-भाव ही यदि नहीं है, तो बलाबल का विचार ही कैसे हो सकता है। क्योंकि, भेदग्राहक प्रत्यक्ष भी प्रमाण ही है, और आत्मेत्यबोधक श्रुति भी प्रमाण है। यदि कोई शङ्खा करे कि यदि भेदग्राहक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, तो अभेदप्रतिपादक श्रुति किस प्रकार प्रमाण हो सकती है? क्योंकि, भेद और अभेद दोनों परस्पर-विशद धर्म हैं? इसके उत्तर में रामानुजाचार्य का कहना है कि शरीर और शरीर के एकत्र के अभिप्राय से ऐक्यप्रतिपादक श्रुति का भी विरोध नहीं होता। तात्पर्य यह है कि रामानुजाचार्य चित् और अचित् वर्ग को परमात्मा का शरीर मानते हैं। और, चित्-अचित्-शरीरविशिष्ट परमात्मा एक अद्वितीय तत्त्व है, यही ऐक्यबोधक श्रुति का तात्पर्य समझते हैं, और इसीलिए ये विशिष्ट द्वैतवादी कहे जाते हैं।

परन्तु, यह मत इनके अतिरिक्त और किसी को रुचिकर प्रतीत नहीं होता। उनका कहना है कि चित्-अचित्-वर्ग के साथ परमात्मा का शरीर-शरीरी-भाव सम्बन्ध मानने पर भी चित् और अचिदात्मक प्रपञ्च परमात्मा का शरीर हो सकता है, परन्तु परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। इस अवस्था में 'इदं सर्वं यद्यमात्मा', अर्थात् यह दृश्यमान सकल-प्रपञ्च आत्मा ही, अर्थात् आत्मस्वरूप ही है, इत्यादि श्रुतिप्रतिपादित प्रपञ्च का आत्म-स्वरूपत्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए, किसी प्रकार लक्षणा-वृत्ति से आत्म-स्वरूप का तात्पर्य आत्मशरीर मानना होगा। 'मनुष्योऽहम्, गौरोऽहम्', इत्यादि प्रयोगों-जैसा यदि 'इदं सर्वं यद्यमात्मा' इसको निरुद्ध प्रयोग मानें, तो भी निरुद्ध-लक्षणा मानना होगा। विना लक्षणा किये इनके मत में श्रुति की संगति नहीं हो सकती। इस प्रकार की खींचातानी से लक्षणा-वृत्ति मानकर श्रुति का तात्पर्य लगाने पर भी अभिधा-वृत्ति से स्पष्ट प्रतीयमान अर्थ के साथ सामज्ज्ञस्य नहीं होता, इसलिए स्वरसतः प्रतीयमान स्पष्ट जो श्रुति का अर्थ है, उसका निरादर ही सूचित होता है।

शङ्कराचार्य के मतानुयायियों का कहना है कि रामानुजाचार्य वास्तव में श्रुति को प्रमाण नहीं मानते, परन्तु नास्तिकों के समान ऐसा कहीं पर भी नहीं कहते कि श्रुति प्रमाण नहीं है। कारण यह है कि श्रुति को प्रमाण न मानने से नास्तिकों के समान इनके वचन पर भी आस्तिकों का विश्वास नहीं होता। सर्वत्र इनकी यही शीली रही है कि अनुमान-प्रमाण से किसी अर्थ का निश्चय करने के बाद यदि श्रुति या किसी सूत्र के साथ विरोध हो, तो उस श्रुति या सूत्र का अर्थ, खींच-तान कर अपने अभिमत अर्थ के अनुसार लगाने की चेष्टा करते हैं। परन्तु, वह वस्तुतः श्रुति या सूत्र का तात्पर्य नहीं होता।

### व्रह्म में प्रमाणगति : शङ्कर मत

इस विषय में शङ्कराचार्य का अपना विद्वान्त यह है कि 'तत्त्वमसि' (छा० उ०), 'अहं ब्रह्मस्मि' (३० उ०), इत्यादि जो ऐक्यप्रतिपादक श्रुतियाँ हैं, उनका शरीर-शरीरी-भाव से आत्मैक्यप्रतिपादन में तात्पर्य नहीं है; क्योंकि इसमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। यदि यह कहें कि ब्रह्म और जीव में वास्तविक ऐक्य मानने पर प्रमानु-प्रमेय-भाव न होने से अद्वैतात्मसाक्षात्कार ही असम्भव हो जाता है, तो इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं कि, विशद्भावना-निवृत्ति ही अद्वैतात्मसाक्षात्कार का तात्पर्य है, और विशद्भावना-निवृत्ति-न्यर्यन्त ही प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है।

किसी का मत है कि, द्वैतप्रत्यक्ष और अद्वैतात्मसाक्षात्कार, इन दोनों के काल-भेद से अवस्था-भेद होने के कारण परस्पर-विरोध नहीं हो सकता; क्योंकि एक वस्तु का कालान्तर में विभिन्न रूप से भासित होना असम्भव नहीं है। परन्तु, यह मत भी ठीक नहीं है। क्योंकि, यदि प्रत्यक्ष सिद्ध द्वैत की सत्य मान लें, तब तो कालान्तर में भी द्वैत का नाश न होने से अद्वैत असम्भव ही हो जायगा। शरीर-शरीरी-भाव मानने पर भी शरीरविशिष्ट में आत्मत्व के न रहने से श्रुति के अभिमत सत्य अद्वैत की सम्भावना ही नहीं हो सकती। इसलिए, प्रत्यक्षसिद्ध द्वैत और श्रुति-प्रमाण

से सिद्ध जो अद्वैत है, उन दोनों में किसी एक को आरोपित मानना परमावश्यक हो जाता है। और, जिसको आरोपित माना जायगा, वह आरोपित वस्तुविषयक होने से दोषमूलक ही होगा। इसलिए, प्रमाणाभास होने से वही बाध्य होगा।

यहाँ एक बात और भी जानने योग्य है कि आरोप दो प्रकार का होता है— एक आहार्य, दूसरा अनाहार्य। अनाहार्य आरोप भ्रम ही होता है। इसलिए, वहाँ आरोपित वस्तु मिथ्या ही होती है और इसलिए, मिथ्याभूत आरोपित वस्तु के बोधक प्रमाण के भी आभास-मात्र होने से वह अप्रमाण ही होगा। आहार्यारोप-स्थल में इस प्रकार का नियम नहीं है।

यद्यपि आहार्यारोप-स्थल में भी, अधिष्ठान-प्रदेश में आरोपित वस्तु का अभाव ही रहता है, तथापि आरोपित वस्तु में जो गुण है, उसके सदृश अधिष्ठान में रहनेवाले गुण का बोध करनेवाला प्रमाणभूत वचन अप्रमाण नहीं हो सकता। जिस प्रकार, ‘भूर्योऽयं ब्राह्मणः’, ‘रिहोऽयं माणवकः’,—यह ब्राह्मण सूर्य है, यह लड़का सिंह है, इन वाक्यों से ब्राह्मण में सूर्य का और लड़के में सिंह का आरोप किया जाता है, परन्तु यह आरोप भ्रममूलक नहीं है। क्योंकि, आरोप-काल में भी यह ब्राह्मण सूर्य नहीं है, यह लड़का सिंह नहीं है, इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान बना रहता है। इस स्थल में ब्राह्मण में सूर्यत्व के और माणवक में रिहत्व के अभाव का ज्ञान रहते हुए भी उसके विवर माणवक में सिंह का और ब्राह्मण में सूर्य का जो हठात् आरोप किया जाता है, वही आहार्यारोप है।

ऐसे स्थल में ब्राह्मण में सूर्य का और माणवक में सिंह का तादात्म्य, न वक्ता ही समझता है और न श्रोता को ही ऐसा ज्ञान होता है। किन्तु, सूर्य तेजस्वी के रूप में प्रसिद्ध है और सिंह भी चीर के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में, ब्राह्मण में अतिशय तेजस्विता और माणवक में अतिशय वीरता का बोध कराने में ही वक्ता का तात्पर्य समझा जाता है, और श्रोता भी ऐसा ही समझता है। इसलिए, ऐसे स्थलों में इस प्रकार का वाक्य अप्रमाण नहीं होता।

### थ्रुति और प्रत्यक्ष में अन्यता का आरोप

प्रकृत में, प्रत्यक्ष-प्रमाण से सिद्ध द्वैत को यदि सत्य मानें, तो थ्रुति-प्रमाण गेरिद अद्वैत अवश्य आरोपित मानना होगा, यह एक पक्ष है। दूसरा, इससे विपरीत, यदि थ्रुति-प्रमाण से सिद्ध अद्वैत को सत्य मानें, तो प्रत्यक्ष-प्रमाणसिद्ध द्वैत को आरोपित मानना आवश्यक होगा। यदि पहला पक्ष, अर्थात् द्वैत को सत्य मानकर अद्वैत को आरोपित मानें, तो थ्रुति ने हठात् अद्वैत का आरोप किया है, यह मानना होगा। इस अवस्था में यह आहार्यारोप होगा, अनाहार्यारोप नहीं हो सकता; क्योंकि अनाहार्यारोप भ्रममूलक होता है, और थ्रुति को प्रमाण माननेवाले थ्रुति का भ्रम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते।

यदि दूसरा पक्ष अर्थात् अद्वैत को सत्य मानकर द्वैत को आरोपित मानें, तब तो अनाहार्यारोप ही मानना होगा, आहार्यारोप नहीं मान सकते; क्योंकि आहार्यारोप

मानने पर प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतीत जो द्वैत है, उसको जीवात्माओं से हठात् कल्पित मानना होगा, जो अनुभव से विशद होने के कारण असंगत होगा। क्योंकि, कल्पित वस्तु प्रत्यक्ष का विषय नहीं होती है, और द्वैत का प्रत्यक्ष होना सिद्ध है। एक बात और भी है कि जहाँ कहीं पर किसी अन्य वस्तु को कल्पना की जाती है, वहाँ वास्तव में वह कल्पित वस्तु नहीं रहती, ऐसी प्रतीति निरन्तर वनी रहती है। अतएव, कल्पित-वस्तु-प्रयुक्त व्यवहार कोई भी नहीं करता। जैसे—‘सूर्योऽर्थं ब्राह्मणः’, यहाँ ब्राह्मण को सूर्य मानकर कोई भी अर्थ नहीं देता। और, ‘सिंहोऽर्थं माणवकः’, यहाँ माणवक को सिंह समझकर कोई भी डरता नहीं है, और न कोई उसको हिंख समझकर उसे मारने के लिए ही तैयार होता है। अर्थात्, अद्वैत को सत्य मानकर द्वैत को आरोपित मानने से सब विपरीत हो जाता है। द्वैत को सत्य समझकर सकल सांसारिक व्यवहार चलता है। सकल प्राणी परमात्मा से अपने में भेद समझकर लौकिक या शास्त्रीय कार्य में प्रवृत्त होते हैं। यदि प्राणिवर्ग परमात्मा से अपने में भेद हठात् किया हुआ समझता, तो आरोपित भेद-प्रयुक्त लौकिक व्यवहार कदापि उपनिषद् नहीं होता, जैसे—पूर्वोक्त ‘सूर्योऽर्थं ब्राह्मणः’, ‘सिंहोऽर्थं माणवकः’ इत्यादि स्थलों में नहीं होता है। अतः, यहाँ आहार्यारोप न मानकर भ्रममूलक अनाहार्यारोप ही मानना होगा।

इस अवध्या में चार पक्ष होते हैं—(१) द्वैत की सत्यता में अद्वैत का अनाहार्यारोप, (२) द्वैत की सत्यता में अद्वैत का आहार्यारोप, (३) अद्वैत की सत्यता में द्वैत का अनाहार्यारोप और (४) अद्वैत की सत्यता में द्वैत का आहार्यारोप। इन चार सम्भावित पक्षों में चतुर्थ तो उक्त युक्ति से हो नहीं सकता, और न इसको कोई मानता ही है। इसी प्रकार, प्रथम पक्ष भी इष्ट नहीं है। परन्तु, श्रुति को प्रमाण न माननेवाले चार्वाक आदि नास्तिकों के मत से यह पक्ष किसी प्रकार सम्भव हो सकता है; क्योंकि ये लोग ऐसा मानते हैं कि शब्द-प्रमाण-जन्य भ्रम अद्वैतवादियों को होता है। इसका विवेचन आगे किया जायगा। चतुर्थ और प्रथम पक्ष के अमान्य होने से द्वितीय और तृतीय पक्ष बचता है। द्वैत के सत्यत्व में अद्वैत का आहार्यारोप और अद्वैत के सत्यत्व में द्वैत का अनाहार्यारोप, इन दोनों में कौन ग्राह्य है, इसके ऊपर विचार करना है। श्रुति-प्रमाण की अपेक्षा प्रत्यक्ष-प्रमाण को यदि प्रबल मानें, तो द्वितीय पक्ष ग्राह्य होगा। और, यदि प्रत्यक्ष की अपेक्षा श्रुति को प्रबल मानें, तो तृतीय पक्ष, अर्थात् अद्वैत के सत्यत्व, में द्वैत का अनाहार्यारोप ग्राह्य मानना होगा। अब कौन प्रमाण प्रबल है, यह विचारणीय है।

किसी का कहना है कि इस विषय में संशय नहीं हो सकता, कारण यह है कि प्रत्यक्ष-प्रमाण प्रत्यक्ष से भिन्न सब प्रमाणों का उपजीव्य (कारण) होता है। इसलिए, उसका प्रमाणान्तर से बाध होना सम्भव नहीं। किन्तु, प्रत्यक्ष से ही इतर प्रमाणों का बाध करना सम्भव है। इस पर दूसरों का कहना है कि उपजीव्य का किसी प्रमाणान्तर से बाध नहीं होता, यह तो युक्त प्रतीत होता है, परन्तु उपजीव्य से प्रमाणान्तर का बाध होता है, यह कहना यसुचित प्रतीत नहीं होता। कारण यह है कि यदि उपजीव्य उपजीव्यक का बाधक हो, तब तो

उपजीव्य रहेगा ही नहीं ; क्योंकि उपजीवक का सापेक्ष ही उपजीव्य होता है, जैसे नियम का सापेक्ष नियामक । उपजीव्य से उपजीवक का बाध होने पर उपजीवक का ही अभाव हो जायगा । इस अवस्था में, उपजीवक के न रहने से उपजीव्य की स्वरूप-दानि हो जायगी । कारण यह है कि उपजीव्य का उपजीव्यत्व तभी रह सकता है, जब उपजीव्य का निरूपक दूसरा कोई उपजीवक रहे । इस स्थिति में, दोनों में कोई भी किसी का बाध्य या बाधक नहीं हो सकता ; क्योंकि दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, अतएव दोनों में एक के बिना एक नहीं रह सकता । इसलिए, उपजीव्य-विरोध होने से संशय नहीं हो सकता, यह पक्ष सिद्ध हो जाता है ।

इसके उत्तर में यह कहना कि संशय नहीं हो सकता, ठीक नहीं है; क्योंकि लोक में होनेवाला प्रत्यक्ष एक ही प्रकार का नहीं होता । किन्तु, प्रमाता, प्रमेय और देश, काल आदि के भेद से अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष हुआ करते हैं । जैसे—देवदत्त के जायमान प्रत्यक्ष से मैत्र का प्रत्यक्ष शान भिन्न है, और देवदत्त के ही जायमान घट-ज्ञान से उसी का घट-ज्ञान भिन्न है । इसी प्रकार, गत दिन होनेवाले घट-ज्ञान से आज का घट-ज्ञान भिन्न होता है । तद्दृष्टि, देश और काल के भेद से अनन्त प्रकार के प्रत्यक्ष शान होते रहते हैं । इसी प्रकार, अनन्त-प्रत्यक्ष प्रमा के ग्राहक प्रत्यक्ष-प्रमाण भी अनन्त प्रकार के हो सकते हैं ; व्योंकि जितने प्रकार के शान हो सकते हैं, उतने ही उनके ग्राहक प्रमाण-व्यक्ति का होना भी नितान्त आवश्यक है । इसी प्रकार, अनुयानादि के विषय में भी अनन्त प्रमाण-व्यक्ति हो सकते हैं ।

इस परिस्थिति में, प्रमाण-व्यक्ति के अनन्त होने के कारण जिस प्रत्यक्ष-व्यक्ति को कारण मानकर प्रमाणान्तर की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रमाणान्तर से उसी प्रत्यक्ष-व्यक्ति के बाध होने से उपजीव्य-विरोध कह सकते हैं, किन्तु दूसरे प्रत्यक्ष-व्यक्ति के उसी प्रमाणान्तर से बाध होने पर उपजीव्य-विरोध नहीं हो सकता ; क्योंकि वह दूसरा प्रत्यक्ष-व्यक्ति उस प्रमाणान्तर का उपजीव्य नहीं है । उदाहरण के लिए—देवदत्त का उपजीव्य जो अपना पिता है, उसके साथ विरोध होने से लोक में उपजीव्य-विरोध माना जाता है, हालाँकि अपने पिता के अतिरिक्त दूसरे किसी के साथ उसी देवदत्त का विरोध होने पर उपजीव्य-विरोध नहीं माना जाता, यद्यपि वह दूसरा व्यक्ति देवदत्त का अपना उपजीव्य नहीं है । और भी, जिस प्रकार रसी में होनेवाला जो सर्प का प्रत्यक्ष है, वह ‘नायं सर्पः’ यह आसवाक्य-जन्य ज्ञान से बाधित होता है । उस सर्प-प्रत्यक्ष का बाधक जो शब्द-जन्य ज्ञान है, उसका उपजीव्यभूत-प्रत्यक्ष ‘नायं सर्पः’ इस धार्य का अवश्य है । ‘नायं सर्पः’ इस शब्द-जन्य ज्ञान से सर्प-प्रत्यक्ष के बाध होने पर भी ‘नायं सर्पः’ इस धार्य-विषयक जो आवण-प्रत्यक्ष है, उसका बाध नहीं होता । व्योंकि, ‘नायं सर्पः’ यह जो आवण-प्रत्यक्ष है, वह शब्द-जन्य ज्ञान, जिससे सर्प-प्रत्यक्ष का बाध होता है, का उपजीव्य है ।

एक बात और जानने योग्य है कि जहाँ विरोध रहता है, वही बाध्य-बाधक-माव होता है, और विरोध न रहने पर बाध्य-बाधक-माव की शङ्खा ही नहीं उठती । कारण यह है कि जिस प्रमाण-व्यक्ति का जो प्रमाण-व्यक्ति उपजीव्य या ग्राणप्रद या

अनुग्राहक अथवा अग्रेसर है, उसके साथ उस प्रमाण-व्यक्ति के बाध्य-बाधक-भाव की शङ्का ही किस प्रकार उठ सकती है । क्योंकि, ऐसे स्थलों में प्राणप्रद होने के कारण अथवा उपजीव्य या अनुग्राहक या अग्रेसर होने के कारण, नित्य-सम्बन्ध होने से, विरोध ही नहीं रहता, इसलिए यहाँ बाध्य-बाधक-भाव की सम्भावना ही नहीं है ।

### शब्द-प्रमाण से श्रावण-प्रत्यक्ष का भी बाध

अब बाध्य-बाधक-भाव के प्रसंग में कुछ अनुपेक्षणीय आवश्यक विषयों का भी विवेचन किया जायगा । यह सर्व-सिद्धान्त है कि शब्द-प्रमाण की प्रवृत्ति, शब्द-विपर्यक श्रावण-प्रत्यक्ष के अधीन है । अर्थात्, जबतक शब्द का श्रावण-प्रत्यक्ष नहीं होता, तबतक शब्द-प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । इसी कारण, श्रावण-प्रत्यक्ष शब्द-प्रमाण का उपजीव्य सिद्ध होता है । इस अवस्था में यह आशङ्का होना स्वाभाविक है कि 'तत्त्वमस्ति', 'इदं सर्वं यदयमात्मा', 'नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि अद्वैत-न्यवस्थापक जो अनेक श्रुतियाँ हैं, उनसे श्रावण-प्रत्यक्ष में प्रतीयमान जो शातृ-ज्ञेय-प्रयुक्त भेद है, उसका बाध होता है, अथवा नहीं ? यदि श्रुति-प्रमाण से श्रावण-प्रत्यक्ष में प्रतीयमान भेद का बाध मानें, तब तो उपजीव्य-विरोध हो जाता है, जिसका परिहार होना असम्भव है; क्योंकि शातृ-ज्ञेय-प्रयुक्त भेद का बाध मानने से प्रमाण का प्रमाणत्व ही नष्ट हो जाता है । यदि शातृ-ज्ञेय-प्रयुक्त भेद का बाध न मानें, तब तो भेद के अवाधित होने से सत्य मानना होगा, जो अद्वैत-सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है ।

इस दुर्घट समस्या को सुलझाने के लिए इस प्रकार विचार करना होगा— लोक में देखा जाता है कि कोई भी मनुष्य अपने उपजीव्य के विरोध में प्रवृत्त नहीं होता, या विरोध करने की इच्छा भी करता । परन्तु, कितने ऐसे भी महापुण्य हैं, जो अपने आवश्यम्भावी विनाश की ओर ध्यान न देकर परोपकार, या दूसरों को विपत्ति से उद्धार करने में सहार्प प्रवृत्त हो जाते हैं । यहाँ विचारना यह है कि यदि परोपकार के लिए जो व्यक्ति सबसे बढ़कर प्रिय अपने प्राण को भी कुछ नहीं समर्कता, वह अपने उपजीव्य-विरोध के लिए क्यों ध्यान देगा । वह परोपकार में ही अपना परम कल्याण मानता है । उदाहरण के लिए—

देवदत्त नाम का एक बहुत गरीब व्यक्ति था । वह सुन्दर, सुशील और पढ़ा-लिखा विद्वान् था । वह अपने रोगी और अशक्त पिता तथा परम वृद्ध और अङ्गविकल पितामह का भिक्षा-वृत्ति से पालन करता था । एक समय परम समृद्ध कोई राजा यदृच्छया धूमते हुए वहाँ आ पहुँचे । उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए एक सुयोग्य व्यक्ति को गोद लेना चाह रहे थे । देवदत्त के शील, सीन्दर्य और योग्यता से बहुत प्रमाणित होकर राजा ने उसे गोद लेने के लिए उसके पिता से माँगा । पुत्रवत्सल पिता ने पुत्र की भलाई के लिए उसे राजा के अधीन कर दिया । पुत्र के हित को अपना प्रधान कर्त्तव्य मानकर उसके वियोग से अवश्य होनेवाली अपनी कष्टमयी दशा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । यहाँ देवदत्त के पिता ने राजा के लिए देवदत्त का जो समर्पण किया, उससे देवदत्त के पिता के तुल्य ही उसके पितामह की

भी कष्टमयी दशा होने की सम्भावना है, किर भी देवदत्त के पिता की उपजीव्य-विरोध-प्रयुक्त लोक में निन्दा नहीं होती, किन्तु पुत्रवत्यजता या परोपकारिता के कारण प्रशंसा ही होती है।

इस प्रकार, कितने देशभक्तों का उदाहरण प्रसिद्ध है, जिन्होंने देशोदार के लिए अपने असहाय माता-पिता को छोड़कर अपने प्राण तक को उमर्जित कर दिया है। इससे भी उपजीव्य-विरोध-प्रयुक्त उनकी निन्दा नहीं होती, प्रत्युत उनके आदर के लिए स्मारक बनाये जाते हैं।

तात्पर्य यह है कि उपजीव्य-विरोध वहीं होता है, जहाँ अपने किये हुए आचरण से अपनी माविनी जो दशा है, उसकी अपेक्षा अधिक कष्टदायिनी अवस्था अपने उपजीव्य को प्राप्त हो। देवदत्त को देने से उसके पिता की जो दशा होनेवाली है उसकी अपेक्षा देवदत्त के पितामह की अधिक कष्टदायिनी अवस्था अपने उपजीव्य को प्राप्त हो। अथवा यों कहिए कि अपने सुख के लिए किया गया जो आचरण है, उससे यदि अपने उपजीव्य की हानि होती ही, तो वहाँ उपजीव्य-विरोध होता है। यहाँ देवदत्त के पिता, या देश-मक्त अपने सुख के लिए कुछ आचरण नहीं करते, इसलिए यहाँ उपजीव्य-विरोध नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार, यहाँ प्रकृत में 'इदं सर्वं यदयमात्मा', 'नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि आत्मैकत्वप्रतिपादक जो श्रुति है, वह, अद्वैतात्मसच्चात्मकार होने पर प्रमातृ-प्रमेय-भाव के विलय होने से अपना प्रमाणात्म भी नष्ट हो जायगा, यह जानती हुई भी माता के सदरा दया के परवश होकर सुमुकुजनों को आत्मसच्चात्मकार कराने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। इस अवस्था में, अपने संरक्षण के लिए श्रुति का व्यापार यदि नहीं रहता, तो अपने उपजीव्य-प्रस्त्यक्ष-प्रमाण के संरक्षण में भी व्यापार नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए।

निष्कर्ष यह कि आत्मैक्य-प्रतिपादक जो श्रुतियाँ हैं, वे बाच्य-बाचक-भाव-सम्बन्ध-प्रयुक्त भेद के द्वारा ही प्रवृत्त होती हैं, उसके प्रवृत्त होने के बाद उक्त सम्बन्ध-प्रयुक्त भेद क्षण-भर भी नहीं रह सकता, और उस भेद के अभाव में अपना अर्पात् अृति-प्रमाण का भी अभाव होना निश्चित है। इस प्रकार का निश्चित ज्ञान रहने पर भी श्रुति सुमुकुज्ञों के हित ही अपना परम कर्त्तव्य समक्ती हुई, दया के परवश होने से, यह अवश्य मेरा कर्त्तव्य है यह मानकर, अवश्य होनेवाला अपने विनाश की ओर ध्यान नहीं देकर, जिशासुआं को अद्वैत-तत्त्व का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। इस परिस्थिति में, आगे होनेवाले किसी भी परिणामविशेष के ऊपर ध्यान न देने से अपने विनाश के सदरा ही अपने उपजीव्य शावण-प्रत्यक्ष के ऊपर भी ध्यान न होने के कारण, किसी प्रकार भी उपजीव्य-विरोध नहीं कह सकते। कारण यह है कि जो विरोध मानकर विरोध किया जाता है, वही विरोध कहा जाता है। स्वनन्धय बालक जो अपनी माता को लात मारता है, यह उपजीव्य-विरोध नहीं माना जाता। इसीलिए, उसकी माता कुद नहीं होती, प्रत्युत बदले में तुम्बन के द्वारा अपना प्रेम ही दिलाती है। इस प्रकार, अद्वैतप्रतिपादक श्रुति से अपना उपजीव्य शावण-प्रत्यक्ष में

रहनेवाला जो ज्ञातु-शेय-सम्बन्ध-प्रयुक्ति-मेद का प्रत्यक्ष है, उसका बाध होने पर भी उपजीव्य-विरोध नहीं होता।

इस अवध्या में, मेदग्राही प्रत्यक्ष और अभेदग्राहिणी श्रुति, इन दोनों में कौन प्रबल है और कौन दुर्बल, और कौन बाधक है, कौन बाध्य? इस प्रकार का पूर्वोक्त प्रश्न उसी प्रकार रह जाता है। इसका विचार किया जायगा।

### वाध्य-बाधक-भाव में स्थूल विचार

बाध्य-बाधक-भाव के विषय में साधारण स्थूलतुद्विवाले मनुष्य इस प्रकार आलोचना करने हैं—‘इदं सर्वे यदयमात्मा’ यह जो श्रुति है, वह सब काल में आत्मैव्य अर्थात् अभेद का प्रतिपादन करती है, इसलिए वह वर्त्तमानकालिक भेदग्राही प्रत्यक्ष से विरुद्ध होती है। और, ‘आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्’ यह श्रुति सृष्टि के पहले आत्मैव्य (अभेद)-प्रतिपादन करती है। इसलिए, वह प्रत्यक्ष से विरुद्ध नहीं होती; क्योंकि उस समय प्रत्यक्ष होना असम्भव है। किन्तु, प्रत्यक्षमूलक अनुमान प्रमाण से विरुद्ध होता है। अनुमान का प्रकार यह है—‘प्रमाता (पक्ष) पूर्वमपि प्रमेयाद्विजः (याध्य), प्रमातृत्वात् (हेतु), इदानीन्तनप्रमातृवत् (दृष्टान्त)।’ अर्थात्, प्रमाता पहले भी प्रमेय से भिन्न होगा और प्रमाता होने के कारण, वर्त्तमानकालिक प्रमाता के समान। अथवा—‘प्रमेयम्, प्रमातुः सकाशात् पूर्वमपि भिन्नम्, प्रमेयत्वात्, इदानीन्तन-प्रमेयवत्’—अर्थात् प्रमेय, प्रमाता से पहले भी भिन्न था, प्रमेय होने के कारण। जो-जो प्रमेय होता है, वह प्रमाता से भिन्न ही होता है, इस समय के प्रमेय के सदृश। इस प्रकार, दोनों अनुमानों से श्रुति विरुद्ध होती है। अतएव, श्रुति कहीं प्रत्यक्ष से विरुद्ध होती है, और कहीं अनुमान से।

अब यहाँ यह विचार उपस्थित होता है कि केवल एक श्रुति से प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों का बाध होगा, या इन दोनों से एक श्रुति का? अर्थात्, दो से एक प्रबल है, या एक से दो? इस प्रश्न के उत्तर में किसी का मत है कि एक की अपेक्षा दो की प्रबल मानना उचित है। लोक में भी एक की अपेक्षा दो की बात अधिक मानी जाती है। इसलिए, ‘प्रमाणद्वयाऽनुग्रहो न्यायः’—इस न्याय से प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणों से एक श्रुति का ही बाध मानना समुचित होगा। अतएव, प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध श्रुति को गौणार्थ मानकर किसी प्रकार से अपने सिद्धान्त के अनुसार उसका अर्थ लगाया जाता है।

### वाध्य-बाधक-भाव में सूक्ष्म विचार

परन्तु, सूक्ष्म विचार करनेवाले मेधावियों के इस कथन पर है कि दो से एक का बाध होता है, या एक से दो का, विचार करना उचित नहीं है। क्योंकि, नेत्रवाला एक ही पुरुष यदि सर्वोदय का होना चाहता है, तो उसके सामने हजारों रात माननेवाले अन्धों की बात प्रमाण नहीं होती। इस अवस्था में, निर्णय किस प्रकार किया जाय, यह विचार उपस्थित होता है। इस विषय में सबसे पहले यह विचारना है कि जगत् का मूल कारण एक है या अनेक? इसके निर्णय के बाद ही

वर्तमान वस्तुओं का निर्णय करना सुलभ है। और, मूल तत्त्व का अन्वेषण प्रत्यक्ष प्रमाण से ही नहीं सकता; क्योंकि इन्द्रियों की गति ही नहीं है। केवल श्रुति-अनुमान की ही वहाँ गति ही सकती है। वहाँ भी श्रुति को यदि मुख्य मानें और अनुमान को उसका पार्पद, तब तो अनुमान की अपेक्षा श्रुति ही प्रबल होगी।

इन सम्भावित दोनों पक्षों में कौन युक्त है? इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि मतभेद से दोनों ही पक्ष ठीक ही सकते हैं। कारण यह है कि मारतीय दर्शनकार दो प्रकार के हुए हैं—एक श्रौत और दूसरा तार्किक। मूल तत्त्व के अन्वेषण में जो श्रुति को ही सबसे बढ़कर प्रधान साधन मानते हैं, वे ही श्रौत कहे जाते हैं। श्रौतों का कहना है कि मूल तत्त्व का अनुसन्धान करना श्रुति के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से असम्भव है। इसीलिए, ये वेदवादी कहे जाते हैं। वेदान्तियों का भी यह मुख्य सिद्धान्त है। अत्यन्त परोक्ष जो जगत् का मूल कारण है, उसका निश्चय ये लोग श्रुति की ही सहायता से करते हैं। श्रुति से सिद्ध अर्थ यदि अनुमान से विशद् या असम्भव प्रतीत हो, तो भी वही सत्य है, ऐसा इनका दृढ़ विश्वास है। इसी अभिप्राय से सायण माघवाचार्य ने वैदिकों के विषय में कहा है कि, 'न हि वेदप्रतिपादितेऽर्थं अनुपपन्ने वैदिकानां बुद्धिः खिलते, अपितु तदुपपादनमार्गमेव विचारयन्ति', अर्थात् वेद-प्रतिपादित अर्थ के अनुपपन्न या असम्भव प्रतीत होने पर भी वैदिकों की बुद्धि खिल नहीं होती है, प्रत्युत वे उसके उपपादन-मार्ग का ही अन्वेषण करते हैं। यदि कोई अनुमान के द्वारा श्रुति-विशद् अर्थ को सिद्ध करे, तो उसको ये लोग नहीं मानते, और उस अनुमान को भी 'अनुमानाभास' कहते हैं। इसी प्रकार, श्रुति से विशद् समृति भी इनके मत में प्रमाण नहीं मानी जाती है। मीमांसा-शास्त्र के प्रवर्तक महर्षि जैमिनि भी श्रौत ही हैं। इसलिए, उन्होंने 'विरोधे त्वनपेचं स्यादसति ह्यनुमाने', 'श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थानसमाख्यानां पारदीर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्' इत्यादि सूत्रों के द्वारा सब प्रमाणों को अपेक्षा श्रुति को ही अभ्यर्हित प्रमाण माना है।

जैमिनि के सदरा ही पाणिनीय भी श्रौत ही हैं। इसीलिए, आन्तरसमानायमूलक सूत्र को भी वेद की तरह प्रमाण और अपरिवर्त्तनीय मानते हैं। 'छन्दोवत्स्त्राणि भवन्ति', 'छन्दसि दृष्टानुविधिः' यह पाणिनीयों का परम सिद्धान्त है। इससे सूत्र का भी सब प्रमाणों से अभ्यर्हित होना सिद्ध होता है। श्रुति के विषय में पाणिनीयों का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में लिखा है—

'न चागमादते धर्मः तकेण व्यवतिष्ठते ।  
श्रीपीणामपि यज्ञानं तदप्यागमहेतुकम् ॥१॥  
धर्मस्य चाध्यवच्छिक्षाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः ।  
नत्तद्विलोकप्रसिद्धत्यात् कश्चित्कर्णण वाधते ॥२॥  
अवस्थादेशकालानां भेदान्तिकासु शक्तिषु ।  
भावाभासनुमानेन प्रसिद्धिरति दुर्लभा ॥३॥  
चैतन्यमिव यशायमविच्छेदैन वर्तते ।  
आगमस्तमुरासीनो हेतुवादैर्न वध्यते ॥४॥'

तात्पर्य यह है कि आगम, अर्थात् वेद या श्रुति, के बिना केवल तर्क से धर्म की व्यवस्था नहीं कर सकते। श्रुतियों का भी ज्ञान श्रुतियों के ही कारण है ॥१॥ धर्म का जो मार्ग संसार में अनादि काल से अविच्छिन्न रूप में व्यवस्थित है, लोक में प्रसिद्ध होने के फारण उसका किसी से बाध नहीं होता ॥२॥ अवस्था, देश और काल के भेद से पदार्थों की शक्ति विभिन्न प्रकार की हो जाती है, जैसे विलक्षणशक्तिशाली व्यक्ति भी परिस्थितिवश दुर्बल या निर्बल हो जाता है। युधावस्था का बल वृद्धावस्था में नहीं रहता। देश के भेद से, हिमालय का जल जिस प्रकार शीतल होता है, राजगृह-थिनिंकुरड का जल जैसे उष्ण होता है, उस प्रकार अन्य देश का नहीं होता। काल भेद से, जिस प्रकार ग्रीष्म शून्य में सर्व या आग का तेज अस्त्वा होता है, उस प्रकार शीतकाल में नहीं। इस प्रकार अवस्था, देश और काल के भेद से पदार्थों की शक्ति में भेद होने के कारण अनुमान से उसकी सिद्धि अत्यन्त दुर्लभ है ॥३॥ जिस प्रकार अहं, मम, अर्थात् मैं, मेरा, इस प्रतीति में अनुगत रूप से भास्त्रमान जो चैतन्य है, उसका किसी प्रमाण से बाध नहीं होता, उसी प्रकार श्रुति-स्मृति-लक्षण जो आगम अविच्छिन्न प्रवाह-रूप में सनातन काल से चला आ रहा है, उसकी उपासना करनेवाले किसी भी तर्क के द्वारा विचलित नहीं किये जा सकते ॥४॥

इसी प्रकार, भाष्यकार पतञ्जलि ने भी कहा है—‘शब्दप्रमाणका वयम्, यच्छब्द आह तद्स्माकं प्रमाणम्’, अर्थात् हमलोग शब्दप्रमाण माननेवाले हैं, जो शब्द (वेद) कहता है, वही हमारे लिए प्रमाण है। इस प्रकार, अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पाणिनीय भी पूर्ण वैदिक अर्थात् थीत हैं। ब्रह्मसूत्रकार बादरायण भी थीत ही हैं। इसीलिए, उन्होंने वेदान्त-सूत्र में ‘शास्त्रयोनित्यात्’, ‘थुतेस्तु शब्दमूलत्वात्’ इत्यादि सूत्रों की रचना की है। पहले सूत्र में, अचिन्त्य ब्रह्म में श्रुति को ही सर्वान्धित प्रमाण माना है। द्वितीय सूत्र से ब्रह्म को निरवयव या सावयव मानने में कृत्स्न-प्रसक्ति और निरवयवत्व शब्दकोप का जो आचेष किया गया है, उसका समाधान केवल श्रुति-प्रमाण से ही किया गया है। महाभारत में भी व्याघ्रदेव ने कहा है—‘अचिन्त्याः खलु ये मावाः न ताँस्त्वेण योजयेत्’ (भीष्म-पर्व, ४।१२।)। अर्थात्, जो वस्तु अचिन्त्य, अथवा मन और बुद्धि से परे है, उसका साधन तर्क के बल पर न करे। इसलिए, अचिन्त्य पदार्थों के विषय में श्रुतिविरुद्ध अर्थ के साधन के लिए जो भी हेतु दिखाये जाते हैं, उन सब को ‘हेत्वाभास’ समझना चाहिए। नैयायिकों के मत में भी सब हेतु को ‘सत् हेतु’ ही नहीं माना गया है, उनके यहाँ भी ‘हेत्वाभास’ माना जाता है। इस प्रकार, विशुद्ध थीत-दर्शनकार तीन ही माने जाते हैं—मीमांसासूत्रकार जैमिनि, ब्रह्मसूत्रकार व्याघ्रदेव और व्याकरणसूत्रकार पाणिनि।

### तार्किक दर्शनकार

उपर्युक्त थीत-दर्शनकारों के अतिरिक्त अन्य सभी दर्शनकार तार्किक कहे जाते हैं। मूल तत्त्व के अन्वेषण में प्रधान साधन तर्क ही है। तर्क के बिना मूल तत्त्व का अन्वेषण

दुष्कर है, इस प्रकार जो अनुमान करनेवाले हैं, वे तार्किक कहे जाते हैं। तर्क का अभिप्राय अनुमान ही है।

यद्यपि तार्किकों के मत में भी श्रुति को प्रमाण माना गया है, तथापि श्रुति की अपेक्षा अनुमान को ही इनके मत में मुख्य प्रमाण माना गया है। अनुमान का अनुसरण करनेवाली अनुमान से अविरुद्ध जो श्रुति है, उसी को प्रमाण माना जाता है। और, अनुमान में विरुद्ध जो श्रुति है, उसका गौण अर्थ मानकर अनुमानानुसार ही अर्थ लगाया जाता है। स्पष्ट प्रतीयमान मुख्य अर्थ को नहीं माना जाता। उदाहरण के जिए—‘आकाशं नित्यम्, निरवश्वात्; यद्विरवयं तन्नित्यम्, परमाणुवत्’; अर्थात् आकाश नित्य है, निरवश्व द्वाने से, जो निरवय होता है, वह नित्य होता है; जैसे परमाणु। इसी अनुमान से इनके मत में आकाश को नित्य सिद्ध किया जाता है। इस अवस्था में ‘एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः’ ( तै० उ० २११ ), इस श्रुति से विरोध हो जाता है; क्योंकि उक्त श्रुति में आत्मा से आकाश की उत्पत्ति बताई गई है, और उत्पत्ति पदार्थ नित्य होता ही नहीं, अतएव श्रुति से विरोध होना स्वाभाविक है। इस विरोध के परिदार के लिए, उक्त श्रुति में ‘संभूतः’ का अर्थ ‘उत्पन्नः’ न कर ‘अभिव्यक्तः’ किया जाता है। अर्थात्, आत्मा से आकाश की अभिव्यक्ति हुई, उत्पत्ति नहीं, वह अर्थ नैयायिक और वैशेषिक किया करते हैं।

इसी प्रकार, वर्तमानकाल में, चेतन और अचेतन में जो भेद प्रतीत होता है, या परस्पर चेतन में भी जो नानात्व प्रतीत होता है, इसी दृष्टान्त से सुष्ठु के पूर्वकाल में भी चेतन, अचेतन और परस्पर चेतन में भी भेद या नानात्व, प्रायः सब नैयायिक और वैशेषिक मानते हैं। इस अवस्था में ‘इदं सर्वं यदयमात्मा’ ( वृ० आ० २४५ ), इस श्रुति से विरोध हो जाता है; क्योंकि यह श्रुति स्पष्ट अभेद-प्रतिपादन करती है। इस विरोध के परिदार के लिए आत्मा का मुख्य अर्थ आत्मस्वरूप न मानकर आत्माघोन अर्थ किया जाता है। अर्थात्, यह सकल प्रपञ्च आत्मा के अधीन है। इस प्रकार श्रुति के मुख्य अर्थ को छोड़कर अनुमान से सिद्ध अर्थ के अनुकूल गौण अर्थ को मानने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूल कारण के अन्वेषण में श्रुति-प्रमाण की अपेक्षा अनुमान को ही नैयायिक और वैशेषिक प्रधान साधन मानते हैं।

इसी प्रकार, श्री रामानुजाचार्य और श्री माधवाचार्य आदि विद्वानों ने भी श्रुति की अपेक्षा अनुमान को ही प्रबल और मुख्य प्रमाण माना है। वर्तमानकाल में प्रतीयमान जो भेद है, उसके दृष्टान्त से सुष्ठु के पूर्वकाल में भी ये लोग नैयायिकों वी तरह भेद मानते हैं। इसीलिए, जीव और ब्रह्म में अभेद-प्रतिपादक जो ‘तत्त्वमस्ति’ महावाक्य है, उसका भी भेद-प्रक अर्थ ही दन लोगों ने किया है। यह ‘तत्त्वमस्ति’ श्रुति अशास्तार्थ-ज्ञानिका मानी जाती है। अर्थात्, अशात् जो जीव और ब्रह्म वा ऐक्य है, उसकी ज्ञानिका अर्थात् बोध करनेवाली यह श्रुति है। इसका मुख्य स्पष्ट प्रतीयमान अर्थ है—तत् ( ब्रह्म ) त्वम् ( जीवत्मा ) आयि ( हो ); अर्थात् वहीपूर्वोक्त

ब्रह्म तुम हो । इस प्रकार, शब्द से स्पष्ट प्रतीयमान जो मुख्य अर्थ है, उसको छोड़कर तर्क से सिद्ध जीव और ब्रह्म के भेद को स्थापित करने के लिए, इनके मत में, अनेक प्रकार के अनुमान के अनुसार, विभिन्न प्रकार के अर्थ लगाये जाते हैं । इन द्वैतवादियों का भी परस्पर एकमत नहीं है । कोई ब्रह्म के साथ जीव के सम्बन्ध-बोधन में श्रुति का तात्पर्य मानते हैं; और कोई जीव के साथ ब्रह्म के शरीर-बोधन में । कोई ब्रह्म के अधीन जीव है, ऐसा अर्थ करते हैं और कोई ब्रह्म के अत्यन्त सदृश जीव है, इस अर्थ में श्रुति का तात्पर्य समझते हैं । इस प्रकार, तर्क के आधार पर श्रुति के भी विभिन्न प्रकार के अर्थ इन लोगों ने किये हैं ।

वास्तविक बात तो यह है कि अदृष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए श्रुति को आधार माने विना केवल तर्क के आधार पर एक निश्चित वस्तु को किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं कर सकते । इसलिए, तर्क को प्रधानता देने के कारण श्रुति का अर्थ लगाने में तार्किकों का ऐकमत्य न होना स्वाभाविक हो जाता है ।

## सांख्याचार्य का तर्कग्रह

सांख्याचार्य महामुनि कपिल भी तार्किक ही है । उनका कहना है कि यद्यपि जगत् का मूल कारण अत्यन्त सूक्ष्म है, तथापि वह साध्य नहीं है, किन्तु सिद्ध है । साध्य वस्तु में प्रमाण का अवकाश न होने पर भी सिद्ध वस्तु में प्रमाण का अवकाश अनिवार्य है । उदाहरण के लिए किसी ने कहा—‘मोहन आयगा ।’ अब यहाँ विचारना है कि प्रयोक्ता का यह वाक्य, सत्य है अथवा मिथ्या ? दोनों में एक का भी निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं कर सकते; क्योंकि उस समय तक आगमन निष्पत्ति नहीं हुआ है, जिससे प्रत्यक्ष के कारण इन्द्रिय-सक्तिकर्त्ता हो । दूसरे शब्दों में, वर्तमान का ही प्रत्यक्ष होता है, भूत-भविष्य का नहीं । और, अनुमान का भी अवकाश नहीं है, कारण यह है कि कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है, और यहाँ अभी तक आगमन के निष्पत्ति न होने से अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ है, जिससे आगमन का अनुमान किया जाय । परन्तु यहाँ आगमन सिद्ध है—जैसे, ‘मोहन आ गया’, यहाँ प्रमाण की गति सुलभ हो जाती है; क्योंकि आगम-क्रिया के निष्पत्ति होने से प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों की गति सुलभ है ।

इसी प्रकार, जगत् का मूल कारण सिद्ध है, इसलिए प्रमाण का अवकाश होता है । यद्यपि जगत् का मूल कारण अत्यन्त सूक्ष्म है, इसलिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता, तथापि अनुमान की गति को कोई भी नहीं रोक सकता । कार्य को देखकर उसी के अनुरूप कारण का भी निश्चय कर लेना, लोक-प्रसिद्ध भी है । इनके मत की एक और भी विशेषता है, कि जगत् के मूल कारण के बोध करने में अनुमान का प्रबोध हो सकता है, इतना ही इनका सिद्धान्त नहीं है; प्रत्युत, मूल-कारण के बोध कराने में अनुमान के अतिरिक्त दूसरे प्रमाण की गति नहीं हो सकती, यहाँ तक इनकी मान्यता है । इनके मत में श्रुति भी अनुमान के द्वारा ही मूलतत्त्व के बोध कराने में प्रवृत्त होती है । उदाहरण के लिए: अरुण के पुत्र उदालक ने अपने

पुत्र श्वेतकेतु के प्रति कहा है—‘तत्रैतच्छुद्धमुत्तितं सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति’ (छा० उ० द्वाद०३)।

अर्थात्, हे सोम्य ! उस जल से ही इस शरीर-रूप शुद्ध अर्थात् अंकुर को उत्पन्न हुआ समझो; क्योंकि यह निर्मूल, अर्थात् कारण-रहित नहीं हो सकता।

इसके बाद भी पुनः श्रुति कहती है—‘तस्य क मूलं स्यादन्यत्रास्मादन्नादेवमेव खलु सोम्य ! अन्नेन शुद्धेनापोमूलमन्विच्छ, अद्विः सोम्य ! शुद्धेन तेजोमूलमन्विच्छ, तेजसा सोम्य ! शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ, सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्पतिष्ठाः’ (छा० द्वाद०४)। अर्थात्, अब को छोड़कर इस शरीर का मूल कहाँ हो सकता है ? इसी प्रकार तू अन्नरूप शुद्ध (अंकुर) से जलरूप शुद्ध और जलरूप शुद्ध से तेजरूप शुद्ध और तेजरूप शुद्ध से सदरूप मूलतत्त्व का अनुसन्धान करो। हे सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक ही है, सत् ही इसका आश्रय है, और सत् ही प्रतिष्ठा। इस प्रकार दृश्यमान शरीर-रूप स्थूल कार्य के द्वारा सूक्ष्म कारण का बोध कराती हुई श्रुति, परम सूक्ष्म मूलतत्त्व सत् के बोध कराने में अनुमान के द्वारा ही प्रवृत्त होती है। इसी प्रकार, ‘यतो वा इमानि: भूतानि जायन्ते’ (तै० ३।१।१) इत्यादि श्रुति भी अनुमान के साधन कार्यकारणभाव को बताती हुई अनुमान के द्वारा ही मूलकारण परमात्मा का बोध कराती है। यहाँ ‘इमानि’ (इदम्) शब्द के प्रयोग से भूत और भौतिक सकल प्रपञ्चरूप कार्य को अंगुल्या निर्देश करती हुई श्रुति, हेतु के निर्देश से अनुमान द्वारा मूल कारण के अन्वेषण में अपना तात्पर्य बताती है।

इससे यह सिद्ध होता है कि मूल कारण के अन्वेषण में अनुमान का अनुसरण करनेवाली श्रुति भी स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्त नहीं हो सकती, किन्तु अनुमान के द्वारा ही प्रवृत्त होती है। इसलिए, इनका सिद्धान्त है कि जगत् का मूलकारण ‘अनुमान से ही सिद्ध हो सकता है, दूसरे प्रमाण से नहीं। भूत और भौतिक कार्य के अनुसार, उसके अनुरूप ही जगत् का मूल कारण त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति नाम का तत्त्व, जिसको सांख्यों ने मूल कारण माना है, केवल अनुमान-प्रमाण से सिद्ध होने के कारण आनुमानिक भी कहा जाता है। अनुमान-प्रमाण के ऊपर इनका इतना अधिक पक्षपात है कि इनका व्यवहार प्राचीन ग्रन्थों में ‘आनुमानिक’ शब्द से भी किया गया है।

### पातञ्जल की तार्किकता

योगसूत्र के प्रणेता भगवान् पतञ्जलि भी तार्किक ही कहे जाते हैं। ये भी कपिल के सदृश ही जगत् के मूल कारण-प्रधान को अनुमान के द्वारा ही तर्क-प्रधान सिद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त इनका यह भी कहना है कि शब्द-प्रमाण ग्रन्थों में श्रुति-स्मृति आदि जितने प्रमाण-ग्रन्थ हैं, उनमें श्रुति सबकी अपेक्षा प्रमाण मानी जाती है। और, वह श्रुति भी ईश्वर की बनाई हुई है। अब यहाँ यह विचार होता है कि जब वेद ईश्वर का बनाया हुआ है, तो वेद बनाने से पूर्व ईश्वर को त्रिलोकवर्त्ती

अतीत और अनागत पदार्थों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। क्योंकि, कोई भी ग्रन्थकर्ता ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान-प्रमाण के द्वारा प्राप्त करने के बाद ही दूसरे को समझाने के लिए तज्ज्ञानबोधक वाक्य-निवन्ध की रचना करता है।

सम्भव है कि ईश्वर ने भी प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ही सकल पदार्थों का मन में अनुसन्धान करके ही वेद की रचना की हो। इसमें भी प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान से ही अधिक ज्ञान प्राप्त किया हो, यह भी स्पष्ट ही है। क्योंकि, अनुमान की गति प्रत्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक है। इस स्थिति में, वेद भी अधिक अंशों में अनुमानमूलक ही है, यह सिद्ध हो जाता है। इसलिए, श्रुति की अपेक्षा अनुमान की ही प्रधानता पतञ्जलि ने भी मानी है और अनुमान में तर्क ही प्रधान है, इसलिए ये भी तार्किक कहे जाते हैं।

### नैयायिकों का तर्काग्रह

गौतम-सूत्र के अनुयायी नैयायिक तो प्रसिद्ध तार्किक हैं। इनके मत में भी जगत् के मूलतत्त्व के अन्वेषण में तर्क ही प्रधान साधन है, ऐसा माना जाता है। यद्यपि इनके मत में जगत् के मूल कारण के बोध कराने में स्वतन्त्रतया भी श्रुति समर्थ होती है, फिर भी ये तार्किक नहीं हैं, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि, ‘आवाभूमी जनयन् देव एकः आस्ते’ (श्वे० ३।३) इत्यादि श्रुति जगत् के मूल कारण के बोध कराने में स्वतन्त्रतया प्रवृत्त होती है, फिर भी अनुमान के द्वारा मूलतत्त्व के बोधित होने के बाद ही उसके अर्थ का अनुभव कराने में समर्थ होती है।

एक बात और भी है कि शब्द ऐतिहा-मात्र से अर्थ को कहता है, इसलिए श्वेषण-मात्र से श्रोताओं के हृदय में अर्थ का अनुभव नहीं कराता। और, अनुमान में यह विशेषता है कि प्रत्यक्ष दृष्टान्त के प्रदर्शन से सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अर्थ का भी अनुभव कराने में वह समर्थ होता है। मूल कारण-रूप जो सूक्ष्म अर्थ है, उसका बुद्धि पर आरोहण तर्क के ही द्वारा होता है, इस प्रकार मानने से ये भी तार्किक ही हैं, यह सिद्ध होता है।

### वैशेषिक भी तार्किक हैं

वैशेषिकों के तार्किक होने में तो कोई सन्देह ही नहीं है; क्योंकि, ये शब्द को पृथक् प्रमाण मानते ही नहीं। विश्वानाथ भट्ट ने ‘भाषा-परिच्छेद’ में स्पष्ट लिखा है—

‘शब्दोपमानयोनैव पृथक् प्रामाण्यमित्यते।

अनुमानगतार्थत्वादिति वैशेषिकं मतम् ॥’

इसका तात्पर्य यह है कि शब्द और उपमान, इन दोनों को पृथक् प्रमाण नहीं माना जाता। क्योंकि, ये दोनों अनुमान में ही गतार्थ हो जाते हैं, यह वैशेषिकों का मत है। इनमें यही विशेषता है कि ये शब्द को अप्रमाण नहीं मानते, किन्तु शब्द अनुमान का साधन होने में अनुमान में ही गतार्थ है, अनुमान से पृथक् नहीं है, महीं इनका तात्पर्य है। इसीलिए, नास्तिकों में इनकी गणना नहीं होती; क्योंकि ये

श्रुति को अप्रमाण नहीं मानते। श्रुति को प्रमाण नहीं माननेवाले ही नास्तिक कहे जाते हैं। इनका कहना इतना ही है कि प्रमाणवेन अभिमत जितने शब्द हैं, वे अनुमान के साधनीभूत हैं; अर्थात् अनुमान के द्वारा ही अपने अर्थ का सत्यतया विद्य कराने हैं। इसलिए, अनुमान में ही इनका अन्तर्भाव हो जाता है। पृथक् प्रमाण में इनकी गणना नहीं होती।

## आस्तिक और नास्तिक

जो तार्किक श्रुति-प्रमाण को नहीं मानते, वे ही नास्तिक कहे जाते हैं। श्रुति-प्रमाण के अविरोधी जो तार्किक है, वे आस्तिक कहे जाते हैं। इन आस्तिक तार्किकों के अतिरिक्त जो तार्किक हैं, जैसे—जैन, बौद्ध, कापिल आदि, वे नास्तिक माने जाते हैं। क्योंकि, वेद को जो प्रमाण नहीं मानता, वही नास्तिक है। इनकी शब्दा वेद में कुछ भी नहीं रहती, केवल तर्क के बल से ही मूलतत्त्व के अनुसन्धान में प्रवृत्त होते हैं।

यहाँ तक प्राचीनिक वातों को दिखाकर प्रकृत के ऊपर विचार किया जायगा। श्रुति और अनुमान इन दोनों में कौन प्रबल है श्रौर कौन दुर्बल, इस प्रश्न के उत्तर में मतभेद से दोनों ही प्रबल और दोनों ही दुर्बल हो सकते हैं, यह पहले बता चुके हैं। परन्तु, यह किस प्रकार समझ है, इसके ऊपर विचार किया जायगा।

श्रौत दर्शनकारों के मत से अनुमान की अपेक्षा श्रुति प्रबल होती है, और तार्किकों के मत में श्रुति की अपेक्षा अनुमान प्रबल होता है। श्रौत दर्शनकार सब आस्तिक हैं, और केवल तार्किकों में आस्तिक और नास्तिक दो भेद हैं।

## श्रौतों और तार्किकों में मूल भेद

जहाँ दो श्रुतियों में परस्पर विरोध प्रतीत हो, वहाँ किसी एक का गौण अर्थ मानना ही होगा, ऐसा सब दर्शनकारों ने स्वीकार भी किया है। और, जहाँ श्रुति और अनुमान में विरोध प्रतीत हो, वहाँ ही दो मतभेद उपस्थित होते हैं। एक का कहना है कि श्रुति और अनुमान में परस्पर मतभेद होने पर अनुमान को ही आभासी मानना समुचित है, इस अवस्था में श्रुति को किसी प्रकार भी गौणार्थ मानना उचित नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि अनुमान परतः प्रमाण है; क्योंकि अनुमान का प्रामाण्य सद्ब्यासि के अधीन है। इसीलिए, तार्किकों ने भी अनुमान को परतः प्रमाण माना है। और, श्रुति स्वतः प्रमाण है। इस अवस्था में स्वतः प्रमाण-भूत श्रुति, परतः प्रमाण-भूत अनुमान का अनुसरण नहीं कर सकती, किन्तु अनुमान का ही श्रुति का अनुसरण करना युक्त और समुचित है। इष प्रकार जो श्रुति को, स्वतः प्रमाण मानकर, अनुमान की अपेक्षा प्रबल मानते हैं, वे 'श्रौत' कहे जाते हैं। और, जो श्रुति को भी परतः प्रमाण मानते हैं, उनके मत में श्रुति और अनुमान में परस्पर विरोध होने पर अनुमान को ही कभी आभासी माना जाता है, और कभी श्रुति का ही गौण अर्थ मानकर अनुमान का अनुसरण कराया जाता है। इष प्रकार, श्रुति की भी जो परतः प्रमाण मानते हैं, वे ही दर्शनकार तार्किक कहे जाते हैं, जैसे—गौतम, कण्ठाद आदि। इयलिए,

श्रुति का स्वतःप्रामाण्य मानना श्रौत होने का और परतःप्रामाण्य मानना तार्किक होने का बीज है।

अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि वेद के स्वतःप्रामाण्य या परतःप्रामाण्य में मतभेद क्यों हुआ? इसका उत्तर यही होता है कि जिसके मत में वेद अपौरुषेय, अर्थात् किसी पुरुष-विशेष से रचित नहीं है, इस प्रकार की निश्चित धारणा जिनको होती है, उनके मत में उसका स्वतःप्रामाण्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। और, जिनके मत में वेद पौरुषेय, अर्थात् पुरुषविशेष से रचित है, उनके मत में उसका परतःप्रामाण्य भी सिद्ध होता है।

शब्द का प्रामाण्य, शब्द के प्रयोक्ता आत्म पुरुष के अधीन है। यथार्थवादी को आत्म कहते हैं। यहाँ पुरुष शब्द से ईश्वर लिया जाता है। ईश्वर ही सबकी अपेक्षा आसतम होता है। इसीलिए, ईश्वर-रचित होने के कारण ही वेद का प्रामाण्य माना जाता है। अतएव, आत्मों के मत में वेद का परतःप्रामाण्य सिद्ध होता है। इस प्रकार दर्शनकारी या दर्शनों में भेद होने का क्या कारण है, इस विचार में सबका मूल कारण वेद का पौरुषेयत्व या अपौरुषेयत्व होना ही सिद्ध होता है।

### पौरुषेयत्व और अपौरुषेयत्व का विचार

अब यह जिज्ञासा होती है कि वास्तव में वेद पौरुषेय है, अथवा अपौरुषेय? और दोनों में कौन युक्त है? क्या ईश्वर ने वेद की रचना की है? जैसे व्यास ने महाभारत की या कालिदास ने रघुवंश की? या ईश्वर ने वेद को प्रकाशित किया है, जैसे प्राचीन पुस्तकों का आज प्रकाशन होता है? इन दोनों पक्षों में यदि वेद को ईश्वर से प्रकाशित माना जाय, तो वेद का अपौरुषेयत्व सिद्ध होता है, और यदि ईश्वर से रचित माना जाय, तब तो पौरुषेयत्व सिद्ध होता है। इन दोनों में कौन पक्ष युक्त है, इस विषय में श्रुति के आधार पर ही विचार करना समुचित प्रतीत होता है। श्रुति कहती है—‘तस्य ह वा एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्प्रवेदः यजुर्वेदः सामवेदः’ (बृ० २४/१०) इत्यादि श्रुति में परमात्मा के निःश्वास से वेद का उद्भव माना गया है। यहाँ विचारना यह है कि लोक में निःश्वास अनायास, अर्थात् विना परिश्रम देखा जाता है। और, अबुद्धि-पुरःसर भी देखा जाता है, अर्थात् निःश्वास लेने में बुद्धि का व्यापार कुछ भी नहीं रहता।

अतएव, यदि वेद को ईश्वर से रचित मानें, तो वेद की रचना में ईश्वर का किसी प्रकार अनायास, अर्थात् परिश्रम का अभाव मान सकते हैं। यथापि हट, अटट, स्थूल, सूक्ष्म, मूर्त्ति, अमूर्त्ति, चेतन और अचेतन आदि सकल पदार्थ के अवसासक वेद की रचना में परिश्रम का होना अनिवार्य है, तथापि परमात्मा के अचिन्त्यशक्तिमान् होने के कारण सर्वार्थावभासक वेद की रचना में प्रयास का अभाव भी सम्भावित है। परन्तु, अबुद्धि-पुरःसर वेद की रचना होना नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि स्वतन्त्र वाक्य-रचना में बुद्धि का कुछ व्यापार अत्यावश्यक होता है। विना बुद्धि लगाये किसी स्वतन्त्र वाक्य की रचना नहीं हो सकती, इसलिए वेद की रचना में निःश्वसित-न्याय से

प्रात् अबुद्धि-पुरःसरत्व का होना युक्त नहीं होता है। इसलिए, बुद्धि-पुरःसरत्व की उपपत्ति के लिए वेद को ईश्वर-रचित न मानकर ईश्वर से प्रकाशित ही मानना समुचित होता है। ईश्वर से प्रकाशित मानने में अनायासत्व और अबुद्धि-पुरःसरत्व, दोनों का सामज्ञत्व हो जाता है। प्रकाशित मानने से वेद अपीरणेय भी सिद्ध होता है।

और भी, जो दर्शनकार अट्ट और दृष्टि की सिद्धि अनुमान-प्रमाण के द्वारा ही करते हैं, वे यह भी मानते हैं कि वेद से अन्यत्र कहीं भी अबुद्धि-पुरःसर वाक्य की रचना नहीं देखी जाती, इसलिए वेद की रचना बुद्धि-पुरःसर ही है, अर्थात् विना बुद्धि-व्यापार के वेद की रचना नहीं हो सकती, इस प्रकार के दर्शनकार, श्रुति में जो निःश्वसित उक्ति है, उसका अनायास-मात्र अर्थ में तात्पर्य मानकर किसी प्रकार श्रुति का सङ्ग्रहन करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिनके मत में निःश्वसित शब्द का अनायास-मात्र अर्थ होता है, अबुद्धि-पुरःसर नहीं, उनके मत में वेद पौरुषेय सिद्ध होता है। और, जो निःश्वसित शब्द का अनायास और अबुद्धि-पुरःसर दोनों अर्थ मानते हैं, उनके मत में वेद अपीरणेय सिद्ध होता है।

औत दर्शनकारों का यही सिद्धान्त है कि यदि निःश्वसित शब्द से अवश्य प्रतीयमान अबुद्धि-पुरःसर अर्थ के मानने पर भी श्रुति का अर्थ सामज्ञस्येन उपपत्ति हो जाता है, तो उसका त्याग करना समुचित नहीं है। इसलिए, श्रुति के अनुसार वेद का अपीरणेय होना सिद्ध हो जाता है और यही युक्त भी प्रतीत होता है। इस अवस्था में अनुमान से श्रुति प्रबल है, श्रौतों का यह मत भी सिद्ध हो जाता है।

### सत्ता के भेद से श्रुति और प्रत्यक्ष में अविरोध

अब श्रुति और प्रत्यक्ष में वाध्य-वाधक-भाव के विषय में विचार किया जायगा। प्रमाण अपने विषय की सत्ता का ज्ञान कराता है, यह सर्वसिद्धान्त है। सत्ता, साधारणतः दो प्रकार की होती है—एक पारमार्थिकी, दूसरी व्यावहारिकी। 'तत्त्वमस्मि' महाकाव्य अद्वैत की पारमार्थिक सत्ता का बोध कराता है, और द्वैतग्राही जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह द्वैत की व्यावहारिक सत्ता का बोध कराता है। इस अवस्था में श्रुति और प्रत्यक्ष का विषय भिन्न होने से विरोध नहीं होता, इसलिए वाध्य-वाधक-भाव भी नहीं हो सकता। यदि द्वैतग्राही प्रत्यक्ष से भी पारमार्थिक सत्ता का ही बोध होता, तो दोनों में विरोध होने से वाध्य-वाधक-भाव का विचार होता, 'विषयैक्ये वाध्य-वाधक-भावो भवति न तु विषयमेदै', अर्थात् विषय के एक होने पर ही वाध्य-वाधक-भाव होता है—विषय-भेद में नहीं, यह सबका सिद्धान्त है। इस अवस्था में अद्वैत-प्रतिपादक श्रुति से द्वैतग्राही प्रत्यक्ष का बोध होता है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यही होता है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण, द्वैत की पारमार्थिक सत्ता के बोधक नहीं, किन्तु व्यावहारिक सत्ता के ही बोधक हैं।

### प्रमेय-विचार

प्रमाण से जितका यात्यन किया जाता है, या प्रमाण से जो सिद्ध है, उसको 'प्रमेय' कहते हैं। प्रमेय दो प्रकार का होता है—एक चेतन, दूसरा अचेतन। इनमें

चेतन प्रधान है, और अचेतन अप्रधान। क्योंकि, भूत या भौतिक जितनी अचेतन वस्तुएँ हैं, वे चेतन के ही उपभोग के साधन हैं। चेतन भी दो प्रकार का होता है—एक जीव, और दूसरा ईश्वर। जीव की अपेक्षा ईश्वर प्रधान है; क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है तथा ईश्वर के ज्ञान के लिए जीव का प्रयत्न देखा जाता है। इसलिए, पहले ईश्वर का ही विचार किया जाता है।

## ईश्वर के विषय में चार्वाक-मत

चार्वाक-मतानुयायी ईश्वर को नहीं मानते। इनके मत में ईश्वर कोई तत्त्व नहीं है। क्योंकि, इनके मत में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं माना जाता, और प्रत्यक्ष से ईश्वर का ज्ञान होता नहीं। बीज से अंकुर की उत्पत्ति जो होती है, वह मृत्तिका और जल के संयोग से स्वाभाविक है। उसके लिए किसी अदृष्ट कर्ता की कल्पना व्यर्थ है। यदि कोई कर्ता रहता, तो कदाचित् किसी को कहीं पर अवश्य उपलब्ध होता। उपलब्ध नहीं होता, इसलिए ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, यह इनका परम सिद्धान्त है। यदि कहें कि ईश्वर नहीं है, तो शुभ या अशुभ कर्म का फल कौन देगा? तो इसके उत्तर में इनका कहना है कि किस कर्म-फल के बारे में आप पूछते हैं—लौकिक या पारलौकिक? यदि लौकिक कर्म के बारे में आप कहें, तो निग्रह और अनुग्रह में समर्थ राजा ही, चौरी आदि बुरे काम करनेवालों को दण्ड, और अच्छे काम करनेवालों को पारितोषिक देता है। यदि पारलौकिक कर्मों के विषय में कहें, तो इसमें इनका कहना है कि यज्ञ, तप आदि जितने वैदिक कर्म हैं, वे भोग के साधन नहीं हैं, केवल अपनी जीविका के लिए धूर्तों का प्रचार मात्र है। जातमात्र शिशु को जो सुख-नुःख का उपभोग प्राप्त होता है, वह काकतालीय न्याय से यदृच्छया हुआ करता है। इसमें किसी अदृष्ट कारण की आवश्यकता नहीं होती, जिससे ईश्वर की कल्पना की जाय।

## ईश्वर के विषय में मतान्तर

चार्वाक के अतिरिक्त जैन और बौद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते। बौद्धों के मत में सर्वज्ञ मुनि बुद्ध से भिन्न अन्य कोई ईश्वर नहीं है। जैन भी अर्हत् मुनि के अतिरिक्त किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मानते। सांख्यों के मत में भी पुरुष (जीव) से भिन्न किसी ईश्वर को नहीं माना जाता। मीमांसकों के मत में भी शुभ और अशुभ कर्म के फल को देनेवाला कर्म ही है, इससे भिन्न कोई दूसरा ईश्वर नहीं। कतिपय मीमांसक ईश्वर को भी मानते हैं। वैयाकरणों के मत में परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी, ये चार प्रकार के जो शब्द हैं, उनमें सकल शब्दों का मूल कारण मूलाधारस्थ परा नाम का जो शब्द है, वही ईश्वर है। रामानुजाचार्य के मत में जीव से भिन्न जीवों का नियन्ता जीवान्तर्यामी ईश्वर माना जाता है। जीव-वर्ग और जड़-वर्ग ईश्वर का शरीर माना जाता है। वही ईश्वर जीव से किये गये शुभ या अशुभ कर्म का फल कर्म के अनुसार देता है। वह ईश्वर ज्ञानस्वरूप है। अनुकूल ज्ञान का ही नाम

आनन्द है। इसीलिए, श्रुति में ईश्वर को आनन्द-स्वरूप भी माना गया है। ज्ञान आदि जो गुण हैं, उनका आश्रय भी ईश्वर ही है। इनके मत में स्वरूपभूत ज्ञान से गुणभूत ज्ञान भिन्न माना जाता है। यही ईश्वर, जगत्-रूप कार्य की उत्पत्ति में, तीन प्रकार से कारण बनता है। 'बहुस्याम्'—व्रहुत हो जाऊँ, इस प्रकार संकल्पविशिष्ट ईश्वर निमित्त कारण होता है। अपना विशेषणभूत शरीर-रूप, जो सूक्ष्म चित् और अचित् अंश है, तदिशिष्ट होने से उपादान कारण होता है। और, ज्ञान, शक्ति, किया आदि से विशिष्ट होने के कारण सहकारी कारण भी कहा जाता है। जीव का भी नियमन ईश्वर ही है। जिस प्रकार शरीर के अन्तःस्थित सूक्ष्म जीव शरीर का नियमन करता है; उसी प्रकार जीवों के अन्तःस्थित सूक्ष्मतर ईश्वर भी जीवों का नियमन करता है। केवल इतना ही अन्तर है कि जीव अपने इच्छानुसार सर्वावयवेन शरीर का नियमन नहीं कर सकता, और ईश्वर सर्वावयवेन अपनी इच्छा से जीवों का नियमन करता है; क्योंकि जीव अल्पशक्ति और ईश्वर परिपूर्ण शक्ति-विशिष्ट है। एक बात और ज्ञातव्य है कि ईश्वर यद्यपि अपनी इच्छा से जीवों के नियमन करने में समर्थ है, तथापि जीवकृत उन कर्मों के अनुसार ही उनका नियमन करता है। अन्यथा वैषम्य आदि दोष ईश्वर में आ जायगा।

### ईश्वर के विषय में नैयायिक आदि का मत

नैयायिक, वैशेषिक, माध्व, माहेश्वर आदि दर्शनकारों के मत में ईश्वर को उपादान कारण नहीं माना जाता। ये लोग जगत् की उत्पत्ति में ईश्वर को निमित्त कारण ही मानते हैं। कर्म के फल को देनेवाला यही ईश्वर है। किन्तु, माहेश्वरों में नकुलीश, पाशुपत और प्रत्यमिज्ञावादी ईश्वर को कर्मानुसार फल देनेवाला नहीं मानते। इनका कहना है कि ईश्वर को कर्मावलभी मानने से उसकी स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी। और, इनके अतिरिक्त माहेश्वर, नैयायिक, वैशेषिक और माध्व ऐसा मानते हैं कि कर्म के अनुसार ही ईश्वर जगत् का निर्माण करता है। पातञ्जली के मत में भी ईश्वर को जीव से भिन्न माना जाता है, किन्तु वह जगत् का न उपादान कारण होता है, और न निमित्त कारण ही। वह निर्गुण, निलेप और निर्विशेष है।

### ईश्वर के विषय में अद्वैतवादियों का मत

अद्वैतवादी शङ्कराचार्य के मत में ईश्वर परमात्मा, निर्गुण, निलेप, निर्विशेष और पारमार्थिक है। वह जगत् का न निमित्त कारण है, और न उपादान ही। क्योंकि, इनके मत में जगत् की पारमार्थिक सत्ता ही नहीं है, तो उसके कारण की कलना ही व्यर्थ है। जगत् की सत्ता तो केवल व्यावहारिक है। इस व्यावहारिक जगत् का कारण, मायोपाधिक परमात्मा है। निर्विशेष शुद्ध परमात्मा न किसी का कार्य है और न कारण ही। यही शुद्ध परमात्मा जब मायारूप उपाधि से सुक्ष्म होता है, तब ईश्वर कहलाता है। यही माया-विशिष्ट ईश्वर स्वप्राधान्येन जगत् का निमित्त कारण और मायाप्रधान्येन उपादान कारण होता है। माया-विशिष्ट का एकदेशभूत केवल मायाध्य,

जगत् का विचरणपादान होता है। जीवकृत शुभ और अशुभ कर्मों का फल यही ईश्वर देता है, और वह भी कर्मों के अनुसार ही फल देता है।

### ईश्वर-सत्ता में प्रमाण

अब पूर्वोक्त ईश्वर का ज्ञान किस प्रकार होगा, इसका विचार किया जाता है। जो दर्शनकार ईश्वर को मानते ही नहीं, उनके मत में प्रमाण का विचार निरर्थक ही है। क्योंकि, वन्ध्यापुत्र के अन्वेषण में किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। और, जो दर्शनकार ईश्वर को मानते हैं, उन लोगों का भी ईश्वर के ज्ञान में परस्पर मतभेद देखा जाता है। मनुष्यों को जो ईश्वर-विषयक ज्ञान होता है, वह अवस्था-भेद से दो प्रकार का है— एक, मोक्षावस्था में होनेवाला; दूसरा, मोक्षावस्था से पूर्व होनेवाला। इन दोनों में पहला अद्वैतवादी शंकराचार्य के मत में नहीं हो सकता; क्योंकि उनके मत में उपाधि-रहित स्वरूप में अवस्थान का ही नाम मोक्ष है, इसलिए वहाँ श्रौपाधिक द्वैत का प्रतिभाष देना असम्भव है। द्वैतवादी-वैशेषिकों के मत में भी मोक्षावस्था में जीव के सकल-विशेष गुण का उच्छ्रेत्र हो जाता है, इसलिए वहाँ किसी विषय का भी ज्ञान नहीं होता। नैयायिकों के मत में भी प्रायः यही बात है। सांख्यों के मत में भी जीवात्मा असङ्ग और निलेप है। मोक्षावस्था में असङ्ग-रूप से ही अवस्थित रहने के कारण शान्त-शेय-भाव नहीं रहता, अतः किसी विषय का भी ज्ञान नहीं हो सकता। पातञ्जली के मत में भी यही बात है। प्रत्यमित्रा-दर्शन में भी जीव ही ईश्वर-रूप से आविर्भूत होता है। अतएव, स्वरूप से भिन्न कोई ईश्वर नहीं रहता, जिसका ज्ञान सम्भव हो।

इनसे भिन्न जो द्वैतवादी तार्किक है, उनके मत में मोक्षावस्था में ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। मोक्षावस्था से पहले मोक्ष का साधनीभूत जो आत्मज्ञान होता है, वह तत्त्वान्वेषण-रूप ही है। तार्किकों के मत में तत्त्व का अन्वेषण पहले अनुमान के ही द्वारा होता है, उसी के अनुयार पीछे श्रुति प्रवृत्त होती है। ईश्वर-विषयक ज्ञान में भी इनका यही क्रम है। अर्थात्, पहले अनुमान से ईश्वर सिद्ध करना, उसके बाद श्रुति को तदनुसार संगमन करना। इन द्वैतवादियों के मत से रामानुजाचार्य का मत विपरीत है। इनका कहना है कि ईश्वर के विषय में पहले श्रुति प्रवृत्त होती है, और उसके बाद अनुमान। माधव लोग अनुमान को प्रमाण ही नहीं मानने। इसलिए, इनके मत में श्रुति से ईश्वर का ज्ञान होना स्वाभाविक ही है।

### आत्म-प्रत्यक्ष में श्रुति का प्राधान्य

अद्वैतवादी शङ्कराचार्य के मत में अद्वैत आत्मा के साक्षात्कार-घाघन के लिए पहले श्रुति ही प्रवृत्त होती है, उसके बाद श्रुति के अनुसार ही अनुमान प्रवृत्त होता है। इसके पहले अनुमान की गति नहीं होती।

यही आशंका यह होती है कि जितना शोध अनुमान से किसी वस्तु का अनुभव होता है, उतना शब्द से नहीं। रस्यी में हीनेवाला जो संपर्क का भ्रम-ज्ञान है, उसकी निष्पत्ति 'नायं सर्वः' (यह संपर्क नहीं है)। इस शब्द के मुनने से उतना शीघ्र

नहीं होती, जितना शीघ्र 'यतो नायं चलति अतो नायं सर्वः' (यह चलता नहीं है, इसलिए यह सांप नहीं है) — इस प्रकार के अनुमान से भ्रम की निवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि सर्पभाव के साक्षात्कार में जितना अन्तरङ्ग साधन अनुमान होता है, उतना शब्द नहीं। कारण यह है कि शब्द ऐतिह्य-मात्र से अर्थ का अनुभव कराता है, और अनुमान, प्रत्यक्ष दृष्टान्त के द्वारा उसे फटिति बुद्धि पर आरूढ़ करा देता है।

शङ्कराचार्य ने स्वयं अपने भाष्य में लिखा है—‘अथ दृष्टास्येन अहृष्टमर्थं समर्थयन्ती युक्तिः सत्रिकृष्णेऽनुभवस्य विप्रकृष्टते तु श्रुतिः ऐतिह्यमात्राऽभिधानात्’ (ब्र० स० भा० २।१४)। अर्थात्, प्रत्यक्ष दृष्टान्त के द्वारा एष वस्तु के सदृश ही अदृष्ट अर्थ का समर्थन कराती हुई युक्ति (अनुमान) अनुभव के अत्यन्त समीप है, और श्रुति विप्रकृष्ट, अर्थात् साक्षात् अनुभव कराने में बहिरङ्ग साधन है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि साक्षात् अनुभव कराने में श्रुति की अपेक्षा अनुमान की शक्ति प्रबल है। इस अवस्था में आत्म-साक्षात्कार के विषय में बहिरङ्ग श्रुति की गति पहले हो, और अन्तरङ्ग अनुमान की गति पहले न हो, इसमें क्या कारण है? यदि अनुभव कराने में अनुमान में शब्द की अपेक्षा प्रबल शक्ति है, और वह फटिति अनुभव करा सकता है, तो आत्म-साक्षात्कार में भी अनुमान की गति पहले होनी चाहिए।

इस आक्षेप का समाधान इस प्रकार होता है कि द्वैतवादियों के मत में किसी प्रकार परमात्मा के अनुसन्धान में श्रुति की अपेक्षा अनुमान-प्रभाषण की गति पहले हो सकती है, परन्तु द्वैतवादियों के मत में किसी प्रकार भी पहले अनुमान का प्रवेश होना असम्भव ही है। क्योंकि, जहाँ जाता की अपेक्षा ज्ञेय भिन्न प्रतीत होता है, वहाँ शब्द की अपेक्षा अनुमान की प्रबलता हो सकती है, परन्तु जहाँ ज्ञेय के साथ अपना ऐक्य हो; जैसे, ‘दशमस्त्वमसि’—दसवाँ तुम हो, इत्यादि स्थल में वहाँ अनुमान की अपेक्षा श्रुति ही, अर्थात् शब्द ही, अनुभव के समीप अन्तरङ्ग साधन होता है। इसीलिए पञ्चदशी में कहा है—‘दशमस्त्वमसीत्यादौ शब्दादेवापरोक्षधीः’, दसवाँ तुम हो, इत्यादि स्थलों में शब्द से ही साक्षात् अनुभव होता है। यहाँ अपरोक्ष अर्थात् साक्षात् अनुभव में, शब्द के अतिरिक्त साधन का, ‘शब्दादेव’ के ‘एव’ शब्द से स्पष्ट निराकरण किया है। वेदान्त का एक दृष्टान्त है—

किसी समय दस मनुष्य खान करने के लिए नदी में गये थे। लौटने के समय आपस में गिनने लगे और सभी लोग अपने को छोड़कर नों को ही गिनते थे, दसवाँ किसी की भी समझ में नहीं आया, वह नदी में झूब गया, यह समझकर सब रोने लगे। इसी वीच एक बुद्धिमान् मनुष्य वहाँ आया, और बात को समझकर समझाने लगा कि यदि वह झूबा होता, तो किसी ने श्रवण देखा होता। जब बहुत समझाने पर भी वे लोग न समझ सके, तब उन्होंने कहा कि अच्छा, तो हमारे खामने गिनो। इतना कहने पर जब उसने फिर उसी प्रकार अपने को छोड़कर नों को गिना, तो उस बुद्धिमान् मनुष्य ने कहा—‘दशमस्त्वमसि’, दसवाँ तुम हो। इस शब्द के भवण्यमात्र से दसवाँ का साक्षात्कार कर वे सभी प्रसन्न हो गये। इस प्रकार, अमेद-साक्षात्कार के लिए अनुमान की अपेक्षा शब्द ही शीघ्र अनुभावक होता है, यह सिद्ध होता है।

एक बात और भी है कि निर्विशेष आत्मैक्य का ज्ञान कराने में अनुमान किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकता। कारण यह है कि कोई भी प्रमाण सविशेष वस्तु का ही ज्ञान करा सकता है, निर्विशेष का नहीं। अर्थात्, प्रमाण यही बता सकता है कि यह वस्तु ऐसी है, परन्तु आत्मा ऐसा है, इस प्रकार का निश्चय नहीं कर सकते; क्योंकि वह निर्विशेष है। इसलिए, उस निर्विशेष आत्मा के बोध कराने में अनुमान किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकता। इसी बात को 'केन' श्रुति भी पुष्ट करती है—'यन्मनसा न मनुते'—जिसका मन से मनन नहीं कर सकते, यहाँ 'मनस' से अनुमान का ही बोध होता है।

यद्यपि निर्विशेष ब्रह्मात्मैक्य के बोध कराने में श्रुति का भी सामर्थ्य नहीं है, इस बात का अनुमोदन, अपना असामर्थ्य बताती हुई श्रुति स्वयम् कहती है—'यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (तै० २४१), अर्थात् मन के साथ वाक् (श्रुति या शब्द) भी विना समझे लौट आती है। फिर भी, इसी रूप से 'यतो वाचो निवर्त्तन्ते', 'यन्मनसा न मनुते', 'नेति-नेति', 'निर्गुणः', 'अग्राह्यम्', 'अलक्षणम्' इत्यादि श्रुतियाँ भी निषेध-मुख से ही ब्रह्मात्मैक्य के बोध कराने में किसी प्रकार समर्थ होती हैं। अथवा लक्षण-वृत्ति से बोध कराती है। लक्षण और अनुमान में इतना ही अन्तर है कि जहाँ तात्पर्य की अनुपपत्ति होती है, वहाँ ही लक्षण की प्रवृत्ति होती है। अर्थात्, जिस निर्विशेष या सविशेष ब्रह्म में श्रुति का तात्पर्य उपक्रम, परामर्श, उपसंहार, अभ्यास आदि साधनों से अवगत होता है, वही लक्षण से दिखाया जाता है। और, अनुमान साधन के सम्बन्ध से साध्य का ज्ञान कराता है। निर्विशेष ब्रह्म का किसी के साथ सम्बन्ध है नहीं, इस अवस्था में अनुमान का अवकाश होता ही नहीं। यदि कहें कि इस प्रकार तो श्रुति के बाद भी अनुमान की गति नहीं हो सकती, तो इसे इष्टापत्ति ही मानना होगा। पूर्व में श्रुति के पार्पद होने से उसके पीछे अनुमान की जो गति बताई गई है, वह ब्रह्मविशेष और सोपाधिक ईश्वर के विषय में ही है, निरुपाधिक ब्रह्म के विषय में नहीं।

### ईश्वर के विषय में भी अनुमान से पूर्व श्रुति की प्रवृत्ति

अब यहाँ यह शब्द होती है कि जगत् के कारणीभूत सोपाधिक ईश्वर के विषय में श्रुति से पहले अनुमान की गति क्यों नहीं होती? इसका उत्तर यह है कि जगत् का कुछ कारण अवश्य है, इस प्रकार के निश्चय होने के बाद ही, उसी कार्य-कारण-माय मूलक कार्य के द्वारा कारण का बोध करानेवाला अनुमान-प्रमाण का संचार होता है। अन्य, जित्यंकुरादि को देखकर उन्देह उत्पन्न होता कि व्या यह जित्यंकुरादि कार्य, स्वयं स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है, अथवा इसका बनानेवाला कोई है? इस प्रकार के उन्देह की निवृत्ति 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि श्रुति के विना नहीं हो सकती। क्योंकि, चेतन की बहायता के विना अचेतन का परिणाम सोक में कही भी नहीं देखा जाता, फिर भी इस नियम के विरुद्ध कपिल आदि दर्शनकारों ने अचेतन-प्रधान का स्वयं स्वतन्त्र परिणाम मानते हुए, इस विषय को स्वतन्त्र प्रधान कारण-बाद की ओर रखा है। इसी प्रकार उपादान कारण के विना सोक में कोई कार्य

उत्पन्न नहीं होता, किर भी स्वभाववादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उपादान कारण के बिना भी स्वभाव से ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। इस अवस्था में जिति-श्रुति श्रादि कार्य को निमित्त और उपादान के बिना भी स्वभाव से ही उत्पन्न होनेवाला मान लें, तो इसमें उनका इस अपराध है। इसलिए, श्रुति को आधार माने बिना किसी भी तरफ के आधार पर जगत् के निश्चित कारण को सिद्ध करना कठिन ही नहीं, अपितु, असम्भव है। जब श्रुति के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि सकल भूत और भौतिक वर्ग किसी से क्रियमाण या कृत है, तभी उस कार्य-कारणमाव-मूलक अनुमान की प्रवृत्ति होती है। इन उपर्युक्त बातों को याज्ञात् श्रुति भी पुष्ट करती है; यथा—‘नावेदविन्मनुते तं वृहन्तम्’ (तै० ब्रा० ३।२।६।७)। अर्थात्, जो वेद को नहीं जानता, वह उस ब्रह्म का मनन नहीं कर सकता। यही मनन का अर्थ अनुमान ही होता। ‘आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च’—इस वृहदारण्यक श्रुति में श्रवण के बाद जो मनन का विधान किया है, इसका भी यही तात्पर्य है कि श्रुति-वाक्य के अध्ययन के अनन्तर अनुमान-साध्य मनन हो सकता है। श्रवण श्रुति-वाक्य से ही होता है, और मनन से अनुमान का ग्रहण होता है। ‘श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः मन्तव्यश्रोपपत्तिभिः’—इस स्मृति का भी यही तात्पर्य हो सकता है। इन्हीं सब बातों से सिद्ध होता है कि अनुमान का उपजीव्य श्रुति ही है।

जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके मत में भी तत्त्व-ज्ञान की आवश्यकता मोक्ष के लिए होती ही है। उन तत्त्वों में जीव के साथ अपने मूलतत्त्व का भी ज्ञान इतर से विविक्षितया करना अत्यावश्यक हो जाता है। क्योंकि, उनके मत में भी बिना विवेक-ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। विवेक-ज्ञान के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। क्योंकि, किसी भी ज्ञान का साधन प्रमाण ही होता है। ईश्वर को नहीं माननेवाले जिनमें दार्शनिक हैं, वे प्रायः सब तार्किक हैं। उनके मत में जीव के स्वरूप-ज्ञान के लिए पहले अनुमान प्रवृत्त होता है, उसके बाद उसके पार्पद होने से श्रुति की प्रवृत्ति होती है।

### जीव का स्वरूप

ईश्वर के स्वरूप-निरूपण के बाद क्रमप्राप्त जीव का स्वरूप कैसा है, वह नित्य है, या अनित्य, उसका परिमाण क्या है, इत्यादि विषयों का विचार किया जाता है। चार्वाकों के मत में चैतन्य-विशिष्ट देह को ही जीवात्मा माना गया है। वही कर्ता और भोक्ता है। उसका मूल स्वरूप, पृथिवी, जल, तेज और वायु—इन चार भूतों का परमाणु-पुञ्ज ही है। जब इन भूत-परमाणुओं का देह-रूप से परिणाम होता है, तभी उसमें (देह में) चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। उसी समय वह चैतन्य-विशिष्ट देह जीव कहलाने लगता है। इनके मत में जड़ और घोघ उभय-स्वरूप जीव होता है। चैतन्य-विशिष्ट देह में जो चैतन्य अंश है, वही बोधरूप है, और देह-अंश जड़रूप है। देह अनेक प्रकार का होता है, इसलिए जीव भी अनेक हो जाता है और देह के साथ ही वह उत्पन्न या विनष्ट होता है, इसलिए अनित्य भी है। चार्वाकों में भी पीछे अनेक मेद हो गये हैं। कोई प्राण को ही जीवात्मा मानता है, कोई इन्द्रियों को और कोई मन को ही। इन सब मतों का खण्डन न्याय-दर्शन में भली भाँति किया गया है।

बौद्धों में जो शून्यवादी माध्यमिक हैं, उनके मत में व्यवहार-दशा में भासमान जो जीव है, उसका मूल-स्वरूप शून्य ही है। इनके अतिरिक्त बौद्धों के मत में विज्ञान-स्वरूप जीवात्मा है। क्षणिक विज्ञानों का जो प्रवाह है, तत्त्वरूप होने के कारण जीवात्मा प्रतिद्वय बदलता रहता है, इसीलिए अनित्य भी है। पूर्व-पूर्व-विज्ञानजन्य जो संस्कार है, उसका उत्तरोत्तर विज्ञान में संकरण होता रहता है, इसीलिए इनके मत में स्मरण की अनुपत्ति नहीं होती और पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण बना रहता है।

जैनों के मत में आत्मा को देह-परिमाण माना गया है और देह से मित्र भी माना गया है। जैसे-जैसे देह बढ़ती है, उसमें रहनेवाला आत्मा भी उच्ची प्रकार बढ़ता रहता है, और देह के अपचय अर्थात् क्षीण होने पर आत्मा का भी अपचय होता रहता है। देह के साथ आत्मा का भी सदा उपचय और अपचय होते रहने के कारण इनके मत में भी आत्मा कृटस्थ नित्य नहीं माना जाता है। आत्मा कृटस्थ नित्य नहीं होने पर भी इनके मत में वह परिणामी नित्य माना जाता है। जो एक रूप से सदा वर्तमान रहता है, वही कृटस्थ नित्य कहा जाता है। जितने आस्तिक दर्शन हैं, उनके मत में आत्मा कृटस्थ नित्य माना जाता है।

### आत्मा के कृटस्थ नित्य होने में आक्षेप

आत्मा कृटस्थ नित्य क्यों है, कृटस्थ न मानने से क्या दोष होता है—इसका विचार किया जाता है। नैयायिकों और वैशेषिकों के ऊपर यह आक्षेप किया जाता है कि इनके मत में भी आत्मा कृटस्थ नित्य नहीं होता; क्योंकि आत्मा के जितने बुद्धि, सुख, दुःख आदि गुण हैं, वे सभी अनित्य माने जाते हैं, यद्यपि इनका परम सिद्धान्त है। इसलिए, बुद्धि आदि गुणों के अनित्य होने से जब-जब इनका उत्पाद या विनाश होगा, उसी समय उन गुणों के आश्रयभूत आत्मा में भी उपचय या अपचय होना अवश्यम्भावी है। कारण यह है कि जबतक धर्मों में विकार नहीं होता, तबतक उसके धर्मों में भी विकार नहीं हो सकता। ‘उपयन्नपयन् धर्मो विकरोति हि धर्मिणम्’—इस सर्वसिद्धान्तन्याय का भी यही तात्पर्य है कि बदेतार या पटतार हुआ धर्म, धर्मों में विकार अवश्य करता है। शङ्कराचार्य ने भी शारीरक भाव्य में ‘उभयथा च दोषात्’ इस सूत्र के ऊपर लिखा है : ‘न चान्तरेण मूर्त्युपचयं गुणोपचयो भवति, कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मूर्त्युपचयदर्शनात्’—तात्पर्य यह है कि मूर्त्ति में उपचय हुए विना गुण में उपचय नहीं होता। कार्यभूत पृथिवी आदि भूतों में गुणों के उपचय-अपचय से मूर्त्ति में भी उपचय-अपचय देखा जाता है। जैसे—पृथिवी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन पाँच गुणों के रहने से पृथिवी सब भूतों की अपेक्षा स्थूल है। केवल एक गन्ध-गुण के कम हो जाने से जल पृथिवी की अपेक्षा सूक्ष्म हो जाता है। जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है, उसमें गन्ध और रस ये दो गुण कम हो जाते हैं। तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, उसमें गन्ध, रस और रूप ये तीन गुण कम हो जाते हैं। इसकी अपेक्षा भी आकाश अत्यन्त सूक्ष्म है, इसमें गन्ध, रस, स्पर्श, रूप ये चार गुण कम हो जाते हैं। आकाश में एक शब्दमात्र ही गुण रहता है। इन भूतों में

देखा जाता है कि वे अत्यन्त सूक्ष्म आकाश से जितने स्थूल होते जाते हैं, उनमें एक-एक गुण अधिक बढ़ता जाता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूर्ति के उपचय और अपचय गुणों के उपचय और अपचय के अधीन हैं।

वस्तुतः, बुद्धि आदि गुणों की उत्पत्ति और विनाश के समय जीवात्मा में भी विकार होना अवश्यम्भावी है। इसीलिए किसी प्रकार भी जीवात्मा इनके मत में कूटस्थ नहीं हो सकता।

### आत्मा का कूटस्थत्व-समर्थन

इसका समाधान इस प्रकार होता है कि जब बुद्धि आदि गुणों को आत्म-स्वरूप के अन्तर्गत मानें, तभी यह आक्षेप हो सकता है, अन्यथा नहीं। नैयायिक और वैशेषिक लोग बुद्धि आदि गुणों को आत्मस्वरूप से इतर मानते हैं, अर्थात् जीवात्मा में वर्तमान भी बुद्धि आदि जो गुण हैं, वे जीवात्मस्वरूप से भिन्न हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। जिस प्रकार भूतल में विद्यमान घट आदि पदार्थ भूतल-स्वरूप से भिन्न हैं, उसी प्रकार आत्मा में विद्यमान भी बुद्धि आदि गुण आत्मा से भिन्न ही हैं। इसका रहस्य यह है कि नैयायिक और वैशेषिक के मत में गुण और गुणी में मेद माना जाता है, इसीलिए द्रव्य आदि पदार्थों में द्रव्यादि से भिन्न गुणों की गणना की गई है।

इस स्थिति में, बुद्धि आदि गुणों की उत्पत्ति और विनाश होने पर भी बुद्धि आदि का आश्रय जो आत्मा है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। इसीलिए, आत्मा के कूटस्थ होने में कोई आपत्ति नहीं होती। और, इसीलिए, इनके मत में आत्मत्व-सामान्य केवल आत्मा में ही रहता है, बुद्धि आदि गुण-विशिष्ट में नहीं रहता। जिस प्रकार, आत्मा के शरीर-विशिष्ट होने पर भी आत्मत्व-सामान्य, केवल आत्मा में ही रहता है, शरीर-विशिष्ट आत्मा में नहीं; क्योंकि आत्मा शरीर से भिन्न है—उसी प्रकार, आत्मा के ज्ञानादि गुणों से युक्त होने पर भी ज्ञानादि गुणों से भिन्न केवल आत्मा में ही आत्मत्व-सामान्य रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि ज्ञान आदि गुण आत्मा के ही हैं, तथापि शरीर के सदृश आत्मस्वरूप में उनका अन्तर्भाव नहीं होता, किन्तु आत्मस्वरूप से भिन्न ही रहता है।

यहाँ एक बात और जानने योग्य है कि यदि ज्ञान-गुण का आत्मस्वरूप में अन्तर्भाव नहीं मानते, तो ज्ञान-स्वरूप न होने के कारण नैयायिक और वैशेषिक इन दोनों के मत में आत्मा जड़ सिद्ध हो जाता है। क्योंकि, ज्ञान से भिन्न सकल वस्तु अचेतन ही होती है। इसलिए, ज्ञान से भिन्न होने के कारण इनके मत में आत्मा भी पापाण के सदृश जड़ ही सिद्ध होता है। जीवित दशा में ज्ञान के आश्रय होने से किसी प्रकार चेतन मान भी लें, फिर भी मुक्तावस्था में ज्ञान-गुण के विलकुल नष्ट होने से पापाण की तरह अचेतन ही आत्मा इनके मत में सिद्ध होता है।

### जीव के विषय में अन्य मत

मीमांसकों में प्रभाकर-मतानुयायी इसी प्रकार मानते हैं। जैन लोग आत्मा को ज्ञान से भिन्न और अभिन्न दोनों मानते हैं। मीमांसकों में कुमारिलभद्रानुयायी

आत्मा को अंश-भेद से चेतन और जड़ दोनों मानते हैं। इनके मत में आत्मा वौधारोधस्वरूप माना जाता है। पञ्चदशी का चित्रदीप-प्रकरण देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है। सांख्य, पातञ्जल, शैव तथा वेदान्त-दर्शनों में आत्मा को शान्त्वरूप ही माना गया है। यहाँ सांख्य के मत में शान्त्वरूप जो आत्मा है, उसके स्वरूप के अन्तर्गत या अनन्तर्गत कोई भी गुण नहीं है, वह निर्गुण, निलेप और असङ्ग है। पातञ्जल और अद्वैत वेदान्तियों का यही मत है। विशिष्याद्वैतवादी रामानुजाचार्य और द्वैतवादी माध्वाचार्य, नैयायिक तथा वैशेषिक लोग आत्मा को सगुण मानते हैं।

### जीव-परिमाण

अब जीवात्मा के परिमाण के विषय में विचार किया जायगा। बौद्धों के मत में विज्ञान-सन्तति को ही आत्मा माना जाता है। और, विज्ञान गुणभूत है, इसलिए स्वतन्त्र रूप से उसका कुछ भी परिमाण नहीं हो सकता। उस विज्ञान-सन्तति रूप आत्मा का कोई आश्रय भी नहीं है, इसलिए आश्रय के अनुरोध से भी परिमाण नहीं कह सकते। रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य और वज्ञभमतानुयायी जीवात्मा को अणु-परिमाण मानते हैं। चार्वाक, जैन और बौद्धों के अन्तर्गत माध्यमिक लोग जीव को मध्यम-परिमाण मानते हैं। नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, पातञ्जल और अद्वैतवादी वेदान्ती जीव को व्यापक मानते हैं।

### जीव का कर्तृत्व

नैयायिक और वैशेषिक के मत में जीव को कर्ता माना जाता है, और जीव का जो कर्तृत्व है, उसको सत्य ही माना जाता है। रामानुजाचार्य और माध्वाचार्य का कहना है कि यद्यपि जीवात्मा कर्ता और इसका कर्तृत्व सत्य ही है, तथापि वह कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, किन्तु नैमित्तिक है। अद्वैत वेदान्तियों का मत है कि जीव का कर्तृत्व औपाधिक है। सांख्य और पातञ्जल के मत में जीव का कर्तृत्व प्रातिभासिक माना जाता है। वास्तविक कर्तृत्व इनके मत में प्रकृति का ही है। उसी के सम्बन्ध से जीवात्मा में कर्तृत्व भासित होता है, इसलिए प्रातिभासिक कहा जाता है। जिसके मत में जैसा कर्तृत्व है, उसके मत में वैसा ही मोक्षत्व भी माना जाता है।

### अचिद्वर्ग-विचार

अब चेतन और भोक्ता आत्मा के भोग्यभूत जड़-वर्ग का विचार संक्षेप में किया जाता है। लोक में दृश्यमान जितने भूत और भौतिक पदार्थ हैं, उनके अस्तित्व के विषय में किसी का भी विवाद नहीं है। जाल के अन्तर्गत जो सूर्य की मरीचिका है, उसमें दृश्यमान जो धूलि के सूक्ष्म कण हैं, वे ही सबसे सूक्ष्म होने के कारण दृश्यमान सकल भूत भौतिक जड़-वर्ग के कारण होते हैं। यह चार्वाकों का मत है। इनके मत में जालस्थ सूर्य की मरीचिका में दृश्यमान जो रज के कण हैं, वे ही सबसे सूक्ष्म

दोने के कारण परमाणु कहे जाते हैं। ये परमाणु पृथ्वी, जल, तेज और वायु के भेद से चार प्रकार के होते हैं। आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए इनके मत में यह कोई तत्त्व नहीं है। और, प्रत्यक्ष से मिन्न इनके मत में कोई प्रमाण भी नहीं माना जाता, जिससे आकाश-तत्त्व की सिद्धि हो।

बीदों के मत में जालस्थ सूर्य की किरणों में जो रज के कण देखे जाते हैं, उनको भी अनुमान-प्रमाण से ग्रावयव माना जाता है। और, जो उनके अवयव सिद्ध होते हैं, वे ही परमाणु हैं। वही से उकल प्रपञ्चस्थ कार्य का प्रवाद अविच्छिन्न रूप से निरन्तर चलता रहता है। धार्वाकों के दृष्टि धीर भी आकाश को नहीं मानते। जैनों के मत में एक ही प्रकार का परमाणु जगत् का मूल कारण माना जाता है। इनके मत में आकाश को तत्त्वान्तर माना जाता है। नैयायिकों और वैशेषिकों का कहना है कि पूर्वोक्त रज के कणों के अवयव, जिनको बीदों ने अनुमान से सिद्ध किया है, वे भी परमाणु शब्द के बाव्य नहीं हैं। किन्तु, उनसे भिन्न उन पूर्वोक्त अवयवों के जो अवयव अनुमान द्वारा यिद्ध होते हैं, वे ही बस्तुतः परमाणु कहे जाते हैं। वे ही परमाणु चार प्रकार के भूतों के मूल कारण हैं। दो परमाणुओं के संयोग से जो कार्य उत्पन्न होता है, वही 'द्वयाणुक' कहा जाता है। यही पूर्वोक्त रजकण के अवयव हैं। इसी को धीर लोग 'परमाणु' मानते हैं।

तीन 'द्वयाणुक' के संयोग से उत्पन्न जो कार्य है, वही 'त्र्याणुक' कहा जाता है। यही 'त्र्याणुक' जाल-सूर्य की मरीचिका में दृश्यमान रज का कारण है। इसी को चार्वाक लोग परमाणु मानते हैं। इनके मत में भी आकाश को तत्त्वान्तर माना जाता है। पृथिवी आदि चार भूतों के चार परमाणु और आकाश, इन पाँचों को ये लोग नित्य मानते हैं। इनकी उत्पत्ति किंछी दूरी से नहीं होती, इसलिए इनका दूसरा कोई मूल कारण नहीं है। मीमांसक और वैयाकरण परमाणु को भी अनित्य मानते हैं। पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पाँच भूतों में पूर्व-पूर्व का उत्तरोत्तर कारण होता है। अर्थात्, पृथिवी का जल, जल का तेज, तेज का वायु और वायु का आकाश कारण होता है। आकाश भी इनके मत में अनित्य होता है। आकाश की उत्पत्ति शब्द से मानी जाती है। इनके मत में उकल प्रपञ्च का मूल कारण शब्द ही है।

सांख्य और पातञ्जलि के मत में शब्द भी मूल कारण नहीं होता, किन्तु इसकी उत्पत्ति अद्विकार से मानी जाती है। अद्विकार का कारण महत्त्व और महत्त्व का कारण त्रिगुणात्मक प्रधान माना जाता है। इसी का नाम मूल प्रकृति है। यही उकल प्रपञ्च का मूल कारण है। यह कार्य नहीं है, इसलिए इसका दूसरा कोई कारण भी नहीं है। इच्छेलिए, सांख्याचार्य ने कहा है—‘मूले मूलाभावादमूलं मूलम्’, अर्थात् मूल में कोई दूसरा मूल नहीं रहने से मूल अमूल ही रहता है।

अद्वैत वेदान्तियों के मत में प्रधान को भी मूल कारण नहीं माना जाता। इनके मत में प्रधान भी कार्य है; क्योंकि, ‘तम आसोत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतम्’, ‘तुच्छेनाम्बिहितं यदाचीत्’ (तै० उ० ३०८) इत्यादि श्रुति में उत् को तम से व्याप दताया गया है। इसलिए, ‘तम’ शब्द का बाव्य किसी तत्त्व को मूल कारण मानना

मुचित प्रतीत होता है। वह तम शब्द का वाच्य सर्वथा असत् नहीं हो सकता; योकि 'कथमसतः सज्जयेत् सदेव सौभ्येदमग्र आसीत्' (छा० ६।२।२)। इस छान्दोग्य श्रुति से असत्कारणवाद के ऊपर आलेप कर सत्कारणवाद की ही स्थापना की गई है। यह 'सत्' शब्द का वाच्य मूल तत्त्व न जड़ है, और न आत्मतत्त्व से भिन्न ही। योकि, उक्त श्रुति के समान अर्थवाली जो 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्' (ऐत० १।१) यह श्रुति है, उसमें आत्मा और एक शब्द का प्रयोग देखा जाता है और यही सुष्ठु के आदि में 'आसीत्' किया का कर्ता है। तात्पर्य यह है कि 'अग्रे' शब्द से सुष्ठु के आदि में तमस् और सत् शब्द से जिस अर्थ का निर्देश किया गया है, उसी का वर्णन इस श्रुति में 'आत्म' और 'एक' शब्द से किया जाता है। इससे यह स्पष्ट युचित होता है कि सुष्ठु का मूल कारण आत्मशक्ति से भिन्न कोई भी प्रधान या परमाणु आदि जड़ पदार्थ नहीं है, जिसका तमस् शब्द और सत् शब्द से बोध हो। श्रुति में 'एक' और 'एक' शब्द से आत्मा से भिन्न दूसरे किसी कारण का भी अभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिए, मूलतत्त्व के अन्वेषण में जो श्रुति को ही प्रधान मानते हैं, उनके मत में जगत् का मूल कारण आत्मशक्ति ही है।

## आरम्भ आदि वाद-विचार

अब यह विचार उपस्थित होता है कि मूल कारण से उत्पन्न जो दृश्यमान सुष्ठु है, वह मूल कारण से आरब्ध तत्त्वान्तर है, या मूल कारण का संघात। अथवा मूल-कारण का परिणाम-विशेष है या विवर्त्। उक्त चार प्रकार की शङ्काओं के आधार पर ही प्रधान रूप से चार वाद प्रचलित हुए हैं। आरम्भवाद वैशेषिक और नैयायिकों का है। संघातवाद बौद्धों के मत में माना जाता है। सांख्य-मत में परिणामवाद और वेदान्तियों के मत में विवर्त्याद माना जाता है। इन्हीं प्रधान चार वादों का निर्देश संज्ञेप-शारीरक में सर्वज्ञात्म महामुनि ने किया है—

**'आरम्भवादः कणभृपच्चसः धातवदस्तु भदन्तपचः।'**

**'संघातवादिपचः परिणामवादः वेदान्तपचस्तु विवर्त्यादः ॥'**

तात्पर्य यह है कि समवायी, असमवायी और निमित्त ये जो तीन प्रकार के कारण हैं, वे तीनों परस्पर मिलकर अपने से भिन्न कार्य का आरम्भ, अर्थात् उत्पादन करते हैं, इसी का नाम आरम्भवाद है। यह नैयायिकों और वैशेषिकों का अभिप्रेत है। यहाँ एक बात और भी जान लेनी चाहिए कि असमवायी और निमित्त कारण से भिन्न कार्य होता है, यह तो प्रायः सभ दर्शनकारों का अभिमत है, परन्तु समवायी कारण, जिसको उपादान भी कहते हैं, से भिन्न कार्य होता है, यह नैयायिक और वैशेषिकों के अतिरिक्त कोई भी नहीं मानता। तन्त्र-समुदाय से आरब्ध, अर्थात् उत्पन्न जो पट-रूप कार्य है, वह अपने कारणभूत तन्त्र-समुदाय से भिन्न है, यही आरम्भवाद का निष्कर्ष है। समवायी कारण का ही नाम उपादान कारण है। तन्त्र आदि जो पट के उपादान कारण हैं, उनका समुदाय ही पट-रूप कार्य है, उपादान

कारण से भिन्न पट-रूप कार्य नहीं है, यह संघादवात् सौनान्तिक और वैभाषिक बोहों का अभिप्रेत है। इनके मत में यह संघात प्रतिशृणु नवीन रूप में उत्पन्न होता रहता है, इसलिए ये स्थिणिकवादी कहे जाते हैं। इनके मत में कारण अपने विनाश के द्वारा ही कार्य का उत्पादक होता है—‘आमावादमावेतत्तिः’ इनका परम सिद्धान्त है।

बोहों में जो शून्यवादी मार्घर्यमिक हैं, उनके मत में कार्य का कोई सत्तरूप कारण नहीं है; किन्तु अर्थात् ग्रथात् शून्य ही प्रतिशृणु कार्यरूप से भासित होता रहता है। इसी का नाम ‘असत्तर्यातिवाद’ है। और, इनमें जो विज्ञानवादी योगचारमतानुयायी हैं, वे आत्मा को विज्ञान-स्वरूप मानते हैं। वही विज्ञान-स्वरूप आत्मा प्रतिशृणु नवीन वाले घटादि रूप से भासित होता रहता है। इसी का नाम ‘आत्मस्थितिवाद’ है।

तत्त्विक अन्यथाभाव का नाम परिणाम है। अर्थात्, जो अपने रूप को छोड़कर दूसरे रूप में बदल जाता है, वही परिणाम कहा जाता है। दूध अपना द्रवत्व रूप को छोड़कर दूधी के रूप को ग्रहण करता है, दही दूध का परिणाम है, ऐसा व्यवहार लोक में प्रचलित है। सांख्य, पातञ्जल और रामानुजाचार्य ‘परिणाम-वाद’ को ही मानते हैं। इनके मत में मूल प्रकृति या माया का ही परिणाम सकल प्रपञ्च है, ऐसा माना जाता है।

आत्मत्विक अन्यथाभाव का नाम विवर्त है। अर्थात्, जो अपने रूप को नहीं छोड़कर रूपान्तर से भासित होता है, उसी को विवर्त कहते हैं। जैसे रसी अपने रूप को नहीं छोड़कर सर्प के रूप में भासित होती है। इसलिए, रसी का विवर्त-रूप और शुक्ति का विवर्त रजत कहा जाता है। अद्वैत वेदान्तियों का विवर्त-वाद इह है। इनके मत में ब्रह्म का ही विवर्त अस्ति विवर्त होता है। अद्वैत वेदान्तियों का विवर्त-वाद इह है। इसी के मत में ब्रह्म का ही विवर्त अस्ति है, और शुक्ति रजत-रूप से, उसी प्रकार ब्रह्म भी अविल प्रपञ्च-रूप से भासित होती है। इसी को ‘अध्यासवाद’ भी कहते हैं। इसी को वेदान्तियार में इस प्रकार लिखा है—

‘सतत्वतोऽन्यथाभावः परिणाम उदाहरतः ।  
अतत्वतोऽन्यथाभावः विवर्तः समुद्दीरितः ॥’

एक ही स्थिणिवाद भी लोक में प्रचलित है, परन्तु यह विवर्तवाद से भिन्न नहीं माना जाता। किन्तु, इसके अन्तर्गत ही हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जित भनुष्य ने जिस समय जर्हा पर जिस प्रकार जित वस्तु को देला, उसी समय उसी प्रकार उसी जगह उसी की अविद्या से आमास ही है। जैसे, कुछ अनन्धकार से आवृत उसी वेददत्त ने रजत देला। उसी क्षण यह रजत, उसी प्रदेश में किसी प्रदेश में प्रातःकाल में उसी प्रकार स्थित हो जाता है। क्योंकि, यशदत्त को वह रजत उसी वेददत्त की अविद्या से प्रतीत होता है, अथवा देवदत्त को ही देशान्तर या कालान्तर में प्रतीत नहीं होता है।

इसी प्रकार, यह प्रपञ्च भी जिस प्रकार जिस मनुष्य से जहाँ पर देखा जाता है, उसी की अविद्या से वहाँ पर उसी प्रकार उसकी सृष्टि हो जाती है। इस पक्ष में यही विशेषता होगी कि जीव के एकत्व-पक्ष में प्रपञ्च भी एक ही रहेगा और जीव के अनेक मानने में प्रपञ्च भी अनेक मानना होगा। एक बात और जान लेनी चाहिए कि अद्वैत वेदान्तियों के मत में जीव को एक मानें, चाहे अनेक; परन्तु वह औपाधिक ही होगा, पारमार्थिक नहीं।

तानिक लोग यद्यपि अद्वैतवादी हैं, तथापि भूल कारण के विषय में वे प्रतिविम्बवाद मानते हैं। इनका कहना है कि यदि आरम्भवाद माना जाय, तो कार्य-कारण में भेद होने से अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, किन्तु द्वैत की आपत्ति हो जायगी। यदि परिणामवाद मानें, तो ब्रह्म को विकारी मानना होगा। क्योंकि, जितने पदार्थ परिणामी होते हैं, वे सब विकारी और अनित्य अवश्य होते हैं, किन्तु ब्रह्म को नित्य और कृतस्य माना गया है। इस कारण से परिणामवाद नहीं माना जाता। और, संघातवाद में अभाव से भाव की उत्तरि स्वीकार करने से श्रुति और अनुमान से विरोध हो जाता है। यदि अद्वैतमत के अनुरोध से विवर्तवाद मानें, तो भी ठीक नहीं होता। कारण यह है कि जिस प्रकार रज्जु में सर्प की प्रतीति के समय रज्जु का भान नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म में जगत् की प्रतीति के समय में ब्रह्म की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि, भ्रमस्थल में जिसका आध्यात्म होता है, उसी का स्फुरण (भान) होता है, अधिष्ठान का नहीं। ‘अध्यस्तमेव परिस्फुरति भ्रमेदु’—यह सबका मान्य सिद्धान्त है। यदि कहें कि अध्यस्त, अर्थात् व्यवहार-दशा में ब्रह्म की प्रतीति न होना स्वाभाविक है, यह ठीक नहीं है; क्योंकि ‘धटोऽस्ति’, ‘धटः सन्’ इत्यादि स्थलों में सदूरप से ब्रह्म का भान होना अद्वैत-वादियों का भी अभीष्ट है।

इस प्रकार, जब पूर्वोक्त वादों में यही बात होती है, तो प्रतिविम्बवाद को ही स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। इसकी पद्धति यह है कि जिस प्रकार दर्पण से बाहर रहनेवाले जो मुख आदि पदार्थ हैं; उन्हीं का प्रतिविम्ब दर्पण में भासित होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में तदन्तर्गत होने के कारण प्रतिविम्ब-रूप जगत् भासित होता है। अब यहाँ यह आशंका होती है कि जिस प्रकार दर्पण से भिन्न और उसके बाहर मुख आदि की सत्ता अवश्य रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न और उसके बाहर जगत् की सत्ता को अवश्य स्वीकार करना होगा। क्योंकि, विम्ब के बिना प्रतिविम्ब का होना असम्भव है। यदि ब्रह्म से भिन्न जगत् की सत्ता स्वीकार कर लें, तो द्वैत होने से अद्वैत-सिद्धान्त भंग हो जाता है। यदि इस दोष के परिहार के लिए ब्रह्म से भिन्न विम्बभूत जगत् की सत्ता न मानें, तो ‘प्रतिविम्बवाद’ के मूल में ही कुठाराधात हो जाता है। क्योंकि, विम्ब के अधीन ही प्रतिविम्ब की स्थिति रहती है, यह पहले ही कह चुके हैं। इसलिए, प्रतिविम्बवाद को नहीं मानना चाहिए।

इसका उत्तर यह होता है कि यह बात ठीक है कि विम्ब के अधीन प्रतिविम्ब की स्थिति होने से प्रतिविम्ब का कारण विम्ब होता है, परन्तु वह उपादान कारण नहीं है, किन्तु निमित्त कारण है। क्योंकि, उपादान कारण कार्यावस्था में कार्य के साथ ही

अनिवार्य रहता है, कार्य से पृथक् उसकी स्थिति नहीं रहती। जैसे, घट का उपादान मूर्चिका घट के साथ ही कार्यावस्था में रहती है, घट से पृथक् नहीं, इसलिए मूर्चिका घट का उपादान कहलाती है। और, दण्ड कार्यावस्था में भी घट से पृथक् देखा जाता है, इसलिए दण्ड घट का निमित्त-कारण कहा जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रतिविम्ब से कार्यावस्था में भी पृथक् दृश्यमान होने के कारण प्रतिविम्ब का निमित्त-कारण ही विम्ब है, उपादान नहीं। अब यहाँ यह विचार करना है कि कार्योत्पत्ति में कारण ही विम्ब है, उपादान नहीं। अब यहाँ यह विचार करना है कि नियमेन स्वरूपतः निमित्त-कारण की नियमेन स्वरूपतः अपेक्षा है या नहीं। यदि नियमेन स्वरूपतः निमित्त की अपेक्षा मानें, तब तो दण्ड के अभाव में घट की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। और, देखा जाता है कि दण्ड के अभाव में भी हाथ से चाक को शुमाकर घट बनाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्योत्पत्ति में निमित्त कारण की स्वरूपतः नियमेन अपेक्षा नहीं है।

जिस प्रकार दण्ड के अभाव में भी दण्ड के स्थान में हाथ से चाक शुमाकर घट की उत्पत्ति हो जाती है, उसी प्रकार विम्ब-रूप जो निमित्त कारण जगत् है, उसके अभाव में भी विम्बस्थानीय माया के सम्बन्ध से ही ब्रह्म में जगत्-रूप प्रतिविम्ब का भान होता है। इसलिए, प्रतिविम्बवाद को दुर्घट नहीं कह सकते।

### ख्याति-विचार

इन चब मतमेदों का प्रदर्शन केवल मूल कारण के विषय में ही है, अन्यत्र यथासम्भव सबकी व्यवस्था देखी जाती है। जैसे, शुक्ति में यहाँ रजत का अभ्र होता है, वहाँ-प्रायः सब लोगों ने शुक्ति को रजत का विवर्तोपाद नहीं माना है। यहाँ तक कि परिणामवाद के मुख्य आचार्य सांख्य और पातञ्जलि ने भी परिणामवाद का आदर न कर विवर्चवाद को ही माना है। यहाँ शुक्ति में रजत की प्रतीति के समय अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती है, यह चातुर्प्रायः सब लोग मानते हैं। इसी का नाम ‘अनिर्वचनीय ख्याति’ है।

आरम्भवाद को माननेवाले नैयायिकों और वैरोधिकों ने भी यहाँ आरम्भवाद की नहीं माना है। केवल इनका यही कहना है कि यहाँ न रजत है, और न वह उत्पन्न ही होता है, दोप्रवश शुक्ति ही रजत-रूप से भासित होती है। इसी का नाम ‘अन्यथाख्याति’ है।

### सत्त्वातिवाद

रामानुजाचार्य के मतानुयायियों का कहना है कि यदि वहाँ रजत न होता, तो रजत की प्रतीति कभी नहीं होती, और प्रतीति होती है, इसलिए वहाँ रजत का अस्तित्व अवश्य मानना होगा। किन्तु, उसका अस्तित्व प्रतीतिन्दृश्य में ही उत्पन्न होता है, यह जो कोई कहते हैं, वह युक्त नहीं है। क्योंकि, ऐसा मानने में विकल्प शुद्धाश्रो का समाधान नहीं होता। यहाँ यहाँ इस प्रकार होती है कि शुक्ति में रजत-उत्पादन करने की शक्ति या शामिली है, अथवा नहीं! यदि कहें कि शुक्ति में रजत-उत्पादन करने की शामिली नहीं है, तब तो किसी भी अवस्था में रजत नहीं उत्पन्न हो सकता।

योकि, सामग्री-लग कारण के अभाव में रजत-रूप कार्य का अभाव होना स्वाभाविक है—‘कारणाभावात् कार्यमिवः।’ यदि कहें कि दोष से वहाँ रजत की उत्पत्ति होती है, तो भी ठीक नहीं है; क्योंकि दोष का यह स्वभाव है कि दोष के नहीं रहने पर वस्तु के जितने अंश का यथार्थ शान होता है, उससे अधिक अंश का शान वह नहीं करा सकता। जैसे, दोष-रहित किसी पुरुष के सभीप यदि कोई आवे, तो उसके अङ्ग-प्रत्यक्ष का शान जितना अंश में स्पष्टतया होगा, तिमिरादि दोष ही जाने पर उसकी अपेक्षा कम अंशों का ही शान होगा, अधिक का नहीं। तात्पर्य यही है कि दोष से पहले जितने अंश का यथार्थ शान होता है, दोष होने के बाद उससे अधिक अंश का शान कदाचि नहीं हो सकता, किन्तु उसके कम अंश का ही शान होगा। इसलिए, वास्तविक पह में शुक्ति के यथार्थ शान में रजत का भान नहीं होता; अतएव दोष भी रजत-अंश को उत्पन्न नहीं कर सकता।

यदि यह कहें कि शुक्ति में रजत की प्रतीति होने से, शुक्ति में रजत की उत्पादक सामग्री अवश्य रहती है, तब तो मेरा ही पह सिद्ध होता है। भेद केवल इतना ही है कि उस सामग्री से उत्पन्न होनेवाला रजत शुक्ति के उत्पत्ति-काल में ही होगा, प्रतीति-काल में, जो आपका अभिमत है, नहीं। एक बात और है कि रजत की जो उत्पादक सामग्री है, वह शुक्ति की उत्पादक सामग्री की अपेक्षा बहुत कम है। जिस समय तिमिरादि दोष से अधिक भी शुक्ति-अंश की प्रतीति नहीं होती, उस समय स्वल्प भी रजत का अंश, स्वयं मासित होने लगता है। और, दोष के हट जाने पर शुक्ति की प्रतीति होने लगती है। उस समय, अधिक जो शुक्ति का अंश है, उससे हटि का प्रतिशात हो जाने से विद्यमान रजत-अंश का भी भान नहीं होता, जिस प्रकार, सूर्य के तेज से हटि का प्रतिशात हो जाने पर ‘आकाश में विद्यमान नक्षत्रों का भी भान नहीं होता। सभी भ्रम-स्थलों में यही रीति समझनी चाहिए। इसी का नाम ‘सत्त्व्यातिवाद’ है।

## अख्यातिवाद

इस विषय में मीमांसकों का कहना है कि रजत भ्रम-स्थल में रजत किसी प्रकार भी नहीं है, और प्रतीति के समय भी उत्पन्न नहीं होता है। किन्तु, ‘इदं रजतम्’—इस शान में ‘इदम्’ अंश का ही प्रत्यक्ष होता है, रजत-अंश का नहीं। इदम् अंश के प्रत्यक्ष होने से इदम् अंश के सदृश होने के कारण रजत का जो पूर्व सञ्चित संस्कार है, उसका उद्बोध हो जाता है, और उसीसे रजत का स्मरण-मात्र होता है। रजत का अनुभव नहीं होता है।

इसका निष्कर्ष यह होता है कि रजत भ्रम-स्थल में इदम् अंश का प्रत्यक्ष और रजत-अंश का स्मरण ये दो शान होते हैं। यहाँ इदम् अंश के प्रत्यक्ष से विशद स्मरण में परोक्षत्व-अंश है। इसी प्रकार स्मरण से विशद प्रत्यक्ष में शुक्ति का अंश है। तिमिर आदि दोष से जब-जब दोनों विशद अंशों का भान नहीं होता, उस समय दोनों में विलक्षणता की प्रतीति नहीं होती। इसलिए, दोनों शान भी एक समान ही भासित होते हैं। इसी का नाम ‘अख्याति’ है।

प्रसंगानुसार ख्याति के विषय में सब दर्शनकारों का जो मत दिखाया गया है, उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि परिणामवाद को माननेयाले सांख्य और पातञ्जल भी ऐसे भ्रम-स्थलों में विवर्चवाट को ही मानते हैं, और विवर्चवाद को माननेयाले शंकराचार्य भी दूध का दूही-स्प से परिणाम मानते ही हैं। देवल नैयायिक और वैशेषिक यहाँ और पट आदि स्थलों में 'आरम्भवाद' को ही मानते हैं। इस प्रकार, मूल कारण से धान की राशि में प्रायः सब लोग 'संधातवाद' मानते हैं। इस प्रकार, मूल कारण से इतर स्थल में यथासम्भव आरम्भादिवादों की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात और भी है कि शंकराचार्य के अनुरायियों ने भी मूल कारण के विषय में यथायिक विवर्चवाद माना है, तथापि वे ही लोग कारण-मेद से परिणामवाद को वहाँ भी मानते हैं। उदाहरण के लिए प्रकृति, माया आदि पदवाच्य जो आत्मशक्ति है, उसको परिणामी उपादान कारण सब लोगों ने माना है।

### कार्य-कारण में भेदभेद का विचार

आरम्भवाद में उपादान कारण अपने से भिन्न कार्य को उत्पन्न करता है, यह पहले भी कहा जा चुका है। अब विचारना यह है कि जब कारण से कार्य को भिन्न मानते हैं, तब तो दोनों के साथ एक सम्बन्ध को भी अवश्य मानना होगा। नैयायिकों ने समवाय नाम का एक सम्बन्ध माना भी है। अब यहाँ यह शंका होती है कि पट में तन्तु और पट ये दो वस्तुएँ पृथक्-पृथक् प्रतीत नहीं होती। इस अवस्था में कार्य-कारण का भेद, अनुपलब्धि-प्रमाण से वाचित होने पर भी, नैयायिक और वैशेषिक स्वीकार करते हैं, यह एक गौरव हो जाता है। भेद मानने पर भी दोनों के बीच एक सम्बन्ध पर भी नैयायिकों और वैशेषिकों का भेद मानना समुचित नहीं प्रतीत होता। इतना गौरव आदि दोष रहने वाले भी कहा जा चाहिए, परन्तु किसी भी तन्तु में भेद न मानें, तो तन्तु में भेद-बुद्धि होनी चाहिए, परन्तु में पट-बुद्धि नहीं देखी जाती। और, तन्तु में 'पट' शब्द का व्यवहार भी कोई नहीं करता। लोक में पट से जो व्यवहार होता है, वह तन्तु से नहीं देखा जाता। और 'पट', शब्द से जिस आकार का वो व्यवहार होता है, वह भी तन्तु से नहीं होता। तन्तु में बहुत और पट में एकत्र-संख्या भी देखी जाती है। इस प्रकार, बुद्धि-भेद, शब्द-भेद, आकार-भेद, कार्य-भेद और संख्या-भेद होने के कारण नैयायिक और वैशेषिक कार्य और कारण में भेद करते हैं। इस अवस्था में असत् जो पटादि कार्य हैं, वे कारक-व्यापार से उत्पन्न होते हैं, यह चिद्र होता है। सत्ता के साथ सम्बन्ध होना ही उत्पत्ति है। यह भी इन आरम्भवादियों के अतिरिक्त संधातवादी, परिणामवादी और विवर्चवादी कार्य और कारण में भेद मानते ही नहीं, इसलिए इनके मत में समवाय-सम्बन्ध भी यह इनका सिद्धान्त है। बुद्धि आदि का भेद तो अवस्था-विशेष का ही नाम कार्य है, सकता है; इसलिए वे भेद के साथक नहीं हो सकते।

और भी, यदि कार्य और कारण में भेद मानें, तो कारण में जो परिमाण है, उससे द्विगुण परिमाण कार्य होना चाहिए। क्योंकि, कारण का जो परिमाण है, वह अविनष्ट रूप से कार्य में विद्यमान है और उससे भिन्न कार्य का भी परिमाण उतना ही अलग होना चाहिए। इस प्रकार, दोनों के विभिन्न परिमाण होने से भेद-पन्द्र मानने में कार्य का द्विगुण परिमाण होना अत्यावश्यक हो जाता है। और, उस प्रकार का द्विगुण परिमाण कार्य में नहीं देखा जाता; इसलिए कारण के अवस्था-विशेष का ही नाम कार्य है, यह मानना आवश्यक होता है। कारण का अवस्था-विशेष रूप से जो आविर्भाव होता है, उसी का नाम 'उत्पत्ति' है। इन अवस्था-विशेषों का जो आविर्भाव और तिरोभाव है, वह उन वस्तुओं के स्वभाव से ही हुआ करता है।

पट (बख) आदि कार्यों के 'तुरी'<sup>१</sup>, वेमा<sup>२</sup> आदि जो कारण हैं, वे तन्तु के इस (बखरूप) अवस्थाविशेष की प्राप्ति में जो प्रतिबन्धक हैं, उन्हीं को 'दूर' करते हैं। कारक व्यापार का भी, प्रतिबन्धक के दूर करने में ही, सफल है। अर्थात्, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार का जो लोक में व्यवहार है, उसका तात्पर्य यही है कि कारण के कार्यावस्था प्राप्त करने में जो प्रतिबन्धक हैं, उन्हीं को दूर करना कारण या कारक व्यापार का काम है, दूसरा नहीं। यह बात योग-सूत्र की वृत्ति में नागेश भट्ट ने स्पष्ट लिखी है। जिस प्रकार स्वभाव से ही नीचे की ओर बहता हुआ जो जल है, उसका प्रतिबन्धक सेतु होता है, उसी प्रकार सुखकारक वस्तु के रूप से स्वभावतः परिणत होती हुई जो प्रकृति है, उसका प्रतिबन्धक, उस सुख के भोग करनेवाले पुरुषों का पाप-कर्म होता है। इसी प्रकार, हुःखकारक वस्तु के रूप से स्वभावतः परिणत होती हुई जो प्रकृति है, उसका प्रतिबन्धक मोक्षा पुरुषों का पुरुष-कर्म होता है। अर्थात्, सुखकारक वस्तु के रूप से प्रकृति का स्वयं स्वभाव से ही परिणाम होता रहता है। केवल मनुष्य का किया हुआ पाप कर्म ही, सुखकारक वस्तु के रूप में, प्रकृति के परिणाम को रोकता है। इसी प्रकार, हुःखकारक वस्तु के रूप से प्रकृति के स्वतः परिणाम को, मनुष्यों का किया हुआ पुरुष-कर्म, प्रतिबन्धक होकर, रोकता है।

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पट आदि कार्य उत्पत्ति से पहले भी तन्तु आदि के रूप में विद्यमान ही था, इसलिए इनके मत में सत्कार्यवाद सिद्ध हो जाता है। सत्कार्यवाद का छिद्रान्त है कि कार्य की उत्पत्ति के पहले और नाश के बाद भी किसी रूप में कार्य की सत्ता अवश्य रहती है। बख के कट जाने पर और जल जाने पर भी खण्ड और भस्मादि रूप से उसकी सत्ता मानी जाती है। विनष्ट हुई वस्तुओं के विनाश के बाद भी किसी रूप में उसकी स्थिति देखी जाती है। इसलिए, सर्वत्र विनाश अन्वय के साथ ही रहता है, यह बात सिद्ध होती है। और इसीलिए, विनाश-कार्य का

१. जुलाहों के कपड़ा झुनने का काठ का एक भोजार, जिससे नाने का सून भरा जाता है। तोरिया, इथी। २. कर्त्ता।

जो रूप रहता है, उसी रूप से उसकी सत्ता का निरूपण करना चाहिए। तपाये हुए लौह-पिण्ड के ऊपर जो जल का बिन्दु गिरता है, यद्यपि उसका कोई भी अवयव नहीं देखा जाता, तथापि उसकी सत्ता अदृश्यावयव<sup>१</sup> रूप से मानी जाती है। अर्थात्, उस जलबिन्दु का अवयव लौह-पिण्ड से पृथक् अदृश्य-रूप में रहता ही है, सर्वथा उसका नाश कभी नहीं होता। यही सत्कार्यवाद का सिद्धान्त है।

## जड़-वर्ग की सृष्टि का प्रयोजन

इन सब वादों पर विचार करने के बाद यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जड़-वर्ग की सृष्टि का क्या प्रयोजन है? इसका उत्तर यही होता है कि जितने जड़-वर्ग हैं, वे भोक्ता जीवात्मा के भोग्य हैं। जीवात्माओं के भोग के लिए ही इनकी सृष्टि होती है। यह सर्वसिद्धान्त मत है। जीवात्मा को जब शब्दादि विषयों का, इन्द्रियों की सहायता से, अनुभव होता है। उस समय जीवात्मा अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सुख या दुःख का अनुभव करता है। यद्यपि इन्द्रियाँ भी विषयों की तरह जड़ ही हैं, तथापि, सात्त्विक होने के कारण इन्द्रियों में प्रकाशकल्प-शक्ति रहती है, और घटादि विषयों में नहीं। क्योंकि, घटादि विषयों में तमोगुण की प्रबलता से सत्त्वगुण नहीं के बराबर रहता है।

## इन्द्रियों की भौतिकता

नैयायिक और वैशेषिक इन दोनों के मत में इन्द्रियों को भौतिक माना जाता है। इनका कहना है कि किसी प्रकार इन्द्रियों को यदि भौतिक न मानें, तो विषयों के ग्रहण का जो प्रतिनियम है, वह नहीं बनता। अर्थात्, इन्द्रियाँ भूतों के विशेष गुणों के ग्रहण में समर्थ होती हैं। जैसे आकाश का विशेष गुण जो शब्द है, उसी का ग्रहण श्रोत्रेन्द्रिय करती है, शब्द से भिन्न दूसरे किसी भी विषयों के गुणों का ग्रहण नहीं करती। इसलिए, सिद्ध होता है कि श्रोत्रेन्द्रिय आकाश का ही कार्य है। इसी प्रकार, त्वगिन्द्रिय भी वायु का विशेष गुण जो स्पर्श है, उसी के ग्रहण में समर्थ होती है, उससे भिन्न रूप आदि के ग्रहण में समर्थ नहीं होती। इसलिए, त्वगिन्द्रिय वायु का ही कार्य है। चक्षुरिन्द्रिय, तेज का विशेष गुण जो रूप है, उसी का ग्रहण करता है, दूसरे का नहीं, इसलिए चक्षु तेज का कार्य है। इसी प्रकार, रसनेन्द्रिय, जल के विशेष गुण रस का ही ग्रहण करती है, दूसरे का नहीं, इसलिए रसनेन्द्रिय जल का कार्य सिद्ध होती है। और, माणेन्द्रिय भी पृथिवी के विशेष गुण गन्ध का ही ग्रहण करती है, दूसरे का नहीं, इसलिए माणेन्द्रिय पार्थिव सिद्ध होती है। 'सारांश यह हुआ कि भूतों के विशेष गुणों के ग्रहण करने के कारण ही इन्द्रियाँ भौतिक कहलाती हैं।

एक बात और भी ज्ञातव्य है कि पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार भूतों के जो परमाणु हैं; वे प्रत्येक सात्त्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के होते हैं। और,

१. जिम्मा अवयव नहीं होता जाय।

आकाश तो स्वभावतः सात्त्विक है। सात्त्विक अंश से ही इन्द्रियों की उत्पत्ति भी मानी जाती है, इसलिए इन्द्रियों को सात्त्विक कहना न्याय-संगत ही है।

सांख्य और पातञ्जल के मत में इन्द्रियों को भौतिक नहीं माना जाता। इनके मत में इन्द्रियों को सात्त्विक अहङ्कार से उत्पन्न होने के कारण आहङ्कारिक माना जाता है। आकाश आदि पञ्चमधार्मूलों के कारण जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पञ्च-तन्मात्र हैं, उन्हीं की सहायता से सात्त्विक अहङ्कार इन्द्रियों को उत्पन्न करता है। इसीलिए, इन्द्रियों के विशेष विषयों के ग्रहण करने का जो नियम है, वह विशुद्ध नहीं होता। यथा, शब्द-तन्मात्र की सहायता से सात्त्विक अहङ्कार श्रोत्रेन्द्रिय को उत्पन्न करता है, इसीलिए श्रोत्रेन्द्रिय शब्द का ही ग्रहण करती है, रूपादि का नहीं। इसी प्रकार स्पर्श-तन्मात्र की सहायता से त्वगिन्द्रिय, रूप-तन्मात्र की सहायता से चक्षुरिन्द्रिय, रस-तन्मात्र की सहायता से रसनेन्द्रिय और गन्ध-तन्मात्र की सहायता से प्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति सात्त्विक अंश से होती है। इसलिए, जो इन्द्रिय जिस तन्मात्र की सहायता से उत्पन्न होती है, वह इन्द्रिय उसी विषय के ग्रहण करने में समर्थ होती है, यह नियम सिद्ध होता है। कतिपय विद्वान् इन्द्रियों की उत्पत्ति में तन्मात्राओं की सहायता नहीं मानते। 'इनका सिद्धान्त है कि इन्द्रियों की उत्पत्ति के बाद भूत-तन्मात्र इनके पोषक होते हैं और नियमतः पोषक-तन्मात्राओं के अनुसार ही विषयों का ग्रहण होता है।

इस प्रकार, किसी के मत में इन्द्रियों को भौतिक माना जाता है और किसी के मत में आहङ्कारिक। परन्तु, शङ्कराचार्य का किसी भी मत में आग्रह नहीं है, अर्थात् दोनों में किसी पञ्च को मानें, उनकी हाँ में कुछ विरोध नहीं है। इसीलिए, शारीरिक भाष्य में, 'अन्तरा-विश्वान-मनसी क्रमेण तत्त्वज्ञादिति चेताविशेषात्', इस सूत्र के ऊपर लिखा है—'यदि तावद भौतिकानीन्द्रियाणि ततो भूतोत्पत्तिप्रलयाभ्युभैवप्रमुखत्पत्तिप्रलयी भवतः', अर्थात्—यदि इन्द्रियों को भौतिक मानें, तो भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के साथ ही इन्द्रियों की उत्पत्ति और प्रलय होता है, यह मानना होगा। इस प्रकार, उत्पत्ति और प्रलय दिखाकर 'अथ त्वभौतिकानीन्द्रियाणि' इत्यादि अन्यों से इन्द्रियों के अभौतिकत्व अर्थात् आहङ्कारिकत्व-साधन में विरोध का परिदृश्य किया है। इस प्रकार, दोनों पञ्चों का समर्थन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी एक पञ्च-विशेष में शङ्कराचार्य का पञ्चपात या आग्रह नहीं है। विद्यारण्य मुनि ने इन्द्रियों को भौतिक माना है—'सत्त्वांशीः पञ्चभिस्तेषां क्रमादिन्द्रियपञ्चकम्' इत्यादि ऐसोंमें भूतों के सत्त्व अंश से ही इन्द्रियों की उत्पत्ति का वर्णन किया है।

## इन्द्रियों का परिमाण

इन्द्रियों के परिमाण के विषय में अनेक दार्शनिकों का मत है कि इन्द्रियों का अणु-परिमाण है। सांख्य और पातञ्जल के मत में इन्द्रियों का परिमाण विभु अर्थात् व्यापक माना जाता है। इन्द्रियों में किसी इन्द्रिय का भी किसी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान

नहीं होता है, अनुभान से ही इन्द्रियों का ज्ञान किया जाता है, इसलिए इन्द्रियों को अतीन्द्रिय कहा जाता है।

## कर्मेन्द्रियों का भौतिकत्व

ज्ञानेन्द्रियों के सदृश कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति भी पञ्चभूतों से ही मानी जाती है। प्रत्येक भूतों से ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति के भेद से दो-दो इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। आकाश से ज्ञानशक्ति के द्वारा ओत्र और क्रियाशक्ति के द्वारा वाग्-इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार वायु से त्वगिन्द्रिय और पाणि, तेज से नेत्रेन्द्रिय और पाद, जल से रसनेन्द्रिय और पायु और पृथ्वी से ग्राहेन्द्रिय और उपस्थ की, उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार प्रत्येक भूतों से ज्ञानशक्ति की सहायता से ज्ञानेन्द्रिय और क्रियाशक्ति की सहायता से कर्मेन्द्रिय, ये दो-दो इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार, शब्द आकाश का गुण है, इसलिए शब्द का ग्राहक ओत्रेन्द्रिय भी आकाशीय सिद्ध होता है। शब्द के अभिव्यक्ति होने से वागिन्द्रिय भी अकाशीय होता है। वायु का गुण स्पर्श है और स्पर्श का ग्राहक त्वगिन्द्रिय है, इसलिए त्वगिन्द्रिय वायवीय सिद्ध होता है, इसी प्रकार वायु में क्रियाशक्ति प्रधान है और पाणि में भी क्रिया अधिक देखी जाती है, इसलिए पाणि भी वायवीय सिद्ध होता है। तेज का गुण रूप होता है और रूप का ग्राहक है चक्षु, इसलिए चक्षु तैजस या तैजोरूप कहा जाता है, इसी प्रकार पाद-न्तल में तैलादि के मर्दन से नेत्र का सुस्वास्थ होता है, इसलिए नेत्र के साथ पाद का अधिक सम्बन्ध होने के कारण पाद भी तैजस कहा जाता है। जल का गुण रस है, इसलिए रस के ग्राहक रसनेन्द्रिय को और जल के सदृश मल-शोषक और जीवन का आधार होने से पायु को जलीय कहा जाता है। पृथ्वी का गुण गन्ध है, इसलिए गन्ध का ग्राहक ग्राहेन्द्रिय को और दुर्गन्धव्यक्ति को होने के कारण उपस्थ-इन्द्रिय को पार्यिष्वक कहा जाता है।

यहाँ एक शङ्खा होती है कि जिस प्रकार तेज के गुण रूप के ग्राहक होने से चक्षु को तैजस कहते हैं, उसी प्रकार तेज में अनुभूयमान जो स्पर्श है, उसके ग्राहक होने से त्वगिन्द्रिय को भी तैजस वर्ण नहीं कहते। इसका उत्तर यह होता है कि यद्यपि तेज में स्पर्श का अनुभव होता है, तथापि वह तेज का प्राकृतिक गुण नहीं है। केषल कारण (वायु) के सम्बन्ध से तेज में स्पर्श का अनुभव होता है। इसी प्रकार, जल आदि में भी रूपादि का अनुभव कारण-गुणपूर्वक होता है।

## मन

मन उपर्युक्त सब इन्द्रियों का प्रेरक होता है। कर्मेन्द्रियों को प्राण के द्वारा यह प्रेरित करता है, और ज्ञानेन्द्रियों को भी प्राण की सहायता से ही स्वयं प्रेरित करता है। नैयायिक और वैरोधिक मन को भौतिक नहीं मानते हैं। इनके भूत में मन को स्वतन्त्र दृष्ट्य माना गया है।

सांख्य और पातञ्जल का यिदान्त है कि राजस अद्वार से सद्गुरुत अर्थात् युक्त जो सात्त्विक अद्वार है, उसीमन की उत्पत्ति होती है। अद्वैत वेदान्तियों का भूत है कि

सब महाभूतों के सात्त्विक अंश से मन की उत्पत्ति होती है। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि यद्यपि मन में सब भूतों का अंश है, तथापि धायु का अंश सबसे अधिक है, इसीलिए मन की गति सबसे अधिक है।

न्याय आदि दर्शनों में मन का अणु-परिमाण माना गया है। सर्वव्यन्तत्व-विवेचन तथा 'तत्पतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः'—इस सूत्र की नागेशकृत वृत्ति में मन को विभु माना गया है। इसलिए, सांख्य और पातञ्जल के मत में मन विभु सिद्ध होता है। भीमांसकों का भी यही चिन्हान्त है। जो मन को अणु-परिमाण मानते हैं, उनके मत में मन का एक काल में अनेक इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, इसीलिए अनेक विषयों का एक काल में ज्ञान भी नहीं होता। अष्टावधानियों और शतावधानियों को एक काल में अनेक ज्ञान जो प्रतीत होता है, वह भी भ्रम ही है। वहाँ जितने ज्ञान होते हैं; उन ज्ञानों के अधिकरण कालांश उतने ही प्रकार के भिन्न-भिन्न होते हैं। उन कालांशों का अन्तर इतना सूक्ष्म होता है कि उनका ज्ञान होना असम्भव है। इसीलिए, एक ही काल में अनेक ज्ञान होते हैं, इस प्रकार का भ्रम निवृत्त नहीं होता। रसगुल्ला आदि मिठाज्ञों के खाने में जो रस, गन्ध स्पर्श आदि की प्रतीति एक ही काल में होती है, वह भी अत्यन्त सूक्ष्मतर कालांशों के ज्ञान न होने के कारण ही। वास्तव में यह प्रतीति भी भ्रम ही है। मन को जो विभु मानते हैं, उनके मत में एक काल में अनेक ज्ञान होना सम्भव है। क्योंकि, मन के व्यापक होने के कारण एक काल में भी अनेक इन्द्रियों के साथ इसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है।

मन की चार वृत्तियाँ होती हैं : १—संशयात्मिका, २—निश्चयात्मिका, ३—गव्यात्मिका और ४—स्मरणात्मिका। एक ही मन चार वृत्तियों के भेद से चार स्वरूप को धारण करता है। जिस समय संशयात्मक वृत्ति रहती है, उस समय 'मन' कहा जाता है। जब निश्चयात्मिका वृत्ति रहती है, तब बुद्धि कही जाती है। इसी प्रकार गव्यात्मिका वृत्ति से 'अहङ्कार' और स्मरणात्मिका वृत्ति से 'चित्त' कहा जाता है। पूर्णप्रशाचार्य के मतानुयायियों के मत में मन की पाँच अवस्थाएँ हैं—मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त और चेतना। चित्त की व्याप्ति का नाम चेतना है।

नकुलीश पाशुपत दर्शन में तीन ही प्रकार का अन्तःकरण माना गया है—मन, बुद्धि और अहङ्कार। इन तीन प्रकार के अन्तःकरण की वृत्तियाँ भी क्रमशः तीन ही प्रकार की हैं—संकल्प, अध्यवसाय और गर्व अर्थात् अहङ्कार। इनके मत में चित्त मन की अवस्था-विशेष का नाम नहीं है। किन्तु, जीव का बोध-स्वरूप जो गुण है, वही चित्त है।

## ज्ञान

मन का मुख्य प्रयोजन ज्ञान ही है। चैतन्य का ही नाम ज्ञान है, जिसका दूसरा नाम द्वृक्षकि है। मादेश्वर लोग चैतन्य के दो भेद मानते हैं—एक द्वृक्षकि और दूसरी किया-शकि। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध से उपकृत जो मन है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक है। परोक्ष ज्ञान के उत्पादन में

मन को विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं होती। परोक्ष ज्ञान में मन की स्वतन्त्रता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में मन विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध के अधीन रहता है, अर्थात् विना विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध के केवल मन प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता। वहाँ विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर वह सम्बन्ध ही, इन्द्रिय से स्पृष्ट जो मन है, उससे संयुक्त आत्मा में किसी गुणविशेष को उत्पन्न करता है, इसी गुणविशेष का नाम 'ज्ञान' है। यह नैयायिकों और वैशेषिकों का सिद्धान्त है। इनके मत में ज्ञान, निराकार और अनित्य माना जाता है। केवल ईश्वर का ज्ञान नित्य है। रामानुजाचार्य के मत में जीव का भी ज्ञान नित्य माना गया है। विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध से केवल घट-ज्ञान, पट-ज्ञान इत्यादि विशेष अवस्थाओं के रूप से प्रकाशित होते हैं। और, सब विषयों में नैयायिकों का सिद्धान्त ही इनका अभिमत है। नकुलीश पाशुपत दर्शन में चित्त नाम का जो जीव का विशेष गुण है, वही बोधरूप होने के कारण विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध होने पर दीप की तरह घटादि पदार्थों को को प्रकाशित करता है।

वैभासिक बौद्धों के मत में घटादि पदार्थों के दो रूप होते हैं—आभ्यन्तर और बाह्य। बाह्य रूप घटादि पदार्थ जल के आहरण आदि लौकिक कार्य का सम्पादन करता है, और उनका आभ्यन्तर जो रूप है, वही जब विषय और इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध होता है, तब इन्द्रियों के द्वारा इन्द्रियों से सम्बद्ध मन में प्रवेश करता है, इसीको 'ज्ञान' कहते हैं। इनके मत में एक लोक-व्यवहार भी सुगमता से उत्पन्न हो जाता है। जब गुरु शिष्य को किसी पदार्थ को समझता है, तब उसकी परीक्षा के लिए पूछता है—'आगतं किल ते मनसि' ? अर्थात् यह विषय तुम्हारे मन में आया ? इस प्रश्न से स्पृष्ट प्रतीत होता है कि विषय-स्वरूप का मन में आना ही 'ज्ञान' कहा जाता है। विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं, उनके मत में बाह्य अर्थ कुछ भी नहीं है। विज्ञान-स्कन्ध ही पूर्व-संस्कार से उन घट, पट आदि विषयों के आकार में परिणत होता रहता है और बाह्य रूप प्रतीत होता है। बौद्धों के मत में ज्ञान साकार है और लूणिक होने से अनित्य भी माना जाता है। माध्वाचार्य के मत में मन के परिणाम-विशेष को ही 'ज्ञान' माना जाता है।

पातञ्जल दर्शन में मन को विभु माना गया है। उसी व्यापक मन का जो हृदय-प्रदेश है, उसी की, विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध से, परिणति होती है, उसी परिणति का नाम मनोवृत्ति है, उसी मनोवृत्ति का आत्मा में प्रतिविम्ब पड़ता है। यह प्रतिविम्ब भी व्यापक आत्मा के हृदय-प्रदेश में ही पड़ता है। उसी मनोवृत्ति के प्रतिविम्ब से युक्त जो आत्म-चैतन्य है, वही इनके मत में 'ज्ञान' है।

सांख्यवादी के मत में विषय से सम्बद्ध जो मनःप्रदेश है, उसी का परिणाम होता है और विषय-सम्बद्ध जो आत्मप्रदेश है, वही प्रतिविम्ब होता है। इतना ही पातञ्जल मत से इनके मत में मेद है।

सांख्यवादी एकदेशी मन को अणु मानते हैं। उनके मत में इन्द्रियों के द्वारा मन का विषय-प्रदेश में गमन होता है, और वहीं परिणाम भी होता है। अद्वैत वेदान्तियों में मत में भी मन को अणु माना गया है। इसलिए, इन्द्रिय द्वारा

विषय-प्रदेश में मन का गमन और वहीं विषयाकार से मन का परिणाम, ये दोनों पूर्वोक्त संख्य मत के तुल्य ही हैं। परिणाम को ही वृत्ति कहते हैं, और उस वृत्ति से सम्बद्ध आत्म-चैतन्य ही ज्ञान है। मूर्त्त और अमूर्त निखिल जगद्व्यापक जो आत्मा है, उसकी व्याप्ति जिस प्रकार विषय, हृदय और मन में है, उसी प्रकार मनोवृत्ति में भी उसकी व्याप्ति रहती है। आत्म-स्वरूप का ही नाम चैतन्य है। इनके मत में ज्ञान को साकार और अनित्य माना जाता है। यद्यपि इनके मत में चैतन्य नित्य है, तथापि वृत्ति से सम्बद्ध चैतन्य को श्रौपाधिक होने के कारण अनित्य ही माना जाता है। एक बात और भी है—परोक्ष ज्ञान-काल में मन का विषय-प्रदेश में गमन नहीं होता है। क्योंकि, विषय और इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध न होने से वहाँ मन के गमन का कोई साधन नहीं रहता है। अनुमान या शब्दादि से होनेवाला ज्ञान परोक्ष ही होता है। इस प्रकार शब्द आदि अर्थ का ज्ञान कराना मन का प्रयोजन सिद्ध होता है।

### पदार्थ-विचार

तीनों लोक में विद्यमान जो पदार्थ हैं, उनका संकलन वैशेषिकों ने सात ही पदार्थों के अन्तर्गत किया है। किन्तु, इनके अतिरिक्त भी कितने पदार्थों का संग्रह अन्य दर्शनों में मिलता है। इन सातों में भी कई एक पदार्थों को और दर्शनकारों ने नहीं माना है। किसी दूसरे में ही इनका अन्तर्भाव किया है। इन सब बातों को संचेप में दिखाया जाता है।

वैशेषिकों के मत में सात ही पदार्थ माने जाते हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये ही नौ द्रव्य हैं। गुण चौबीस प्रकार के होते हैं—स्तूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुष्ट्व, द्रवल, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। पाँच कर्म हैं—उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्जन, प्रसारण और गमन। इन सबको चलनात्मक कहते हैं। पर और अपर दो प्रकार का सामान्य होता है। नित्य द्रव्य में रहनेवाले विशेष अनन्त प्रकार का होता है। समवाय एक ही होता है। अभाव चार प्रकार का होता है—प्रारभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव।

जगत् में चेतन, अचेतन जितने पदार्थ हैं, उनके यथार्थतः स्वरूप-ज्ञान के लिए, द्रव्य क्या है? उनके गुण कौन-कौन है? धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है? उसकी जाति कैसी है? किसके साथ किसका साधर्म्य और किसके साथ किसका वैधर्म्य है? इत्यादि बातों का ज्ञान परमावश्यक है। किसी वस्तु का यदि कहीं पर साधन करना होता है, तो साधर्म्य या वैधर्म्य के दृष्टान्त से ही उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप बुद्धि पर आरूढ होता है। 'दृष्टान्त' का ही नाम 'उदाहरण' और 'निर्दर्शन' है। 'इषः अन्तः अर्थात् निश्चयो येन सः'—यही दृष्टान्त शब्द की व्युत्पत्ति है। अर्थात्,

जिसके द्वारा सिद्धान्त का निश्चय किया जाय, वही 'दृष्टान्त' है। अनुमान से जो ज्ञान होता है, उसका निश्चय दृष्टान्त से ही किया जाता है।

परार्थानुमान में प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन—ये पाँच जो न्याय के अङ्ग बताये गये हैं, उनमें दृष्टान्त ही अनुमान का जीवन है। यदि बुद्धिमान् मनुष्य हो, तो एक दृष्टान्त से ही वस्तुतत्त्व का ज्ञान अच्छो तरह कर सकता है। इन पाँच अवयवों को प्रायः सभी दर्शनकार मानते हैं। उदाहरण के अतिरिक्त और अवयवों के मानने में मतभेद होने पर भी उदाहरण को सब दर्शनकारों ने एक स्वर से माना है। जैसे—बीड़ों ने दो ही अवयवों को माना है—उदाहरण और निगमन। मीमांसक लोग तीन अवयव मानते हैं—प्रतिशा, हेतु और उदाहरण। अद्वैत वेदान्ती भी तीन ही मानते हैं—प्रतिशा, हेतु और उदाहरण; और कहीं उदाहरण, उपनय और निगमन। कोई हेतु, उदाहरण और उपनय—ये तीन अवयव मानने हैं। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के मत में कोई नियम नहीं है—कहीं तो पाँचों अवयव माने गये हैं, और कहीं उदाहरण और उपनय ये दो ही। इनका कहना है, जितने अवयवों से वहाँ काम चल जाय, उतने ही अवयवों का प्रयोग करना चाहिए। परन्तु, उदाहरण की उपेक्षा किसी ने नहीं की है। इसलिए, सब अवयवों में उदाहरण ही प्रधान अवयव माना जाता है।

परन्तु, उदाहरण भी बुद्धि पर तभी शीघ्र आरूढ़ होता है, जब सात पदार्थों का पूर्णतया विवेक ज्ञान होता है। पदार्थों के यथार्थ ज्ञान होने पर ही उदाहरणमूलक अनुमान से उन पदार्थों का ज्ञान सुलभ हो जाता है, जो मोक्ष-ग्रासि के लिए आवश्यक ज्ञातव्य हैं। इसलिए, पदार्थों का विवेचन करना अत्यन्त आवश्यक होता है। नैयायिकों के मत में सोलह पदार्थ माने गये हैं—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह-स्थान। यद्यपि इनका अन्तर्भुव उक्त सात पदार्थों में ही हो जाता है, और नैयायिकों का यह अभिमत भी है, तथापि मोक्ष के साधनीभूत जो तत्त्व-ज्ञान हैं, उनके लिए सोलहों का पृथक्-पृथक् निर्देश करना नैयायिकों ने उचित ही समझा है।

तात्पर्य यह है कि इनके मत में आत्मनिति का दुःख-निवृत्ति को ही मोक्ष माना गया है और दुःख का कारण प्रेत्यभाव है। पुनःपुनः गर्भवास और जन्म लेना ही 'प्रेत्यभाव' कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जन्म-मरण का जो चक्र है, वही 'प्रेत्यभाव' है। प्रेत्यभाव का कारण प्रवृत्ति है। सुख-दुःख के उपभोगरूप फल जिससे उत्पन्न होता है, वही प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का कारण दोप है। मनोगत राग, द्रेष, मोह, काम, क्रोध, लोम आदि को ही 'दोप' कहते हैं और दोप का कारण मिथ्याज्ञान है। मिथ्याज्ञान की निवृत्ति शरीर, इन्द्रियादि से व्यतिरिक्त आत्मतत्त्व के यथार्थ ज्ञान से ही होती है। इस प्रकार आत्म-ज्ञान के उपयोगी आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोप; प्रेत्यभाव, फल, दुःख और अपवर्ग-रूप जो प्रमेय हैं, उनके ज्ञान के लिए उक्त प्रमेयों का निर्देश करना अत्यावश्यक है। प्रमेयों का यथार्थ ज्ञान ही प्रमाण का मुख्य प्रयोजन है। इसलिए, प्रमाण का भी निर्देश करना आवश्यक है। प्रमाणों में भी

अनुमान ही 'जिसका जीवन इष्टान्त है'—सिद्धान्त के अनुसार सूक्ष्म तत्त्व के बोध कराने में समर्थ होता है। इसमें भी संशय के निराकरण के लिए तर्क की आवश्यकता है। पञ्च-प्रतिपक्ष-परिग्रह-रूप वाद के बिना निर्णय भी दृढ़ नहीं होता—'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः'—अतः वादान्त पदार्थों का निर्णय आवश्यक है।

इसके अलावा जल्प, वितरणा, देत्वामाय, छुप, जाति और निप्रह-स्थान, इनका भी तत्त्व-विचार-रूप कथा में प्रयोग करना दोप माना गया है, अतएव इसके लिए स्वरूप-ज्ञान आवश्यक है। इससे सिद्ध होता है कि सूत्रकार ने जितने पदार्थ लिखे हैं, वे सब मोक्ष में उपयोगी हैं।

एक भात और भी जान सेनी चाहिए कि वाद में छल आदि का प्रयोग स्वयं न करे, यदि वादी प्रयोग करे, तो मध्यस्थ को शात करा देना चाहिए। यदि वादी प्रतिनिविष्ट मूर्ख हो, तो उप रहना अच्छा है, अथवा मध्यस्थ की अनुमति से छात्र आदि के द्वारा भी इसे परास्त करना चाहिए, इसलिए कि मूर्ख को ही विजयी समझकर उसके मत में लोग न चले जायें।

### चार्वाक आदि के मत से तत्त्व-विचार

केवल एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माननेवाले चार्वाकों के मत में पृथिवी, जल, तेज और वायु ये ही चार तत्त्व माने जाते हैं। इन्हीं चार तत्त्वों के जो परमाणु हैं, वे ही जगत् के मूल कारण हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। बीबों में जो माध्यमिक है, उनके मत में एक शून्य को ही मूल-तत्त्व माना गया है। योगाचार-मतवाले एक विज्ञान-स्कन्ध को ही मूल तत्त्व मानते हैं। सीत्रान्तिक और वैभाषिक के मत में दो तत्त्व माने जाते हैं—एक आम्बन्तर दूसरा वायु। रूप, विज्ञान, वेदना, संशा और संस्कार ये पाँच स्कन्ध आन्तर तत्त्व कहे जाते हैं। पृथिवी, जल आदि चार भूतों के परमाणु को वाह्य-तत्त्व माना गया है। इनके अतिरिक्त भी इनके मत में चार तत्त्व (सत्य) हैं—समुदाय-सत्य, निरोध-सत्य, दुःख-सत्य और मार्ग-सत्य। ये सब उत्पत्तिशील हैं, इस प्रकार का ज्ञान समुदाय-सत्य है। सब हृषिकवादी इस ज्ञान को निरोध-सत्य कहते हैं। सब शून्य हैं, इस ज्ञान को दुःख-सत्य और सब निरात्मक है, इस ज्ञान को मार्ग-सत्य कहते हैं। इन चारों की संज्ञा आर्य-सत्य भी है।

जैनों के मत में संक्षेप से दो ही तत्त्व माने गये हैं—एक जीव, दूसरा अजीव। इन्हीं दो के प्रवक्ष्य-रूप पाँच तत्त्व और भी हैं—जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल। इनके अतिरिक्त—जीव, अजीव, आकृत्व, संवर, निर्जर, बन्ध और मोक्ष, इन सात तत्त्वों को भी ये लोग मानते हैं।

### रामानुजाचार्य के मत से तत्त्व

रामानुजाचार्य के मत में सकल पदार्थ-समूह, प्रमाण और प्रमेय के भेद से दो प्रकार का माना गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण हैं। प्रमेय भी तीन प्रकार के होते हैं—द्रव्य, गुण और सामान्य। द्रव्य छह प्रकार के माने जाते हैं—ईश्वर, जीव, नित्यविभूति, ज्ञान, प्रकृति और काल। विगुणात्मक

प्रधान को ही प्रकृति कहते हैं। गुण दस प्रकार के होते हैं—सत्त्व, रज, तम, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, संयोग और शक्ति। द्रव्य-गुण, एतदुभयात्मक ही सामान्य है। इनके मत में ईश्वर भी पाँच प्रकार के हैं—पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चावितार। वैकुण्ठवासी नारायण, जिनको मुक्त लोग प्राप्त करते हैं, को 'पर' कहा जाता है। 'व्यूह' भी चार प्रकार का है—वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिष्ट। एक ही परमात्मा के चार भेद जगत् की उत्पत्त्यादि व्यवस्था और उपासना के लिए कल्पित हैं। ज्ञान, वल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज, इन छह गुणों से परिपूर्ण वासुदेव को माना जाता है। संकर्षण में ज्ञान और वल दो ही गुण हैं। ऐश्वर्य और वीर्य, दो गुण प्रद्युम्न में प्रधान हैं। शक्ति और तेज ये दो गुण अनिष्ट में प्रधान हैं। मत्स्य, कूर्मादि अवतार का नाम 'विभव' है।

'अन्तर्यामी' उसको कहते हैं, जो सकल जीवों के हृदय-प्रदेश में सदा विद्यमान रहता है, जो जीवों का नियमन करने से नियन्ता भी कहा जाता है और जिसका साक्षात्कार योगीजन समाधि-काल में करते हैं। 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशोऽर्जुन! तिष्ठति'—यह गीता-वाक्य 'य आत्मनि अन्तस्तिष्ठन् अन्तर्यमयति' इत्यादि उपनिषद्-वाक्य और 'यदालोक्याहादं हृद इव निमज्ज्यामृतमये' दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्' इत्यादि शिवमहिम्न-लोक भी इसी परम तत्त्व का निर्देश करते हैं।

मन्त्र द्वारा प्रतिष्ठित और पूजित देवालयों की प्रतिमाओं का नाम 'अर्चावितार' है। जीव ईश्वर के परतन्त्र है, प्रतिशरीर में वह भिन्न और नित्य है। यह जीव तीन प्रकार का होता है—बद्ध, मुक्त और नित्य। संसारी जीव को 'बद्ध' कहते हैं। नारायण की उपासना से जो वैकुण्ठ चले गये हैं, उनको 'मुक्त' कहते हैं। संसार से जिसका कभी स्पर्श नहो, उसको 'नित्य' कहते हैं। जैसे—श्रनन्त, गणड आदि। वैकुण्ठ-लोक को नित्यविभूति कहते हैं। स्वप्रकाश और चेतनात्मिका जो बुद्धि है, उसी को ज्ञान कहते हैं। सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंयाली जो प्रकृति है, वही चतुर्विंशतितत्त्वात्मिका भी है। पञ्चतन्मात्र, पञ्चभूत, पञ्च शानेन्द्रिय और पञ्च कर्मन्द्रिय, प्रकृति, महत्तत्त्व, अद्विकार और मन—ये ही चौबीस तत्त्व हैं। काल विभु और जड है। सत्त्व आदि जो दस गुण हैं, वे द्रव्य के ही आधित हैं। सत्त्व दो प्रकार का है—शुद्ध और मिथ। शुद्ध सत्त्व नित्य-विभूति और मिथ प्रकृति में रहता है। सत्त्व रजोगुण और तमोगुण से संपूर्ण है, अतएव यह 'मिथ' कहा जाता है। राग और लोभ का कारणीभूत जो गुण है, वह रज है। मोट, प्रमाद और आलस्य का जो कारण है, वही तम है। पाँचों भूत में वर्तमान जो गुण है, वही शब्द है। स्पर्श, रूप, रस और गन्ध प्रतिद्वंद्व गुण हैं। छह द्रव्यों में रहनेवाला जो सामान्य है, वही संयोग है। यह अनित्य और अव्याप्त वृत्ति है।

सब फारणों के कारणत्व का जो नियांदक है, वही शक्ति है। यह छह द्रव्यों में रहनेवाला सामान्य गुण है। पर्मभूत ज्ञान, प्रमा और शुद्ध सत्त्व इन तीनों के द्रव्य और गुण भी कहते हैं। द्रव्य के आधित होने से गुण कहते हैं, और एक्षोच-विकासशील होने से द्रव्य भी कहते हैं। इस प्रकार, संदेप में रामानुजाचार्य के मत से पदार्थों का दिग्दर्शन कराया गया है। पिरोग जिशामुओं पो रामानुज-दर्शन देखना पाइए।

## माध्व-मत से पदार्थ-विवेचन

माध्व-मत में दस पदार्थ माने गये हैं, जैसे—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, शक्ति, साहस्र और अभाव। इनके मत में द्रव्य बीस प्रकार के होते हैं—परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अव्याकृताकाश, प्रकृति, गुणत्रय, महत्त्व, अहङ्कार-तत्त्व, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, मात्रा, भूत, ब्रह्माण्ड, अविद्या, वर्ण, अन्धकार, वासना, काल और प्रतिविम्ब। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, गुरुत्व, लघुत्व, मृदुत्व, काठिन्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, आलोक, शम, दम, कृपा, तितिज्ञा, बल, भय, लज्जा, गामीर्य, सौन्दर्य, धैर्य, स्थैर्य, शौर्य, आदि अनेक प्रकार के गुण इनके 'पदार्थ-संग्रह' आदि अन्यों में पाये जाते हैं।

विहित, नियिद्ध और उदाचीन—ये तीन प्रकार के कर्म हैं। नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार के सामान्य हैं। भेद के नहीं रहने पर भी भेद-व्यवहार का निर्वाह करानेवाला विशेष है। इनके मत में समवाय नहीं माना जाता। विशेषण के सम्बन्ध से जो विशेष का आकार होता है, उसी का नाम विशिष्ट है। हाथ आदि परिमापी से नापा हुआ वस्त्र और आकाश को अंशी कहते हैं। शक्ति चार प्रकार की होती है—अचिन्त्यशक्ति, आधेयशक्ति, सहजशक्ति और पदशक्ति। एक निरूपित अपर में रहनेवाले धर्म का नाम साहस्र है। यह दो में रहनेवाला द्विष्ट धर्म नहीं है। अभाव चार प्रकार का है—ग्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव। दिशा को अव्याकृताकाश कहते हैं। यह सूष्टि और प्रलय में भी विकार-रहित नित्य है और भूताकाश से भिन्न है। ब्रह्माण्ड का जो उपादान है, वही प्रकृति है। तत्त्व, रज और तम, इन तीन गुणों के समुदाय का नाम गुणत्रय है। यही गुणत्रय, जिसका साक्षात् उपादान हो, महत्त्व है। उस महत्त्व का कार्य अहङ्कार है। बुद्धि दो प्रकार की है—तत्त्वरूप और शानरूप। यहीं तत्त्वरूप बुद्धि को द्रव्य माना गया है। मन भी दो प्रकार का है—एक, तत्त्वरूप; दूसरा, अतत्वरूप। वैकारिक अहङ्कार से उत्पन्न होनेवाला मन तत्त्वरूप है, दूसरा इन्द्रिय है। तत्त्वरूप मन पाँच प्रकार का है—मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त और चेतना। इन्द्रियाँ प्रसिद्ध हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध को मात्रा या तन्मात्रा कहते हैं। इन्हीं का नाम विषय भी है। इन्हीं तन्मात्राओं से कमरा: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी की उत्पत्ति होती है। ये ही पंचभूत हैं। इन्हीं पंचभूतों का का कार्य सकल ब्रह्माण्ड है।

अविद्या के पाँच भेद हैं—मोह, महामोह, तामिस, अन्धतामिस और व्यामोह। अन्य प्रकार के भी चार भेद हैं—जीवाच्छादिका, परमाच्छादिका, शैवला और माया। सब अविद्या जीव के ही आधित हैं। आदि से अन्त तक इन्यावन वर्ण हैं। अन्धकार प्रसिद्ध ही है। वैशेषिकों की तरह तेज का अभाव-रूप अन्धकार नहीं है। स्वम के उपादान का नाम वासना है। आयुष्य का व्यवस्थापक काल है। जो ग्रन्थ के विना-

न रहे और विघ्न के सदरा हो, वह प्रतिविघ्न है। दोष से भिन्न गुण होता है। इनके मत में रूप आदि के लक्षण और अवान्तर भेद प्रायः नैयायिकों के समान ही होते हैं। परिमाण तीन प्रकार का है—अणु, मध्यम और महत्। इन दोनों का संयोग एक नहीं है, किन्तु भिन्न प्रकार का है। यथा—घटनिरूपित संयोग पट में और पटनिरूपित संयोग घट में। ये दोनों संयोग भिन्न हैं। वेग के हेतुभूत गुण का नाम लघुत्व है; मृदुता को मृदुत्व कहते हैं। काठिन्य कहापन नहीं है, किन्तु यह एक भिन्न गुण ही है; क्योंकि सम्बन्धिद्वय की प्रतीति के विना भी काठिन्य की प्रतीति होती है। अन्योन्याभाव का ही नाम पृथक्त्व है। ध्वनि को शब्द कहते हैं। यह पंचभूतों का गुण है। ज्ञान का ही नाम बुद्धि है। अनुभव तीन प्रकार का है—प्रत्यक्ष, अनुमिति और शाब्द। बुद्धि से प्रयत्न-पर्यन्त तत्त्व मन के ही धर्म हैं, और वे अनित्य भी हैं। संस्कार चार प्रकार का होता है—वेग, भावना, योग्यता और स्थिति-स्थापक। प्रकाश का ही नाम आलोक है। बुद्धि की भगवन्निष्ठता, अर्थात् भगवान् में ही बुद्धि को लगा देना 'शम' है। इन्द्रियों का निग्रह करना 'दम' है। दयाको ही 'कृषा' कहते हैं। सुख-दुःख-दृढ़सहिष्णुता का नाम 'तितिक्षा' है। दूसरे की अपेक्षा के विना कार्य के अनुकूल जो गुण है, उसी को 'बल' कहते हैं। भय आदि प्रसिद्ध ही हैं। प्रभृति शब्द से सत्त्व, शीच आदि को समझना चाहिए। उत्सेपण आदि चलनात्मक कर्म हैं। मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व आदि को सामान्य कहते हैं। यह प्रतिव्यक्ति भिन्न और अचित्य है; क्योंकि व्यक्ति के साथ ही यह उत्पन्न और विनष्ट होता है। और, व्यक्ति के विद्यमान रहते भी मुरापान आदि से ब्राह्मणत्व आदि का नाश होना प्रसिद्ध है। इसके अलावा विश्वामित्र में तप के प्रभाव से ब्राह्मणत्व आ गया, यह भी प्रसिद्ध ही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामान्य अनित्य है। माध्व-मत में भी जीवत्व-सामान्य नित्य माना जाता है; क्योंकि जीव नित्य है। सामान्य दो प्रकार का होता है—एक, जातिस्प; दूसरा, उपाधिरूप। सर्वज्ञत्व, प्रमेयत्व आदि जो सामान्य है, वह उपाधि-रूप है। ईश्वर नित्य है, इसलिए इसमें रहनेवाला सर्वज्ञत्व भी नित्य है। और, घट-पदादि में रहनेवाला प्रमेयत्व अनित्य है; क्योंकि घट-पदादि अनित्य है।

सकल पदार्थ में रहनेवाला विशेष भी नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का है। ईश्वर आदि नित्य पदार्थों में रहनेवाला नित्य और घटादि अनित्य पदार्थों में रहनेवाला अनित्य है। विशिष्ट भी नित्य और अनित्य दो प्रकार का है। सर्वज्ञत्व आदि विशेषण विशिष्ट परब्रह्म आदि-रूप नित्य हैं, और दण्डादि विशेषण विशिष्ट दण्डी आदि अनित्य हैं। अवयव का नाम अंश है, और तद्विशिष्ट अवयवी अंशी है। जैसे, पट और आकाश आदि। यह अवयव-तन्तु से भिन्न और हाथ आदि से परिमित, अर्थात् नापा हुआ है। उक्त अवयव से विशिष्ट ही अवयवी तन्तु से उत्पन्न होता है। आकाश आदि के जो अवयव हैं, वे अनारम्भक हैं; अर्थात् वे किसी को उत्पन्न नहीं करते। आकाश भी सावयव है, इसीलिए इस आकाश-माग में पक्षी उड़ते हैं, अन्यत्र नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था उपपन्न होती है। परमेश्वर में सम्पूर्ण शक्ति है। इससे भिन्न स्थल में शक्ति अपने आधय के अनुसार है; प्रतिमा आदि में मन्त्रों से अधिष्ठित

होने के कारण आधेयशक्ति है। स्वभाव सहजशक्ति है। पदों में वाच्य-वाचक सम्बन्ध-शक्ति है। जीवों का सादृश्य नित्य है और घट आदि का अनित्य। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव—ये तीन अभाव धर्मों से भिन्न हैं। अन्योन्याभाव धर्मों-स्वरूप ही है। नित्यात्मक अभाव नित्य और अनित्यात्मक अनित्य है। राशभूज का अभाव अत्यन्ताभाव और नित्य है। घट आदि का अभाव उसका प्रागभाव-स्वरूप है; इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।

### माहेश्वर आदि के मत में तत्त्व-विचार

माहेश्वरों में नकुलीश पाशुपत दर्शन के अनुसार पाँच पदार्थ माने गये हैं। जैसे—कार्य, कारण, योग, विधि और दुःखान्त। इसमें कार्य अस्वतन्त्र है। विद्या, कला और पशु के भेद से तीन प्रकार का है। विद्या जीव का गुण है। अचेतन वस्तु का नाम 'कला' है। वह कार्य और कारण के भेद से दो प्रकार का है। पाँच भूत और पाँच उनके गुण, ये दस प्रकार के कार्य होते हैं। पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और तीन अन्तःकरण—ये तेरह कारण कहे जाते हैं। स्वतन्त्र कारण परमेश्वर है। आत्मा का इंश्वर के साथ सम्बन्ध ही योग है। धर्म और अर्थ के साधक को विधि कहते हैं। दुःखान्त मोक्ष का नाम है।

शैवों के मत में पति, पशु और पाश तीन पदार्थ माने गये हैं। पति शिव है और पशु जीव। पाश चार प्रकार का होता है—मल, कर्म, माया और रोध-शक्ति।

प्रत्यभिज्ञादर्शन में जीवात्मा और परमात्मा को एक ही माना गया है, और उब जड़-वर्ग पूर्ववत् हैं। परन्तु, जड़ आत्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों माना जाता है। और उब नकुलीश पाशुपत दर्शन के ही समान हैं। रसेश्वर दर्शन में कार्य-कारण आदि पाँच पदार्थ हैं, वे उब नकुलीश पाशुपत दर्शन के समान हैं। मीमांसक लोगों ने पदार्थों के बारे में मुख्यतया कोई विचार नहीं किया है। क्योंकि, मीमांसाशास्त्र का मुख्य ध्येय वाक्यार्थ-विचार है। इसलिए, वाक्यार्थ का ही इसमें विचार किया गया है। किर भी, समवाय आदि कतिपय पदार्थों के खण्डन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शेष विषयों में वैशेषिकों के मत का ही आदार किया गया है। 'अनिपद्ध-मन्यनुभित भवति' इस न्याय से भी यही सिद्ध होता है।

पाणिनीयों के विषय में भी यही बात है। व्याकरणशास्त्र शब्दार्थ-विचार में ही प्रधान माना जाता है। किर भी, अद्वैत वेदान्त के अनुसार ही इनका सिद्धान्त है।

सांख्यों के मत में भी चार प्रकार के तत्त्व माने गये हैं—(१) प्रकृति-मात्ररूप, (२) प्रकृति-विकृति-उभयरूप, (३) केवल विकृतिरूप और (४) अनुभयरूप। अर्थात्, प्रकृति-विकृति दोनों से भिन्न। त्रिगुणात्मक-प्रधान (मूल प्रकृति) को प्रकृति-मात्ररूप कहते हैं। महत्त्व, अद्वैत और पञ्चतन्मात्र—ये प्रकृति-विकृति-उभयरूप हैं। पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच भूत और मन ये सोलह पदार्थ केवल विकृतिमात्र-रूप हैं। इन दोनों के अतिरिक्त पुष्प अनुभयरूप है। इसी बात को सांख्य-कारिका में लिखा है—

'मुलप्रकृतिरविकृतिमंहवाद्यः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

पोडशकस्तु विकारः न प्रकृतिर्विकृतिः पुरुषः ॥'

पातञ्जली के मत में भी प्रायः ये ही सब पदार्थ माने गये हैं। केवल एक ईश्वर इनके मत में अधिक माना गया है। ईश्वर के विषय में इनका सूत्र है—

'क्लेशकर्मविषयाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषं ईश्वरः ।'

## अद्वैत-मत में तत्त्व-विचार

अद्वैत वेदान्तियों के मत से परमार्थ में दृक्-रूप एक ही पदार्थ या तत्त्व है। इसी को द्रष्टा कहते हैं। इनके मत में द्वैत का मान अनादि अविद्या से परिकल्पित है। तदनुषार द्रष्टा और दृश्य दो पदार्थ होते हैं। उपाधि-मेद से द्रष्टा के तीन रूप होते हैं—ईश्वर, जीव और साक्षी। कारणीभूत-आशान उपाधि से युक्त होने के कारण ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर भी तीन प्रकार का है—ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अन्तःकरण और उसके संस्कार से युक्त जो आशान है, उस आशान-रूप उपाधि से युक्त होने के कारण 'जीव' कहा जाता है। ईश्वर और जीव ये दोनों, उक्त अपनी उपाधि से युक्त हैं। जो केवल उपाधि से रहित है, उसको 'साक्षी' कहते हैं। प्रपञ्च का नाम दृश्य है। दृश्य भी तीन प्रकार का होता है। अव्याकृत, मूर्त्त और अमूर्त्त। अविद्या, अविद्या के साथ चित् का सम्बन्ध, अविद्या में चित् का आभास और जीव-ईश्वर का विभाग—ये चार अव्याकृत कहे जाते हैं। अविद्या से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच सूक्ष्मभूत और अविद्या से ही उत्पन्न अन्धकार ये अमूर्त्त कहे जाते हैं। पञ्चीकरण से पहले इन सूक्ष्म भूतों की मूर्त्तिविस्था असम्भव है। अन्धकार भी अमूर्त्त ही है।

अमूर्त्त अवस्थावाले इन सूक्ष्म भूतों के सात्त्विक अंश से एक-एक ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। और, सब सात्त्विक अंश मिलकर मन को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार, उसी अव्यक्तावस्था में प्रत्येक के राजस अंश से एक-एक कर्मेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। सम्मिलित राजस अंशों से प्राण की उत्पत्ति होती है। उसके बाद भूतों का पञ्चीकरण होता है। पाँच भूतों के परस्पर सम्मिश्रण का नाम पञ्चीकरण है। पञ्चीकरण से ही मूर्त्तिविस्था होती है। इस प्रकार समस्त भौतिक भूमण्डल उत्पन्न होता है।

## अन्धकार आदि के विषय में मतभेद

नैयायिक और वैशेषिक अन्धकार को मावरूप पदार्थ नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि तेज का अभाव-स्वरूप ही तम है, दूसरा कोई पदार्थ नहीं। 'नीलं तमध्यलति' यहाँ नील-रूप और चक्षन-किया की प्रतीति होती है, वह केवल अम-रूप ही है। इसीलिए दीपिकाकार ने तम का लक्षण अभावात्मक ही किया है—'प्रीढप्रकाशकस्तेजः सामान्याभावस्तमः', अर्थात् अत्यन्त प्रकाशक जो तेज है, उसका अभाव-स्वरूप ही तम है। वह अतिरिक्त कोई भावरूप पदार्थ नहीं है। मीरांसिक भी

तम को यद्यपि अभाव-स्वरूप ही मानते हैं, तथापि वैशेषिकों के मत से इनमें यही विशेषता है कि ये तेज के अभाव-स्वरूप तम को नहीं मानते, किन्तु तेजोशान के अभाव-स्वरूप तम को मानते हैं। इनका कहना है—‘आलोकशानविहस्तमसो लक्षणं मतम्’, अर्थात् आलोक-शान का अभाव ही तम है। मीमांसकों में कुमारिलभट्ट के मतानुयायी कुछ लोग तम को भी द्रव्य मानते हैं। इनके विषय में एक प्राचीन श्लोक है—

‘छायायास्तमसश्चापि सम्बन्धाद्गुणकर्मणोः ।  
द्रव्यत्वं केचिदिच्छन्ति मीमांसकमताश्रयाः ॥’

अर्थात्, कोई-कोई मीमांसक-मतानुयायी, गुण और कर्म के सम्बन्ध होने के कारण, छाया और तम को भी द्रव्य मानते हैं। श्रीधराचार्य के मत में भी तम को द्रव्य माना गया है, परन्तु वे नील-स्वरूप को आरोपित मानते हैं। वेदान्तियों के मत में भी तम को द्रव्य ही माना गया है। वेदान्तियों में केवल रामानुजाचार्य के मत में तम का पृथिवी में अन्तर्भूत माना गया है। परन्तु, माध्व और अद्वैत वेदान्ती तम को स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं।

नैयायिकों और वैशेषिकों के मत में दिक् को स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है। रामानुजाचार्य, पाणिनीय और अद्वैत वेदान्ती—इन लोगों के मत में दिक् का आकाश में अन्तर्भूत माना गया है। माध्व लोग अव्याकृत आकाश-स्वरूप दिक् को मानते हैं। नैयायिक, वैशेषिक, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य और माहेश्वर—इन लोगों के मत में काल को स्वतन्त्र द्रव्य माना जाता है। चार्वाक, बौद्ध, संख्य और पातञ्जल के मत में काल को नहीं माना जाता। अद्वैत वेदान्तियों के मत में अविद्या में ही काल का अन्तर्भूत माना गया है। समवाय को केवल नैयायिक और वैशेषिक ही मानते हैं। इनसे भिन्न चार्वाक से लेकर अद्वैत वेदान्ती-पर्यन्त किसी दार्शनिक ने भी समवाय को पदार्थ नहीं माना है। रामानुजाचार्य वैशेषिक शास्त्र में बताये गये गुणों में बहुत गुणों का अन्यत्र अन्तर्भूत मानते हैं। जैसे—संख्या को संख्येय द्रव्य में ही अन्तर्भूत माना गया है, संयोग के अतिरिक्त इनके मत में संख्या नाम का गुण नहीं माना जाता। और, संयोगभाव से भिन्न कोई पृथक्त्व भी नहीं माना जाता। विभाग भी ‘संयोगनाश का ही नाम है। देश और काल के संयोग-विशेष का ही नाम परत्य और अपरत्य है, भिन्न कोई गुण नहीं। गुरुत्व-शक्ति विशेष रूप ही है, और द्रव्यत्व भी द्रवद्रव्य-स्वरूप के अतिरिक्त कोई पृथक् गुण नहीं है। स्नेह भी आश्रय का स्वरूप-विशेष ही है। सुख, दुःख, इच्छा, दोष, प्रयत्न, ये सब उपाधिविशेष से युक्त बुद्धि के ही नाम हैं।

ईश्वरनिष्ठ जो ज्ञानविशेष है, उसी को धर्म माना गया है। इसी प्रकार, संयोगविशेष को ही चलनात्मक कर्म माना जाता है। और, अवयव-संस्थान-विशेष को ही ‘सामान्य’ कहा जाता है। नैयायिक, वैशेषिक और माध्व लोग भाव के अतिरिक्त अभाव को पदार्थ मानते हैं। मीमांसक, रामानुजाचार्य और अद्वैत वेदान्ती के मत में अभाव को अधिकरण-स्वरूप ही माना जाता है।

यहाँ तक मूलतत्त्व और उसके विकारभूत पदार्थों के विषय में विचार संक्षेप में किया गया। मूलतत्त्व के ज्ञान से मोक्ष होता है, यह पहले ही कह चुके हैं। अब विकार-ज्ञान से बन्ध होता है, और बन्ध क्या है? इस पर विचार किया जायगा। यहाँ बन्ध से संसार-बन्ध ही लिया जाता है।

### बन्ध

संसार में आवालबृद्ध प्रत्येक प्राणी में सुख, दुःख और मोह का अनुभव सदा "देखा जाता है। यहाँ सुख, दुःख और मोह क्या है? इस विषय में सांख्य और पातञ्जलि के मत में पदार्थ ही सुख-दुःख-मोह-तत्त्वरूप है, ऐसा माना जाता है। सब पदार्थों में दुःख, सुख और मोह सदा वर्तमान रहते हैं। क्योंकि, सब पदार्थ त्रिगुणात्मक ही हैं। जब भोक्ता पुरुषों के शुभकर्म का उदय होता है, उस समय शुभ कर्म के संस्कार का भी प्रादुर्भाव होता है। उसी से पदार्थ में रहनेवाला जो सुख-रूप गुण है, वह दुःख और मोह को अभिभूत कर प्रादुर्भूत होता है। उसी प्रकार अशुभ कर्मों के उदय होने से दुःख-रूप जो पदार्थरूप गुण है, वह सुख और मोह को परास्त कर प्रादुर्भूत होता है। शुभ, अशुभ इन दोनों कर्मों के उदय न होने से मोह-रूपी गुण प्रकट होता है। यही सुख, दुःख और मोहात्मक संसार 'बन्ध' माना गया है। वेदान्तियों के मत में पदार्थों को सुख-दुःख-मोहात्मक नहीं माना गया है। इनका कहना है कि पदार्थ सुख दुःख-मोह-रूप नहीं हैं; किन्तु सुख, दुःख और मोह के प्रयोजक हैं। सुख, दुःख और मोह तो मन की वृत्तिविशेष का ही नाम है। वही वृत्तिविशेष दृढ़जिंत कर्मजन्य संस्कार से, पदार्थों के ज्ञान से, सुख, दुःख और मोह-रूप में आविर्भूत और तिरोभूत होती रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ का ज्ञान ही सुख-दुःख आदि का प्रधान साधन है।

### प्रामाण्यवाद

सुख, दुःख आदि का साधनीभूत जो ज्ञान है, वह दो प्रकार का होता है—पहला, प्रामाण्य; दूसरा, अप्रामाण्य। प्रामाण्य और अप्रामाण्य के विषय में प्रायः सब दर्शनकारों में मतभेद रहता है। यहाँ यही प्रश्न उठता है कि प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः है, अथवा परतः? यहाँ नैयायिक, वैशेषिक और वौद्ध—इन लोगों के मत में प्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञानी दोनों परतः मानी जाती है। मीमांसकों और वेदान्तियों का कहना है कि प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः है, परतः नहीं। अप्रामाण्य की उत्पत्ति प्रायः सब दर्शनकारों ने परतः मानी है। केवल वौद्धों के मत में अप्रामाण्य की उत्पत्ति भी स्वतः मानी जाती है। और सांख्यों के मत में अप्रामाण्य की ज्ञानी स्वतः होती है। जैनों का कहना है कि प्रामाण्य या अप्रामाण्य दोनों की उत्पत्ति परतः होती है, किन्तु ज्ञानी अभ्यस्त स्थल में स्वतः और अनभ्यस्त स्थल में परतः होती है। इतना ही इनके मत में मेद है। अब यहाँ एक बात और जानने योग्य है कि बन्ध का साधनीभूत जो पदार्थ-ज्ञान है, वह धार्हे प्रमाण हो या अप्रमाण, दोनों ही बन्ध के साधन में उपयोगी होते हैं। इसलिए, इसमें कोई भेद नहीं है; क्योंकि दोनों का फल बन्ध ही है।

परन्तु, मोक्ष का साधनीभूत जो तत्त्व-ज्ञान है, वह प्रमाण होने पर ही मोक्ष का साधक होता है, अप्रमाण होने पर नहीं।

## मोक्ष

मोक्ष का स्वरूप किसके मत में कैसा है, यह दिखाया जाता है। चार्वाकों के मत में स्वातन्त्र्य अथवा मृत्यु को ही 'मोक्ष' कहते हैं। वौद्धों में शून्यवादी माध्यमिकों के मत में आत्मा का सर्वथा उच्छ्रेद ही 'मोक्ष' माना जाता है। इनके अतिरिक्त योगाचार, चीत्रान्तिक और वैभाषिक के मत में निर्मल ज्ञान का जो उदय है, उसी को 'मोक्ष' माना जाता है। जैनों का कहना है कि कर्म से सम्प्रादित जो देह-स्वरूप आवरण है, उसके अमाव में आत्मा का जो सतत ऊर्ध्वगमन है, वही 'मोक्ष' है। रामानुजाचार्य का मत है कि सर्वकर्तृत्व से भिन्न जो परमात्मा के सर्वशत् आदि गुण हैं, उनकी प्राप्ति और भगवत्स्वरूप का यथार्थ अनुभव होना ही 'मोक्ष' है। इनका मत है कि मुक्तात्मा में भगवान् के सब गुण चले आते हैं, केवल सर्वकर्तृत्व गुण नहीं आता। माध्वाचार्य के मत में सर्वकर्तृत्व, लक्ष्मीपतित्व और श्रीवत्स-प्राप्ति—इन तीन गुणों से रहित दुःख से अमिथित पूर्ण सुख का नाम ही 'मोक्ष' है। परम ऐश्वर्य की प्राप्ति ही 'मोक्ष' है, ऐसा नकुलीश पाशुपतों का मत है। शैवों के मत में शिवत्व-प्राप्ति ही 'मोक्ष' है। प्रत्यभिज्ञावादियों के मत में पूर्णात्मता का लाभ ही 'मोक्ष' है। रसेश्वरवादी पारद रस आदि से देह के स्थैर्य को ही 'मोक्ष' मानते हैं। यही इनके मत में जीवन्मुक्ति है। अशेष गुणों का उच्छ्रेद ही 'मोक्ष' है, यह वैशेषिकों का मत है। नैयायिकों के मत में आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति को ही 'मोक्ष' माना जाता है। नैयायिकों में कुछ एकदेशियों का कहना है कि मुक्ति में आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति ही नहीं होती, किन्तु सुख की उपलब्धि भी होती है। मीरांसकों के मत में स्वर्ग की प्राप्ति ही 'मोक्ष' है। मूलाधारस्थ चक्र में वर्तमान जो परावाक् नाम का ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार होना ही 'मोक्ष' है—यह पाणिनीयों का सिद्धान्त है। प्रकृति के उपरम, अर्थात् शान्त होने पर पुरुष के अपने रूप में जो अवस्थान है, वही सांख्यों का 'मोक्ष' है। कृतकृत्य होने के कारण गुणवत्त्व, अर्थात् सत्त्व, रज और तम पुरुषार्थ से शून्य हो जाता है, उस समय अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है—यही प्रकृति का लय 'मोक्ष' कहा जाता है। पातञ्जली के मत में चिति-शक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थान का ही नाम 'मोक्ष' है। अद्वैत वेदान्तियों के मत में मूल अशान की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का अधिगम, अर्थात् साक्षात्कार या प्राप्ति का ही नाम 'मोक्ष' है। यहाँ तक प्रमाण से लेकर मोक्ष-पर्यन्त प्रायः सब पदार्थों के स्वरूप का विवेचन मतभेद-प्रदर्शनपूर्वक संक्षेप में किया गया। अब दर्शन-भेद में बीज दिखाया जायगा।

## दर्शन-भेद में बीज

'दर्शन' शब्द में जो दश धातु है, उसका अर्थ ज्ञान-सामान्य होता है। 'दृश्यते, अनुसन्धीयते पदार्थानां मूलतस्वमनेन इति दर्शनम्', अर्थात् पदार्थों के मूलतत्त्व का अनुसन्धान जिसके द्वारा किया जाय, वही दर्शन है। इस व्युत्पत्ति से यह सिद्ध होता है

कि संसार में जितने जड़ या घेतन पदार्थ उपलब्ध होते हैं, उनके मूलतत्त्व का साक्षात्कार करने में जो शास्त्र उपयोगी होता है, उसी का नाम 'दर्शन' है। मूलतत्त्व का अनुसन्धान ही मोक्ष का परम साधन है, यह प्रायः सभी दर्शनकारों का अभिमत है। और मूलतत्त्व का अनुसन्धान केवल एक प्रमाण के द्वारा ही कर सकते हैं। प्रमाण एक नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द आदि के भेद से अनेक प्रकार के हैं। इस अवस्था में 'कारणमेदात् कार्यमेदः' अर्थात् कारण में भेद होने से कार्य भी भिन्न होता है—इस नियम के अनुसार प्रमाण में भेद होने के कारण दर्शनों में भी भेद होना स्वाभाविक हो जाता है। अब यहाँ यह सन्देह हो जाता है कि यद्यपि प्रमाणों में अनेक प्रकार के भेद हैं, तथापि दर्शनकारों का एक विशेष प्रकार के प्रमाण में ही पक्षपात क्यों हो जाता है? क्योंकि, हमलोगों-जैसे साधारण बुद्धिवालों का किसी विशेष प्रमाण में पक्षपात होने पर भी निर्मल अन्तःकरणवाले सर्वज्ञ-तुल्य महात्माओं का किसी विशेष प्रमाण में—कि यही प्रमाण तत्त्वान्वेषण में समर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं—इस प्रकार का पक्षपात होना अनुचित प्रतीत होता है। और भी, नास्तिकों के अतिरिक्त जितने आस्तिक दर्शनकार हैं, प्रायः सब लोग मानते हैं कि मूलतत्त्व के अन्वेषण में एक श्रुति ही समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। इस अवस्था में भी दर्शन-भेद निर्मूल हो जाता है।

इस सन्देह का उत्तर प्रमाण-विचार के प्रसंग में प्रायः दिया जा चुका है, जैसे, किसी का श्रुति में विश्वास नहीं है, किसी का मन्द विश्वास है, किसी का अमन्द। किसी का दृढ़ विश्वास है तो किसी का उससे भी दृढ़तर। इस प्रकार, विश्वास के तारतम्य से प्रमाण-विशेष में पक्षपात होना स्वाभाविक हो जाता है। अतः, प्रमाण-विशेष में शब्दा होने के कारण ही कोई प्रत्यक्ष को ही मूलतत्त्व के अन्वेषण में समर्थ समझ सकते हैं, कोई अनुमान को ही। कोई मूल कारण के अन्वेषण में श्रुति को ही सर्वप्रधान समझते हैं। इस प्रकार, तत्त्वानुसन्धान के साधनीभूत तीन प्रमाण मुख्य हैं—अध्यक्ष, अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इनके भेद से दार्शनिक भी तीन प्रकार के हो जाते हैं—कोई आध्यक्षिक (जो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है), कोई आनुमानिक और कोई श्रूति।

दर्शन के भेद होने में एक और भी कारण है कि जिस प्रकार आध्यक्षालों में भी कोई दूरस्थ वस्तु को भी देख लेता है और कोई समीपस्थ वस्तु को ही देखता है, दूरस्थ को नहीं। कोई समीपस्थ को भी नहीं देखता, और अत्यन्त समीप हो जाने पर देखता है। इसी प्रकार, तर्क से भी कोई सूक्ष्म का कोई सूक्ष्मतर और कोई सूक्ष्मतम का भी ज्ञान कर लेता है। इसी प्रकार, किसी की बुद्धि श्रुति के बाब्य अर्थ को ही समझकर संतुष्ट हो जाती है, किसी की बुद्धि व्यंग्य अर्थ भी समझने के लिए चेष्टा करती है, और समझ भी जाती है, और किसी की बुद्धि निगूढ़ से भी निगूढ़ अर्थ के समझने में फ़सिति प्रविष्ट हो जाती है और निगूढ़ अर्थ को समझ भी लेती है। इस प्रकार, बुद्धि के भेद से श्रुति के तात्पर्य को समझने में भी मतिभेद होना सम्भव है। इस स्थिति में, तत्त्व के अनुसन्धान के साधनीभूत प्रमाण के एक माननेवालों में भी बुद्धि-वैचित्र्य

होने के कारण उस प्रमाण से साध्य तत्त्व के अन्वेषण में दैषम्य, अर्थात् भेद हो जाना दुर्निवार हो जाता है। इसलिए, प्रमाण भेद होने के कारण भिन्न-भिन्न जो दर्शन हैं, उनमें पुनः प्रविष्ट होकर अन्वेषण करने से पूर्वशात् तत्त्व से विभिन्न तत्त्व भी मासित होने लगते हैं। इसलिए, अनिवृद्धमाण तत्त्व के भेद होने से दर्शन का भेद होना दुर्निवार है।

इसलिए, श्रीत और ताकिंक, जो दर्शनकार हैं, उनमें विभिन्न विचारकों की विभिन्न विचार-सरणी के अनुसार पुनःपुनः विचार करने पर एक प्रमाण माननेवालों में भी अनेक प्रकार के विभिन्न दर्शन हो गये हैं। इस प्रकार, विचार-सरणी के भेद से दर्शनों के अनेक होने पर भी सब दर्शनकारों का एक जो उद्देश्य—‘आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति और आत्यन्तिक सुख-प्राप्ति’—है, वह अच्छुरण ही रहता है। सब दर्शनकारों के समन्वयात्मक विचार से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि केवल उद्देश्य में ही सबका ऐकमत्य नहीं है, प्रत्युत, उद्देश्य-प्राप्ति का साधन जो मूलतत्त्व का ज्ञान है, उसके विषय में भी सब दर्शनकारों का अभिप्राय एक ही प्रतीत होता है।

इस प्रकार के भेद के नियमन में जगन्नियन्ता परमात्मा की अलौकिक और अनिर्वचनीय इच्छा ही प्रतीत होती है। क्योंकि, जगत् में सब जन्मुओं की एक ही प्रकार की प्रवृत्ति ही, तब तो जिस मार्ग में जन्मुओं की प्रवृत्ति होगी, उस मार्ग की पराकाष्ठा, ‘चाहे वह अच्छा हो या बुरा’, सब लोग कुछ काल में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, जगत् का सब व्यवहार लुप्त हो जाने से सब शून्य-सा हो जायगा। इस स्थिति में, जगत् का तत्त्व ही नष्ट हो जायगा; क्योंकि मार्ग-भेद ही जगत् की स्थिरता का सम्पादन करता है। मार्ग-भेद होने का कारण यह है कि जगत् में अनेक प्रकार के जन्म होते हैं, और एकजातीय और एकदेशीय होने पर भी ‘भिन्नरूचिहिं लोकः’ सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक जन्मु की प्रवृत्ति विभिन्न प्रकार की होती रहती है। इसलिए, भिन्न-भिन्न रूचि और प्रवृत्ति के अनुसार मार्ग-भेद होना स्वाभाविक हो जाता है।

परमात्मा ने अपनी अचिन्त्य शक्ति के द्वारा सबसे पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति की रचना की है। सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणों की साम्यावस्था का ही नाम प्रकृति है। और, वे तीनों गुण, प्रत्येकशः अनन्त प्रकार के होते हैं। उन अनन्त सत्त्वांशों में किसी सत्त्व-अंश का किसी रजोगुण के अंश के साथ, और किसी सत्त्वांश का किसी तमोगुण के अंश के साथ संयोग होता है। इस प्रकार, क्रमशः पञ्चभूतों को उत्पन्न कर सकल चेतन-अचेतन पदार्थों को प्रकाशित किया है। उनमें करोड़ों से अधिक व्यक्तियों में भी दो के साथ सर्वांश में समता नहीं होती। एक बात और है कि प्रवाह-रूप से निरन्तर विद्यमान जो जगत् की अवस्थिति है, और उसके साधनीभूत जो मार्ग-भेद हैं, उनमें केवल जन्मुओं का नाना प्रकार का होना ही एक कारण नहीं है। किन्तु, एकजातीय होने पर भी प्रवृत्ति का भेद होना भी एक कारण होता है। और प्रवृत्ति भी जिस प्रकार वर्ण-भेद, जाति-भेद, आध्य-भेद से अनेक प्रकार की होती है, उसी प्रकार यह ज्ञान के भेद से भी अनेक प्रकार की होती है।

यद्यपि ज्ञान के भेद न होने पर भी विचित्र जगत् के व्यवहार का अभाव नहीं होता है; क्योंकि विचित्र प्रवृत्ति के कारणीभूत वर्ण-भेद, जाति-भेद, आथर्य-भेद आदि अनेक कारण विद्यमान रहते हैं, फिर भी जगत् का व्यवहार अनेक प्रकार का और अनियत होने के कारण, उसमें विविध प्रकार के कारणों की अपेक्षा रहती है। इसलिए, उन कारणों में ज्ञान का भेद होना भी एक कारण परमात्मा को अभिप्रेत है, यह भानना होगा।

### तत्त्वान्वेपण का उपयोग

तत्त्व ज्ञान के भेद से भी प्रवृत्ति में भेद देखा जाता है। जिस तत्त्वज्ञानी को जैसा तत्त्व भासित हुआ, उसने उसी प्रकार का दर्शन बनाया, यह प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि जगद्वैचित्र्य के मूल कारण के अनुसन्धान में प्रवृत्त, अर्थात् लगे हुए महर्षियों के ज्ञान के अनुसार जितने और जिस प्रकार के तत्त्व भासित हुए, उसने ही और उसी प्रकार के तत्त्वों का निर्दर्शन उन दर्शनों में किया गया है। अर्थात्, जिसको जितना और जिस प्रकार का तत्त्व अपनी बुद्धि के अनुसार भासित हुआ, उसने उसी के अनुसार अपना दर्शन बनाया। इसलिए, तत्त्वभेद भी दर्शन-भेद का ज्ञापक होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रमाण का भेद, बुद्धि का भेद और विचार-सरणी का भेद दर्शन-भेद के मुख्य कारण होते हैं। अब यहाँ सन्देह होता है कि दर्शनकारों की प्रवृत्ति तत्त्वान्वेपण के लिए क्यों होती है।

इसका उत्तर यही हो सकता है कि मनुष्य, अपनी सद्गति के लिए मन, वचन और शरीर से यथाशक्ति प्रयत्न करता रहता है, यह स्वभावसिद्ध और प्रसिद्ध भी है। सद्गति भी कम, अधिक, अच्छी, बुरी आदि भेद से अनेक प्रकार की है। और, उन सद्गतियों की जो पराकाष्ठा है, उसी को प्रत्येक दर्शनकार ने 'मोक्ष' माना है। मोक्ष का साधन सर्वतन्त्र से सिद्ध और लोक-प्रसिद्ध तत्त्वज्ञान ही है। 'तत्त्वज्ञानान्मोक्षः' सर्वसिद्धान्त है। इसलिए, तत्त्वान्वेपण के लिए ज्ञानियों की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है।

### तत्त्वज्ञान से मोक्ष-साधन

अब तत्त्वज्ञान से मोक्ष का साधन किस प्रकार होता है, यह विचारणीय विषय है। इस विषय में यह भी जान लेना चाहिए कि मोक्ष बन्ध का प्रतिद्रढ़ी है। चेतन के साथ अचेतन का जो सम्बन्ध है, वही बन्ध है। यद्यपि अचेतन वस्तुएँ भूत-भौतिक-शरीर आदि के भेद से अनन्त प्रकार की हैं, तथापि जीवात्मा के साथ जो शरीर का सम्बन्ध है, वही मुख्य बन्ध माना गया है। शरीर के अतिरिक्त और वस्तुओं के साथ जो जीवात्मा का सम्बन्ध है, वह शरीर के द्वारा ही है, स्वतन्त्र नहीं। इसलिए, जिस प्रकार हाथी के ब्रिक जाने पर अंकुश के मूल्य के लिए विवाद नहीं होता, उसी प्रकार जीवात्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध छूट जाने पर, शरीर के द्वारा इतर वस्तु के साथ जो सम्बन्ध है, वह योही नष्ट हो जाता है, उसके लिए पृथक् यन्त्र की कुछ अपेक्षा नहीं होती। इसलिए, चेतन जीवात्मा के साथ अचेतन शरीर का जो

सम्बन्ध है, वही बन्ध है, यह सिद्ध होता है। इसलिए, मोक्ष के अभिलाप्ति पुरुषों का कर्तव्य हो जाता है कि वह जीवात्मा का शरीर के साथ सम्बन्धरूपी जो बन्ध है, उसके नाश के लिए यत्न करता रहे। क्योंकि, जबतक बन्ध का नाश नहीं होता, तबतक मोक्ष होना असम्भव है। और, बन्ध का नाश तबतक नहीं हो सकता, जबतक यह यथार्थ ज्ञान नहीं हो कि बन्ध कब हुआ, किसने बन्ध किया और बन्ध का स्वरूप क्या है। क्योंकि, प्रतिद्वन्द्वी के यथार्थ ज्ञान होने के बाद ही उसका नाश करना सुलभ होता है। इस स्थिति में सम्बन्ध कब हुआ, यह तो विचार करने की बात नहीं है; क्योंकि अगत्या सम्बन्ध को सभी दर्शनकारों ने अनादि स्वीकृत किया है। अनादि होने के कारण ही सम्बन्ध के समादरिता के विषय में भी विचार नहीं किया जा सकता।

केवल विचारना यही है कि अनादि अविच्छिन्न प्रवाह-रूप से आजतक वर्तमान जो यह बन्ध है, इसका रक्षक कौन है, इसमें भी यही रक्षक है, इस प्रकार विशेष ज्ञान न होने पर भी रक्षक कोई अवश्य है—यह बात प्रायः सब दर्शनकारों ने स्वीकार की है। इसीका इंश्वर आदि अनेक शब्दों से व्यवहार शाखाकारों ने किया है। जब, बन्ध का स्वरूप कैसा है, यह विचार आरम्भ होता है, तब तो चेतन और अचेतन दोनों के मूलतत्त्व का ज्ञान करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि, दोनों सम्बन्धियों के यथावत् यथार्थ ज्ञान हुए विना यह पदार्थ ऐसा है, इस प्रकार का निष्ठय करना असम्भव हो जाता है। इस स्थिति में सम्बन्ध जिस कारण से परिचित हो, उसका यथार्थ ज्ञान होने के बाद ही उस सम्बन्ध के दूर करने का उपाय जान सकते हैं। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि मोक्ष-प्राप्ति का उपाय होने के कारण मूलतत्त्व का अनुसन्धान करना उपर्युक्त हो जाता है।

इस प्रकार, मूलतत्त्वों का अन्वेषण करने के बाद मुमुक्षुजनों के परम उपकारी दर्शनकारों ने चार व्यूह दिखाये हैं—(१) मोक्ष, (२) उसकी प्राप्ति का उपाय, (३) बन्ध और (४) उसका निमित्त। इनमें मोक्ष का स्वरूप पहले दिखाना आवश्यक है। कारण यह है कि ज्ञान के विना इच्छा नहीं हो सकती। सामान्य ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली इच्छा भी उस प्रकार बलवती नहीं होती, जिस प्रकार विशेष ज्ञान से उत्पन्न इच्छा बलवती होती है। विशेष ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली वही इच्छा है, जो क्षण-भर भी विना प्रयत्न के नहीं रहने देती। मोक्ष-प्राप्ति के लिए उसका उपाय भी आवश्यक ज्ञातव्य है, इसलिए उसका भी प्रदर्शन आवश्यक है। इस प्रकार, मोक्ष का प्रतिद्वन्द्वी जो बन्ध है, उसका भी यथावत् ज्ञान करना आवश्यक है। क्योंकि, बन्ध के नाश के लिए उसका स्वरूप-ज्ञान उपयोगी होता है। इसी प्रकार, बन्ध के नाश के लिए बन्ध के निमित्त का भी ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि, कारण के नाश से ही कार्य का नाश सुलभ होता है—‘कारणनाशात् कार्यनाशः।’

अब एक आशङ्का और होती है कि जब एक महापंत तत्त्वों का वर्णन कर ही चुके, तब पुनः दूसरे की प्रवृत्ति तत्त्वान्वेषण में क्यों हुई? और, उससे उपकार ही

क्या होता है ? प्रत्युत विभिन्न, तत्त्वों का धर्णन करने से घड़े-घड़े विद्वानों के चित्त में भी भ्रम हो जाना स्वाभाविक है।

इसका उत्तर यही होता है कि 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना' के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि-भेद होने के कारण दूसरे के ऊपर सहसा किसी का विश्वास नहीं होता, बल्कि मानव-प्रकृति के अनुसार उससे भी अधिक सूखम् तत्त्वों को प्रकाशित करना चाहता है। इसलिए, बुद्धि-भेद होने के कारण विभिन्न तत्त्वों के अनुसन्धान के लिए महात्माओं की भी प्रवृत्ति अनिवार्य है। दार्शनिकों में भी मति-भेद का मूल कारण किसी प्रमाणविशेष में उनका पच्चात ही है, यह पहले भी लिखा जा चुका है। तात्पर्य यह है कि महर्षियों ने प्रमाण-विशेष के द्वारा ही तत्त्वों का अन्वेषण किया है।

प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये ही तीन मुख्य प्रमाण माने जाते हैं। आध्यक्षिक, तार्किक और थौत—ये तीन प्रकार के तत्त्वदर्शी दार्शनिक हुए हैं। एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माननेवाले आध्यक्षिक कहे जाते हैं। क्योंकि, अध्यक्ष प्रत्यक्ष का ही नामान्तर है। यद्यपि प्रत्यक्ष को उभी ने प्रमाण माना है, तथापि वे लोग आध्यक्षिक नहीं कहे जाते, कारण यही है कि मूलतत्त्व के अन्वेषण में चार्वाक के अतिरिक्त और किसी ने भी प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं माना है। विन्तु, अनुमान या शब्द-प्रमाण से ही मूलतत्त्वों का अनुसन्धान किया है। इसीलिए, तार्किकों या थौतों को आध्यक्षिक नहीं कहा जाता। केवल चार्वाक ही, जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही मूलतत्त्व का अन्वेषण करने की चेष्टा करते हैं, आध्यक्षिक कहे जाते हैं। जो तर्क की सहायता से मूल तत्त्व का अन्वेषण करते हैं, वे तार्किक कहे जाते हैं। तार्किक भी दो प्रकार के होते हैं—एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। इनमें नास्तिक लोग श्रुति का प्रमाण नहीं मानते। नास्तिकों में भी दो भेद हैं—एक ऐकान्तिक दूसरा अनैकान्तिक। एकान्त निश्चय को कहते हैं। तत्त्व को निश्चय करनेवाला ऐकान्तिक है। बुद्ध मुनि ने 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार निश्चय कर आर्यसत्य-नामक चार तत्त्वों का उपदेश किया है। इसी कारण बौद्ध लोग 'ऐकान्तिक' कहे जाते हैं। 'सर्वे शून्यं शून्यं, क्षणिकं क्षणिकं, दुःखं दुःखं, स्वलक्षणं स्वलक्षणम्'—ये ही चार प्रकार के 'आर्य-सत्य' तत्त्व हैं। यहाँ आदर के लिए द्विरक्षी की गई है। जैन लोग 'अनैकान्तिक' कहे जाते हैं। ये लोग अनुमान के द्वारा यस्तु-तत्त्व का अन्वेषण करते हुए भी यस्तु-तत्त्व की यथार्थता का निश्चय नहीं कर सके कि 'यह तत्त्व ऐसा ही है।' यदि कोई कहे कि 'सर्वे दुःखम्', तो इनका कहना है कि 'स्यात्', अर्थात् हो सकता है। यदि कोई कहता है कि 'सर्वे सुखम्', तो भी इनका यही उत्तर होता है कि 'स्यात्', हो सकता है। यहाँ 'स्यात्' शब्द अनेकान्त अर्थात् 'अनिश्चय' का व्योतक निपात है। इसी 'स्यात्' कहने के कारण जैन लोग 'स्याद्वादी' कहे जाते हैं।

श्रुति-प्रमाण के अविरोधी जो तार्किक हैं, वे आस्तिक कहे जाते हैं। केवल इनका श्रुति की अपेक्षा अनुमान में विशेष आदर रहता है। इसका कारण पहले ही बता चुके हैं। 'आस्तिक' शब्द की परिभाषा यही मानी जाती है कि 'अस्ति इति स्थिरा मतिर्थस्य स आस्तिकः', अर्थात्, है, इस प्रकार की स्थिर धारणा जिसकी हो, वही

आस्तिक है। एक बात और ज्ञातव्य है कि जो आस्तिक तार्किक हैं, उनकी श्रद्धा श्रुति के विषय में मन्द ही रहती है। इनकी अपेक्षा भी माहेश्वरों की श्रद्धा श्रुति के विषय में अत्यन्त मन्द होती है। ये लोग नास्तिकों की तरह ऐसा नहीं कहते कि श्रुति अप्रमाण है, परन्तु उदासीन के जैसा अपने विश्व श्रुति का अर्थ गौण मानकर भी अपने अनुकूल लगाने की चेष्टा नहीं करते। दूसरे शब्दों में, अपने मत के विश्व श्रुति का समन्वय करने की चेष्टा भी नहीं करते। इनकी अपेक्षा नैयायिकों और दैशेपिकों की श्रद्धा श्रुति के विषय में अधिक देखी जाती है। क्योंकि, जो श्रुति इनके मत के विश्व प्रतीत होती है, उसको गोणार्थ मानकर अपने सिद्धान्त के अनुसार श्रुति के अर्थ करने में इनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। श्रुति में मन्द श्रद्धावाले तार्किक सांख्य और पातञ्जल हैं। ये लोग अनुमान से सिद्ध प्रकृति को श्रुति के अनुकूल सिद्ध करने के लिए 'अजामेकाम' इत्यादि श्रुति को अपने पक्ष के अनुसार योजित करते हैं। नैयायिक शादि की अपेक्षा श्रुति में इनकी अधिक श्रद्धा है।

ज्ञानकारण और कर्मकारण के भेद से श्रुति के द्वैविध्य के कारण श्रौत भी दो प्रकार के होते हैं। कर्मकारण की अधिकता और ज्ञानकारण की अल्पता के कारण श्रुति का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्म ही है, ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञानकारण कर्मकारण के अङ्ग होने के कारण कर्म का उपयोगी मात्र होता है। कर्मकारण अङ्ग और ज्ञानकारण अङ्गी, इस प्रकार की जो विपरीत कल्पना करते हैं, वह युक्त नहीं है। कारण यह है कि अङ्गी की अपेक्षा अङ्ग की अधिकता दोषावह होती है। इसलिए, यह सिद्ध होता है कि कर्मकारण अधिक होने से अङ्गी और ज्ञानकारण अल्प होने से अङ्ग है। इस प्रकार, ज्ञान की अपेक्षा कर्म को ही प्रधान माननेवाले श्रौत मीमांसक कहे जाने हैं। इनसे मिल जो वेदान्ती श्रौत हैं, वे ज्ञान की अपेक्षा कर्मकारण की प्रधानता को उचित नहीं समझते। क्योंकि, मनुष्यों की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रवृत्त करना ही श्रुतियों का प्रधान ध्येय रहता है। कर्म में तो मनुष्य-मात्र की प्रवृत्ति नैसर्गिक ही है। ज्ञान में बुद्धि को हटात् प्रवृत्त करना कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव-सा है। इसलिए जब कर्म और 'उपासना के द्वारा चित्त की शुद्धि हो जाती है, तभी मनुष्य ज्ञान-मार्ग का अधिकारी होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए, कर्मरूपी अङ्ग का ज्ञान की अपेक्षा अधिक विस्तार होने पर भी कुछ दोष नहीं होता। क्योंकि, फलमुख गौरव दोषावह नहीं होता है—‘फलमुखगौरवस्थादोषत्वम्’ यह सर्वसिद्धान्त है।

वेदान्तियों में भी दो मत प्रचलित हैं—द्वैतवाद और अद्वैतवाद। माध्वाचार्य और रामानुजाचार्य द्वैतवादी हैं। रामानुजाचार्य यथापि चिदचिद्विशिष्ट परमात्मा की शरीर-शरीरी मात्र से अद्वैत मानते हैं, तथापि जीव और परमात्मा में तथा आत्मा और अनात्मा में भेद मानने के कारण द्वैतवादी माने जाते हैं। माध्वाचार्य तो स्पष्ट द्वैतवादी है। शङ्कराचार्य अद्वैतवादी है, ये विवर्त्तवाद के आधार पर अद्वैतवाद का व्यवस्थापन करते हैं। इसी प्रकार, पुष्टिमार्ग के प्रवर्त्तक वज्रमाचार्य शुद्धद्वैत माने जाते हैं। मालम् होता है, विशिष्ट द्वैत के प्रतिद्वन्द्वी मात्र से 'शुद्धद्वैत' शब्द का प्रयोग किया गया है। पाणिनीय लोग तो विवर्त्तवाद मानते ही हैं, इससे इनके स्पष्ट अद्वैतवादी

होने में सन्देह नहीं है। निम्बाकार्चार्य द्वैत और अद्वैत दोनों स्वीकार करते हैं, इसलिए 'द्वैताद्वैतवादी' कहे जाते हैं। इस प्रकार, दार्शनिकों में तारतम्य दिलाकर भारतवर्ष में कितने दार्शनिक हुए, और उनका क्या सिद्धान्त है, इत्यादि बातों के ज्ञान के लिए सचेष्म में उनके परिचय दिये जाते हैं।

## भारतीय दर्शनकार

भारतवर्ष में दो प्रकार के दर्शनकार हुए हैं—एक नास्तिक; दूसरा आस्तिक। नास्तिकों में भी दो भेद हैं—एक आध्यक्षिक; दूसरा तार्किक। आध्यक्षिक, जो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, चार्याक है। तार्किक नास्तिकों में भी दो भेद हैं—एक क्षणिकवादी, दूसरा स्थाद्वादी। क्षणिकवादी धौढ़ हैं और स्थाद्वादी जैन। आस्तिक भी दो प्रकार के हुए हैं—एक निर्गुण आत्मवादी, दूसरा सगुण आत्मवादी। सगुणात्मवादी भी दो प्रकार के हुए हैं—एक तार्किक; दूसरा श्रौत। तार्किक भी दो प्रकार के हैं—एक प्रच्छन्न तार्किक; दूसरा स्पष्ट तार्किक।

प्रच्छन्न तार्किक भी दो प्रकार के हैं—एक प्रच्छन्न द्वैतवादी, दूसरा स्पष्ट द्वैतवादी। रामानुज-सम्प्रदाय के लोग प्रच्छन्न द्वैतवादी हैं। विशिष्ट अद्वैतवादी जीव और ईश्वर में भेद मानते हैं। माध्य लोग स्पष्ट द्वैतवादी हैं। वे किसी प्रकार भी अद्वैत नहीं मानते। स्पष्ट तार्किक भी दो प्रकार के हैं—एक भोग-साधन अद्वैतवादी, दूसरा उत्पत्ति-साधन अद्वैतवादी। भोग साधन अद्वैतवादी भी दो प्रकार के हैं—एक विदेह मुक्तिवादी, दूसरा जीवन्मुक्तिवादी। विदेह मुक्तिवादी भी दो प्रकार के होते हैं—आत्मभेदवादी और आत्मैक्यवादी। आत्मभेदवादी भी दो प्रकार के हैं—कर्म-निरपेक्ष ईश्वरवादी और कर्म सापेक्ष ईश्वरवादी। कर्म-निरपेक्ष ईश्वरवादी नकुलीश पाशुपत हैं, और कर्म-सापेक्ष ईश्वरवादी शैव हैं। प्रत्यभिज्ञादर्शी आत्मैक्यवादी हैं। रसेश्वर जीवन्मुक्तिवादी हैं। उत्पत्तिसाधन अद्वैतवादी भी दो प्रकार के हैं—एक शब्द को प्रमाण माननेवाले, दूसरे शब्द-प्रमाण को नहीं माननेवाले। शब्द-प्रमाण को नहीं माननेवाले वैशेषिक, और शब्द-प्रमाण को माननेवाले नैयायिक हैं।

श्रौत भी दो प्रकार के होते हैं—एक वाक्यार्थवादी, दूसरे पदार्थवादी। वाक्यार्थवादी भी मांसक और पदार्थवादी वैयाकरण हैं। निर्गुणात्मवादी भी दो प्रकार के हैं—एक तार्किक, दूसरा श्रौत। तार्किक भी दो प्रकार के हैं—निरीश्वर और सेश्वर। सांख्य निरीश्वरवादी और पातञ्जल सेश्वरवादी हैं। शाङ्कर अद्वैतवादी हैं। इस प्रकार, सत्रह दर्शनकारों का, जिनमें सोलह दर्शनकारों के मत का विवेचन 'सर्वदर्शन' में साधण माधवाचार्य ने भलीमांति किया गया है, संग्रह सचेष्म में किया गया। इसके बाद कौन दर्शन किस दर्शन की अपेक्षा अभ्यहित है, यह दिखाया जायगा।

## दर्शन-तारतम्य-विचार

इस विषय में पढ़ले यह बात जान लेनी चाहिए कि विवाद-स्थल में, जिस दर्शन में सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तत्त्व का, जितनी ही अधिक सूक्ष्मेतिका तुदि से अनुसन्धान किया गया है, वही दर्शन उत्कृष्ट अर्थात् अभ्यहित माना जाता है। पूर्व में नास्तिक

और आस्तिक-भेद से दो प्रकार के दर्शन बता लुके हैं। नास्तिकों की अपेक्षा आस्तिक-दर्शन को सब लोग अभ्यहित मानते हैं। इसका कारण आगे बताया जायगा। पहले नास्तिकों का तारतम्य बताया जाता है।

नास्तिकों में सबसे स्थूल विचारवाले आध्यात्मिक, अर्थात् चार्वाक माने जाते हैं। कारण यह है कि समस्त सांसारिक व्यवहार का निर्वाहक जो अनुमान है, उसको भी ये लोग प्रमाण नहीं मानते। प्रत्यक्ष से अनुभूयमान जो पृथिवी, जल, तेज और वायु—ये चार तत्त्व हैं, इन्हींको ये लोग मूलतत्त्व मानते हैं। जाल-सूर्य-मरीचि में प्रत्यक्ष दृश्यमान जो रज के कण हैं, वही इनके मत में परमाणु माने जाते हैं। वह अगुल की पराकाष्ठा है। इनके मत में प्रत्यक्ष विषय से भिन्न कोई तत्त्व ही नहीं है। इसलिए, सब दर्शनों की अपेक्षा चार्वाक-दर्शन निम्न कोटि का माना जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मदृश्यकार व्यासदेव ने खण्डनीय मानकर भी इनके मत का उल्लेख नहीं किया। इसलिए, सब दर्शनकार इनको हेतु दृष्टि से देखते हैं। चार्वाकों की अपेक्षा बौद्ध दर्शन अभ्यहित माना जाता है। क्योंकि, ये लोग भूतों को मूलतत्त्व न मानकर चार भूतों के परमाणु को ही मूलतत्त्व मानते हैं।

एक बात और है कि बौद्ध लोग जाल-रूप की मरीचि में रहनेवाले रज के कणों को ही परमाणु नहीं मानते, जैसा कि चार्वाकों ने माना है, किन्तु उन रजकणों के सूत्रम् अवयवों को ही ये लोग परमाणु मानते हैं। क्योंकि, मरीचिस्थ जो रज के कण हैं, वे प्रत्यक्ष दृश्यमान होने से संघात-रूप होते हैं, और संघात सावयव ही होता है और जो सावयव होता है, वह परमाणु नहीं हो सकता, इसलिए उनके निरवयव जो अवयव हैं, वे ही परमाणु शब्द के बाच्य हो सकते हैं। रूर्यमरीचिस्थ रज के कणों को अपनी शूलमेन्हिका से अनुमान द्वारा सावयव अनुसन्धान करने के कारण ही ये लोग चार्वाकों की अपेक्षा अभ्यहित माने जाते हैं। ये लोग आकाश को तत्त्वान्तर नहीं मानते। इनका कहना है कि पृथिवी आदि का अभाव-रूप ही आकाश है, भाव-रूप तत्त्वान्तर नहीं है। बौद्धों में भी चार भेद हैं—माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैमापिक—इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि, सर्वसाधारण के अनुभवालूढ़ जो आभ्यन्तर और बाह्य पदार्थ हैं, माध्यमिक लोग शून्य मानकर उनका अपलाप करते हैं। ‘सर्वे शून्यं शून्यम्’, इनका परम सिद्धान्त है। इनकी अपेक्षा योगाचार का मत श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि, बाह्य घट-पटादि पदार्थों का अपलाप करने पर भी उनके आभ्यन्तर अर्थ को ये लोग मानते हैं। इनका यह सिद्धान्त है कि आभ्यन्तर जो ज्ञान है, वही बाह्य घट-पटादि के आकार में भासित होता है। इनकी अपेक्षा भी सौत्रान्तिकों का दर्शन श्रेष्ठ माना जाता है; क्योंकि ये लोग बाह्य घटादि अर्थ को भी बस्तुतः स्वीकार करते हैं। किन्तु, इनका भी कहना है कि बाह्य बस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु अनुमान से सिद्ध होने के कारण बाह्य बस्तु अनुमेय ही होती है। इसलिए, वैमापिकों का मत इनकी अपेक्षा अभ्यहित माना जाता है। क्योंकि, वैमापिक लोग बाह्य अर्थ का भी प्रत्यक्ष मानते हैं। बाह्य घट, पट आदि अर्थ प्रत्यक्ष हैं—यह आवालदृढ़ सकल जनों का

प्रसिद्ध अनुभव है। इसलिए, वाह्य अर्थ को अपत्यक्ष मानना, अथवा असत्य मानना या अनुमेय मानना अथवा आभ्यन्तरार्थ असत्य मानना, यह सब प्रतीति के विश्व होने के कारण परमार्थतः उपेक्ष्य है। क्योंकि, कल्पना प्रतीति का अनुसरण करती है, प्रतीति कल्पना का अनुसरण नहीं करती।

इन चार प्रकार के शब्दों की अपेक्षा जैनों का मत अभ्यहित माना जाता है। जैन लोग अपनी सूक्ष्मेत्तिका से आकाश को भी तत्त्वान्तर मानते हैं। शब्दों की तरह वे आकाश को अभाव-स्वरूप नहीं मानते। शब्दों की अपेक्षा जैनों में एक विशेषता और भी है कि इन लोगों ने मूलभूत परमाणु एक स्वरूप ही है, इस प्रकार तर्क-बल से अनुसन्धान कर निश्चय किया है। शब्दों की तरह पृथिवी आदि के भेद से ये चार प्रकार के मूलतत्त्व नहीं मानते। पृथिवी आदि भेद तो पृथिवी से घट आदि की तरह बाद में होता है। इनके मत में किसी वस्तु के सम्बन्ध में, यह ऐसा ही है, इस प्रकार का निश्चय नहीं कर सकते। इनके मत में सब कुछ अनेकान्त अर्थात्, अनिश्चित ही है। इसलिए ये लोग अनैकान्तिक या स्याद्वादी कहे जाते हैं। इस प्रकार, चर्चाक से जैन-पर्यन्त छह दर्शनों का संक्षेप से तारतम्य दिखाकर आस्तिक दर्शनकारों का भी तारतम्य दिखाया जाता है।

इसके पहले 'आस्तिक' और 'नास्तिक' शब्दों का वाच्य अर्थ क्या है, इसके ऊपर भी विचार करना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। 'अस्ति इति मतिर्यस्य स आस्तिकः' और 'नास्ति इति मतिर्यस्य स नास्तिकः', इस व्युत्पत्ति से यही अर्थ प्रतीत होता है कि 'अस्ति'—अर्थात् है, इस प्रकार जिसकी मति है, वह आस्तिक और 'नास्ति' नहीं है, इस प्रकार की जिसकी मति है, वह नास्तिक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यही नास्तिक और आस्तिक शब्दों का वाच्य अर्थ है। परन्तु ऐसा अर्थ करने पर भी सन्देह बना ही रहता है कि 'अस्ति' का कर्ता कौन है! 'अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः'—इस सूत्र में, जिससे आस्तिकः, नास्तिकः, दैषिकः, इन प्रयोगों की सिद्धि होती है, निर्दिष्ट मति को ही यदि कर्ता मान लें, तब तो यह अर्थ होगा कि मति है जिसकी, वह आस्तिक और मति नहीं है जिसकी, वह नास्तिक। इस 'रिष्यति' में चौर आदि भी आस्तिक कहाने लगेंगे। केवल पापाण आदि अचेतन ही नास्तिक हींगे, जिनकी मति नहीं है। इसी दोष का वारण करने के लिए पतञ्जलि ने महाभाष्य में कहा है—'इति लोपोऽन्न द्रष्टव्यः', अर्थात् सूत्र में 'इति' शब्द भी है, जियहका लोप हुआ है। इस, 'इति' शब्द के स्मरण से यह अर्थ होता है कि अस्ति, है, इति, इस प्रकार की मति बुद्धि है जिसकी, वह आस्तिक है और इसके विपरीत नास्तिक। इतने पर भी सन्देह रह जाता है कि अस्ति का कर्ता कौन है! यदि लौकिक दृश्यमान घट, पञ्च आदि पदार्थों को ही 'अस्ति' का कर्ता मान लें, तब तो सब लोग ही आस्तिक हो जायेंगे, नास्तिक कोई नहीं होगा; क्योंकि, लौकिक पदार्थों का अस्तित्व सभी कोई मानते हैं। इसलिए, अस्ति का कर्ता लौकिक पदार्थ कभी नहीं हो सकता, बल्कि परलोक या पारलौकिक पदार्थ ही अस्ति का कर्ता ही सकता है। इसी अभिप्राय से

उपर्युक्त सूत्र के भाष्य की व्याख्या में कैयट ने स्पष्ट लिखा है—‘परलोककर्तृका सच्चाऽन्न ज्ञेया’—अर्थात् इस अस्ति का कर्त्ता परलोक ही हो सकता है, दूसरा नहीं।

इससे यदी सिद्ध होता है कि परलोक है, इस प्रकार की मति हो जिसकी, वह है आस्तिक और परलोक नहीं है, इस प्रकार जिसकी मति हो, वह है नास्तिक। इस प्रकार अर्थ करने से परलोक नहीं माननेवाले चार्वाक आदि छह दर्शनकार नास्तिक कहे जाते हैं और इनके अतिरिक्त यव दर्शनकार, परलोक की सत्ता मानते हैं, जो आस्तिक कहे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि भूत और भौतिक जितने प्रतीयमान पदार्थ हैं, उनके अस्तित्व में तो किसी का भी विवाद नहीं है। इसलिए, उसको यदि अस्ति का कर्त्ता मानते हैं, तब तो ‘नास्तिक’ शब्द का कोई भी विषय नहीं रह जायगा। क्योंकि, भौतिक पदार्थों को नहीं माननेवाला कोई भी चार्वाक आदि में नहीं है। इसलिए दृश्यमान पदार्थों से भिन्न अदृश्यमान परलोक ही अस्ति का कर्त्ता सम्भावित है।

अथवा ‘अस्ति, नास्ति’ इत्यादि सूत्र में अस्ति का कर्त्ता भी अस्ति ही हो सकता है। अर्थात्, सूत्र में अस्ति पद की आवृत्ति से अस्ति; अर्थात् त्रिकालाबाध सूत्र पदार्थ, अस्ति, अर्थात् है, ऐसी मति हो जिसकी, वह है आस्तिक। इसके विपरीत है नास्तिक।

त्रिकालाबाध्य, अर्थात् जिसका तीनों काल में बाध न हो, ऐसे सत्-पद के अर्थ में ‘अस्ति’ अव्यय प्रसिद्ध है। ‘अस्ति क्षीरा गौः’ इस उदाहरण में अस्ति का विद्यमान ही अर्थ होता है। इसके अतिरिक्त ‘अस्ति सिचोऽपृक्ते’ इस पाणिनि-सूत्र में भी अलुप्य-मानार्थक अस्ति का प्रयोग किया गया है। श्रुति-स्मृति-लोक-व्यवहार से भी यही प्रतीत होता है कि परलोक, ईश्वर, वेद का प्रामाण्य माननेवाले ही आस्तिक कहे जाते हैं, और नहीं माननेवाले नास्तिक। अब पूर्व प्रतिज्ञात आस्तिकों में तारतम्य दिखाया जाता है।

### आस्तिक-दर्शन

आस्तिकों के दो भेद पहले ही बताये जा चुके हैं—एक श्रीत दूसरा तार्किक। जो मूलतत्त्व के अनुसन्धान में श्रुति को ही प्रधान साधन मानते हैं, वे श्रीत कहे जाते हैं। जो दार्शनिक तर्कोपस्कृत अनुमान को ही मूलतत्त्व के अन्वेषण में प्रधान साधन मानते हैं, वे तार्किक कहे जाते हैं। तार्किकों की अपेक्षा श्रीत दर्शनकार अन्यद्वित माने जाते हैं, और तार्किक निम्न कोटि के। इसका कारण यही है कि अतिरुद्धम मूलतत्त्व के विषय में, यह ऐसा ही है, इस प्रकार का निश्चय केवल तर्क की सहायता से कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि, ‘तर्कोऽप्रतिष्ठिः’, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। कारण यह है कि मनुष्य-बुद्धि के अनुसार ही तर्क हुआ करता है। बुद्धि में तारतम्य होने के कारण एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। श्रुति में यह बात नहीं है। अपौरुषेय या ईश्वर-प्रणीत श्रुति में मनुष्योचित दोष की सम्भावना ही नहीं है। विशेषतः अदृष्ट पदार्थों के विषय में श्रुति ही मार्ग-प्रदर्शिका होती है। तर्क से सत्य मूलतत्त्व का ही अनुसन्धान होगा, यह निश्चय नहीं किया जा सकता। एक बात और भी कह सकते हैं कि मनुष्य की बुद्धि की सीमा होती है, और जिसकी सीमा नहीं है, उस

निस्तीम आत्मतत्त्व या ईश्वर-तत्त्व के ज्ञान कराने में अनुमान कियी प्रकार भी सफल नहीं हो सकता, जबतक श्रुति का प्रकाश नहीं मिलता।

आस्तिक दर्शनकारों में यद्यपि कोई भी श्रुति को अप्रमाण नहीं मानता, पर तोभी कोई श्रुति को मुख्य और तर्क को गौण मानता है, और कोई तर्क को ही मुख्य और श्रुति को गौण मानता है। जिसकी जिसमें विशेष शब्द है, वह उसी को प्रधान मानता है, इतर को गौण। रामानुजाचार्य और माध्याचार्य श्रुति को पूर्ण प्रमाण मानते हैं, परन्तु कहीं अनुमान को भी अधिक प्रश्रय देते हैं। रामानुजाचार्य का यह धिदान्त प्रतीत होता है कि श्रुति से चिद जो अर्थ है, वह अनुमान से भी अवश्य चिद होता है। इन्होंने कहीं पर भी श्रुति की अवहेलना नहीं की है। ‘र्वदर्शन-संग्रह’ के टीकाकार विद्वत्प्रकारण अम्बङ्कर जी ने अपनी भूमिका में प्रच्छन्न तार्किक कहकर रामानुजाचार्य की जो अवहेलना की है, वह उसी प्रकार है, जिस प्रकार प्रच्छन्न श्रैद कहकर शङ्कराचार्य को अवहेलना की गई है। वास्तव में, रामानुजाचार्य उसी प्रकार मान्य और अभ्यर्हित है, जिस प्रकार शङ्कराचार्य। इसलिए, यद्य दर्शनों की अपेक्षा जिस प्रकार शङ्कर दर्शन अभ्यर्हित और मूर्धन्य माना जाता है, उसी प्रकार रामानुज-दर्शन भी मूर्धन्य और अभ्यर्हित है, इसमें कोई सन्देह नहीं। दो-एक विषयों में शङ्कर दर्शन और रामानुज-दर्शन में गहरा मतभेद पाया जाता है। इसी के कारण दोनों के अनुयायियों ने परस्पर कीचड़ उछालने का प्रयत्न किया है। वास्तव में यह उचित नहीं है। उचित तो यह था कि दोनों मिलकर परस्पर सामझास्य स्थापित करते।

प्रकृत में, आस्तिक दर्शनों में श्रुति को अप्रमाण किसी ने भी नहीं माना है, यह पहले भी चताया जा चुका है। तोभी मूलतत्त्व के अन्वेषण में किसी ने श्रुति के ही आधार पर अनुसन्धान किया है, और किसी ने श्रुति की सहायता से अनुमान के द्वारा। और, किसी ने श्रुति की सहायता न लेकर भी केवल अनुमान के द्वारा ही मूलतत्त्व का अनुसन्धान किया है। इस प्रकार, माहेश्वर दर्शनकारों ने अनुमान के बल पर ही मूलतत्त्व का अन्वेषण किया है। माहेश्वरों में भी चार भेद पाये जाते हैं—शैव, नाकुलीश पाशुपत, प्रत्यमिश्राचार्दी और रसेश्वराचार्दी। इन लोगों में प्रायः बहुत ऐकमत्य है, और भेद बहुत कम। रसेश्वराचार्दी जीवन्मुक्ति में बहुत अभिनिविष्ट है। प्रत्यमिश्राचार्दी जीव और ईश्वर में भेद नहीं मानते। अर्थात्, दोनों को एक ही मानते हैं। नकुलीश पाशुपत, जगत् की सुष्ठि में ईश्वर को कर्म-सापेक्ष नहीं मानते। क्योंकि, कर्म-सापेक्ष मानने पर ईश्वर की स्वतन्त्रता ही नष्ट हो जाती है। परन्तु, कर्म-सापेक्ष न मानने से ईश्वर में वैषम्य, नैवेद्य आदि दोष हो जाते हैं, इसलिए कर्म-सापेक्ष ईश्वर को मानना आवश्यक हो जाता है।

इन चार प्रकार के माहेश्वरों में तत्त्वों के विषय में प्रायः ऐकमत्य रहता है। केवल इनमें नकुलीश पाशुपत ईश्वर को कर्म-निरपेक्ष मानते हैं। अर्थात्, सुष्ठि में परमात्मा स्वतन्त्र है, वह कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, यह इनकी मान्यता है। इनके अस्तिरिक्त और लोग ऐसा नहीं मानते। प्रत्यमिश्राचार्दी से भिन्न माहेश्वरानुयायी जीव

और ईश्वर में भेद मानते हैं। इन लोगों में तारतम्य नहीं के बराबर है। इनके अतिरिक्त न्याय, वैशेषिक, सांख्य और पातञ्जल हैं, वे यद्यपि तार्किक हो हैं, तथापि माहेश्वरों की अपेक्षा इनकी श्रुति में विशेष श्रद्धा रहती है। इसलिए, माहेश्वरों की अपेक्षा ये अभ्यहित माने जाते हैं।

वैशेषिक-दर्शन की अपेक्षा न्याय-दर्शन को ही लोग अभ्यहित मानते हैं। क्योंकि, वैशेषिक लोग शब्द को प्रमाण नहीं मानते। इनका कहना है कि श्रुति का प्रामाण्य तो अनुमान से ही सिद्ध किया जाता है। इसलिए, अनुमान में ही श्रुति गतार्थ है। केवल अनुमान का साधनीभूत जो श्र्वर्थ है, उसी को श्रुति उपस्थापित करती है। इसलिए, शब्द इनके मत में स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना जाता। नैयायिकों के दर्शन में शब्द को भी स्वतन्त्र प्रमाणान्तर माना गया है। वैशेषिकों की अपेक्षा श्रुति में अधिक श्रद्धा रखने के कारण ही न्याय-दर्शन को अभ्यहित माना गया है। उक्त चार माहेश्वरों से न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग-दर्शन अभ्यहित माना जाता है। इसका कारण तो बता ही चुनौत है। अब न्याय-वैशेषिक की अपेक्षा सांख्य-योग को अभ्यहित माना जाता है, इसका कारण क्या है, यह विचार करना है। नैयायिक और वैशेषिक ने अनुमान के बल से जगत् का मूल कारण परमाणु को स्थिर किया है, परन्तु परमाणु का भी कोई कारण है, यह बात इनके अनुमान में नहीं आई। सांख्य और पातञ्जल ने अनुमान से ही परमाणु के भी कारण, त्रिगुणात्मक प्रकृति, को खोज निकाला। यहाँ तक नैयायिकों और वैशेषिकों की पहुँच नहीं हो पाई थी। इसलिए, सांख्य-पातञ्जल की अपेक्षा इनका दर्शन निम्नकोटि का माना जाता है।

सांख्य और पातञ्जल परमाणु को भी अनित्य मानते हैं और अनुमान के ही बल से उन्होंने त्रिगुणात्मक प्रकृति को जगत् का मूल कारण स्थिर किया है। इसके अतिरिक्त ये लोग आत्मा को शान-स्वरूप मानते हैं। नैयायिक और वैशेषिक आत्मा को जड़ ही मानते हैं। यह पहले भी बताया गया है। इन्हीं सब कारणों से सांख्य और पातञ्जल-दर्शन को नैयायिक और वैशेषिक-दर्शन की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। पाणिनीय और जैमिनि-दर्शन विशुद्ध श्रौत-दर्शन हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा इनको अभ्यहित माना जाता है। नैयायिकों की अपेक्षा तत्त्व के अनुसन्धान में भी ये लोग अपने बढ़े हैं। क्योंकि, आकाश से भी परे आकाश के कारणीभूत शब्द-ब्रह्म का इन लोगों ने अनुसन्धान किया है।

पृथिवी, अप्, तेज और वायु के जो परमाणु हैं, उनमें क्रमशः पूर्व-पूर्व के प्रति उच्चरीतर परमाणुओं के कारणत्व का पाणिनीय और जैमिनियों ने स्वीकार किया है। नैयायिक लोग तर्क के बल से तत्त्व का अनुसन्धान करते हुए भी परमाणु के कारण का अनुसन्धान नहीं कर सके, प्रत्युत परमाणु को नित्य ही मानते हैं। इनमें भी जैमिनियों की अपेक्षा पाणिनीय अभ्यहित माने जाते हैं। कारण यह है कि जैमिनियों का उपजीव्य व्याकरण ही है। क्योंकि, व्याकरण सं सिद्ध प्रकृति-प्रत्यय के विभाग का अवलम्बन कर जैमिनीय केवल वाक्यार्थ का ही विचार करते हैं। और भी, व्याकरण की पवित्रता के विषय में इन्होंने अपना विचार स्पष्ट अभियक्ष किया है—

पृथिवी पर सबसे पवित्र जल है, जल से भी पवित्र मन्त्र है और शूग्, यजु, साम इन त्रिवेदी मन्त्रों से भी पवित्र व्याकरण है। यथा—

'आपः पवित्रं परमं पृथिव्यामपां पवित्रं परमज्ञ मन्त्राः ।

तेषाच्च सामग्यंजुपां पवित्रं महर्यो व्याकरणं निराहुः ॥'

व्याक्यपदीय में भर्तृहरि ने भी व्याकरण को ध्वनि-प्राप्ति का साधन बताया है—‘तद्व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते ।’

सांख्यशास्त्र की भी अपेक्षा व्याकरण-दर्शन अभ्यर्हित है। इसका कारण यही है कि सांख्य लोग अचेतन प्रकृति को ही मूल-कारण मानते हैं और व्याकरण-दर्शन शब्द-ब्रह्म को, जिसको स्फोट ब्रह्म भी कहते हैं, मूल-कारण मानता है। यह शब्द-ब्रह्म चेतन और कूटस्थ नित्य है, इसी का विवर्त अखिल प्रपञ्च है। यह शब्द-ब्रह्म प्रकृति से भी परे अनादि और अनन्त है। यही शब्द-ब्रह्म, जिसको स्फोट कहते हैं, शक्ति-प्रधान होने से वाहूमय जगत् का और शक्य (शक्ति)-प्रधान होने से अर्थमय जगत् का विवर्तोपादान होता है। भर्तृहरि ने व्याक्यपदीय में स्पष्ट लिखा है—

‘अनादिनिधनं घृण्ण शब्दतर्त्त्वं यदत्तरम् ।

विवर्तंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥’

यहाँ शब्द को चेतन कहने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द चेतन है। शङ्कराचार्य का विवर्त्याद भी इनका अभिमत है। वांस्तव में शाङ्कर दर्शन और व्याकरण-दर्शन दोनों समकक्ष हैं। इनमें तारतम्य नहीं है। सर्वदर्शन-संग्रह की भूमिका में परिवर्तप्रवर अभ्यङ्करजी ने सांख्य-दर्शन से व्याकरण-दर्शन को निष्ठा कोटि का बताया है, यह सर्वथा अनुचित और स्फोट-तत्त्व के अनभिश्वत्व का परिचायक है।

इस विषय के अधिक जिशासुओं को हमारा ‘शब्द-सुष्टुपिमर्श’ (स्फोटवाद) देखना चाहिए। एक बात प्रायः निर्विवाद-सी है कि आत्ममीमांसा के विषय में शाङ्कर दर्शन, जो विवर्त्याद को मानता है, सब दर्शनों का मूर्धन्य औत दर्शन है। इस स्थिति में चार्वाक से लेकर अन्य सब दर्शनों में, जो दर्शन शाङ्कर दर्शन के जितने प्रत्यासन अर्थात् नजदीक है, वह उतना ही अभ्यर्हित माना जाता है। शङ्कराचार्य का मुख्य सिद्धान्त विवर्त्याद है। विवर्त्याद आत्मा के स्वरूप को देह से भिन्न, अक्षणिक, कूटस्थ, नित्य, निर्विकार, बोधस्वरूप, श्रवाहूमनसंगोचर, ईश्वर, ब्रह्मादि-पदवाच्य, कर्तृत्व-मोक्तृत्वादिरहित, असङ्ग और निर्विशेष मानता है। इस स्थिति में, शाङ्कर दर्शन के सबसे नजदीक व्याकरण-दर्शन ही आता है। इसका कारण यही है कि शङ्कराचार्य का मुख्य सिद्धान्त विवर्त्याद है। व्याकरण-दर्शन से भिन्न कोई भी दर्शन विवर्त्याद का समर्थन नहीं करता है। आत्मा के कूटस्थ नित्यत्व आदि के विषय में भी यही बात है। सांख्य-दर्शन ने तो विवर्त्याद के प्रतिकूल परिणामशाद को ही माना है। इसके अतिरिक्त शाङ्कर मत के विशद आत्मा में परस्पर भेद भी माना है। इसलिए भी, सांख्य-दर्शन को, शाङ्कर दर्शन के सिद्धान्त के समीप होने से, व्याकरण-दर्शन की अपेक्षा जो भेष भताया गया है, वह भी सर्वथा अनुचित है। बल्कि, यह कहने में भी

कोई आपत्ति नहीं दील पड़ती कि शङ्कराचार्य का जो विवर्त्तवाद मुख्य सिद्धान्त है, उसका उपजीव्य व्याकरण-दर्शन ही है।

इससे स्पष्ट चिद्र होता है कि शङ्कर दर्शन का व्याकरण-दर्शन के साथ जितना सामझत्य है, उतना और किसी के साथ नहीं। परन्तु, आत्ममीमांसा के विषय में शङ्कर दर्शन सबसे बाजी मार ले जाता है, जब कि व्याकरण-दर्शन का मुख्य उद्देश्य [पदार्थ-मीमांसा ही है।

### शास्त्रकारों का उद्देश्य

प्रायः सब शास्त्रकारों का उद्देश्य साज्जात् या परम्परया अद्वैत धर्म के बोध कराने में ही सफल होता है। क्योंकि, शास्त्रकार लोग साधारण जन की तरह भ्रान्त नहीं होते। स्वमायतः लोगों की उन्मार्ग में प्रवृत्ति होती रहती है, उसके बारण के लिए ही शास्त्र की रचना में उनकी प्रवृत्ति होती है। यह समान उद्देश्य सब शास्त्रकारों का है। बादरायण और जैमिनि प्रभृति सूत्रकारों और शङ्कराचार्य, शब्दरस्वामी आदि भाष्यकारों की भी शास्त्र-रचना में इसी उद्देश्य से प्रवृत्ति हुई है।

### अद्वैत-मत में कर्म की अपेक्षा

कोई-कोई सन्देह करते हैं कि शङ्कराचार्य नास्तिकों की तरह कर्म के विरोधी हैं, परन्तु उनका यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता है; क्योंकि चित्त-शुद्धि के लिए वे कर्म को अवश्य कर्त्तव्य मानते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यही होता है कि चित्त की शुद्धि निष्काम कर्म से ही होती है, सकाम कर्म से नहीं। कारण यह है कि सकाम कर्म से चित्त में राग ही पैदा होता है। और राग एक प्रकार का मल ही है, इसलिए सकाम कर्म से चित्त निर्मल कभी नहीं हो सकता। इसलिए निष्काम कर्म ही, चित्तशुद्धि के लिए आवश्यक है। यदि यह कहें कि निष्काम कर्म की कर्त्तव्यता को वे स्वीकार करते हैं, तो निष्कर्मवादी क्यों कहे जाते? इसका उत्तर यही हो सकता है कि कर्म का त्याग करना चाहिए, इस शुद्धि से कोई भी कर्म का त्याग नहीं करता, किन्तु निद्रावस्था में स्वभाव से ही कर्म का त्याग ही जाता है। वहाँ किसी का भी यह सङ्कल्प नहीं होता कि मैं कर्म का त्याग करता हूँ और, वह कर्म-त्याग के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करता है।

किन्तु, कर्म का बोज जो देहाभिमान है, उसका अभाव हो जाने पर स्वभाव से ही उस समय कर्म का त्याग हो जाता है। उस समय मनुष्य कर्म को नहीं छोड़ता, किन्तु कर्म ही मनुष्य को छोड़ देता है, इसीका नाम नैष्कर्म्यवस्था है। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म की अवश्यकर्त्तव्यता का विधान आचार्यों ने किया है। जिस प्रकार कोटे से काँटा निकाला जाता है—‘करण्टकं करण्टकेन विशेषयेत्’; इसी प्रकार निष्काम कर्म के द्वारा ही देहाभिमान को हटाया जा सकता है, जिससे नैष्कर्म्यवस्था की प्राप्ति सम्भव है। इस अवस्था की प्राप्ति-पर्यन्त निष्काम कर्म की परम आवश्यकता होने के कारण ही भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्म में ही प्रवृत्त कराया है। एक बात और भी ध्यान में रखना चाहिए कि केवल निष्काम

कर्म से ही मनुष्य-जीवन की कृतार्थता नहीं होती, किन्तु आत्मज्ञान में ही कृतार्थता है। इसीलिए भगवान् ने गीता में कहा है—

‘सर्वं कर्माणिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्तते ।’

हे अर्जुन ! समस्त कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। तात्पर्य यही है कि समस्त कर्त्तव्य कर्मों का फल आत्मा का ज्ञान ही होता है। जब निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, उस समय अधिकार-प्राप्ति के बाद आत्मज्ञान की ओर मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वयम् आगे बढ़ने लगती है। इसी उद्देश्य से भगवान् ने गीता में कहा है—‘उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।’ अर्थात्, चित्त-शुद्धि के बाद आत्मज्ञान का अधिकार प्राप्त होने पर इसी जन्म में या जन्मान्तर में मैं स्वयम् या अन्य कोई भी गुरु तुझे आत्म-ज्ञान का उपदेश करेगा ही। यद्यपि भगवान् जानते थे कि विना आत्म-ज्ञान की कृतार्थता नहीं होती, तथापि अर्जुन को निष्काम कर्म में प्रवृत्त कराया ही। इसी प्रकार, शास्त्रकारों ने भी उन सब विभिन्न तत्त्वों का इसी प्रकार ने प्रतिपादन किया है कि तत्त्वों का ज्ञान हो जाने पर आत्मज्ञान के अधिकार की प्राप्ति हो जायगी। परन्तु, विभिन्न तत्त्वों के ज्ञान से कृतार्थता हो जायगी, यह आचार्यों का अभिप्राय नहीं है। मनुष्यों की उन्मार्ग में जो नैसर्गिक प्रवृत्ति होती रहती है, उसको रोकने के लिए ही विभिन्न लोक-नुद्दि के अनुसार जो कर्त्तव्य उनके विषुद्ध हृदय में भासित हुए, उन्हीं के अनुसार अपने-अपने शास्त्रों की रचना आचार्यों ने की है।

जिस प्रकार, अनेक रोगों से ग्रस्त किसी रोगी को देखकर चतुर चिकित्सक यही सोचता है कि ये सब रोग अवश्य नियारणीय हैं, पर एक ही श्रौपध से सब रोग नहीं छूट सकते, और अनेक श्रौपधों का एक काल में प्रयोग भी नहीं हो सकता। कारण, उससे अनिष्ट की सम्भावना है। इसलिए, किसी एक प्रधान रोग के निवारण के लिए ही यक्ष करना चाहिए। यह सोचकर अवश्यनिवारणीय किसी प्रधान रोग के लिए ही श्रौपध देता है और अन्य रोगों के निवारण में घह उदासीन रहता है, इसीसे यह नहीं समझना चाहिए कि और अन्य रोगों के निवारण में वैद्य का तात्पर्य नहीं है। किन्तु, प्रधान रोग के निवारण करने पर श्रौपों का उपचार किया जायगा, यही उसका अभिप्राय रहता है। अतएव, सब रोगों के निवारण में ही वैद्य का तात्पर्य समझा जाता है।

इस प्रकार, प्रकृत में भी, सब शास्त्रकारों का यह तात्पर्य अद्वितीय परमात्म-तत्त्व के प्रतिपादन में ही समझा जाता है। श्रीमधुसुदनसरस्वती ने अपने ‘प्रधानभेद’ में स्पष्ट लिखा है—

‘सर्वेषां मुनीनां विवर्त्याद एव पर्यवसानेनाद्वितीये परमेश्वर एव तात्पर्यम् । नदि ते मुनयो आन्तः । सवज्ञत्वात्तेषाम् । किन्तु यदिविषयप्रवर्यानाभापाततः पुरुषार्थं प्रवेशो न सम्भवति, इति तेषां नास्तिव्यवारणाप ते: प्रस्पानभेदाः प्रदर्शिताः ।’

तात्पर्य यह है कि सब मुनियों का विवर्त्याद में ही अन्तिम निर्णय है, इसलिए अद्वितीय परमात्म-तत्त्व के प्रतिपादन में ही उनका तात्पर्य समझना चाहिए। वे मुनि लोग भ्रान्त नहीं थे। फ्योरि, वे सर्वेष थे। किन्तु, वाय विषयों में नैसर्गिक प्रवृत्ति के

कारण मनुष्णों का भन उदया परम पुण्यार्थ में प्रवेश नहीं कर सकता, अतएव उनके नास्तिक्य-पाठ्य के लिए शास्त्रकारों ने प्रस्थान-भेद को दिलाया है। उन शास्त्रकारों द्वारा तात्पर्य को नहीं उमस्ते के कारण ही, वेदविषय शार्प में ही उनका तात्पर्य बमहार, डर्ही को उपादेय मानकर पै अनेक विभिन्न मार्गों का अनुयाय फरते हैं। यह योग्यिदात्मगिद है कि वेदान्त ही यह शास्त्रों में मूर्धन्य है और यह डर्ही का प्रबन्ध है। भीषणस्वती ने ही कहा है—

‘वेदान्तशास्त्रमेव सर्वेषां शाश्वान् गृह्णन्यम्, शाश्वान्तरं सर्वसर्वय शेषभूमम्।’

### यत्कार का श्रोतत्व

वेदान्त-शास्त्र के मूर्धन्य होने में यही कारण है कि वदान्त के प्रलेता बादरायण परम भौताप्रतीये। नूल कारण के अनुयायान में भूति के अतिरिक्त और किंचित् प्रमाण की छपेजा नहीं फरते हैं। यह उमस्ते में कि तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क मनुष्ण-नुदि के अधीन है, और मनुष्ण-नुदि चामित है, इत्यलिए अत्यन्त अद्य निरस्तीम बद्ध-तत्त्व का अनुयायान करने के लिए विना भूति की उदायता के यह कभी उपर्युक्त नहीं हो सकता। इत्यलिए, ‘भुतेत्तु शन्मूलत्वात्’ इस शब्द की रचना बादरायण ने की है। इस शब्द के बनाने में इनका यही अभिप्राय दृचित होता है कि वास्तविक तत्त्व-ज्ञान के लिए भूति-प्रमाण पर ही से निर्भर है। नूल का अर्थ यह होता है कि जगत् के मूलतत्त्व का शान एक भूति-प्रमाण से ही चाप्त है। इसमें यह यिद दोता है कि जगत्कारण के स्वरूप-शान के लिए भूति का निर्णय ही सर्वमान्य होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह होता है कि भूतिप्रतिपादित मूलतत्त्व का स्वरूप यदि सौकिक युक्ति से विशद हो, तोभी उसको भद्रेय मानना चाहिए। ऐसे स्थलों में युक्ति या तर्क की उपेजा ही आवश्यक है। इसीमें श्रीतो का श्रोतत्व है। शङ्खराचार्य, रामानुजाचार्य और पूर्णप्रशाचार्य—इन तीनों प्रधानाचार्यों के मत से भी यह का यही माय निकलता है। इन तीनों में भेद इतना ही है कि शङ्खराचार्य अद्वैत और द्वैत-प्रतिपादक भूतियों का समन्वय विवर्त्याद मानकर करते हैं। और, रामानुजाचार्य शरीर-शरीरी-माय मानकर विशिष्ट अद्वैत में भूति का तात्पर्य बताते हैं। इसी प्रकार पूर्णप्रशाचार्य द्वैत में और निम्बाकांचार्य द्वैतद्वैत में भूति का समन्वय करते हैं।

परन्तु, शङ्खराचार्य के विवर्त्याद में भूतियों का सामझास्य जिस प्रकार मुगमता ने होता है, उस प्रकार और दार्शनिकों के मत में नहीं होता। कोई तो भूति को गीण मानते हैं, और कोई लीच-तानकर अपने पक्ष में अर्थ लगाने की चेष्टा करते हैं। परन्तु, शङ्खराचार्य ने बुद्धिमान् तार्किकों का भी भूति में विश्वास दृढ़ कराने के लिए, विरोध का परिदार किये प्रकार होगा, यह आवेप कर विवर्त्याद में सब विरोधों का परिदार उफलतापूर्वक किया है। लोक में भी रज्जु, सर्प आदि विवर्त्य-स्थल में वास्तव में सर्प नहीं रहता और भय वास्तव में होता है। इस प्रकार, परस्पर दोनों अर्थ, सर्पभाव और भय, का सामझास्य रहता ही है। सायणाचार्य ने सर्वदर्शन-संग्रह में

स्पष्ट लिखा है कि 'न हि श्रुतिविप्रतिपन्नेऽयम् वैदिकानां शुद्धिः लित्यते, अथि तु तदुपपादन-मार्गमेव विचारयन्ति ।' अर्थात्, श्रुतिप्रतिपादित अर्थ के युक्ति-विद्वद् होने से वैदिकों की शुद्धि लिन नहीं होती, किन्तु वह उसके उपपादन-मार्ग का ही विचार करती है। इस दिशा में शङ्कराचार्य का श्रौतवै पटाकाष्ठा को पटुचा-छा प्रतीत होता है। विवर्तवाद के अङ्गीकार करने पर, प्रतीयमान जो भेद है, वह अविद्या-कल्पित चिद हो जाता है। अविद्या-कल्पित होने से ही भेद को आविद्यक भी कहते हैं। इस स्थिति में 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' यह छान्दोग्य श्रुति, विना सङ्कोच के सुगमता से उपपन्न हो जाती है। इसी बात को सायणाचार्य ने सर्वदर्शन-संग्रह में लिखा है—'तस्मादाविद्यको भेदः श्रुतावद्वितीयत्वोपपादनाय अभिधीयते, न तु व्यवसनितया', अर्थात् ब्रह्म की श्रुति-प्रतिपादित अद्वितीयत्व की उपपत्ति के लिए ही भेद को 'आविद्यक' माना गया है, कुछ व्यवसनिता के कारण नहीं।

विवर्तवाद के स्वीकार करने से निर्विशेष ब्रह्मवाद, नैकर्म्यवाद, जगन्मित्यात्मवाद, केवल ज्ञान से मोक्ष, मोक्ष में सुख-दुःख-राहित्य, ब्रह्म का ज्ञान-स्वरूपत्व, ज्ञान का एकत्व और नित्यत्व, अविद्योपहित ब्रह्म का कारणत्व, ईश्वर-जीव में आपौषिक भेद और मायावाद इत्यादि वाद जो शङ्कर दर्शन में प्रचिद है, ये सभी सरलता से उपपन्न हो जाते हैं, और श्रुति का स्वारसिक जो अर्थ है, वह भी सरलता से उपपन्न हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि श्रुति के अर्थ को सरलता से उपपन्न होने के लिए ही शङ्कराचार्य ने उक्त वादों को स्वीकार किया है। तात्पर्य यह है कि श्रुति के अवण-मात्र से स्पष्ट प्रतीयमान जो अर्थ है, उनकी सङ्कृति, विवर्त आदि वादों के स्वीकार करने में ही हो सकती है। अन्यथा, श्रुति को गौणार्थ मानना आवश्यक हो जायगा। अतएव, सूत्रकार श्रौतों में अग्रगण्य हैं, यह बात चिद हो जाती है।

## भाष्यकार की प्रवृत्ति

यह बता चुके हैं कि सूत्रकार भगवान् वादरायण श्रौतों में अग्रणी हैं। इनके सूत्रों के व्याख्यान में प्रबृत्त जो भाष्यकार हैं, उनको चाहिए कि सूत्रों की व्याख्या ऐसी करें कि सूत्रकार के श्रोतत्व में व्याधा न आवे। अर्थात्, उनके श्रीताग्रणी होने में व्याधात न हो। जितने श्रीत दर्शनकार हैं, वे सभी, श्रुति के अवण-मात्र से प्रतीयमान जो स्वारसिक अर्थ है, उसकी उपेक्षा नहीं करते। बलिक, उसके समर्थन के लिए ही प्रयत्न करते हैं। सामान्य अर्थ भी जो श्रुति से अभिहित होता है, उसकी भी उपेक्षा औत लोग नहीं करते, और स्वारसिक अर्थ के विषय में तो कहना ही क्या है। यदि व्यज्ञना-वृत्ति से लब्ध जो व्यंग्य अर्थ है, उसका श्रुत्यन्तर से विरोध न हो, तो उस विषय में भी उनकी वही विचार-धारा रहती है। यदि श्रुत्यन्तर से विरोध हो, तो दुर्बल श्रुति का दूसरे अर्थ में तात्पर्य समझा जाता है।

## श्रुतियों का घलावल-विचार

कौन श्रुति दुर्बल है, और कौन प्रबल, इस विषय में विचार किया जाता है। श्रुति के पांच प्रकार के अर्थ होते हैं—व्यंग्य, लक्ष्य, वाच्य, प्राथमिक और स्वारसिक। इन पांचों में उत्तरोत्तर अर्थ की बोधिका जो श्रुति है, वह प्रबल समझी जाती है। और,

पूर्वार्थवेदिका जो श्रुति है, वह दुर्बल समझी जाती है। इनमें व्यंग्य, लक्ष्य और वाच्य तो प्रसिद्ध ही हैं। प्राथमिक और स्वारसिक, ये दोनों वाच्यविशेष ही हैं। जो अर्थ वाक्य-शब्दण्मात्र से ही बुद्धि पर आरूढ़ हो जाय, वही प्राथमिक है। और जो अर्थ प्रकृति-प्रत्यय के विशेषालोचनपूर्वक उसी वाक्य के शब्दण्मात्र में प्रतीयमान हो, वह स्वारसिक कहा जाता है। इसी प्रावल्य-दीर्घल्य-भाव का अनुसरण कर उपक्रम, परामर्श और उपसंहार के अनुरोध से सूत्रकार भगवान् बादरायण ने समन्वयाध्याय में श्रुतियों का समन्वय दिखाया है। अब सूत्र के व्याख्यान में प्रवृत्त भाष्यकार और वृत्तिकार का भी यही कर्तव्य हो जाता है कि इस तत्त्व की उपेक्षा न करें। अर्थात्, श्रुति के प्रावल्य-दीर्घल्य-भाव के अनुसार और उपक्रम आदि के अनुरोध से ही गूँजों का भाष्य या वृत्ति करना भाष्यकार या वृत्तिकार का परम कर्तव्य हो जाता है।

इन उपर्युक्त बातों के ऊपर ध्यान देकर यदि सब भाष्यों को देखा जाय, तो यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि शाङ्कर दर्शन सब दर्शनों में मूर्धन्य है। एक बात और है कि यश्चार ने सब श्रुतियों का समन्वय नहीं किया है, किन्तु किसी-किसी श्रुति का अनुसन्धान कर इसी प्रकार समन्वय करना चाहिए। इसी समन्वय मार्ग के अनुसार बादप्रस्त विषयों में उन विषयों का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों का एकत्र संकलन करना चाहिए। इसके बाद उन श्रुतियों की एकवाक्यता से पूर्वार्प-संदर्भ के अनुसार ही विवादप्रस्त विषयों का निर्णय करना चाहिए। इससे भिन्न प्रकार के निर्णय करने में बास्तविकता का अमाव हो रहता है। इसलिए, बादप्रस्त कुछ विशेष विषयों में कुछ श्रुतियों का दिग्दर्शन कराना आवश्यक है, अतएव, मोहावस्था को प्रतिपादित करनेवाली कुछ श्रुतियों का संग्रह किया जाता है—

‘यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपर्यतः ॥’ ( ईशो० ७; य० आ० १५७ )

‘विद्यया विन्दतेऽमृतम् ।’ ( केन० १२ )

‘निचाय तन्मृत्युसुखात् प्रसुच्यते ।’ ( का० ३।१५ )

‘यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

‘स तु तत्त्वदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥’ ( कठ० ३।३८ )

‘यथोदकं शुद्धे शुद्धमसिकं ताद्गेव भवति ।

‘एवं मुनेविज्ञानतः आत्मा भवति गौतम ॥’ ( कठ० ४।१५ )

‘यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।

‘अथ मत्योऽस्मृतो भवति अत्र व्रहा समश्नुते ॥’ ( कठ० ६।१४ य० आ० ४।१० )

‘स विशत्यात्मनात्मानं य पूर्वं वेद ।’ ( मां० १२ )

‘तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्तः परापरं पुरुषसुपैति दिष्यम् ।’ ( भ० ३।१४ )

‘तथा विद्वान् पुरुषपापे विधूय निरञ्जनः परमं पुरुषसुपैति ।’ ( भ० ३।१११ )

‘भिष्टते हृदयमन्तिरिव्युधन्ते सर्वसंशयाः ।

‘चीषन्ते चास्य कर्माणि वरिमन् दृष्टे परापरे ॥’ ( भ० ३।१४ )

‘महावेद व्रहैष भवति ।’ ( भ० ३।१४ )

'यो वेदनिहितं गुहायां परमेष्योमन् ।  
 सोऽशनुते सर्वान् कामान् सह व्रह्मणा विपश्चिता ।' ( सै० २१११ )

'तरति शोकमात्मवित् ।' ( छां० ७१३५ )

'अशरीरं वावसन्तं न वियाविये स्पृश्यतः ।' ( छां० ८१२१ )

'अभयं वै व्रह्म भवति य एवं वेद ।' ( वृ० ४१४२५ )

'व्रह्मैव सन् व्रह्मापेति ।' ( वृ० ४१४६ )

'वत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् ।' ( वृ० २१४४ )

'अभयं वै जनकं प्राप्नोऽसि' ( वृ० ४१२४ )

'तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशौशिक्षनत्ति ।' ( श्व० ४१५ )

'ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपाशैः ।' ( श्व० २१५ )

'तमेव विदित्वाऽतिसृत्युभेति ।' ( श्व० ३८ )

'यो यो देवानां प्रत्यक्ष्यते स एव तदभवत् । स इदं सर्वं भवति ।' ( वृ० ११४१० )

'तदत्तरं वेदयते यस्तु स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेश ।' ( प्र० ४११ )

'ज्ञाननिर्मयनाभ्यासात् पाशं दहति परिडतः ।' ( कै० ११ )

'तद्वल्लाहमिति ज्ञात्वा सर्वचन्दैः विमुच्यते ।' ( कै० १० )

'परमेव व्रह्म भवति य एवं वेद ।' ( चृ० ५ )

'य एवं विदुरमृत्वास्ते भवन्ति ।' ( म० ना० १११ )

'तमेवं विद्वान्मृत इह भवति ।' ( चृ० ४० १६ )

'ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति ।' ( कै० ६ )

'द्वितीयाशस्त्रया जीवः संसारं तरते सदा ।' ( चृ० १२ )

'द्वितीया तन्तुं न बध्यते ।' ( चृ० ३४ )

## चार अर्थ

मोक्षावस्था का प्रतिपादन करनेवाली ये ही प्रधान श्रुतियाँ हैं, इनसे भिन्न बहुत-सी श्रुतियाँ और भी हैं, जो मोक्षावस्था का प्रतिपादन करती हैं। परन्तु, विस्तार-भृत्य से सबका संग्रह नहीं किया गया।

इन उपर्युक्त और इनसे भिन्न जो मोक्षावस्था की प्रतिपादक श्रुतियाँ हैं, उनके ऊपर ध्यान देकर समालोचना करने से चार प्रकार के अर्थ प्रतीत होते हैं— (१) आत्मविज्ञान, (२) पाशविमोक्ष, (३) आत्मस्वरूप-सम्पत्ति, (४) शोकादिराहित्य। ये चारों अर्थ सब श्रुतियों में निर्दिष्ट नहीं है, किर भी यथासम्भव किसीका किसीमें विभिन्न शब्दों के द्वारा किसी प्रकार चार अर्थों का निर्देश पाया ही जाता है। इन चारों के स्वरूप का निर्णय सबकी एकत्राक्यता से करना चाहिए। इनमें पहले आत्मविज्ञान की मीमांसा करनी चाहिए।

उपर्युक्त श्रुतियों में किसी में विद्वान्, किसी में विद्, किसी में वेद और किसी में ज्ञात्वा, इत्यादि उपसर्ग-रहित विद् धातु और जा धातु का प्रयोग आता है। इससे इनका अर्थ सामान्य ज्ञान ही प्रतीत होता है और विज्ञानतः, विज्ञाय और विज्ञानवान्

इत्यादि विउपसर्गविशेष ज्ञानधारु से ज्ञानमें कुछ विशेषता प्रतीत होती है। वह विशेषता किस प्रकार की है, इस जिज्ञासा में है, अनुपश्यतः इत्यादि श्रुति में उक्त पदों के साथ एकवाक्यता करने से प्रत्यक्ष-दर्शन, अर्थात् साक्षात्कार ही अर्थ यहीत होता है। 'प्रत्यक्ष्यत' इस श्रुति में उक्त प्रतिशोध शब्द से भी यही साक्षात्कार अर्थ प्रतीत होता है।

### आत्मसाक्षात्कार-विवेचन

श्रुति में उक्त साक्षात्कार का विषय आत्मा ही होता है। यद्यपि श्रुति में उक्त ज्ञान का विषय विभिन्न प्रतीत होता है, तथापि उन सबका तात्पर्य एक ही आत्मा में श्रुति और अनुभव से सिद्ध है। जैसे 'आत्मनित्'—इस श्रुति में वेदन अर्थात् ज्ञान का विषय आत्मा अपने शब्द से ही निर्दिष्ट है। 'यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः'—विज्ञान से समस्त भूतवर्ग आत्मा ही हो जाता है, यह बताया गया है और यही भूतों की आत्मस्वरूप-सम्पत्ति है। अर्थात्, विज्ञान से सब भूत आत्मस्वरूप ही हो जाता है, इस अवस्था में इतर रूप से भूतों का भान ही नहीं हो सकता है। यहीं-आत्मस्वरूप-सम्पत्ति, वेदन का विषय आत्मा ही है, इस बात को श्रुति लक्षित करती है। 'आत्मैवाभूत्' यहाँ 'एव' शब्द से आत्मा से भिन्न वस्तु में वेदन, अर्थात् ज्ञानविषयता का निषेध भी करती है। क्योंकि, स्वरूप-सम्पत्ति वेदन के अनुरूप ही होती है। अर्थात्, जिस वस्तु का संवेदन अर्थात् साक्षात्कार होगा, उसी स्वरूप से वह भासित होगा। इसी श्रुति के अनुरोध से 'एकत्वमनुपश्यतः' इस श्रुति में दर्शन का विषय जो एकत्व बताया गया है, वह भी आत्मैकत्व का ही बोधक है, और यही मान्य भी है। ब्रह्म-शब्द और आत्म शब्द पर्यायवाची हैं, इसलिए 'ब्रह्मविद्' इस श्रुति में वेदनविषयक जिस ब्रह्म का निर्देश है, वह भी आत्मा से भिन्न दूसरा कोई नहीं है। 'तस्मिन् दृष्टे परावरे' इस श्रुति में दर्शन का विषय जिस परावर को बताया गया है, उसका भी अर्थ 'आत्मैवाभूत्' इस श्रुति के अनुरोध से आत्मा ही हो सकता है, दूसरा नहीं। आत्मविचार में और भी वह श्रुति आती है—

'दिव्ये वस्तुरे होप च्योग्न्यात्मा सम्प्रतिष्ठितः । मनोमयः प्राणशरीरनेता, प्रतिष्ठितोऽन्ये ददर्यं सत्तिधाय । तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः ज्ञानरूपमसृतं यद्विभाति ।'

—सु० ३० २१२०७

इस श्रुति में 'परिपश्यन्ति' किया का कर्म अर्थात् दर्शन किया का विषय पूर्व वाक्य में प्रसुक आत्मा ही होता है; क्योंकि तत् शब्द से उसी का परामर्श हो सकता है। इसलिए—'तस्मिन् दृष्टे परावरे'—वाक्य में परावर शब्द से भी आत्मा का ही ग्रहण सिद्ध होता है। एक बात और भी विचारणीय है कि उस श्रुति में ब्रह्म या आत्मा के लिए 'आनन्दरूपम् असृतम्' इस विशेषण के देने से और 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस श्रुति में आनन्द और ब्रह्म के साथ समानाधिकरण-निर्देश से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म और आनन्द में मेद नहीं है। इसलिए, 'आनन्दं ब्रह्मयो विद्वान्' इस श्रुति में वेदन अर्थात् ज्ञान का विषय जो आनन्द कहा गया है, वह ब्रह्मरूप ही आनन्द है।

क्योंकि, व्रहा से अनिरिक्त तो कोई आनन्द है ही नहीं। यदि यह कहें कि व्रहा से भिन्न यदि कोई आनन्द नहीं है, तो 'ब्रहणः' में पष्ठी विभक्ति किस प्रकार होगी? क्योंकि, मेद में ही पष्ठी विभक्ति होती है, अमेद में नहीं। तो इसका उत्तर यह होता है कि 'ब्रहणः आनन्दम्' यहाँ श्रौपचारिक पष्ठी है, जिस प्रकार—'राहोः शिरः'—यहाँ श्रौपचारिक पष्ठी मानी गई है। केवल लोक में, अमुकस्य आनन्दः इस प्रकार का सप्रतियोगिक आनन्द का ही प्रयोग देखा जाता है, इसलिए 'ब्रहणः' यह पष्ठी-निर्देश कर दिया। वास्तव में तो व्रहा और आनन्द में कुछ भी मेद नहीं है। 'विश्वानमानन्दं ब्रह्म' इत्यादि अनेक श्रुतियों में आनन्द और व्रहा के साथ समानाधिकरण से निर्देश मिलता है। 'आनन्दरूपममृतम्'—इस मुण्डक श्रुति में तो विशेषकर रूप शब्द से व्रहा को आनन्द-स्वरूप बताया है।

एक बात और है कि आनन्द और व्रहा में मेद माननेवाले जो द्वैतवादी हैं, उनके मत में भी—'आनन्दं ब्रहणो निदान् न विभेति कुत्थन'—इस श्रुति में आनन्द को श्रौपचारिक मानना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि, व्रहानन्दविषयक ज्ञान परोक्ष नहीं होता; क्योंकि परोक्ष व्रहानन्द के ज्ञान से भय की निवृत्ति नहीं होती। शब्दजन्य व्रहविषयक परोक्ष-ज्ञान तो हमलोगों को ही हो, परन्तु भय की निवृत्ति नहीं। इसलिए, व्रहविषयक वेदन, अर्थात् ज्ञान अपरोक्ष ही मानना चाहिए। अपरोक्ष का ही अर्थ साक्षात्कार या प्रत्यक्ष होता है। इस अवस्था में व्रहा का आनन्द हमलोगों को नहीं हो सकता, कारण यह है कि दूसरे का आनन्द दूसरा नहीं अनुभव कर सकता। इस हालत में व्रहानन्द के उद्देश आनन्द में लक्षणा द्वैतवादियों को मानना ही पड़ेगा।

एक बात और है कि आनन्द में लक्षणा स्वीकार करने की अपेक्षा 'ब्रहणः' में पष्ठी-विभक्ति में ही लक्षणा स्वीकार करना आवश्यक है; क्योंकि 'गुणे त्वन्याद्यकल्पना' इस सिद्धान्त से यही समुचित प्रतीत होता है। और, यहाँ लक्षणा स्वीकार करने पर भी 'विश्वानमानन्दं ब्रह्म', 'विश्वानरूपममृतम्' इत्यादि समानाधिकरण-स्थल में विना लक्षण के काम नहीं चलेगा। गौरवाधिक्य के लिए वहाँ लक्षणा आवश्यक है।

आनन्देन रूप्यते-निरूप्यते इत्यानन्दरूपम्, अर्थात् जो आनन्द से सिद्ध किया जाय, वह आनन्दरूप है। इस प्रकार खीच-तानकर श्रुति का अर्थ करना स्पष्टार्थं श्रुति के लिए अन्याद्य है, और इस प्रकार क्लिप्ट कल्पना में कोई प्रभाव भी नहीं है। इसलिए, व्रहा और आनन्द में एकता अर्थात् अभिन्नता ही श्रुति का अभिप्रेत है, यह सिद्ध होता है।

### आत्मेकत्व का उपपादान

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि दृश्यमान प्रपञ्च के नानात्म-निवारण करनेवाली जो 'एकत्वमनुपश्यतः' श्रुति है, उसका जिस प्रकार दृश्यमान-प्रपञ्च में प्रतिभासमान मेद के निवारण में तात्पर्य है, उसी प्रकार द्रष्टा और दृश्य के बीच प्रतिभासमान जो मेद है, उसके निवारण में तात्पर्य है, अथवा नहीं! यदि प्रथम पञ्च, अर्थात् द्रष्टा और दृश्य के बीच प्रतिभासमान मेद के निवारण में भी श्रुति का तात्पर्य मानते हैं, तब तो द्रष्टा का द्रष्टृत्व और दृश्य का दृश्यत्व भी नहीं रहता। क्योंकि, द्रष्ट-दृश्यभाव मेद-

प्रयुक्त ही होता है, अर्थात् दृश्य के न रहने से द्रष्टा नहीं रह सकता, और न द्रष्टा के न रहने से दृश्य ही। इस प्रकार, दोनों के न रहने पर दर्शन का दर्शनत्व भी नहीं रह सकता। इस अवस्था में अद्वैत श्रुति तो विना सङ्कोच के उपग्रह हो जाती है, कारण यह है कि अद्वैत में ही दृश्य आदि सकल मेद-प्रपञ्च का अभाव सम्भव है। परन्तु, 'अनुपश्यतः' यह दर्शन श्रुतिविरुद्ध हो जाती है; क्योंकि विना द्रष्टा और दृश्य के दर्शन होना असम्भव है। अर्थात्, दर्शन में दृश्य और द्रष्टा की अपेक्षा अवश्य रहती है।

यदि द्वितीय पक्ष मानें, अर्थात् दृश्य और द्रष्टा के बीच जो भेद है, उसके निवारण में श्रुति का तात्पर्य न मानें, तो 'सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत्' यह सब भूतों की आत्म-भवन-श्रुति विकद हो जाती है। क्योंकि, यही आत्म-शब्द स्व-शब्द का पर्याय द्रष्टा के स्वरूप का निर्दर्शक है। जब द्रष्टा और दृश्य में भेद विद्यमान रहे, तब दृश्य की आत्मस्वरूप-सम्पत्ति नहीं घटती। इस अवस्था में 'सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत्' और 'यत्तत्स्य सर्वमात्मैवाभूत्' इत्यादि श्रुतियों की सङ्गति किसी प्रकार नहीं हो सकती। और भी श्रुतियों में जो एवं शब्द है, उससे आत्म-भवन के प्रतिपादन में बहुत जोर देखा जाता है। इसलिए, इन दोनों पक्षों में दोष समानरूप से आ जाता है।

इसका समाधान, आत्म-श्रुति, एकल-श्रुति और दर्शन-श्रुति, इन तीनों श्रुतियों के विरोध के परिहार में ही है। उक्त तीनों श्रुतियों के विरोध का परिहार इसी प्रकार हो सकता है—

**'यथा शुद्धे शुद्धमासिकतं तादेव भवति ।'**

**एवं मुनेविज्ञानत आत्मा भवति गौतम ॥'** ( क० ३० ४।१५ )

इस श्रुति में आत्म-साक्षात्कार से उत्पन्न जो अवस्था है, उसका दृष्टान्त शुद्ध जल से दिया गया है। दृष्टान्त का प्रयोजन यही होता है कि दार्ढान्तिक अर्थ का सुगमता से बोध हो जाय।

इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शुद्ध जल में शुद्ध जल मिलाने से वह तद्वत् हो जाता है, उसी प्रकार विज्ञान से ज्ञानियों का आत्मा भी मिलकर एक हो जाता है। इस श्रुति में शुद्ध जल में शुद्ध जल के मिलाने से तादृशता ( उसी प्रकार हो जाने ) का विधान है। अब यह विचार करना है कि यहाँ तादृशता का क्या-अभिप्राय है? क्या तादृशता का अर्थ उसके समान जातीय हो जाना है अथवा तद्रूप हो जाना? अर्थात्, जिस शुद्ध जल में जो शुद्ध जल मिलाया गया, वह शुद्ध जल उस शुद्ध जल का समानजातीय होकर उससे मिल ही रहता है, अथवा तद्रूप हो जाता है, अर्थात् दोनों में भेद नहीं रहता! यदि प्रथम पक्ष अर्थात् उसके समान जातीय होकर उससे मिल मान लें, तब तो आसेचनोकि व्यर्थ हो जाती है; क्योंकि आसेचन अर्थात् मिलाने के पहले भी उसका समानजातीयत्व था ही, किर उसके समान जातीय होने के लिए मिलाना व्यर्थ ही है। इसलिए, तादृशता का अर्थ उसका सजातीय होना नहीं है, किन्तु तद्रूप हो जाना ही है, अर्थात् दोनों में भेद नहीं रहता, इसी में श्रुति का तात्पर्य है।

इसी प्रकार, दार्ढान्तिक स्थल में भी समस्त प्रपञ्च का विवर्तोगादन जो परमात्मा है, वही आसेचन का आधारभूत शुद्धजलस्थानीय है। यह विवर्त के उपादान होने के

कारण अत्यन्त शुद्ध है। जो विवर्त का उपादान होता है, वह भास्मान दोष से दूषित कदापि नहीं होता, जैसे रज्जु में भास्मान सर्प के विष से रज्जु कभी दूषित नहीं होता। इसी प्रकार, आधिकारिक भूत जल के स्थान में ज्ञानियों का जो आत्मा है, वह भी समस्त कर्म-व्यापानाओं और अन्तःकरण के सम्बन्ध के नष्ट हो जाने पर अत्यन्त शुद्ध ही रहता है। ज्ञानियों के आत्मा का परमात्मा में यह आसेचन, श्रुति में उक्त 'विजानतः' पद का वाच्य विज्ञान ही है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शुद्ध जल में शुद्ध जल के मिलाने से दोनों का भेद प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा में आत्मा के आसेचन रूप विज्ञान से भेद की प्रतीत नहीं होती।

इस प्रकार जब 'यथा शुद्धेशुद्धमाधिकम्' श्रुति का अर्थ स्थिर हो जाता है, तब पूर्वोक्त जो आसेचन-श्रुति, एकत्व-श्रुति और दर्शन-श्रुति, ये तीन श्रुतियाँ हैं, इनमें आत्म-श्रुति और एकत्व-श्रुति परस्परविद्ध नहीं होती, प्रत्युत अनुकूल ही होती हैं। केवल दर्शन-श्रुति विशुद्ध-सी प्रतीत होती है। तथापि वस्तुतः विचार करने से कुछ भी विरोध नहीं रहता। कारण यह है कि प्रत्यक्ष का अर्थ होता है—त्रिविधि चैतन्यों का ऐक्य अर्थात् एक होना। आत्म-चैतन्य, ज्ञान-चैतन्य और विषय-चैतन्य, इन तीनों चैतन्यों की जब एकता हो जाती है, तब उसी को 'प्रत्यक्ष' कहते हैं। उन त्रिविधि चैतन्यों के ऐक्यरूप प्रत्यक्ष में भेद का भान होना आवश्यक नहीं है। कहीं भेद का भान होता है और कहीं नहीं भी। सविकल्प घट आदि के प्रत्यक्ष में भेद का भान नहीं होता है। इसलिए, दर्शन में भेदावास की आवश्यकता नहीं होने के कारण दर्शन-श्रुति भी विशुद्ध नहीं होती, यह सिद्ध होता है।

### आत्मप्रत्यक्ष का स्वरूप

'यत्साक्षादपरोक्षाद्वक्षः' (वृहदारण्यक ३।४।१) यह श्रुति, व्रत्य को साक्षात्प्रत्यक्ष बताती है। यहाँ अपरोक्षात् इस पञ्चम्यन्त पद का अपरोक्षम् यह प्रथमान्त ही अर्थ प्रायः सब आचार्यों ने माना है। यहाँ तक कि शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य आदि प्रधान आचार्यों ने भी यही माना है। इस अर्थ में किसी का भी विवाद नहीं है। अपरोक्षम् का प्रत्यक्ष ही अर्थ होता है। अब यहाँ विचार उपस्थित होता है कि प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग तो तीन अर्थों में होता है—'घटस्य प्रत्यक्षम्'—यहाँ ज्ञान अर्थ में, 'घटः प्रत्यक्षः' यहाँ विषय अर्थ में और 'घटस्य ज्ञापकं प्रमाणं प्रत्यक्षम्' यहाँ विषयविशेष के साधन में भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग देखा जाता है। किन्तु, इस प्रकृत श्रुति का अर्थ क्या है, यह विचारणीय है।

यद्यपि इन तीनों अर्थों में प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है, तथापि ज्ञानविशेष ही इसका मुख्य अर्थ माना जाता है, विषय और साधन में जो प्रयोग देखा जाता है, वह गौण अर्थात् लक्षण-वृत्ति से ही है। प्रत्यक्ष शब्द को तीनों अर्थों में मुख्य मानकर अनेकार्थ मानना सुनित नहीं है। कारण यह है कि अनेकार्थ मानने में अनेक गौण द्वे जाते हैं। एक तो, शक्त्यन्तर की कल्पना ही गौण है, दूसरा, वक्ता का

तात्पर्य समझने के लिए संयोग, विषयोग आदि की कल्पना में गौरव हो जाता है। जहाँ परस्परविशद अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं, वहाँ लक्षण से निर्वाहन होने के कारण ही अगत्या अनेकार्थ मानकर गौरव स्वीकार करना पड़ता है। जैसे, सैध्यव आदि पदों में लक्षण से काम न चलने से अनेकार्थ माना जाता है। उसी प्रकार, यदि सर्वत्र अनेकार्थ मान लें, तो लक्षण का कोई विषय ही नहीं रह जाता। इसलिए उक्त श्रुति में मुख्य अर्थ के सम्भव होने से गौण अर्थ मानना अनुचित हो जाता है। इस स्थिति में ब्रह्म प्रत्यक्ष ज्ञानरूप ही है, और आत्म-चैतन्य का ही नाम प्रत्यक्ष प्रमा (ज्ञान) है, यह सिद्ध हो जाता है। यही प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण श्रुति-सम्मत भी है।

वैशेषिक आदि 'इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्' यह जो प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं, वह युक्त और श्रुतिसम्मत नहीं है। क्योंकि, ब्रह्म नित्य होने के कारणजन्य नहीं हो सकता। विषयाकार जो मनोवृत्ति है, वही इन्द्रिय-जन्य है, और उस वृत्ति से युक्त जो ज्ञानस्वरूप ब्रह्म चैतन्य है, उसी की उपाधि वह मनोवृत्ति है, इसलिए वृत्ति में जो ज्ञानत्व का व्यवहार होता है, वह आपेक्षारिक माना जाता है। इसी प्रकार के आपेक्षारिक ज्ञान में द्रष्टा और दृश्य की अपेक्षा रहती है। मुख्य जो आत्म-स्वरूप ज्ञान है, उसमें द्रष्टा और दृश्य की अपेक्षा नहीं रहती। चैतन्य और ज्ञान ये दोनों पर्यायिकाची शब्द हैं, ये भिन्नार्थक नहीं हैं। जब यही आत्मचैतन्य आविर्भूत होता है, तभी 'ज्ञान हुआ' इस प्रकार का व्यवहार लोक में होता है। एक बात और भी जानने योग्य है कि चैतन्यरूप ज्ञान का आविर्भाव सर्वत्र नहीं होता, किन्तु विशुद्ध-सात्त्विक स्वच्छ जो पदार्थ हैं, उन्हीं में ज्ञानरूप चैतन्य का आविर्भाव होता है। घट आदि की अपेक्षा इन्द्रियाँ स्वच्छ हैं। उनकी अपेक्षा भी मन स्वच्छतर है, और उसकी अपेक्षा भी मनोवृत्ति स्वच्छतम है।

इसमें यही सिद्ध होता है कि मूर्च्छ, अमूर्च्छ, चेतन और अचेतन आदि सकलप्रपञ्च में निरन्तर विद्यमान रहता हुआ भी ज्ञानस्वरूप आत्मचैतन्य अत्यन्त स्वच्छतम मनोवृत्ति में ही आविर्भूत होता है, जिस प्रकार पापाण आदि में धर्मण-विशेष (पॉलिश) से स्वच्छता आ जाने पर ही उसमें प्रतिविम्ब का प्रादुर्भाव होता है, अन्यथा नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि विषयाकार मनोवृत्ति में आविर्भूत जो ब्रह्म-चैतन्य है, उसीका प्रत्यक्ष शब्द से लोक में व्यवहार होता है। यद्यपि घट आदि अचेतन पदार्थों में भी चिद्रूप ब्रह्म का ही आविर्भाव होता है, तथापि वह आविर्भाव घट आदि विषयाकाररूप से होता है, साक्षात् नहीं। जब ब्रह्म का साक्षात् आविर्भाव होता है, उस समय तो वह मुक्त ही हो जाता है। इसीलिए, श्रुति में 'यत्साक्षात्परोक्षाद्ब्रह्म' ऐसा साक्षात् अपरोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष बताया है। इससे सिद्ध होता है कि जब ब्रह्म-चैतन्य विषयाकार-मनोवृत्ति से अवच्छिन्न, अर्थात् युक्त होकर आविर्भूत होता है, उसी समय वह ज्ञानशब्द का वाच्य कहा जाता है, यही श्रूति दर्शनों का सिद्धान्त है। जब वही ज्ञानविषय चैतन्य से भिन्न प्रकार से आविर्भूत होता है, तब 'परोक्ष' कहा जाता है, और इससे भिन्न 'प्रत्यक्ष'।

इसका रहस्य यह है कि लोक में जो 'अर्थं घटः' इस आकार का प्रत्यक्ष होता है, वहाँ विषय-देश में मन के गमन होने के कारण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य का

विषयचैतन्य से भिन्न अविमोव नहीं होता, और शास्त्रीय आत्म प्रत्यक्ष में तो द्रष्टा और दृश्य का भी भेद भासित नहीं होता है। इसलिए, ब्रह्म-चैतन्य और विषय-चैतन्य में कुछ भी भेद नहीं रहता। यही—‘यत्साक्षादपरोक्षादब्रह्म’—इस श्रुति का तात्पर्य है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मस्वरूप जो ज्ञान है, वही निर्विकल्पक है। लौकिक और शास्त्रीय निर्विकल्पक में इतना ही भेद है कि लोक में ‘इदं किञ्चित्’ इस निर्विकल्पक ज्ञान में दृश्यगत विशेषता का भान नहीं होता, और शास्त्रीय निर्विकल्पक जो आत्मप्रत्यक्ष है, उसमें दृश्य और द्रष्टा—उभयगत भेद का भी भान नहीं होता। इसलिए, आत्म-साक्षात्कार को निर्विकल्पकतर कह सकते हैं।

## पाश-विमोक्ष का स्वरूप

उदाहृत श्रुतियों में निर्दिष्ट आत्म-विज्ञान का स्वरूप यथासम्भव संक्षेप में दिखाया गया, अब क्रमप्राप्त पाश-विमोक्ष (बन्धनमुक्ति) के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया जाता है। बन्ध के साधन का ही नाम ‘पाश’ है और शरीर के साथ सम्बन्ध का नाम ‘बन्ध’। बन्ध का मूल अविद्या-ग्रन्थि है और वह कर्म से सम्पादित किया जाता है। नाम और रूपात्मक कार्य-कारण के संधार को ‘शरीर’ कहते हैं।

बुमुखा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, जन्म, तृष्णा, भय, सुख और दुःख इत्यादि जितने शरीर के धर्म प्रतीत होते हैं, वे सभी बन्धमूलक ही हैं। बन्ध को ही मृत्यु-मुख कहते हैं। यह मोक्षप्रतिपादक श्रुतियों के ऊपर ध्यान देने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। अविद्या ही मुख्य पाश है, यह भी सिद्ध है। तन्मूलक जितने शरीर आदि हैं, सभी अविद्या-जन्य होने से ही पाश कहे जाते हैं। उसी अविद्या-रूपी पाश का जो वियोग है, उसीको पाशविमोक्ष, पाशहानि, पाशविमोचन इत्यादि शब्दों से अभिहित किया जाता है। इसका तात्पर्य अशरीरत्व-स्थिति है।

अब आत्मसाक्षात्कार से शरीरत्व की निवृत्ति किस प्रकार होती है, इसका निर्देश किया जाता है। ‘यस्मिन् चर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः’ इस श्रुति में आत्म-साक्षात्कार से समस्त भूतों का आत्मस्वरूप हो जाना बताया गया है। यहाँ भूत शब्द से पञ्चभूतमय जड़-प्रपञ्च का ही ग्रहण होता है। अब यहाँ आशङ्का यही होती है कि आत्मसाक्षात्कार से जड़-प्रपञ्च आत्मस्वरूप किस प्रकार हो उकता; क्योंकि ज्ञान मात्र से अन्य का अन्य रूप ही जाना असम्भव है। विज्ञान से अन्य की अन्यरूपता यदि न मानें, तो श्रुति से विरोध हो जाता है; इसलिए प्रपञ्च आत्मा का ही विद्यर्थ है। इस प्रकार विवर्चवाद को अगल्या स्वीकार करना ही पड़ता है। यदि विवर्चवाद का आश्रय लेने हैं, तो शङ्का का अवकाश ही नहीं होता; क्योंकि जिस प्रकार रज्जु में विवर्चमान जो सर्प है, वह रज्जु के साक्षात्कार होने से रज्जुरूप ही हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा का विवर्त जो चेतनाचेतनात्मक अलिल प्रपञ्च है, वह भी आत्मसाक्षात्कार से आत्मस्वरूप ही हो जाता है, यह स्वयंसिद्ध है। यदि भूत-मात्र आत्मस्वरूप हो जाता है, तो भूतमय शरीर का भान, आत्मशान के बाद शरीरत्वेन

आत्मा से पुष्ट किए प्रकार हो सकता है। इससे आत्मसच्चात्कार के बाद अशशीरत्व की स्थिति सिद्ध हो जाती है, और यदी पाश्विमोचन है।

### आत्मस्वरूप-सम्पत्ति

अब पूर्वोक्त श्रुतियों में जो आत्मस्वरूप-सम्पत्ति का निदेश है, उसकी मीमांसा की जाती है—‘यस्तु विश्वानवान् भवति’, इस श्रुति में बताया गया है कि आत्म-सच्चात्कारवाला पुरुष उस स्थान को प्राप्त करता है, जिससे पुनर्जन्म नहीं होता। वह स्थान-विशेष कैसा है? इस जिशासा में, ‘परात्मरं पुण्यमुपैति दिव्यम्’ इस मुरडक श्रुति के साथ एकवाक्यता करने से दिव्य पुण्य-रूप ही स्थान-विशेष प्रतीत होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि उस दिव्यपुण्य की प्राप्ति जो होती है, वह भेदेन प्राप्ति होती है, या अभेदेन? सब श्रुतियों के समन्वयात्मक विचार करने से इसका समाधान यही होता है कि अभेदेन प्राप्ति होती है। भेदेन प्राप्ति मानने में बहुत श्रुतियों का विरोध हो जाता है। जैसे—

‘यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूत्’, ‘एवमात्मा भवति’, ‘ब्रह्मैव भवति’, ‘स तदभवत्’, ‘स इदं सर्वं भवति’, ‘परमेव भवति’, ‘सर्वमात्मैवाभूत्’ इत्यादि अनेक श्रुतियाँ उक्त अभेद को ही पुष्ट करती हैं। इसके अतिरिक्त एव शब्द से भेद का नियेष भी करती है।

यहाँ यह आशङ्का होती है कि आत्मसच्चात्कारवाला पुरुष यदि सर्वात्मक, अर्थात् सर्वस्वरूप हो जाता है, तो—‘सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह। ब्रह्मणा विपश्चिता’ (तै० २।१।१) —मोक्षप्रतिपादक इस श्रुति में, मोक्षावस्था में जो सब कामनाओं की प्राप्ति बताई गई है, उसकी संगति किस प्रकार हो सकती है? क्योंकि, उस अवस्था में शानियों से भिन्न कोई भी पदार्थ या ब्रह्म भी नहीं रह जाता, जिसकी प्राप्ति सम्मानित हो। इसका उत्तर यह होता है कि—‘सर्वान् कामान् शश्नुते’—श्रुति में बताया गया है, जिसका अर्थ सब कामनाओं का उपमोग या प्राप्ति लोग समझते हैं। ‘थदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि अथातः’—इस श्रुति, जो मोक्ष अवस्था का ही प्रतिपादन करती है, में उसी अवस्था में सब कामनाओं का विमोचन बताया गया है। इन दोनों श्रुतियों में परस्पर भासमान जो विरोध है, उसका परिहार पहले करना आवश्यक है, जिससे उक्त शंका का भी परिहार स्वयं हो जाता है। विरोध-परिहार के लिए श्रुति में उक्त प्रत्येक पद के ऊपर ध्यान देना होगा।

‘कामा येऽस्य हृदि अथातः’—श्रुति में ‘हृदि अथातः’ इस पद से, और ‘सोऽश्नुते सर्वान् कामान्’—इत्यादि श्रुति में, ‘ब्रह्मणा’ इस पद से विरोध का परिहार स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। ‘हृदि अथातः कामा’ का तात्पर्य है—मनोगत कामनाएँ। इससे श्रुति का तात्पर्य है कि ये वस्तुएँ मुझे प्राप्त हों, इस प्रकार की जो मनोगत कामनाएँ हैं, उनका समूल नाश या अत्यन्तनाश-रूप प्रमोचन होता है और मनोगत कामनाओं से भिन्न बाहर की कामनाएँ हैं, उनका ब्रह्म-रूप से व्यापन के अर्थ में दोनों श्रुतियों का सामर्ज्य है। कुछ कामनाओं का विमोचन और कुछ कामनाओं का स्वीकार,

इस प्रकार अर्थ करके श्रुतियों के विरोध का जो परिहार किया जाता है, वह युक्त नहीं प्रतीत होता। कारण यह है कि 'कामा' और 'कामान्' का विशेषण दोनों में 'सर्वे' और सर्वान् दिया है, जिसका 'समस्त कामनाएँ' ऐसा तात्पर्य होता है।

### श्रुति का अर्थ

सह शब्द का अर्थ साहित्य होता है, और वह साहित्य नित्य साकांक्ष है—'केन कस्य साहित्यम्', अर्थात् किसके साथ किसका साहित्य। यदि 'केन' इस आकांक्षा की पूर्ति 'ब्रह्मणा' के साथ करें, तो युक्त नहीं होता है। कारण यह है कि श्रुति में 'सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सर्वे' यह एक वाक्य है, और 'ब्रह्मणा विपश्चिता' यह दूसरा। इसी प्रकार साम्प्रदायिक पाठ है। और, वाक्यान्तर में प्रयुक्त जो नित्य साकांक्ष पद है, उसकी पूर्ति, वाक्यान्तर में प्रयुक्त शब्द से करना, विना किसी विशेष कारण के अयुक्त या अनुचित समझा जाता है।

इसलिए, कामनाओं में ही एक कामना के दूसरे कामना के साथ परस्पर साहित्य का ग्रहण किया जाता है, जिसका युग्मपत् अर्थात् एक काल में या साथ-साथ अर्थ होता है। जैसे, 'सर्वे सहैव समुपस्थिताः' ( सब लोग एक ही बार या साथ-साथ उपस्थित हुए ) इस वाक्य में होता है। इसीसे 'कस्य' इस आकांक्षा की भी पूर्ति हो जाती है। इसका फलितार्थ यह होता है कि शानियों का सब कामनाओं के साथ एक काल में सम्बन्ध हो जाता है। यहाँ एक बात और भी ज्ञातव्य है कि कामनाओं के साथ सम्बन्ध का नाम कामनाओं की प्राप्ति नहीं है, वल्कि कामनाओं की व्याप्ति है। कारण यह है कि श्रुति में 'अश्नुते' यह जो पाठ है, उसमें 'अशू व्यासौ संघाते च' इस व्याप्ति अर्थ में पठित स्वादिगण के धातु का ही प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ, 'व्याप्तिं द्वोता है, 'प्राप्नोति' नहीं।

अब शानियों का शब्द, स्पर्श, रूप आदि अखिल कामनाओं की व्याप्ति किस प्रकार होती है ? इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए दूसरे वाक्य में आता है—'ब्रह्मणा'। अर्थात्, ब्रह्म रूप से ही अखिल कामनाओं को व्याप्त करता है। ब्रह्म कैसा है ? इस आकांक्षा का उत्तर—ब्रह्म के विशेषण 'विपश्चिता' पद से देते हैं। विपश्चिता का अर्थ है—वि-विशेषण पश्यत्—देखता हुआ चित्-चैतन्य। अर्थात्, स्वयं प्रकाशमान ज्ञान ही इसकी विशेषता है। तात्पर्य यह है कि आन्तर जो सूक्ष्म चित् अर्थात् ज्ञान है, उसी से सब शब्द आदि विषयों को वह देखता है, वाह्य रूप से नहीं। भावार्थ यही होता है कि शानी स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, और ब्रह्म-रूप से ही अखिल प्रपञ्च को व्याप्त करता है। 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति'—इस श्रुति में जो कहा गया है, वही 'सोऽश्नुते' इत्यादि श्रुति में भी पर्याय से वर्णित है।

### साम्य का उपपादन

अब यहाँ एक आशङ्का और होती है कि 'निरङ्खनः परमं साम्यमुपैति'—इस श्रुति में साम्य का प्रतिपादन किया गया है, और साम्य-मेद घटित होता है। इस रूपति में आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करनेवाली श्रुति विशद हो जाती है। इसका उत्तर

यह होता है कि साम्य भेद-धृष्टि ही होता है, इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। कहीं भेद-धृष्टि और कहीं भेदाधृष्टि, दोनों प्रकार का साम्य होता है। यहाँ 'आत्मैराभूत' इत्यादि उदाहृत अनेक श्रुतियों की एकवाक्यता से सामझस्य के लिए भेद से अधृष्टि साम्य का ही ग्रहण किया जाता है, भेद-धृष्टि साम्य का नहीं। भेदाधृष्टि साम्य को वैयाकरणों ने भी 'इव' शब्द के अर्थ-निरूपण के प्रसङ्ग में स्वीकार किया ही है। इसी के अनुसार आलङ्कारिकों ने भी ऐसे स्थलों में अनन्वयालङ्कार का उदाहरण दिया है—'रामरावण्योर्युद्देश रामरावण्योरिव' इत्यादि। एक बात और है, 'परमं साम्यम्' में जो साम्य का विशेषण 'परमं' दिया है, उसका अर्थ अत्यन्त साम्य ही होता है और अपना अत्यन्त साम्य अपने साथ ही हो सकता है, दूसरे के साथ नहीं। यदि भेद-धृष्टि साम्य को ही मान लें, तो किस धर्म से साम्य लिया जाय, इस प्रकार विशेष जिज्ञासा होती है। यदि इस जिज्ञासा के परिहार के लिए सुखातिशय-रूप विशेष धर्म को मानें, तो सुख के साधक पुण्यकर्म को मानना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि, सुख का कारण पुण्यकर्म ही होता है। यहाँ श्रुति में आया है—'पुण्यपापे विघूय', अर्थात् समस्त पुण्य-पाप को नष्ट कर साम्य को प्राप्त करता है। दूसरी बात यह है कि श्रुति में 'निरञ्जनः' यह विशेषण दिया है, जिसका अर्थ होता है, किसी प्रकार के सम्बन्ध से रहित होना। जिसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, उसका किसी भी धर्म से साम्य नहीं कह सकते। इसलिए, श्रुति का यही तात्पर्य सिद्ध हो सकता है कि आत्मसाज्जात्कारवाला पुरुष, पुण्य और पाप, दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग कर कर्मजन्य शरीर आदि सम्बन्ध से रहित हो, अपने ही साथ साम्य को प्राप्त करता है; अर्थात् उपमारहित हो जाता है।

### शोकादि-राहित्य का विचार

अब शोकादि-राहित्य का विचार किया जाता है। यहाँ आदि पद से मोह, भय, जन्म, मरण, सुख, दुःख का ग्रहण समझना चाहिए। उक्त श्रुतियों में इन्हीं का अभाव कहा गया है। इन्हीं की समष्टि का नाम संसार है। 'प्रियाऽप्रिये न स्पृशतः'—इस श्रुति में प्रिय और अप्रिय शब्द से सुख, दुःख का ही ग्रहण किया जाता है। सुख का नाम प्रिय और दुःख का अप्रिय है। शब्द, अर्थ आदि जो विषय है, वे स्वरूप से ही प्रिय नहीं हैं, किन्तु सुख के जनक होने के कारण ही प्रिय कहे जाते हैं। इसलिए, शब्द आदि विषय प्रिय शब्द के वाच्य नहीं होते। इससे मुक्ति में जिस प्रकार दुःख का अभाव होता है, उसी प्रकार सुख का भी अभाव होता है। द्वैतवादियों के मत में अप्रिय के निषेध में ही श्रुति का तात्पर्य माना जाता है, प्रिय के निषेध में नहीं। बल्कि, उनका कहना है कि सुखातिशय की प्रतीति मुक्ति में होती है। परन्तु, यह श्रुति के अक्षरार्थ से विशद ही जाता है। 'न प्रियाऽप्रिये स्पृशतः' इस द्वन्द्व-निर्देश से अप्रिय के साथ प्रिय के निषेध में भी श्रुति का तात्पर्य स्पष्ट प्रतीत होता है। एक बात और है कि प्रिय और अप्रिय के स्पर्श का कारण शरीर का सम्बन्ध ही है, और शरीर के साथ सम्बन्ध छूट जाने पर अप्रिय स्पर्श के सहरा ही प्रिय स्पर्श के निषेध में भी श्रुति का

तात्पर्य सिद्ध हो जाता है। 'कारणमावात् कार्यमावः'—कारण के अभाव में कार्य नहीं होता, यह सिद्धान्त सर्वमान्य है। इस स्थिति में प्रिय और अप्रिय दोनों के निषेध में ही श्रुति का तात्पर्य सिद्ध होता है।

### आत्म-विज्ञान आदि में क्रम

'ज्ञाननिर्मयनाभ्यासात् पाशं दहति परिडतः'—इस श्रुति में पञ्चम्यन्तनिर्देश से आत्म-विज्ञान और पाश-विमोचन में हेतुहेतुमद्वाव अर्थ सूचित होता है। अर्थात्, आत्म-विज्ञान कारण और पाश-विमोचन कार्य है। अन्य श्रुतियों में भी 'हष्टे', 'शात्वा', 'विजानतः', 'निचाय' इत्यादि हेतुगमित शब्दों से भी उक्त ही अर्थ प्रतीत होता है। इसी प्रकार 'नामरूपाद्विमुक्तः', 'परात्परं पुरुषमुपैति', 'पुरुषपापे विधूय', 'निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति' इत्यादि स्थलों में पाश-विमोचन और आत्मस्वरूप-सम्पत्ति में हेतुहेतुमद्वाव प्रतीत होता है। इसी प्रकार, आत्मस्वरूप-सम्पत्ति और शोकादि-राहित्य में भी हेतुहेतुमद्वाव, सूचित होता है। 'यस्मिन् उर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः'—इससे भी हेतुहेतुमद्वाव, सूचित होता है। यद्यपि यह नियम है कि जिस पदार्थ में हेतुहेतुमद्वाव रहता है, उसमें क्रम अवश्य रहता है, तथापि यहाँ क्रम विद्यमान रहता हुआ भी लक्षित नहीं होता है। क्योंकि, यहाँ कारण कार्य को इतना शीघ्र उत्पन्न करता है कि क्रम रहता हुआ भी वह प्रतीत नहीं होता। इसी अभिप्राय से 'आत्मैवाभूद्विजानतः' श्रुति में, 'विजानतः' शब्द में वर्तमान काल का घोतक शत्रुप्रत्ययान्त का निर्देश किया है। इसका फलितार्थ यही होता है कि आत्म-विज्ञान, अविद्या, काम, कार्य, शरीर आदि पाशों के विमोचन द्वारा आत्मस्वरूपता का अनुभव कराकर शोक-मोहादि से विमुक्त कर देता है। यही मोक्ष-पदार्थ श्रुति-सम्मत होता है। शंकराचार्य ने इसी को अपने दर्शन में सिद्ध किया है।

### मोक्ष में कर्म के सम्बन्ध का निषेध

बहुत लोगों ने मोक्ष को कर्मजन्य और मोक्षावस्था में भी कर्म-सम्बन्ध माना है, परन्तु यह श्रौत सिद्धान्त नहीं है; क्योंकि पूर्वोक्त अनेक श्रुतियों से विरोध हो जाता है। यहाँ तक कि 'न कर्मणा न प्रजया धनेन'—इत्यादि श्रुति से अमृतत्व-प्राप्ति में कर्मजन्यत्व का निषेध भी किया है। 'नास्त्यकृतः कृतेन'—इस श्रुति का भी मोक्ष के कर्मजन्यत्व के निषेध में ही तात्पर्य है। इसी प्रकार, 'न कर्म लिप्यते नरे', 'हन्ति कर्म शुभाऽशुभम्', 'उर्वाणि कर्माणि दग्ध्वा'—इत्यादि अनेक श्रुतियों से मोक्ष में कर्म-सम्बन्ध का निषेध भी किया गया है। और भी बन्धप्रतिपादक श्रुतियों की समालोचना करने से मोक्ष में कर्म-सम्बन्ध का अभाव ही सिद्ध होता है। बन्ध और मोक्ष, दोनों परस्पर-विरोधी और प्रतिद्वन्द्वी पदार्थ हैं। इस अवस्था में जिस प्रकार परस्परविरुद्ध दो पदार्थों में एक के स्वरूप का निर्णय कर लेने पर दूसरे का स्वरूप-निर्णय उसके विपरीत अर्थात् असिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार बन्ध-प्रतिपादक श्रुतियों से बन्ध के स्वरूप का निर्णय करने पर, मोक्ष का स्वरूप उसके विरुद्ध अर्थात् सिद्ध हो जाता है। बन्ध-प्रतिपादक श्रुतियों में तो कर्म को बन्ध का अव्यमिचारी घोषा गया है, अर्थात्

जहाँ कर्म है, यहाँ बन्ध अवश्य है; और जहाँ बन्ध है, यहाँ कर्म भी अवश्य है। 'न हास्य कर्म क्षीयते' ( वृ० १४४१५ ); 'तदेव सक्तः सह कर्मणैति' ( वृ० ४४४६ ); 'प्रामेल्यम् लोकाय कर्मणे'; 'पुण्यो हये पुण्येण कर्मणा भवति, पापः पापेन' ( वृ० ३२२१३ );

— गो लोकेभ्योऽप्यो निनीपते' ( कौ० ३१८ )—इन सब ए सिद्ध होता है कि बन्ध और कर्म दोनों परस्पर ना एक नहीं रह सकता। इसलिए, पूर्वोक्त मोक्ष ही क्ष मी है। श्रुति को माननेवाला कोई भी इसको

### ३ श्रौतत्व

गा दिग्दर्शनमात्र कराया गया है। इसी प्रकार, तियों को यथागति एकत्र कर—उनके परम प्रतीयमान, कर—एकवाक्यतया समन्वयात्मक विचार करने से है, वही श्रौततर और सबसे उच्च स्तर का प्रतीत में भी कितने सिद्धान्त युक्तिविशद्ध प्रतीत होते हैं, ऐध का लेश भी नहीं रह जाता। एक बात और भी स्वावधारण के समय श्रुति के सामने युक्ति का कुछ भी युक्ति में श्रौदासीन्य ही रहता है। यही श्रौतों का त चुके हैं। एक बात और भी समझने योग्य है कि— ( श्वे० ३१६ ) इत्यादि वर्णन युक्ति के सर्वथा भी युक्ति में उदासीन होकर स्वाभाविक ही परमात्मा में श्रौतत्व है। रामानुजाचार्य ने भी श्रीभाष्य में करणायत्तद्वादिकम्, अपितु स्वभावत एव।' पर्यात् परमात्मा का जो द्रष्टृत्व, श्रेत्रत्व आदि गुण हैं, उन्तु स्वाभाविक ही हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विपर्यों पर कि शङ्कराचार्य का अद्वैतदर्शन श्रौततर है।

पंभूत सत्य ( पदार्थ ) परमात्मा ही है। वही आत्मा ; अर्थात् द्रष्टा है। चित् और शन शब्द का भी हार की विशेषता से शून्य अर्थात् निर्विशेष है। वह इस

प्रकार का है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह अचिन्त्य होने से मन का भी अविषय है। उसी परमात्मा की शक्ति मायापदवाच्य अविद्या है। सत्त्व, रज और तमोमय जगत् का मूल कारण वही अविद्या है। यह आत्मशक्ति ( अविद्या ) पारमार्थिक सत्य न होने के कारण असत्यरूपा और व्यावहारिक सत्य होने से सत्यरूपा भी है। उभयात्मक होने के कारण ही अनिवेचनीय भी कही जाती है। चित् के साथ इसका सम्बन्ध तीन प्रकार का होता है। जिस प्रकार आकाशतत्त्व काठ, ढेला,

मिट्टी आदि के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार वह चित् भी अविद्या के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। अविद्या में सर्वाविषय से चित् की व्याप्ति होने से अविद्या के कार्य सकल पृथिवी आदि मूर्त्त पदार्थों में और बुद्धि आदि अमूर्त पदार्थों में चित् की व्याप्ति सिद्ध हो जाती है। यह एक प्रकार का सम्बन्ध हुआ। जिस प्रकार, स्फटिक स्वच्छ होने के कारण समीप वस्तु में रहनेवाली रक्तिमा को ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह अविद्या भी अन्ततः गुणत्रय के बीजभूत होने पर भी स्वरूपतः स्वच्छ ही है, इसलिए चित् को ग्रहण करती है। यही चिदाभास कहा जाता है। यह द्वितीय प्रकार है। जिस प्रकार दर्पण अपने सामने चर्त्तमान मुख आदि के प्रतिविम्ब को ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह अविद्या भी चित् के प्रतिविम्ब को ग्रहण करती है, और प्रतिविम्बित जो चित् है, उसका भी चिदाभास शब्द से व्यवहार किया जाता है। यह तीसरा प्रकार है।

## ईश्वर और जीव

इन तीन प्रकारों में, प्रथम प्रकार से, चित् की व्याप्ति, जिस प्रकार समष्टिभूत अविद्या में रहती है, उसी प्रकार व्यष्टिभूत अविद्या और उसके कार्यभूत पृथिवी आदि मूर्त्त पदार्थों और बुद्धि आदि अमूर्त पदार्थों में भी वह रहती है। जिस प्रकार, आकाश की व्याप्ति मृत्-समूह में, मृत्-खण्ड में और उसके कार्यभूत घट-शराव आदि निखिल प्रपञ्च में सर्वत्र सर्वदा रहती है एवं द्वितीय और तृतीय प्रकार से होनेवाला चित् के साथ अविद्या का जो सम्बन्ध है, वह स्वच्छ वस्तु में ही होता है। जिस प्रकार, स्वच्छ स्फटिक आदि मणियाँ समीपस्थ वस्तुओं की रक्तिमा का ग्रहण करती हैं, अस्वच्छ मृत्तिका आदि नहीं, उसी प्रकार दर्पण आदि ही प्रतिविम्ब को ग्रहण करते हैं, काष्ठ आदि नहीं। प्रथम प्रकार से, आकाश की तरह चित् की व्याप्ति स्वच्छ और अस्वच्छ सकल पदार्थों में है। एक बात और भी है कि प्रथम या द्वितीय प्रकार से चित् का अविद्या से जो सम्बन्ध है, उससे बुद्धि आदि में प्रतीयमान जो चिदाभास या चित्प्रतिविम्ब है, उसमें भी प्रथम प्रकार से पुनः चित् की व्याप्ति रहती ही है। इस अवस्था में यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार बुद्धि चित् से अवच्छिन्न रहती है, उसी प्रकार चिदाभास या चित्प्रतिविम्ब से भी। यही बात 'य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरः' ( वृ० उ० ३।४।११ ) इस घटक श्रुति से बोधित होती है।

आभास और प्रतिविम्ब में बहुत कम अन्तर है। परन्तु, बुद्धि से अवच्छिन्न जो चित् है, उससे आभास और प्रतिविम्ब में इस प्रकार अन्तर देखा जाता है—जिस प्रकार आकाश का काम अवकाश देना है। घटाकाश भी अवकाश देने का काम करता ही है। अवकाश देने में घटाकाश घट की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार उस शक्ति से अवच्छिन्न चित् भी शुद्ध चित् के कार्य का सम्पादन करता है, घटाकाश की तरह अपनी उपाधि की अपेक्षा नहीं करता। यही माया-समष्टि से अवच्छिन्न जो चित् है, वह ईश्वर-पद का वाच्य होता है। यह ईश्वर, माया के कार्य सत्त्व, रज और तम में सत्त्व गुण की उपाधि से युक्त होने से हरि, रजगुण की

उपाधि से युक्त होने से ब्रह्मा और तमोगुण की उपाधि से युक्त होने से शंकर, इन तीन रूपों को धारण करता है। इन तीनों में वर्चमान जो सत्त्व, रज और तम हैं, ये बिलकुल विशुद्ध नहीं हैं, किन्तु अपने से भिन्न दोनों गुणों से अंशतः मिश्रित हैं। ये हरि, हर और हिरण्यगर्भ भी ईश्वर से उपाधिवशात् भिन्न होने पर भी वस्तुतः अभिन्न ही हैं, जैसे मठान्तर्वर्ती घटाकाश मठाकाश से अभिन्न होता है। इसीलिए, इन तीनों को भी ईश्वर कहा जाता है। इसी प्रकार व्यष्टिभूत अविद्या में प्रतिविम्बित जो चित् है, वह जीव-पद का वाच्य होता है। जिस प्रकार, दर्पण में स्थित प्रतिविम्ब दर्पण का अनुसारी होता है, अर्थात् प्रतिविम्ब दर्पण के निश्चल रहने पर निश्चल रहता है और दर्पण के चञ्चल रहने पर चञ्चल। दर्पण में जो मलिनता आदि है, उनसे भी वह प्रभावित होता है। इससे जीव और ईश्वर, दोनों का श्रौपाधिक होना सिद्ध होता है। भेद केवल इतना ही है कि जीव उपाधिभूत अविद्या के अधीन है और ईश्वर स्वतन्त्र है, माया के वश नहीं। ‘रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव’, तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय’ (२० उ० राखा०१६); ‘मायाभासेन जीवेशौ करोति’ (३० ता० उ०) इत्यादि अनेक श्रुतियाँ इसी सत्य को प्रतिपादित करती हैं। जो माया विशुद्ध चित् को भी अपने सम्बन्ध-मात्र से विभक्त कर जीव, ईश्वर आदि अनेक रूपों में दिलाई देती है, वह और उसका सम्बन्ध दोनों अनादि माने जाते हैं। सभी दर्शनकार अपने-अपने मत के अनुसार मूल कारण को अनादि स्वीकार करते हैं, इस कारण छह पदार्थ अनादि माने जाते हैं—जीव, ईश, विशुद्ध चित्, जीव और ईश्वर का भेद, अविद्या और उसके साथ चित् का योग। इसीको संक्षेपशारीरक में इस प्रकार लिखा है—

‘जीव ईशो विशुद्धो चित् तथा जीवेशयोर्भिंदा।

अविद्या तच्चित्तेयांगः पडस्माक्मनादयः ॥’

माया का चित् से जो सम्बन्ध है, वह मायिक अर्थात् माया-परिकल्पित ही है, जिस प्रकार शुक्ति में रजत। चिदात्मा में जो माया का अध्यास है, वही अनादि है, और जितने अध्यास है, सब सादि है।

### अध्यास का स्वरूप

अध्यास किस प्रकार होता है, इसका संक्षेप में निर्देश किया जाता है। सर्वप्रथम शुद्ध चिदात्मा में अनादि माया का अध्यास होता है, इसके बाद अध्यास-विशिष्ट चिदात्मा में माया के परिणामीभूत अहङ्कार का अध्यास होता है। केवल शुद्ध चिदात्मा में अहङ्कार का अध्यास नहीं होता; क्योंकि वह (शुद्ध चिदात्मा) स्वयं प्रकाश है। इसीलिए, तद्विषयक अव्याप्ति नहीं हो सकता, किसी रूप से अशात् जो वस्तु है, वही अध्यास का अधिष्ठान हो सकती है। प्रथम अध्यास तो अनादि है, इसलिए उसमें अव्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती। अहङ्कार के अध्यास से विशिष्ट जो चिदात्मा है, उसमें अहङ्कार के धर्म जो काम, संकल्प आदि हैं, और इन्द्रिय के धर्म जो काणत्व आदि हैं, उनका अध्यास होता है। ‘अहमिन्द्रामि’, ‘अहं काणः’,

इस प्रकार की प्रतीति सर्वानुमतिद्वय है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस चिदात्मा में अहंकार का अध्यास नहीं होता, उसमें इन्द्रियों के धर्म जो काम, संकल्प आदि हैं, उनका भी अध्यास नहीं हो सकता; किन्तु अध्यस्ताहंकार-विशिष्ट में ही काम आदि का अध्यास हो सकता है। अहंकार के अध्यास से विशिष्ट उसी चिदात्मा में इन्द्रिय के धर्मों का भी अध्यास होता है। इन्द्रियाध्यासविशिष्ट चिदात्मा में इन्द्रिय के धर्मों का अध्यास नहीं हो सकता। क्योंकि, 'अहं चक्षुः' (मैं आँख हूँ) इस प्रकार की प्रतीति किसी को नहीं होती।

एक बात और भी है कि, समीप रहनेवाली सभी वस्तुओं का अध्यास अवश्य होता ही है, इस प्रकार का यदि कोई नियम रहता, तब तो किसी प्रकार मानना ही होता, परन्तु ऐसा नहीं है; क्योंकि प्रतीति के अनुसार ही अध्यास होता है, अन्यथा नहीं। यदि 'चक्षुरहम्' इस प्रकार की प्रतीति होती, तो इन्द्रियों का भी अध्यास समका जाता, परन्तु ऐसी प्रतीति नहीं होती है।

यहाँ एक शङ्खा होती है कि यदि इन्द्रियों का अध्यास न मानें, तो इन्द्रियों के धर्मों का अध्यास किस प्रकार हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि इन्द्रियों का कहीं अध्यास नहीं होता है, यह बात तो नहीं है, वरन् केवल अहंकाराध्यासविशिष्ट चिदात्मा में इन्द्रियों का अध्यास नहीं होता है, यही तात्पर्य है। मायाध्यासविशिष्ट चिदात्मा में तो इन्द्रियों का अध्यास होता ही है; क्योंकि 'चक्षुषा पश्यामि' (आँख से देखता हूँ), इस प्रकार का व्यवहार लोक में प्रसिद्ध है, और यह प्रतीति घट, पट आदि के समान अध्यस्त इन्द्रियों को ही ही सकती है; क्योंकि भूत और भौतिक एकत्रप्रपञ्च चिदात्मा में ही कलिपत है और अहंकाराध्यासविशिष्ट जो चिदात्मा है, उसी में मनुष्यादिवैशिष्ट्य से देह का अध्यास होता है; क्योंकि 'अहं मनुष्यः, इस प्रकार की प्रतीति लोक में अनुभूत है। एक बात और है कि देह का भी सामान्य रूप से अध्यास नहीं होता है; क्योंकि, 'देहोऽहम्' (मैं देह हूँ), इस प्रकार सामान्यतः प्रतीति नहीं होती। और भी, मनुष्यादि के अध्यास से विशिष्ट जो चिदात्मा है, उसमें स्थूलत्वादि देहधर्मों और पुत्र, भार्या आदि धर्मों का अध्यास होता ही है; क्योंकि 'अहं स्थूलः' (मैं मोटा हूँ), ऐसी प्रतीति होती है, और पुत्र के पूजित होने पर मैं ही पूजित हुआ, इस प्रकार का भी व्यवहार लोक में देखा जाता है।

एक बात और भी ध्यातव्य है कि 'इदं रजतम्' (यह रजत है) की प्रतीति से शुक्रि में जो रजत का अध्यास होता है, उस अध्यस्त रजत में शुक्रिगत जो इदन्त्व-धर्म है, उसका पुनः अध्यास होता है। इसी प्रकार, पूर्वोक्त सकल अध्यास-स्थलों में अध्यस्त जो माया प्रभृति है, उनका पुनः अध्यास होता है, इसी को 'अन्योन्याध्यास-प्रतिय' कहते हैं। जिस प्रकार, दो रजुओं के परस्पर जोड़ने से दृढ़ ग्रन्थि हो जाती है, उसी प्रकार अध्यास-स्थलों में भी अन्योन्याध्यास से दृढ़ ग्रन्थि हो जाती है।

इस प्रकार की अध्यास-परम्परा में भी शुद्ध चिदात्मा किसी प्रकार भी अशुद्ध (दूषित) नहीं होता है। कारण, अध्यास का जो अधिग्रान है, उसका आरोपित

वस्तु के साग किसी प्रकार भी स्पर्श वस्तुतः नहीं होता। इस पर आचार्यों ने भी कहा है—

‘नहि भूमिस्परवती मृगवृद्जबवाहिनी सरितमुद्दहति ।  
मृगवारिपूरपरिपूरवती न नदी तथोपरभुयं स्थृशति ॥’

तात्पर्य यह है कि ऊपर भूमि मृगतृष्णा-जल की वाहिनी सरिता का उद्वहन अर्थात् स्पर्श नहीं करती, और मृगमरीचिकाल्पी जल से परिपूर्ण नदी भी ऊपर भूमि का स्पर्श नहीं करती, अर्थात् ऊपर भूमि और मृगतृष्णा-जल का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार, अनादि सम्बन्ध से चिदात्मा के साथ सम्बद्ध जो माया है, उसमें चिदात्मा, यद्यम होने के कारण, भीतर प्रवेश करता हुआ और व्यापक होने के कारण उसके बाहर भी रहता हुआ परिलक्षित होता है। एवं प्रकारेण माया से वस्तुतः असम्बद्ध चिदात्मा, माया-उपाधि से युक्त होने के कारण ‘ईश्वर’ कहा जाता है। क्योंकि वह निलेप है। वह साक्षी होने के कारण मायाविशिष्ट भी नहीं हो सकता, प्रत्युत माया से असम्बद्ध ही रहता है। माया के जड़ होने से मायाविशिष्ट में साक्षित्व भी नहीं हो सकता है। इसलिए, चिदात्मा माया के सम्बन्ध से ईश्वर और माया से असम्बद्ध होने के कारण साक्षी भी कहा जाता है। माया भी चिदात्मा के सम्बन्ध से गुणवैषम्य के द्वारा परिणामोन्मुख होती है और गुणवैषम्य होने से ही अनेक प्रकार के परिणाम होते रहते हैं। कोई परिणाम रजोगुण और तमोगुण के अंशतः मिश्य रहने से सत्त्व-प्रधान होता है, वही शुद्ध सत्त्व-प्रधान कहा जाता है, पुनः उस शुद्ध सत्त्व-प्रधान के भी परिणाम रजोगुण-तमोगुण के अंशतः समिश्रण होने से सत्त्व-प्रधान ही होते हैं। किन्तु, यह मलिनसत्त्व-प्रधान कहा जाता है। इस प्रकार,—मलिनसत्त्व-प्रधान प्रकृति के व्यष्टिभूत अनन्त प्रकार के सत्त्व-प्रधान ही प्रकृति के परिणाम होते हैं।

यहाँ यह भी समझना चाहिए कि सत्त्व-प्रधान व्यष्टिभूत प्रकृति के जो परिणाम हैं, उन्हीं में चित् का प्रतिविम्ब पड़ता है। शुद्ध रजोगुण-तमोगुण-प्रधान अथवा मलिन रजोगुण-तमोगुण-प्रधान जो प्रकृति के परिणाम हैं, उनमें चित् का प्रतिविम्ब कभी नहीं पड़ता; क्योंकि वे शुद्ध रजोगुण या तमोगुण-प्रधान होने के कारण अस्यच्छ होने से प्रतिविम्ब के ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। और, सत्त्व-प्रधान-व्यष्टिभूत-प्रकृति-परिणामों के समूह में भी चित् का प्रतिविम्ब नहीं पड़ता है, जैसे अनेक दर्पणों के परस्पर सन्निहित होने पर भी मिलकर एक प्रतिविम्ब के ग्रहण करने में उनका असामर्थ ही देखा जाता है। इसी व्यष्टिभूत मलिनसत्त्व-प्रधान-प्रकृति के अनन्त परिणामों में चित् के जो प्रतिविम्ब हैं, वे ही जीव कहे जाते हैं। इसी बात को विद्यारण्यमुनि ने पञ्चदशी में दूसरे शब्दों में कहा है—शुद्ध सत्त्व-प्रधान-प्रकृति के परिणामों को माया, और मलिनसत्त्व-प्रधान-प्रकृति के परिणामों को अविद्या कहते हैं, एवं मायोपाधि से अवच्छिन्न चित् (चैतन्य) को ईश्वर और अविद्योपाधि से अवच्छिन्न चित् को जीव कहते हैं। इन दोनों (ईश्वर और जीव) में

यह भी विशेषता है कि ईश्वर माया के वश में नहीं है, किन्तु माया ही ईश्वर के वश में रहती है, और जीव अविद्या के वश में रहता है—

‘सत्त्वशुद्धविशुद्धिम्यां मायाऽविद्ये च ते भले ।

मायाविद्यौ वशीकृत्य तर्त स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः ॥

अविद्यावशगश्चैव तद्वैचित्र्यादनेकथा ॥’—पंचदशी

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि दर्पण आदि उपाधि के विनाश होने से उसमें निहित प्रतिबिम्ब का भी विनाश देखा जाता है, इस स्थिति में अविद्या के नाश होने पर जीव का भी नाश अवश्यम्भावी है, इस अवस्था में जीव मुक्त हो गया, यह जो लोक-विख्यात व्यवहार है, वह नहीं बनता, और मोक्ष के लिए कोई यत्न भी नहीं कर सकता, कारण यह है कि कोई भी आदमी अपने विनाश के लिए यत्न नहीं करता ।

इसका उत्तर यह होता है कि दर्पण आदि उपाधि से प्रतिबिम्ब नाम की किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, किन्तु बिम्ब को ही भिन्न रूप से दिखाया जाता है । इसलिए, उपाधि के विलय होने पर पृथक् प्रतिभाव न होने के कारण जीव को मुक्त कहा जाता है, और जीव भी उपाधि के अधीन ही रहता है; क्योंकि प्रतिबिम्ब का नियमानुसार उपाधि के अधीन होना स्वाभाविक है ।

### जीव और ईश्वर के स्वरूप

प्रकृति की समष्टि से अवच्छन्न चैतन्य को ईश्वर और प्रकृति की व्यष्टि से अवच्छन्न चैतन्य को जीव कहते हैं । इन दोनों में वास्तविक भेद नहीं है, किन्तु श्रीपाधिक भेद है । वह भी इतना ही है कि ईश्वर उपाधि के अधीन नहीं है, और जीव उपाधि के अधीन है । इसलिए, यह ईश्वर, उपाधि का और उपाधि के वशीभूत जीवों का नियमन करने से ही ईश्वर कहा जाता है । ‘ज्ञरात्मानावीशते देव एकः’ (श्वेत० ११०) — इस श्रुति का भी यही तात्पर्य है । श्रुति में ज्ञर शब्द का अर्थ उपाधि ही है । यह ईश्वर जिस प्रकार उपाधि से अवच्छन्न है, उसी प्रकार उपाधि के वशीभूत या प्रतिबिम्बीभूत जीव से भी अवच्छन्न रहता है । और, जिस प्रकार उपाधि के भीतर या बाहर वह व्याप्त है, उसी प्रकार प्रतिबिम्ब के भीतर और बाहर भी । यह परम सूखम होने से भीतर और व्यापक होने से बाहर भी व्याप्त रहता है । इस स्थिति में, ‘य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरः’ यह घटक श्रुति भी विना विरोध के उपयन हो जाती है । द्वैतवादियों के भत्त में घटक श्रुति उपरच नहीं होती; क्योंकि इनके भत्त में जीव का स्वरूप अणु माना गया है और परमाणु के भीतर नहीं रहने से उसमें प्रवेश का होना असम्भव ही है । भेद-प्रतिपादक ‘आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः’ (व० ३० २४५) — इत्यादि श्रुति भी उपयन हो जाती है । क्योंकि, जिस प्रकार जलावच्छन्न आकाश और जलप्रतिबिम्बाकाश में श्रीपाधिक भेद भी सिद्ध है, उसी प्रकार जीव और ईश्वर के श्रीपाधिक भेद के प्रतिपादन करने में इस प्रकार की श्रुतियाँ चरितार्थ हो जाती हैं और उपाधि के विलय होने पर ‘तत्त्वमसि’ आदि श्रमेद प्रतिपादक श्रुतियों की भी उपरच हो जाती है ।

अब यहाँ यह सन्देह होता है कि सब श्रुतियों की उपपत्ति सिद्ध हो जाने पर भी परस्परविरुद्ध भेद, ऐक्य और घटक इन तीनों का वर्णन क्यों किया? इसका उत्तर यही होता है कि वेदान्त-वाक्यों की प्रवृत्ति मुमुक्षु जनों के हित के लिए ही हुई है और मुमुक्षुओं का परमसाध्य जो मोक्ष है, उसी का उपपादन ऐक्यप्रतिपादक श्रुतियों से किया गया है। मोक्ष का साधनभूत जो परमात्म-दर्शन है, वह साधकों के भेददर्शी होने के कारण ही भेदप्रतिपादक श्रुतियों से वर्णित है। घटक श्रुति, आत्मदर्शन के मार्ग को बताती हुई कहती है—साधकों को चाहिए कि अन्तर्यामी होने के कारण परमात्मा का अनुसन्धान करे। श्रुति के अर्थों के ध्यानपूर्वक अध्ययन और मनन करने से उसका तात्पर्य स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त अर्थ ही युक्त है। इस प्रकार, जीव और परमात्मा के अभेद (एकत्व) सिद्ध हो जाने पर भी किसी का प्रश्न होता है कि यदि आत्मा में एकत्व-धर्म मानते हैं, तो आत्मा सविशेष हो जाता है, निर्विशेष नहीं रहता, जो शक्ति भव का परम सिद्धान्त है। यदि एकत्व को न मानें, तब तो द्वैत गले पड़ जाता है, अद्वैत सिद्ध नहीं होता। इसका उत्तर यही होता है कि एकत्व कोई धर्मान्तर नहीं है, बल्कि द्वित्व का अभाव-रूप ही है। अर्थात्, वहाँ द्वित्व का सर्वथा अभाव है।

### ब्रह्म में श्रुति-प्रमाण की गति

'न जीवो नियते' (छा० उ० ६।११३); 'जीवः स विशेषः' (श्वेत० उ० ६) इत्यादि श्रुतियाँ जीव के विषय में प्रमाण हैं। इसी प्रकार, ईश्वर के विषय में भी 'ईश्वरः सर्वभूतानां' (म० ना० उ० १७।५); 'तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्' (श्वेत० उ० ६।७) इत्यादि श्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। परन्तु, शुद्ध निर्विशेष और असज्ज चिदरूप ब्रह्म तो किसी प्रकार भी श्रुति का विषय नहीं हो सकता है और न अनुमान का ही। इस अवस्था में, उच्च ब्रह्म किसी प्रमाण से खिद्द नहीं होता। कारण यह है कि निर्विशेष और असज्ज मानने में वाच्य-वाचक-भाव-रूप सम्बन्ध भी उसमें नहीं होता, इस अवस्था में वाच्य-मर्यादा से श्रुति भी ब्रह्म के उपपादन में समर्थ नहीं होती। इस असामर्थ्य को 'यतो वाचो निषर्तन्ते,' इत्यादि श्रुतियाँ भी स्वयं स्पष्ट रूप में स्वीकार करती हैं।

इतना होने पर भी मुमुक्षु-जनों के कल्याण के लिए बद्धपरिकर श्रुति भी किसी प्रकार निषेध-मुख से शुद्ध चिद्वन-रूप ब्रह्म का घोष कराने में सफल हो ही जाती है। जिस प्रकार नवोदा नायिका से उसकी सखी पूछती है कि इस जनसमूह में तुम्हारा पति कौन है? उस समय वह नायिका लजा से कुछ भी नहीं बोलती। जब पुनः अंगुलि के निर्देश से पूछती है कि क्या वह लाल मुरेठा बाँधे तुम्हारा पति है? तो वह कहती है, 'नेति', अर्थात् नहीं। किर सखी पूछती है कि क्या वह हाथ में जो छड़ी लिये हैं, वह पति है? उत्तर देती है—'नेति', इसी प्रकार जब सबके पूछने पर उसकी सखी यही उत्तर पाती है—'नेति नेति'। तब अन्त में उसके पति के ही ऊपर अंगुलि निर्देशकर पूछती है, इस पर वह नवोदा नायिका चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। इसी मौन उत्तर से वह चतुर सखी समझ लेती है कि यही इसका पति है।

ठोक इसी प्रकार, 'स एपः नेति नेति' (ब०० उ० ३१८२६); 'अस्थूलम् अनणु' (ब०० उ० ३१८०); 'अशब्दमत्प्रसर्षम्' (क० उ० ३१५५) इत्यादि श्रुतिर्याँ निषेध-मुख से ही अमाल, अलज्जण, अचिन्त्य चिदधन, आनन्द-सत्त्वरूप ब्रह्म के वोध कराने में सफल और चरितार्थ हो जाती है।

## वन्ध का स्वरूप

चित् सम्बन्ध से माया का जो परिणाम होता है, उसे पदार्थ-निरूपण-प्रयत्न में पहले ही कह उके हैं। भूत और भौतिक निखिल जगत्-प्रपञ्च, मूर्त्ति, अर्थमूर्त्ति और अव्याहृत तीन प्रकार के भेद से जो पहले कह आये हैं, वे सब माया के ही परिणाम हैं। माया और माया के परिणामों के साथ होनेवाला जो चित् का सम्बन्ध है, वही वन्ध है। मैं अब्ज हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ और मैं शरीरी हूँ—इत्यादि अनेक प्रकार से उसका अनुभव होता है। सुख-दुःख का जितना भी अनुभव होता है, उसका मूल कारण इस श्रुति का भी यही तात्पर्य है। अर्थात्, जबतक शरीर का सम्बन्ध रहेगा, तबतक प्रिय और अप्रिय का अपहान, अर्थात् नाश नहीं हो सकता। प्रिय, अप्रिय का जो असंस्पर्श है, वही मोक्ष है। जबतक द्वैत दर्शन रहेगा, तबतक किसी प्रकार भी प्रिय और अप्रिय का असंस्पर्श नहीं हो सकता। इसीलिए, आत्मैक्यस्वरूप की सम्पत्ति के बिना प्रिय और अप्रिय के अपेक्षित होती है। अर्थात्, आत्मैक्यस्वरूप मोक्ष भी दुर्लभ है। और, आत्मैक्यस्वरूप सम्पत्ति के बिना अप्रियकार-प्राप्ति के लिए चित्त-शुद्धि परमावश्यक है। वयोऽकि, चित्त-शुद्धि ही, अधिकार के सम्पादन द्वारा मोक्ष की इच्छा को उत्पन्न कर उसके द्वारा आत्म-विज्ञान के प्रतिपत्त निष्काम कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। निष्काम कर्म की कर्त्तव्यता के विषय में तीन कल्पों (पहला प्रकार) की कल्पना की जाती है।

प्रथम कल्प—निष्काम कर्म केवल चित्त-शुद्धि का कारण होता है। चित्त-शुद्धि हो जाने पर मोक्ष की इच्छा स्वभावतः हो जाती है। इहके बाद गुरु के उपदेश आदि के द्वारा आत्म-विज्ञान होता है। द्वितीय कल्प—निष्काम कर्म ही चित्त-शुद्धि के द्वारा मोक्ष की इच्छा का कारण होता है। मोक्ष की इच्छा के बाद गुरु के उपदेश आदि के आत्म-विज्ञान होता है। तृतीय कल्प—निष्काम कर्म ही आत्म-विज्ञान का कारण होता है। यह निष्काम कर्म ही चित्त-शुद्धि, मोक्षेच्छा और गुरु के उपदेश आदि के द्वारा आत्म-विज्ञान का सम्पादन करता है। प्रथेक अवस्था में आत्मैक्य-विज्ञान के बाद द्वैत के दर्शन न होने से लेशतोऽपि कर्म का अवसर नहीं रहता, और किसी काम के लिए कर्म की आवश्यकता भी नहीं रह जाती।

## कर्म का उपयोग

अब प्रकरणेष्य, कर्म का उपयोग किस प्रकार होता है, यह विचारणीय है। निष्काम कर्म, चित्त-शुद्धि और मोक्षेभ्या, इन तीनों में कौन किसका कारण है और कौन किसका कार्य, यही विचार का विषय है।

पहले यह जानना आवश्यक है कि निष्काम कर्म से ही चित्त-शुद्धि होती है, सकाम कर्म से नहीं। क्योंकि, सकाम कर्म तो राग आदि मलों को ही उत्पन्न करता है, जिससे चित्त अशुद्ध ही रहता है। और, जबतक चित्त-शुद्धि नहीं होती, तबतक निष्काम कर्म भी नहीं हो सकता। कारण यह है कि राग आदि मलों से सुक्ष मन में निष्काम कर्म का आचरण असम्भव-सा ही है। इस अवस्था में अन्योन्याध्य दोष का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार, मोक्ष की इच्छा होने पर ही चित्त-शुद्धि के लिए यत्न होना सम्भव है। चित्त-शुद्धि होने पर ही मोक्ष की इच्छा हो सकती है, यह दूसरा अन्योन्याध्य है। और भी, निष्काम कर्माचरण के बाद ही चित्त-शुद्धि के द्वारा मोक्ष की इच्छा हो सकती है। मोक्ष की इच्छा होने के बाद ही निष्काम कर्म हो सकता है, यह तीसरा अन्योन्याध्य होता है। अब यहाँ तीनों की व्यवस्था किस प्रकार की जायगी, यह विचारणीय है।

इसकी क्रमिक व्यवस्था इस प्रकार होती है—पहले जब सकाम कर्मों के फल का बार-बार अनुभव करने पर उन कर्मफलों में अल्पता और अस्थिरता की शुद्धि होती है, तब चित्त में वैराग्य का अंकुर उदित होता है। उस वैराग्य से काम आदि मलों के न्यून होने पर चित्त की शुद्धि और मोक्ष की इच्छा शनैः-शनैः बढ़ने लगती है। यद्यपि निष्काम कर्माचरण श्रुतिविहित होने से विद्यमान ही रहता है, तथापि वैराग्य के उदय होने के बाद सकाम कर्म का हासि होने से सबल होकर मोक्ष की इच्छा बढ़ने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि उक्त तीनों में कार्यकारणभाव उत्पत्ति में नहीं है, किन्तु शुद्धि में ही है। अर्थात्, उक्त तीनों की सहायता से तीनों में उत्कर्ष का ही आधिक्य होता है।

## साक्षात्कार के साधन

इस प्रकार, निष्काम कर्म के आचरण से जब चित्त सर्वथा विशुद्ध हो जाता है, तब तीव्र मुमुक्षा उत्पन्न होती है। इसके बाद ही आत्म-विज्ञान सम्पादन करने के योग्य होता है। मोक्ष की तीव्र इच्छा यही है कि जिसके होने पर मनुष्य, क्षणपर भी मोक्ष के लिए प्रयत्न किये विना नहीं रह सकता। आत्मसाक्षात्कार का ही नाम आत्म-विज्ञान है। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को उन्मार्ग से उन्मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए अनेक प्रकार के यत्न करती है, उसी प्रकार श्रुति भी मुमुक्षुजनों को उन्मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए मोक्ष के साधनीभूत आत्मसाक्षात्कार का उपदेश करती है—‘आत्मा बादरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निर्दिघासितव्यश ।’ (ब०० उ० २४४)। अर्थात्, आत्मा का दर्शन—साक्षात्कार करना चाहिए। उपाय के विना साक्षात्कार

होना असम्भव है, इसलिए श्रुति दर्शन का उपाय भी स्वयं बताती है—‘श्रोतव्यः’ अर्थात् श्रवण करना चाहिए। ‘दशमस्त्वमसि’, इस वाक्य में जिस प्रकार शब्द से ही दर्शन आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसी प्रकार यहाँ भी शब्दरूप श्रुति के श्रवण से ही आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, यही श्रुति का तात्पर्य है।

इस प्रकार का साक्षात्कार आत्मा की अविरत भावना से ही हो सकता है। जिस प्रकार, चित्त के कल्पण के नष्ट न होने से नास्तिकों को श्रुतियों पर विश्वास नहीं होता, उसी प्रकार यदि श्रुति के अर्थ में असम्भावना या विपरीत भावना से इडतर विश्वास नहीं हो, तो अविरत भावना भी असम्भव है। इसलिए, असम्भावना या विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए मनन की आवश्यकता समझती हुई श्रुति श्रवण के बाद मनन, ‘मन्तव्यः’ का ही उपदेश करती है। निरन्तर आत्मविषयक अनुसन्धान का ही नाम मनन है। इसी का नाम अनवरत भावना है। अनवरत भावना के बिना निदिध्यासन नहीं हो सकता, इसलिए ‘मन्तव्यः’ के बाद ‘निदिध्यासितव्यः’—निदिध्यासन का विधान श्रुति करती है। निदिध्यासन का अर्थ तन्मयता ही होता है।

## मोक्ष का स्वरूप

मोक्ष में कुछ अपूर्व वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, किन्तु मूलस्वरूप में जीवात्मा का जो अवस्थान है, वही ‘मोक्ष’ कहा जाता है। उस अवस्था में कुछ अपूर्व प्राप्तव्य नहीं रह जाता है। यथापि आत्मा का, चबावस्था में भी, मूल स्वरूप में अवस्थान रहता ही है, तथापि वह अज्ञात है, अर्थात् उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए, अज्ञान या अविद्या का नाश होना ही मोक्ष है, वह सिद्ध होता है। श्रीगौडपादाचार्य ने माण्डूक्य-कारिका में लिखा है—

‘अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च घन्थ उदाहृतः।’

अर्थात्, अविद्या या अज्ञान के नाश का ही नाम मोक्ष और अविद्या का ही नाम घन्थ है। उक्त मोक्ष का साधन केवल एक ज्ञान (विद्या) ही है, और पूर्वोक्त आत्मसाक्षात्कार का ही नाम विद्या है। आत्मा के साक्षात्कार होने पर जीवित मनुष्य भी मुक्त ही है। इसीका नाम जीवन्मुक्त है। इस मुक्तावस्था में द्वैत के भान होने पर भी कोई क्षति नहीं है। जिस प्रकार, नेत्र में तिमिर (मोतियाविन्द) आदि दोष से दो चन्द्रमा देखे जाने पर दो चन्द्र किसलिए हुए, इस प्रकार का सन्देह किसी को नहीं होता है। अथवा, सन्देह होने पर भी जगत् में एक ही चन्द्रमा है, दूसरा नहीं, इस प्रकार के आस वचन से वह निवृत्त दो जाता है।

यथापि आस वचन से दो चन्द्रों के अज्ञान का नाश होने पर भी दोष से दो चन्द्रों का भान होता ही है, तथापि फिर शङ्खा नहीं होती कि ब्रह्मा ने दूधरे चन्द्र को क्यों भनाया। इसलिए, जिस प्रकार दो चन्द्रों को देखना भी किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार जीवन्मुक्त को होनेवाला जगत् का अवभास किसी काम का नहीं होता। यथोक्ति, उसे निश्चित ज्ञान है कि ये सब अज्ञान हैं, अविद्या हैं, इसलिए यह सर्वमुक्त है।

इस अवस्था में, उसका आत्मा त्यक्ताभिमान होकर अपने मूलस्वरूप में जाने के लिए उद्यत हो जाता है। जिस प्रकार, स्वामी अपने भूत्य के ऊपर से जब अपना ममत्व हटा लेता है, तब वह भूत्य भी अपने घर की ओर उन्मुख हो जाता है।

यही बात ‘गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः’ (मु० उ० ३।३७) इस श्रुति से सिद्ध होती है। प्राणियों के शरीर का परिणाम दो प्रकार का होता है—एक, जीव से त्यक्ताभिमान शरीर का विशरण-रूप और दूसरा, जीव से यद्दीताभिमान का संरोहण-रूप। प्राणियों की मृतावस्था में शरीर में रहनेवाले जो स्थूलभूत हैं, वे अपनी-अपनी प्रकृति में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सद्योमुक्त के शरीरगत जो सूक्ष्म तत्त्व हैं, वे भी अपने मूल कारण में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही दोनों में विशेषता है। एक ब्रात और है कि प्रेतावस्था में जिनका विशरण प्रारम्भ हो गया है, ऐसे स्थूल भूत भी शरीर के रूप में प्रत्यभिज्ञात होते हैं। इसी प्रकार, सद्योमुख के सूक्ष्मभूत भी, जिनका विशरण प्रारम्भ हो गया है, कुछ काल पर्यन्त संस्कार के वश से अनुवृत्त होते हैं। किन्तु, उनका संस्कार भी क्षयोन्मुख रहता है; क्योंकि वृद्धि का कुछ कारण नहीं है। संस्कार के अवसान में ही कैवल्य या मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसका आत्म-विज्ञान सामान्यतः उत्तम होकर भी साक्षात्कार अवस्था को प्राप्त नहीं करता, वह देवयान-मार्ग द्वारा क्रमशः साक्षात्कार अवस्था को प्राप्त होता है।

## न्याय-दर्शन

न्याय-दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। एक समय व्यासदेव ने इस भूत की दूषित कहकर खरिड़त किया था। इस पर गौतम ने प्रतिच्छा की, कि मैं व्यास का मुख इस नेत्र से नहीं देखूँगा। बाद में व्यासदेव ने अनुनाम-विनय से गौतम को प्रसन्न किया, इस पर गौतम ने अपने योग-बल से पैर में नेत्र प्रकटित कर उसी नेत्र से व्यास के मुख को देखा। इसीलिए, इस दर्शन को 'शक्तपाद-दर्शन' कहते हैं।

इस दर्शन में भी वैशेषिक-दर्शन की तरह पदार्थों के तत्त्व-ज्ञान से निःशेयस् की सिद्धि बताई जाती है। न्याय-दर्शन में सोलह पदार्थ माने गये हैं—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, बाद, जल्द, वितण्डा, हेत्याभास, छल, जाति और निग्रहस्थान। इन्हीं पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति बताई गई है।

न्याय-शास्त्र के पाँच अध्याय हैं—प्रत्येक अध्याय में दो-दो आहिक है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहिक में प्रमाण से लेकर निर्णय-पर्यन्त नव पदार्थों के लक्षण किये गये हैं। द्वितीय आहिक में बाद आदि सात पदार्थों के लक्षणों पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय के प्रथम आहिक में संशय का परीक्षण, उसका कारण और उसके स्वरूप पर विचार है तथा प्रत्यक्ष आदि जो चार प्रमाण हैं, उनकी प्रामाणिकता का विवेचन है। द्वितीय आहिक में अर्थपत्ति आदि का अन्तर्भूत दिखाया गया है। तृतीय अध्याय के प्रथम आहिक में आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, और अर्थ, इन चार प्रमेयों का परीक्षण किया गया है तथा द्वितीय आहिक में बुद्धि और मन का परीक्षण किया गया है। चतुर्थ अध्याय के प्रथम आहिक में प्रवृत्तिदोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख और अपवर्ग का विचार किया गया है और द्वितीय आहिक में बुद्धि और मन की परीक्षा की गई है। इस प्रकार, तृतीय अध्याय के दो आहिकों और चतुर्थ अध्याय के एक आहिक में केवल प्रमेय की ही परीक्षा है। वे प्रमेय बारह हैं—आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनःप्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख और अपवर्ग। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आहिक में दोष-निमित्तकल्प का निरूपण हुआ है। और, यह बतलाया गया है कि परमाणु निरवयव है। पाँचवें अध्याय के प्रथम आहिक में जाति का निरूपण और द्वितीय आहिक में निग्रहस्थान का निरूपण किया गया है। इस प्रकार कुल पाँच अध्याय विवृत हुए हैं।

### प्रमाण आदि सोलह पदार्थों पर विचार

प्रमाण—अब यह विचार किया जाता है कि प्रमाण, प्रमेय इत्यादि जो सोलह पदार्थ बताये गये हैं, उनमें सबसे पहले प्रमाण का ही क्यों निर्देश किया गया है?

गौतम का यह सिद्धान्त है—‘मानाधीना मेयसिद्धिः’, अर्थात् प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के ही अधीन है। प्रमाण के विना किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती, इसीलिए सर्वप्रथम प्रमाण का विचार किया गया है। प्रमाण की परिमापा करते हुए महर्षि गौतम ने कहा है कि ‘यथार्थ अनुभव का जो कारण है, और उस अनुभव का प्रमा से नित्य सम्बद्ध जो आश्रय है, वही प्रमाण कह जाता है।’ प्रमा के आश्रय और प्रमा से नित्य सम्बद्ध होने से ही परतन्त्र सिद्धान्त-सिद्ध ईश्वर को भी न्याय-दर्शन में प्रमाण माना जाता है। समान तन्त्र से सिद्ध और परतन्त्र से असिद्ध का नाम प्रतितन्त्र-सिद्धान्त है। महर्षि गौतम ने भी कहा है—‘समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः’, अर्थात् समान तन्त्र से सिद्ध और दूसरे तन्त्र से असिद्ध का नाम प्रतितन्त्र-सिद्धान्त है। ईश्वर का प्रामाण्य समान तन्त्र वैशेषिक से सिद्ध है, और परतन्त्र मीमांसा से असिद्ध है। इसलिए, ईश्वर को प्रतितन्त्र-सिद्धान्त-सिद्ध कहा जाता है। प्रमाण के लक्षण ने निवेशित प्रमा का जो आश्रय है, उसीसे नैयायिकों का अभिमत ईश्वर का प्रामाण्य सिद्ध होता है। ईश्वर के प्रामाण्य के विषय में महर्षि गौतम ने कहा है—‘मन्त्रायुर्वेदग्रामारण्यवच्च तत्प्रामाण्यमासप्रामाण्यात्’, अर्थात् मन्त्र और आयुर्वेद की तरह आस के प्रामाण्य होने से ही आसोपदेश-रूप वेद का भी प्रामाण्य होता है। आस उसको कहते हैं, जिसने धर्म का साक्षात्कार कर लिया है, यथार्थ कहनेवाला है, और रागादि वश से भी असत्य बोलनेवाला नहीं है। इससे स्पष्ट है कि नैयायिकों का अभिमत जो ईश्वर का प्रामाण्य है, वह महर्षि गौतम को भी मान्य है। ईश्वर-प्रामाण्य के विषय में प्रसिद्ध नैयायिकशिरोमणि उदयनाचार्य ने भी न्यायकुसुमावली के चतुर्थ स्तवक में कहा है—

‘मिति: सम्यक् परिच्छितिः तद्वत्ता च प्रमातृता ।  
 तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥  
 साक्षात्कारिण्य नित्ययोगिनि परद्वारानपेहस्थितौ ।  
 भूतार्थानुभवे निविष्टनिविष्टप्रस्तुताववस्तुकमः ॥  
 लेशादृष्टिनिमित्तदृष्टिविगमप्रब्रह्मद्वातुपः ।  
 शङ्खोन्मेषकलद्विभिः किमपरैस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥’—न्या० (क० ४५-६)

तात्पर्य यह है कि सम्यक् परिच्छिति<sup>१</sup> का नाम मिति है। वही प्रमा है। उसका जो आश्रय है, वही प्रमाता है। उस मिति के अयोग-व्यवच्छेद<sup>२</sup> को ही गौतम-दर्शन में प्रामाण्य माना गया है। द्वितीय का तात्पर्य यह है कि शिव का जो भूतार्थानुभव<sup>३</sup> है, वह साक्षात्कारी,<sup>४</sup> नित्य योगी और परद्वारानपेहस्थित<sup>५</sup> है। अर्थात्, प्रत्यक्ष के प्रलय-काल में भी पूर्वकल्पसिद्ध त्रैलोक्यगत पदार्थों का यथार्थ प्रत्यक्षानुभव इन्द्रियों की सहायता के विना ही अविच्छिन्न रूप से ईश्वर में नित्य वर्तमान रहता है। वह परमात्मा

१. यथार्थ शान। २. अयोग अर्थात् सम्बन्धभाव का व्यवच्छेद (व्यावृत्ति), आवश्यक सम्बन्ध। ३. त्रिकाल और त्रैलोक्यगत पदार्थों का यथार्थ अनुभव। ४. प्रत्यक्ष नित्य रहनेवाला। ५. दूसरे किसी की अपेक्षा से रहित, अर्थात् इग्नोरेंट का शान जैसा इन्द्रियसंपेक्ष है, जैसा ईश्वर का शान इन्द्रियसंपेक्ष नहीं है।

सुषिटि के आरम्भ में, पूर्वकल्प में, सिद्ध पदार्थों को कल्पना-मात्र से देखना आरम्भ करता है, और वे पदार्थ कल्पनामात्र से ही पूर्ववत् उत्पन्न होने लगते हैं। श्रुति भी कहती है—‘धाता यथापूर्वमकल्पयत्’, अर्थात् परमात्मा ने पूर्वकल्प के सदृश दी सब पदार्थों को कल्पना-मात्र से रखा। इस प्रकार, पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त अपने प्रत्यक्ष अनुभवों में सबको निविष्ट कर दिया है। निखिल विद्यमान वस्तुओं का उत्पत्त्यादि-क्रम, जिसने ऐसा पूर्वोक्त शिव (लेशाद्विष्ट, अर्थात् लेशमात्र भी श्रद्धाद्विष्ट—श्रद्धर्णननिमित्तक जो दुष्टि अर्थात् दोष है, उसके अभाव से नष्ट हो गया है शङ्का-रूपी तुप जिसका ऐसा शिव ही) नैयायिकों के मत में प्रमाण है। तात्त्वर्थ यह है कि हमारे सदृश साधारण मनुष्यों को वस्तुतः परोक्ष शान होने पर भी अनेक प्रकार की शङ्काएँ उत्पन्न हुआ करती हैं। कारण यह है कि प्रत्यक्ष वस्तुओं का अनुभव होने पर भी सर्वावयव से शान नहीं होता, इसलिए एक अंश का जो अशान है, उसी के द्वारा अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे अनेक प्रकार की विपरीत भावना होने की सम्भावना बनी रहती है। इस प्रकार का सेशतः अदर्शन भी ईश्वर में सम्भावित नहीं है। शङ्का के उदगम से कलंकित प्रमाणों से क्या सम्मादन हो सकता है, इसलिए नैयायिकों के मत में शङ्का-रूपी कलंक से रहित ईश्वर ही प्रमाण है।

इन उद्घरणों से स्पष्ट यिद्ध हो जाता है कि सभी नैयायिकों के मत से, प्रमा के आश्रय होने के कारण, ईश्वर ही वस्तुतः प्रमाण है। यह प्रमा के आश्रय-रूप प्रमाण का उदाहरण है।

प्रमिति का कारण-रूप जो प्रमाण है, वह चार प्रकार का होता है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन्द्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न जो ज्ञान है, वही ‘प्रत्यक्ष’ है। जैसे, सामने रखे हुए घटादि में ‘यह घट है’, ‘यह पट है’, इत्यादि ज्ञान को ‘प्रत्यक्ष’ कहते हैं।

अनुमति का जो कारण है, उसी को ‘अनुमान’ या लिङ्ग-परामर्श कहते हैं। व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोध कराता है, उसी को लिङ्ग या हेतु कहते हैं। जैसे, धूम अग्नि का हेतु या लिङ्ग कहा जाता है। क्योंकि, धूम ही व्याप्ति के बल से अग्नि का बोधक होता है। जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य है, इस प्रकार का जो साहचर्य का नियम है, वही व्याप्ति है। उस व्याप्तिविशिष्ट लिङ्ग का जो पर्वत आदि पक्ष में ज्ञान होता है, वही लिङ्ग-परामर्श कहा जाता है। वही अनुमान है, इसी से अग्नि की अनुमिति होती है।

अतिदेश-वाक्य के स्मरण के साथ-साथ जो सदृश वस्तु का ज्ञान होता है, उसी को ‘उपमान’ कहते हैं। जैसे—‘गो-सदृश गवय होता है’, इस अतिदेश-वाक्य के अवश्य करने के बाद कदाचित् मनुष्य जङ्गल में जाकर गो-सदृश जन्तु को देखता है, और गो-सदृश गवय होता है, इस अतिदेश-वाक्य का स्मरण करता है; उसी बाण गो-सदृश यह गवय है, इस प्रकार का ज्ञान उसे होता है। उसी ज्ञान का नाम उपमिति है।

आत वाक्य का नाम है 'शब्द' । जहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान की गति नहीं है, उसका भी शान शब्द-प्रमाण के द्वारा ही होता है । आत उसे कहते हैं, जिसने बस्तु-तत्त्व का साक्षात्कार कर लिया है, और रागादि के वश से भी अन्यथा बोलनेवाला नहीं है ।

**प्रमेय—यथार्थ शान में भासित होनेवाला पदार्थ प्रमेय कहा जाता है ।** यह चार ह प्रकार का होता है—आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, दुःख, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख और अपवर्ग । आत्मा का अर्थ है, शान का आश्रय । उसके दो भेद हुए—जीवात्मा और परमात्मा । परमात्मा सर्वश और एक ही है । जीवात्मा प्रति शरीर में भिन्न है, इसलिए अनेक है । दोनों व्यापक और नित्य हैं । सुख, दुःख आदि जो भोग हैं, उनके साधन का नाम है शरीर । जिसके द्वारा सुख-दुःख का भोग होता है, वही शरीर कहा जाता है ।

शरीर से संयुक्त और शान का कारण जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, वही इन्द्रिय कहा जाता है । द्रव्य, गुण, कर्म आदि जो वैशेषिक दर्शन में पदार्थ बताये गये हैं, वे ही प्रकृति में अर्थ कहे जाते हैं । शान का नाम बुद्धि है । सुख-दुःख का जो ज्ञान है, उसके साधन इन्द्रिय का नाम मन है । वह मन नाना प्रकार का होता है और प्रति शरीर में नियमेन रहनेवाला अणु और नित्य है ।

मन, वचन और शरीर की जो किया है, वही प्रवृत्ति है । वे तीनों कियाएँ शुभ और अशुभ के भेद से दो-दो प्रकार की होती हैं । इस प्रकार छह प्रकार की प्रवृत्ति हुईं । जिसके द्वारा प्रवृत्ति होती है, वही दोष है । इसी का नाम राग, द्वेष और मोह भी है । इनके कारण ही कायिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्तियाँ होती हैं । मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने का नाम प्रेत्यभाव है । इसी को पुनर्जन्म कहते हैं । सुख-दुःख के साक्षात्कार का नाम फल है । पीड़ा का नाम दुःख है । वह भी तीन प्रकार का होता है आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदैविक । शरीर और मन के रोग को आध्यात्मिक कहते हैं । धातु-वैषम्य के कारण शरीर में जो ज्वरादि रुक्ताप होते हैं, वे शारीरिक दुःख कहे जाते हैं । काम, क्रोध आदि से उत्पन्न जो रोग है, उन्हें मानस रोग कहा जाता है । ये दोनों आध्यात्मिक रोग आम्यन्तर उपाय से शमनीय होते हैं । सर्प, विष्वट्ट, व्याघ्र आदि से जो दुःख होता है, वह आधिमौतिक कहा जाता है । यज्ञ, राज्य और प्रह आदि के आवेश से जो दुःख होता है, वह आधिदैविक कहा जाता है । आधिमौतिक और आधिदैविक ये दोनों प्रकार के दुःख बाल उपाय से बारणीय होते हैं । कहीं-कहीं इकीकृत प्रकार के दुःख माने गये हैं—जैसे, एक शरीर, छह इन्द्रियाँ, छह विषय और छह बुद्धि (चाक्षुप, रात्मन, भावण, माणज, ल्वाच, तथा मानस) सुख और दुःख । यहाँ सुख को भी दुःख के सम्बन्ध से दुःख ही माना गया है । शरीर आदि दुःख के साधन होने के कारण दुःख माने गये हैं । इनके अतिरिक्त बाह्य दुःख-साधन भी सोलह प्रकार के माने गये हैं । जैमे—प्रतन्त्रता, आधि, व्याधि, अपमान, शत्रु, दरिद्रता, मायोद्वय, कन्या-चाहुल्य, कुमार्या, कुमृत्य, कुग्रामवासि,

कुस्त्यामी-सेवा, घृदत्त, परग्रहवासि, वर्षाकाल में प्रवास और विना इल की होती। मोहृ को अपवर्ग कहते हैं। इस प्रकार, ये चारह प्रकार के प्रमेय हैं।

**संशय—**अनिश्चयात्मक ज्ञान को संशय कहते हैं। वह तीन प्रकार का होता है। साधारणधर्मनिमित्तक, असाधारणधर्मनिमित्तक और विप्रतिपत्तिनिमित्तक। यह स्थाणु है या पुरुष। दोनों में रहनेवाला जो उच्चतत्त्व और स्थूलत्वादि साधारण धर्म है, उनके ज्ञान के कारण ही यह स्थाणु है या पुरुष, इस आकार का संशय होता है, यह साधारणधर्मनिमित्तक है। पृथ्वी नित्य है अथवा अनित्य। यहाँ पृथ्वी का जो असाधारण धर्म गन्ध है, वह अन्यत्र कहीं भी नित्य अथवा अनित्य में नहीं मिलता, चैवल पृथ्वी में ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ असाधारण धर्म गन्ध के ज्ञान में ही संशय होता है, इसलिए यह असाधारणधर्मनिमित्तक संशय है। विप्रतिपत्तिनिमित्तक संशय का उदाहरण यह है कि शब्द नित्य है अथवा अनित्य। कोई शब्द को नित्य कहते हैं और कोई अनित्य। यहाँ दोनों की विप्रतिपत्ति<sup>१</sup> से मध्यस्थ को संशय होता है। यह विप्रतिपत्तिनिमित्तक संशय कहा जाता है।

**प्रयोजन—**जिस उद्देश्य से मनुष्य किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, वही प्रयोजन है। जैसे, ज्ञान के उद्देश्य से मनुष्य अध्ययन में प्रवृत्त होता है, अथवा स्वर्ग के उद्देश्य से यज्ञ का अनुष्ठान करता है और मोहृ के उद्देश्य से शम, दम आदि का अनुष्ठान किया जाता है। प्रयोजन दो प्रकार का होता है—एक दृष्टि, दूसरा अदृष्टि। दृष्टफल अवधात<sup>२</sup> से तुप-निवृत्ति<sup>३</sup> को कहते हैं। यज्ञ का स्वर्गकल अदृष्ट है। महर्षि गौतम ने लिखा है—‘यमर्थमधिकृत्य प्रवर्त्तते तत् प्रयोजनम्’।

**दृष्टान्त—**व्यासि-ज्ञापन करने का जो स्थल है, वही दृष्टान्त है। जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि है, इस आकार की जो व्यासि है, उसके ज्ञापन के लिए जो महानस (रसोइधर) का उदाहरण दिया जाता है, वही व्यासि-ज्ञापन का स्थल है। अतः, धूम हेतु से अग्नि साधन में महानस दृष्टान्त होता है। इसी बात की प्रकारान्तर से महर्षि गौतम ने कहा है—‘लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः।’ तात्पर्य यह है कि लौकिक<sup>४</sup> और परीक्षक<sup>५</sup> इन दोनों का साध्य और साधन (हेतु) की समानाधिकरणविपयक जो बुद्धि है, उसका साम्य जिस पदार्थ में ही, वही दृष्टान्त है।

जैसे, महानस में अग्नि और धूम की समानाधिकरणविधयक बुद्धि लौकिक और परीक्षक दोनों की समान है, इसलिए धूम से अग्नि के साधन में महानस दृष्टान्त होता है। दृष्टान्त दो प्रकार का होता है—एक, साधर्म्य; दूसरा, वैधर्म्य। धूम हेतु से अग्नि के साधन में महानस साधर्म्य दृष्टान्त है और जल, तालाब आदि वैधर्म्य दृष्टान्त। अन्वय-व्यासि का दृष्टान्त, साधर्म्य दृष्टान्त है। जैसे, जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य है। इस प्रकार की अन्वय-व्यासि का उदाहरण महानस होता है।

१. विप्रतिपत्ति—विहृदमति। २. अवधात—चावल छाँटना। ३. तुप-निवृत्ति—भूमि निकालना।

४. लौकिक—शायतानरहित। ५. परीक्षक—शायतानवान्।

जहाँ अग्नि नहीं है, वहाँ धूम भी नहीं है, इस व्यतिरेक-व्याप्ति का उदाहरण जल और तालाब है।

**सिद्धान्त**—जो पदार्थ प्रमाण से सिद्ध हो, वही सिद्धान्त है। वह चार प्रकार का होता है—सर्वतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण और अभ्युपगम। जो सब शास्त्रों का सिद्धान्त है, वह सर्वतन्त्रसिद्धान्त कहा जाता है। जैसे, शानेन्द्रियों पांच हैं, यह सभी शास्त्रों को मान्य है। इसमें किसी भी शास्त्र का विरोध नहीं है। प्रतितन्त्र-सिद्धान्त वह है, जैसे—शब्द अनित्य है, यह न्याय-शास्त्र का ही सिद्धान्त है, इस बात को मीमांसिक नहीं मानते। प्रकृति से ही जगत् की उत्पत्ति है, यह सिद्धान्त सांख्य और पातञ्जल दर्शन का ही है। अधिकरण सिद्धान्त वह है, जैसे—क्षिति आदि समष्टि के कर्त्ता यदि प्रमाण से सिद्ध है, तो वह सर्वत्र भी अवश्य है। अभ्युपगम-सिद्धान्त उसे कहते हैं, जो श्रूपने सिद्धान्त के विरुद्ध भी हो, फिर भी कुछ देर के लिए मान लिया जाय। जैसे, नैयायिकों के यहाँ शब्द को गुण माना जाता है, द्रव्य नहीं। वे यदि इस प्रकार कहें कि मान लीजिए कि शब्द द्रव्य है, तो भी वह अनित्य अवश्य है। यही अभ्युपगम-सिद्धान्त कहा जाता है।

**अवयव**—परार्थ-अनुमान-वाक्य के एक देश का नाम अवयव है। प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये ही पांच अवयव हैं। साध्यभूत जो धर्म है, उससे सुक्ष धर्मों के प्रतिपादक वाक्य का नाम प्रतिशा है या साध्यविशिष्ट पक्ष का निर्देशन प्रतिशा है। इसी बात को सूत्रकार ने कहा है—‘साध्यनिर्देशः प्रतिशा’, अर्थात् साध्य जो अग्नि आदि धर्म है, उसके विशिष्ट धर्मों का निर्देश करनेवाला जो वाक्य है, वह प्रतिशा है। जैसे—‘शब्दः अनित्यः, पर्वतो धूमवान्।’

लिङ्ग के प्रतिपादक वाक्य को हेतु कहते हैं, जैसे ‘धूमवत्वात्’। यह अग्नि का साधक हेतु है और ‘शब्दः अनित्यः’ इस प्रतिशा का साधक हेतु ‘कृतकत्वात्’ है।

व्याप्ति के साधक दृष्टान्त-वचन को उदाहरण कहते हैं। जैसे, जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि है। उदाहरण—‘महानस’। इसी बात को प्रकरान्तर से सूत्रकार ने कहा है—‘साध्यसाध्यर्थात्तद्मेभावी दृष्टान्त उदाहरणम्’। यहाँ ‘साध्यः अस्ति अस्मिन्’ इस व्युत्पत्ति से साध्य शब्द का अर्थ पक्ष होता है। अर्थात्, पक्ष के साधर्म्य (साधश्य) से पक्षर्म्यविशिष्ट पर्वत आदि में साध्यमान् जो अग्नि आदि हैं, तद्विशिष्ट दृष्टान्त को उदाहरण कहते हैं। जैसे, महानस आदि।

हेतु का जो उपसंहार-वचन है, उसे उपनय कहते हैं। जैसे, ‘उसी प्रकार यह पर्वत भी धूमवान् है।’

पक्ष में साध्य का जो उपसंहार-वचन है, उसे निगमन कहते हैं। जैसे उसी प्रकार पर्वत भी अग्निमान् है।

तर्क—‘व्याप्त्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः’, अर्थात् व्याप्त्य के आरोप से व्यापक का जो आरोप है, उसे तर्क कहते हैं। जैसे—यदि इस पर्वत पर अग्नि न हो, तो धूम भी नहीं हो सकता है। यहाँ व्याप्त्य जो अग्नि का अभाव है, उसका आरोप किया जाता है। व्याप्त्य और व्यापक-भाव के विषय में एक बात और जानने योग्य है कि

जो पदार्थ व्याप्ति है और जो उसका व्यापक है, उन दोनों का जो अभाव है, वह परस्परविपरीत हो जाता है। जैसे, धूम अग्नि का व्याप्ति है और अग्नि धूम का व्यापक है। इसी प्रकार, धूम और अग्नि के अभाव में दोनों विपरीत हो जाते हैं। अर्थात्, धूमाभाव अग्नि के अभाव का व्यापक हो जाता है और अग्नि का अभाव धूमाभाव का व्याप्ति हो जाता है। इसलिए, प्रकृति में व्याप्ति जो अग्नि का अभाव है, उसके आरोप से व्यापक धूम के अभाव का आरोप किया जाता है। पर्वत पर धूम देखने के बाद उक्त तर्क की सहायता से अनुमान-प्रमाण के द्वारा अग्नि का निश्चय किया जाता है। इसलिए, तर्क को प्रमाण का अनुग्राहक (सहायक) माना जाता है।

इसी अर्थ को सूत्रकार भी प्रकारान्तर से कहते हैं—‘अविशाततत्त्वेऽप्य कारणो-पपत्तिस्तत्त्वज्ञानार्थमूहस्तर्कः।’<sup>१</sup> तात्पर्य यह है कि जिस पदार्थ का तत्त्व अविशात है, उसके तत्त्व-ज्ञान के लिए कारण के उपपादन द्वारा जो ऊदा<sup>२</sup> की जाती है, वही तर्क है।

**निर्णय**—उक्त तर्क के विषय में पञ्च-प्रतिपञ्च<sup>३</sup> के द्वारा जो वधार्थ अर्थ का निश्चय किया जाता है, उसी का नाम निर्णय है। सूत्रकार ने भी कहा है—‘तस्मिन् सति विमृश्य पञ्चप्रतिपञ्चावधारणं निर्णयः।’<sup>४</sup> संशय होने पर तर्क के द्वारा खण्डन-मण्डनपूर्वक जो वधार्थ अनुभव नाम की प्रमिति<sup>५</sup> होती है, वही निर्णय है। वह चार प्रकार का होता है—प्रत्यक्षात्मिका<sup>६</sup>, अनुमिति, उपमिति और शान्त।

**बाद—कथा**<sup>७</sup> तीन प्रकार की होती है—बाद, जल्य और वितरडा। प्रमाण और तर्क के द्वारा अपने पञ्च का साधन और परपत्र का उपलभ्य<sup>८</sup> जिस शास्त्र-चर्चा में किया जाय और वह सिद्धान्त से अविरुद्ध और पञ्चावयव<sup>९</sup> वाक्य से उत्पन्न हो, उसे बाद कहते हैं। सूत्रकार ने भी लिखा है—‘प्रमाणतर्कसाधनोपालभ्यः इद्वान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पञ्चप्रतिपञ्चपरिग्रहो वादः।’<sup>१०</sup> संक्षेप में यह कह कह सकते हैं कि तत्त्वनिर्णयफलक जो कथाविशेष है, वह बाद है।

तात्पर्य यह है कि केवल तत्त्व-निर्णय के लिए बादी और प्रतिवादी जो शास्त्र विचार करते हैं, और जिसमें छुल, जाति और निग्रह-स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल प्रमाण और तर्क के आधार पर ही पञ्चावयवावयप्रदर्शनपूर्वक अपने पञ्च का स्थापन और दूसरे पञ्च का खण्डन किया जाता है, और जो सिद्धान्त के अनुकूल है, वही बाद कहा जाता है। बाद में जीतने की इच्छा नहीं रहती, केवल तत्त्व का निर्णय करना ही इसका प्रयोजन है।

**जल्य**—प्रमाण और तर्क के द्वारा स्वपञ्च का स्थापन और परपत्र का खण्डन होने पर और सिद्धान्त के अनुकूल होने पर भी यदि छुल, जाति और निग्रह-स्थान का प्रयोग किया जाय, तो वह जल्य कहा जाता है। जल्य में विजिगीपा रहती है, इसलिए प्रमाणादि के प्रदर्शन में छुल, जाति और निग्रह-स्थान का भी प्रयोग

१. सम्बद्ध भवना। २. स्वपञ्च मण्डन। ३. व्याप्ति ज्ञान। ४. साक्षात्कृति। ५. शास्त्र-चर्चा। ६. खण्डन। ७. प्रतिवाद, हेतु आदि व्याय के पाँच व्यवय।

किया जाता है। बाद में छलादि का प्रयोग नहीं होता; योकि उसमें विजय की इच्छा नहीं रहती। बाद से इसमें यही विशेषता है। इसी को सूत्रकार ने भी लिखा है—‘यथोक्तोपन्नः छलजातिनिग्रहस्थान साधनोपालभ्ये जल्पः’। इसका अभिप्राय पूर्वोक्त ही है।

**वितरडा**—‘सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितरडा’। अर्थात्, पूर्वोक्त जल्प ही जब अपने पक्ष की स्थापना से रद्दित होता है, तब वह वितरडा कहा जाता है। वितरडावाद में वैतरिङ्क अपने मत की स्थापना नहीं करता, केवल दूसरे के पक्ष का खण्डन करना ही उसका मुख्य ध्येय रहता है। वह छल, जाति निग्रह-स्थान के प्रयोग से भी बादी को जीतना चाहता है। जल्प से इसमें यही विशेषता है कि यह अपने पक्ष का स्थापन नहीं करता।

**हेत्वाभास**—जो साध्य का साधक न होता हुआ भी हेतु की तरह भासित हो, वह हेत्वाभास कहा जाता है। इसको असद्हेतु भी कहते हैं, वह पाँच प्रकार का होता है—सव्यभिचार, विशद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और कालातीत। जो हेतु व्यभिचार के साथ रहे, वह सव्यभिचार कहा जाता है। इसी का नाम अनेकान्तिक भी है। जहाँ साध्य का अभाव है, वहाँ साधन (हेतु) का रहना ही उसका व्यभिचार है। इसी को साध्याभाववद्वृत्ति कहते हैं। इसका उदाहरण यह है कि पर्वत अभिनमान है, प्रमेय होने से। यहाँ प्रमेयत्व जो हेतु है, वह साध्य अभिने अभाव-स्थल जलादि में वर्तमान रहने से व्यभिचरित ही जाता है। इसलिए, यह सव्यभिचार है। जो हेतु साध्याभाव से व्याप्त हो, उसे विशद्ध कहते हैं। जैसे—शब्द नित्य है, कृतक (उत्पन्न) होने के कारण। यहाँ कृतकत्व जो हेतु है, वह नित्यत्व के अभावरूप अनित्यत्व से व्याप्त है; योकि जहाँ-जहाँ कृतकत्व है, वहाँ-वहाँ अनित्यत्व ही रहता है। इसलिए, साध्याभाव से व्याप्त होने से विशद्ध हेतु हो जाता है।

**जिसका प्रतिपक्ष** (विपरीत साधक, शब्द) दूसरा हेतु विचारान हो, वह प्रकरणसम कहा जाता है—इसी का नाम सत्यप्रतिपक्ष भी है। तात्पर्य यह है कि जहाँ बादी ने साध्य के साधक हेतु का प्रयोग किया, वहाँ प्रतिवादी साध्य-भाव के साधक हेत्वन्तर का प्रयोग करे, तो ऐसे स्थल में सत्यप्रतिपक्ष या प्रकरणसम हेतु कहा जाता है। जैसे—बादी ने कहा, ‘शब्द नित्य है; योकि शब्द में अनित्य धर्म की उपलब्धि नहीं होती’। इसके उत्तर में प्रतिवादी कहता है—‘शब्द अनित्य है; योकि शब्द में नित्यधर्म की उपलब्धि नहीं होती’। इस प्रकार प्रतिवादी के हेत्वन्तर दिखाने से प्रकरण की समाप्ति नहीं होती, किन्तु विचार चलता ही रहता है। यह हेतु का प्रयोग करने पर विचार समाप्त हो जाता है और सत्यप्रतिपक्ष हेतु विचार की समाप्ति में समर्थ नहीं होता। इसलिए, प्रकरण के समान होने से इसको प्रकरणसम कहते हैं।

जो हेतु साध्य के समान ही स्वयं असिद्ध है, उसको साध्यसम कहते हैं। तात्पर्य यह है कि सिद्ध जो हेतु है वही साध्य का साधक होता है, जो स्वयम् असिद्ध है वह साध्य का साधक नहीं होता। किन्तु, साध्य के समान वह असिद्ध ही रहता है। इसलिए, यह साध्यसम नाम का हेत्वाभास है। इसका उदाहरण है—शब्द गुण है,

चाक्षुप होने के कारण। यहाँ शब्द में चाक्षुपत्व हेतु असिद्ध है, इसलिए यह साध्य के समान असिद्ध होने से साध्यसम नाम का हेत्वाभास है। साध्यसम हेतु को ही असिद्ध भी कहते हैं। सोपाधिक हेतु को भी असिद्ध कहते हैं। उपाधि से सुक का नाम सोपाधिक है। जो साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक है, उसको उपाधि कहते हैं। उपाधि का विशेष विवेचन उदयनाचार्य की किरणावली में लिखा है। इसमें भी 'चार्वाक-दर्शन' में इसकी विशेष चर्चा की है।

जिसका साध्यभाव प्रमाणान्तर से निश्चित है, वह कालातीत या कालात्यापदिष्ट कहा जाता है। इसी का नाम वाधित भी है। जैसे—अभि शीतल है, प्रमा के आश्रय होने से। यहाँ साध्य जो शीतलत्व है, उसका अभाव (उष्णत्व) प्रत्यक्ष प्रमाण से ही निश्चित है, इसलिए हेतु-वाक्य के अवधारण के पहले ही साध्याभाव (उष्णत्व) का निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध होने के कारण प्रयोक्ता को हेतु-वाक्य का उचारण नहीं करना चाहिए था; क्योंकि जबतक साध्य की सिद्धि नहीं होती, तभी तक हेतु-वाक्य के प्रयोग का समय रहता है। जब साध्य का अभाव प्रत्यक्ष से गहीत हो गया, तब हेतु के प्रयोग का काल अतीत हो जाने से कालातीत नाम का हेत्वाभास हो जाता है। इस प्रकार, पाँच हेत्वाभासों का संक्षिप्त विवरण दिखाकर हेत्वाभास के बाद क्रमशः अवशेष छुल आदि पदार्थों का विवेचन किया जाता है।

छुल—छुल का विवेचन करते हुए महर्षि गौतम ने लिखा है—‘वचनविधातोऽर्थ-विकल्पोपपत्त्या छुलम्’ (न्या० स० १२।१०)। इसका तात्पर्य यह है कि वक्ता के अनभिप्रेत अर्थ के उपपादन द्वारा जो वचन का विरोध प्रदर्शन है, वही छुल है। जैसे, किसी ने नवीन कम्बल के अभिप्राय से ‘इस ब्राह्मण के पास नव कम्बल है’ ऐसा प्रयोग किया। प्रतिवादी इस वाक्य में नव शब्द का नव (६) संख्या बताकर कहता है—इस दिक्षित के पास नव (६) कहाँ से आ सकते हैं। यहाँ नव का अर्थ नव संख्या (जो वक्ता का अभिप्राय नहीं है) बताकर उसके वचन को काटना छुल कहा जाता है।

यह छुल तीन प्रकार का होता है—वाक्छुल, सामान्य छुल और उपचार-छुल। शक्ति-वृत्ति के व्यत्यय से जो अर्थान्तर की कल्पना है, वह वाक्छुल है। इसका उदाहरण पूर्वोक्त (नव कम्बलबाला) है। यहाँ शक्ति-वृत्ति के व्यत्यय से अर्थान्तर की कल्पना वाक्छुल है।

तात्पर्य-वृत्ति के व्यत्यय से जो अर्थान्तर की कल्पना है, वह सामान्य-छुल है। जैसे—ब्राह्मण में विद्या सम्पव है, इस अभिप्राय से किसी ने ब्राह्मण में विद्या है, ऐसा प्रयोग किया, इस पर प्रतिवादी कहता है कि यह आप क्यों कहते हैं, मूर्ख भी बहुत-से ब्राह्मण हैं। यहाँ छुलवादी नियम में तात्पर्य मानकर वादी के वचन का खण्डन करता है। अतः, तात्पर्य-वृत्ति के व्यत्यय से अर्थान्तर की कल्पना करने के कारण इसको सामान्य-छुल कहा जाता है।

लक्षणावृत्ति के व्यत्यय से जो अर्थान्तर की कल्पना है, उसी को उपचार-छुल कहते हैं। जैसे, मञ्चस्थ व्यक्ति के बोलने के अभिप्राय से ‘मञ्चः क्रोशन्ति’

इस वाक्य का वादी के उचारण करने पर प्रतिवादी कहता है कि अचेतन मन्त्र किस प्रकार बोल सकता है? यहाँ मञ्चस्थ व्यक्ति के बोलने के अभिप्राय से जो नादी का प्रयोग था, उसको छलवादी छिपाकर शक्यार्थ के अभिप्राय से खराड़न करता है। इसलिए लक्षणावृत्ति के व्यत्यय होने के कारण यह उपचार-छल माना गया है। लक्षणा का ही नाम उपचार है।

जाति—जाति की परिभाषा महर्षि गौतम ने इस प्रकार की है—‘साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः’। तात्पर्य यह है कि साधर्म्य और वैधर्म्य से साध्य की जो अनुपत्ति है, उसका प्रदर्शन करना जाति है। वादी यदि उदाहरण-साधर्म्य से साध्य की उपपत्ति दिखाता है, तो उसी समय प्रतिवादी उदाहरण के वैधर्म्य से साध्य की असिद्धि दिखाता है। इसी प्रकार, वादी यदि उदाहरण के वैधर्म्य से साध्य की असिद्धि दिखाता है। इसी को जाति कहते हैं। वह जाति नीबीस प्रकार की होती है—साधर्म्यसम, वैधर्म्यसम, उत्कर्पसम, अपकर्पसम, वर्यसम, अवर्यसम, विकल्पसम, साध्यसम, प्राप्तिसम, अप्राप्तिसम, प्रसङ्गसम, प्रतिदृष्टान्तसम, अनुपत्तिसम, संशयसम, प्रकरणसम, हेतुसम, अर्थापत्तिसम, अविशेषसम, उपपत्तिसम, उपलब्धिसम, अनुपलब्धिसम, नित्यसम, अनित्यसम और कार्यसम।

(१) साधर्म्यसम—कार्य होने से घट के सदृश शब्द अनित्य है, यह वादी का अनुमान-प्रकार है। प्रतिवादी का जात्युत्तर यह होता है कि अमूर्त होने के कारण आकाश के सदृश शब्द नित्य है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार घट में रहनेवाला जो कृतकत्व है, उसका साधर्म्य होने से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध है। उसी प्रकार, नित्य आकाश में रहनेवाला जो अमूर्तत्व है, उसका साधर्म्य शब्द में होने के कारण शब्द नित्य ही क्यों नहीं होता, इस प्रकार का प्रतिवादी का उत्तर साधर्म्यनाम का जात्युत्तर होता है।

(२) वैधर्म्यसम—उक्त स्थल में ही अनित्य घट का वैधर्म्य रूप जो अमूर्तत्व है, उस अमूर्तत्व के शब्द में रहने के कारण शब्द नित्य क्यों नहीं? इस प्रकार का उत्तर वैधर्म्यसम कहा जाता है।

(३) उत्कर्पसम—जिस प्रकार उक्त स्थल में कार्य होने के कारण, घट का साधर्म्य होने से, यदि शब्द का अनित्यत्व साधन करते हैं, तो घट के सदृश ही शब्द भी मूर्त होना चाहिए। लेकिन, शब्द मूर्त नहीं है, इसलिए अनित्य भी नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि यदि घट के समान शब्द मूर्त नहीं है, तो घट के समान अनित्य भी वह नहीं होगा। यहाँ शब्द में घर्मान्तर (मूर्तत्व घर्म) का अपादान करना है।

(४) अपकर्पसम—यदि उक्त स्थल में घट के सदृश कार्य होने से शब्द में अनित्यत्व का साधन करते हैं, तो घट जिस प्रकार शोचेन्द्रिय का विषय नहीं (अथावण) है, उसी प्रकार भी शब्द भी अक्षावण हो जायगा। यहाँ शब्द में अवश्यत्व का अपकर्प दिखाना है।

(५) वर्णयन्त्रम्—वर्णनीय हेतुरूप जो धर्म है, उसको वर्ण कहते हैं। पूर्वोक्त स्थल में, शब्द में जो कार्यत्व है, वह तालु, कण्ठ और ओष्ठ आदि के व्यापार से जन्य है और घट में जो कार्यत्व है, वह कुम्भकार के व्यापार से जन्य है, इसलिए दृष्टान्त और दार्शनिक में मिन्नता होने से घट के दृष्टान्त से शब्द में अनित्यत्व का साधन नहीं कर सकते।

(६) अवरण्यसम्—सिद्ध दृष्टान्त का जो धर्म है, वह अवरण्य है। जैसे, जिस प्रकार का कार्यत्व घट में है, उस प्रकार का शब्द में नहीं है।

(७) विरुद्धप्रसम्—जैसे, पूर्वोक्तस्थल में कार्यत्व हेतु से शब्द का जो अनित्यत्व साधन किया है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि कार्य दो प्रकार का देखा जाता है—कोई मृदु और कोई कठोर। इसी प्रकार कोई घट आदि कार्य अनित्य और शब्द नित्य भी हो सकता, इस प्रकार कहना विकल्पसम है।

(८) साध्यसम्—जैसे, घट के समान यदि शब्द अनित्य है, तो शब्द के सदृश घट भी श्रोत्रेन्द्रिय का विषय होने लगेगा।

(९) प्रासिसम्—प्राप्ति सम्बन्ध को कहते हैं, अर्थात् साध्य से सम्बद्ध जो हेतु है, वही साध्य का साधक होता है, ऐसा यदि माना जाय, तो साध्य और हेतु दोनों के परस्पर सम्बद्ध होने में कोई विशेषता न होने के कारण कौन साध्य है और कौन साधन, इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता।

(१०) अप्राप्तिसम्—जैसे, हेतु साध्य से यदि असम्बद्ध है, तो साध्य का साधक किस प्रकार हो सकता।

(११) प्रसंगसम्—शब्द के अनित्यत्व में क्या साधन है, और उस अनित्यत्व में भी क्या साधन है, इस प्रकार की अनवस्था का नाम प्रसंगसम है। जैसे, शब्द के अनित्यत्व में घट-दृष्टान्त साधन होता है, तो उस घट के अनित्यत्व में क्या साधन है और पुनः उस अनित्यत्व में भी क्या साधन है, इस प्रकार की आपत्ति का नाम प्रसंगसम है।

(१२) प्रतिदृष्टान्तसम्—विश्व दृष्टान्त के द्वारा विश्व साध्य के साधन का नाम प्रतिदृष्टान्तसम है। जैसे, प्रयत्न से विभाव्यमान (उत्पाद्यमान) होने के कारण घट के सदृश शब्द अनित्य है। वादी के ऐसा कहने पर प्रतिवादी कहता है—‘प्रयत्न से विभाव्यमान (उत्पाद्यमान) होने के कारण आकाश के सदृश शब्द नित्य है। कुर्वा आदि के खनन-प्रयत्न से आकाश भी विभाव्यमान होता है, इसलिए आकाश दृष्टान्त से शब्द के अनित्यत्व के विश्व उसे नित्य दिय करना प्रतिदृष्टान्तसम नाम का जात्युचर है।

(१३) अनुपपत्तिसम्—जैसे, शब्द के अनित्यत्व का साधन कार्यत्व हेतु है, वह शब्द की उत्पत्ति के पहले नहीं है। क्योंकि, धर्म के नहीं रहने पर धर्म का रहना असम्भव है। इसलिए, कार्यत्व-धर्म से साध्य जो अनित्यत्व है, वह शब्द में नहीं है, इसलिए शब्द नित्य हो जाता है और नित्य उत्पत्ति न होने से शब्द अनित्य नहीं हो सकता।

(१४) संशयसम—जिस प्रकार, कार्यत्व के साध्य से घट के सदृश शब्द को अनित्य मानते हैं, उसी प्रकार ऐन्ड्रियकत्व के साध्य से नित्य घटत्व के समान शब्द को नित्य क्यों नहीं मानते ?

(१५) प्रकरणसम—संशयसम में, शब्द का नित्यत्व और अनित्यत्व, दोनों की समानता रहती है; किन्तु प्रकरणसम में विपरीत अनुमान का पूर्वानुमान वाधकत्वेन प्रदर्शित किया जाता है।

(१६) हेतुसम—हेतु साध्य से पूर्वकालिक अथवा उत्तरकालिक समकालिक है। हेतु को साध्य से पूर्वकालिक मानने में, हेतुकाल में साध्य के अभाव होने से, हेतु किसका साधक होगा, और साध्य से उत्तरकाल में हेतु के होने में साध्य तो सिद्ध ही है, तो फिर हेतु किसका साधन करेगा ? क्योंकि, जो सिद्ध है, उसका साधन व्यर्थ होता है और समकालिक मानने में सब्येतर विषयाण ( सींग ) की तरह साध्य-साधन-भाव नहीं हो सकता। जिस प्रकार यद्युड़े के दोनों सींग एक काल में उत्पन्न होने से परस्पर साध्य-साधन नहीं होता, उसी प्रकार हेतु और साध्य के समकालिक होने के कारण दोनों में परस्पर साध्य-साधक भाव नहीं हो सकता।

(१७) अर्थांपत्तिसम—यहाँ अर्थांपत्ति शब्द से अर्थांपत्ति के आभास का ग्रहण किया जाता है। जैसे, शब्द अनित्य है, इस प्रतिशा से सिद्ध हो जाता है कि शब्द से भिन्न शब्द नित्य है, इसलिए घट भी नित्य ही हो जाता है, तो इसके व्यापार से शब्द अनित्य किस प्रकार हो सकता है ?

(१८) अविशेषसम—जैसे, कार्यत्वरूप समानधर्म होने के कारण शब्द और घट इन दोनों में विशेषता न होने से दोनों को अनित्य मानते हैं, उसी प्रकार प्रमेयत्वरूप समानधर्म होने के कारण एकल पदार्थ अविशेष होने से नित्य अथवा अनित्य एकरूप हो जायगा।

(१९) उपपत्तिसम—जैसे, कार्यत्व की उपपत्ति होने पर शब्द में अनित्यत्व का साधन करते हैं, उसी प्रकार निरवयत्व की उपपत्ति होने पर शब्द में नित्यत्व की सिद्धि क्यों नहीं होती ?

(२०) उपबन्धिसम—जैसे, वादी के धूम हेतु से अग्नि का साधन करने पर प्रतिवादी कहता है कि धूम के विना भी आलोक आदि कारणान्तर से अग्नि की सिद्धि होती है, तो धूम से ही अग्नि की सिद्धि क्यों करते ?

(२१) अनुपलब्धिसम—कार्यत्व-हेतु से शब्द के अनित्यत्व का साधन करने पर प्रतिवादी कहता है कि शब्द तो कृतक ( कार्य, उत्पन्न होनेवाला ) नहीं है; क्योंकि उच्चारण के पहले भी वह विद्यमान है। केवल आवरण के कारण शब्द की उपलब्धि नहीं होती। यदि यह कहें कि आवरण की भी तो उपलब्धि नहीं होती, तो यह कहा जाता है कि आवरण की अनुपलब्धि की भी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए आवरण की उपलब्धि ही सिद्ध होती है। अतः, शब्द अनित्य नहीं हो सकता।

(२२) नित्यसम—शब्द में जो अनित्यत्व-रूप धर्म है, वह नित्य है अथवा अनित्य। यदि नित्य मानें, तो धर्मों के विना धर्म की स्थिति नहीं हो सकती, धर्मों

शब्द को भी नित्य मानना आवश्यक हो जाता है। यदि अनित्य मानें, तो अनित्यत्व ही यदि अनित्य है, तो शब्द नित्य हो जाता है।

(२३) अनित्यसम—यदि कृतक (कार्य) होने के कारण घट के साधर्म्य से शब्द को अनित्य मानें, तो प्रमेय होने के कारण घट के साधर्म्य से सकल पदार्थ अनित्य होने लगेगा। यदि ऐसा न मानें, तो शब्द भी अनित्य नहीं हो सकता।

(२४) कार्यसम—शब्द अनित्य है, वादी के ऐसा कहने पर प्रतिवादी कहता है कि कार्य तो जन्य और ज्ञाप्य दोनों होता है। इस स्थिति में कार्य होने से, ज्ञाप्य होने के कारण, शब्द नित्य भी हो सकता है। इसलिए, कार्यत्व-हेतु अनित्यत्व का साधक नहीं हो सकता।

इन पूर्वोक्त जातियों में साधर्म्यसम, प्रकरणसम, कार्यसम, संशयसम आदि जो बहुत-सी जातियाँ हैं, उनके अन्त में दूषण के एक होने पर भी, केवल दूषण के उद्भावन का प्रकार भिन्न होने से वे पृथक्-पृथक् लिखी गई हैं।

## निग्रह-स्थान

वादी अथवा प्रतिवादी जिस स्थान में जाने से पराजित समझा जाता है, उसी को निग्रह-स्थान कहा जाता है।

यह बाईस प्रकार का है—प्रतिज्ञा-हानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञा-विरोध, प्रतिज्ञा-संन्यास, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, निरर्थक, अविज्ञातार्थ, अपार्थक, अप्राप्तकाल, न्यून, अधिक, पुनर्वक्त, अननुभाषण, अशान, अप्रतिभाव, विद्वेष, मतानुशार, पर्यनुयोज्योपेक्षण, निरनुयोज्यानियोग, अपविद्धान्त और हेत्वाभास।

(१) प्रतिज्ञा-हानि—प्रतिज्ञा के त्याग का नाम ‘प्रतिज्ञा-हानि’ है। जैसे, वादी ने कहा—इन्द्रिय के विषय होने से शब्द अनित्य है। जब प्रतिवादी कहता है कि इन्द्रिय के विषय होने पर भी शब्द नित्य है, तब यदि वादी यह कहे कि नित्य ही शब्द रहे, इस प्रकार प्रतिज्ञा के त्याग करने से प्रतिज्ञा-हानि नाम के स्थान में वादी नियमीत हो जाता है।

(२) प्रतिज्ञान्तर—पूर्ववत् शब्द के अनित्यत्व की प्रतिज्ञा कर जब दूसरा दोष दिखाया जाता है, तब दूसरी प्रतिज्ञा कर ली जाती है, यही ‘प्रतिज्ञान्तर’ है। जैसे, सर्वंगत सामान्य नित्य है, तो असर्वंगत शब्द अनित्य है।

(३) प्रतिज्ञा-विरोध—प्रतिज्ञा और हेतुवाक्य में विरोध का नाम ‘प्रतिज्ञा-विरोध’ है। जैसे, गुण से भिन्न की उपलब्धि न होने के कारण द्रव्य गुण से भिन्न है। यह हेतुवाक्य प्रतिज्ञा-वाक्य से विलक्षण विशद है।

(४) प्रतिज्ञा-संन्यास—पूर्व में की गई प्रतिज्ञा के अपलाप का नाम प्रतिज्ञा-संन्यास है। शब्द के अनित्यत्व की प्रतिज्ञा कर द्वारा दोष दिखाये जाने पर कहे कि कौन कहता है कि शब्द अनित्य है। इस प्रकार प्रतिज्ञा का अपलाप करना ‘प्रतिज्ञा-संन्यास’ है।

(५) हेत्वन्तर—ब्राह्मोन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने के कारण शब्द अनित्य है। इस हेतु के सामान्य में व्यभिचार दिखाने पर 'सामान्यवस्थे सति' इत्यादि विशेषण लगाकर दूसरा हेतु कहना ही 'हेत्वन्तर' है।

(६) अर्थान्तर—किसी हेतु के प्रयोग करने पर हेतु शब्द का निर्वचन या व्युत्पत्ति 'अर्थान्तर' है।

(७) निरर्थक—निरर्थक शब्द का प्रयोग करना ही 'निरर्थक' नाम का निग्रह-स्थान है। जैसे—ख, फ, छ, ठ, श होने से ज, ब, ग, ड, द के समान क, च, ट, त, प शब्द नित्य हैं।

(८) अविज्ञातार्थ—तीन बार कहने पर भी कठिन या अप्रसिद्ध या अन्य भाषास्थ शब्द होने से जो मध्यस्थ की समझ में न आवे, ऐसी उक्ति को 'अविज्ञातार्थ' कहते हैं।

(९) अपार्थक—आकांक्षा, योग्यता आदि से रहित परस्पर असम्बद्ध जो उक्ति है, वह अपार्थक है। जैसे—'दश दाढ़िमानि, पड़पूपा' इत्यादि या 'अग्निना सिङ्घति'।

(१०) अप्राप्तकाळ—अप्राप्तकाल वह है, जहाँ प्रतिशा, हेतु आदि न्यायावयवों का विपरीत प्रयोग किया जाय। जैसे—मद्दानस के समान धूमबान् होने से अग्निमान पर्वत है, इत्यादि।

(११) न्यून—प्रतिशादि अवयवों में किसी का प्रयोग नहीं करना 'न्यून' है।

(१२) अधिक—'अधिक' वह है, जहाँ एक ही उदाहरण से साध्य की सिद्धि हो जाने पर दूसरा हेतु या उदाहरण उपन्यस्त किया जाय।

(१३) पुनरुक्त—एक ही बात को उन्हीं शब्दों या पर्यायवाची शब्दों के द्वारा बार-बार कहना 'पुनरुक्त' है।

(१४) अननुभापण—बोली, बोलो, बोलो, इस प्रकार तीन बार मध्यस्थ के कहने पर भी नहीं बोलना 'अननुभापण' है।

(१५) अज्ञान—वादी या प्रतिवादी के उक्त अर्थ को मध्यस्थ के द्वारा समझ लिये जाने पर भी वादी या प्रतिवादी का नहीं समझना 'अज्ञान' है।

(१६) अप्रतिभा—प्रश्न के समझ लेने पर और उसका अनुवाद कर देने पर भी उत्तर का स्फुरित न होना 'अप्रतिभा' है।

(१७) विच्छेप—स्वयं श्रयोग्य प्रमाणित होकर कार्यान्तर के व्याज से अलग होने की चेष्टा करना 'विच्छेप' है।

(१८) मतानुशा—'मतानुशा' उसे कहते हैं—जब कोई किसी से कहे, 'तू चोर है', तो इसके उत्तर में वह कहे 'तू भी चोर है'। इससे अपने में चोरत्व का परिदार न कर, दूसरे को चोर कहने से अपने में चोर होने का अनुमान हो जाता है।

(१९) पर्यनुयोज्योपेक्षण—वस्तुतः निग्रह-स्थान में आने पर भी 'तुम निश्चीत हो', ऐसा नहीं कहना 'पर्यनुयोज्योपेक्षण' है।

(२०) निरनुयोज्यानुयोग—वस्तुतः निग्रह-स्थान न होने पर भी 'तुम निश्चीत हो', इस प्रकार कहना 'निरनुयोज्यानुयोग' है।

(२१) अपसिद्धान्त—जिस सिद्धान्त के आधार पर जो कहा जा रहा है, उसे छोड़कर बीच में ही दूसरी कथा कहना 'अपसिद्धान्त' है।

(२२) हेत्याभास—इसका विवेचन पहले किया जा चुका है।

इस प्रकार, सोलह पदार्थों का संज्ञेप में विवेचन किया गया। यद्यपि, प्रमाणादि सोलह पदार्थों में प्रमेय से भिन्न जो पन्द्रह पदार्थ हैं, और प्रमेय में भी अर्थ से भिन्न जो भ्यारद प्रमेय हैं, उन सबका अन्तर्भूत अर्थ में ही ही जाता है, और यह सूत्रकार-सम्मत भी है, तो भी मोहृ का कारणीभूत जो तत्त्व-ज्ञान है, उसके उपयोगी होने के कारण पृथक्-पृथक् सोलहो पदार्थों का विवेचन सूत्रकार ने किया है।

ये सोलहो पदार्थ मोहृ में उपयोगी होते हैं। दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को मोहृ कहते हैं। दुःख की उत्पत्ति जन्म, मरण और गर्भवास-रूप प्रेत्यमाव से होती है और सुख-दुःख का उपभोग-रूप जो कल है, उसकी जनक जो प्रवृत्ति है, उसी से प्रेत्यमाव उत्पन्न होता है। प्रेत्यमाव प्रवृत्ति का ही कार्य है। मनोगत राग-दोष मोहरूप जो दोष हैं, वे ही प्रवृत्ति के मूल हैं। दोष का भी कारण मिथ्या ज्ञान है। इसलिए, मिथ्याज्ञान की निवृत्ति से दोष की निवृत्ति होती है और मिथ्याज्ञान की निवृत्ति शरीर, इन्द्रिय तथा विषय के अतिरिक्त आत्मतत्त्व के ज्ञान से होती है। प्रमेयभूत तत्त्वों का ज्ञान ही प्रमाणों का मुख्य प्रयोजन है और इन्द्रियातीत सूक्ष्म विषयों का ज्ञान अनुमान के ही अधीन है। अनुमान भी पाँच अवश्यों से युक्त है और दृष्टान्त ही उसका जीवन है। तर्क अनुमान का सहायक होता है। इसलिए, दृष्टान्त जिसका जीवन है, ऐसा पञ्चावयव-युक्त अनुमान ही, तर्क की सहायता से, सिद्धान्त के अनुसार, संशय के निराकरण द्वारा, निर्णय कराने में समर्थ हो सकता है। निर्णय भी पक्ष-प्रतिपक्ष-परिग्रह-रूप कथा (शास्त्र-विचार) में, बाद से, दृढ़ होता है। बादरूप कथा में वितरणा, हेत्याभास, छल, जाति और निग्रहस्थान—ये सब हेत्य होते हैं। अतः, इन सब के त्याग के लिए इनके स्वरूप का ज्ञान भी आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार, सूत्रकार से निर्दिष्ट सकल पदार्थों का ज्ञान मोहृ में उपयोगी होता है। एक बात और जानने योग्य है कि जल्य आदि का प्रयोग स्वयं नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रयोग करे, तो मध्यस्थ को जना देना चाहिए। दूसरा मूर्ख या दुराग्रही हो, तो उप रह जाना चाहिए। यदि मध्यस्थ अनुमति दे, तो छल आदि से भी उसे परास्त करना चाहिए। अन्यथा मूर्ख को विजयी समझकर अशानी लोग उसके मत का अवलम्बन कर अनेक प्रकार के कुमार्ग में फँस जायेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि मूर्खों और दुराग्रहियों को परास्त करने के लिए ही आचार्य ने छलादि का प्रयोग किया है। लिखा भी है—

'गतानुगतिको लोकः कुमार्गं तत् प्रतारितः।

मार्गादिति छलादीनि प्राह कारणिको मुनिः ॥'

अब यह विचार किया जाता है कि प्रमाणादि सोलह पदार्थों के प्रतिपादन करनेवाले इस शास्त्र को न्याय कैसे कहा जाता है। पञ्चावयव से युक्त पदार्थानुमान

को ही शास्त्रकारों ने न्याय कहा है। यह तो प्रमाणादि सोलह पदार्थों का प्रतिपादन करता है।

इसका उत्तर यह है कि 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' इस न्याय से इसको भी न्याय ही कहा गया है। सकल विद्याओं का अनुग्राहक और सकल कर्मानुष्ठानों का साधन होने के कारण न्याय<sup>१</sup> को प्रधान माना गया है। इसलिए उद्योतकराचार्य ने भी न्यायवाचिक में 'सोऽयं परमो न्यायः विप्रतिपन्नपुरुषं प्रति प्रतिपादकत्वात्' इस वाचिक से 'परमन्याय' शब्द से इसका व्यवहार किया है। परमन्याय का तात्पर्य मुख्य प्रमाण है और यही इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है।

नीयते = प्राप्यते विवक्षितार्थसिद्धिः अनेन—इस व्युत्पत्ति से न्याय शब्द का अर्थ तर्कानुग्रहीत और पञ्चावयवयुक्त अनुमान ही होता है। यह न्याय-शास्त्र सकल शास्त्रों का उपकारक<sup>२</sup> और समस्त लौकिक तथा वैदिक कर्मों का आधार है। महापि वात्स्यायन (जिसको पञ्चिलस्वामी भी कहते हैं) ने भी न्यायभाष्य में लिखा है—

'सेयमान्वीक्षिकी विद्या प्रमाणादिपदार्थः प्रविभज्य माना—'

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।

आध्रयः सर्वधर्माणां विद्योदये परीक्षिता ॥'

—न्या० भा०, स० १

तात्पर्य यह है कि प्रमाणादि सोलह पदार्थों में विभक्त यह आन्वीक्षिकी<sup>३</sup> सब विद्याओं का प्रकाशक, सकल कर्मों का उपाय और सकल घर्मों का आधार है।

इसकी परीक्षा विद्या के उद्देश्य में की गई है। लोक-संस्थिति के हेतु चार प्रकार की विद्या मानी गई है—आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति।

यहाँ आन्वीक्षिकी का अर्थ न्याय-विद्या है। प्रत्यक्ष और आगम से जो ईक्षित है, उसके पुनः ईक्षण का नाम आन्वीक्षा है और उससे जो प्रवृत्त है, उसको आन्वीक्षिकी कहते हैं। यही तर्कानुग्रहीत पञ्चावयवयुक्त न्याय है। यह सब विद्याओं में प्रधान है। इसलिए, इसका नाम 'न्याय-शास्त्र' है।

अब यह विचारणीय है कि उक्त सोलह पदार्थों के तत्त्व-ज्ञान से जो मुक्ति होती है, वह तत्त्व-ज्ञान के अव्यवहित अनन्तर अथवा कर्मशः अव्यवहित अनन्तर तो कह नहीं सकते, क्योंकि कारण के नाश से ही कार्य का नाश होता है—'कारणनाशात् कार्यनाशः'। यह न्याय सर्वतन्त्र-सिद्ध है। अब यह विचारना है कि मोक्ष क्या है और उसका कारण क्या है? तथा उसमें पद्धते क्या होता है? मोक्ष के कारण का विचार करने पर सकल दुःख का मूल कारण जन्म ही प्रतीत होता है; क्योंकि जो जन्म नहीं लेता, उसे दुःख नहीं होता। इसलिए, दुःख का कारण जन्म ही सिद्ध होता है। जन्म का कारण है—धर्म-अधर्म। धर्मधर्म को ही सूचकार ने प्रवृत्ति शब्द से कहा है—प्रवृत्ति के कारण ही धर्मधर्म होते हैं। प्रवृत्ति का भी कारण दोष है। मिथ्या ज्ञान में दोष की उत्पत्ति होती है। मिथ्या ज्ञान ही दोष का मूल है।

१. जिसके द्वारा विवक्षित अर्थ को प्राप्ति हो। २. प्रकाशक। ३. न्याय-विद्या।

अतिरिक्त उसका आश्रय आत्मा को मानें, तो भी उसमें यह विकल्प होता है कि आत्मा नित्य है, अथवा अनित्य ?

यदि नित्य मानते हैं, तो उसका उच्छेद हो नहीं सकता; क्योंकि नित्य वही कहा जाता है, जिसका कभी विनाश न हो। इस स्थिति में आत्मा के उच्छेद की आशङ्का ही नहीं हो सकती। यदि आत्मा को अनित्य माना जाय, तब तो मोक्ष के लिए किसी की प्रवृत्ति ही नहीं होगी; क्योंकि कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आत्मनाश के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता। संक्षर में सबमें प्रिय आत्मा ही होता है। श्रुति भी यही बताती है—‘आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति’। और, आत्मा को अनित्य मानने से यह लोक-प्रसिद्ध व्यवहार उपपत्ति नहीं होता कि अमुक-अमुक मुक्त हो गये। इससे यह सिद्ध होता है कि मोक्षरूप धर्म के अतिरिक्त, उसका आश्रय धर्म कोई अवश्य है, और वह नित्य है।

विज्ञानवादी बौद्धों का मत है कि धर्मों के निवृत्त होने से जिस निर्मल ज्ञान का उदय होता है, वही मोक्ष है। उनका कहना है कि ज्ञान तो स्वभाव से ही निर्मल और स्वच्छ है, केवल आश्रय—आत्मा—के सम्बन्ध से वह मलिन हो जाता है। आश्रय के निवृत्त हो जाने पर प्रतिज्ञण निर्मल ज्ञान का उदय होता रहता है। वही ‘महोदय’ कहा जाता है और उसी का नाम ‘मोक्ष’ है। परन्तु, विज्ञानवादी का यह मत भी ठीक नहीं ज़ंचता। कारण, इसमें सामग्री का अभाव और सामानाधिकरण की अनुपस्थिति बनी ही रहती है। तात्पर्य यह है कि निर्मल ज्ञानोदय में चार प्रकार की भावनाएँ कारण होती हैं। ये ही महोदय की सामग्री हैं। ‘सर्वं दुःखं, सर्वं ज्ञाणिकं’ सर्व स्वलक्षणं, सर्वं शून्यम्—यही भावनाच्यतुष्टय नाम से प्रसिद्ध है। इसका विवेचन पूर्णतया बौद्ध दर्शन में किया गया है।

अब यहाँ विचारना है कि सावारणतया जायमान जो भावना है, वह अभिज्ञान की जनक नहीं होती है; किन्तु अतिशय जायमान जो भावना है, वह अभिज्ञान की जनक होती है। यथा, स्पष्ट लक्षण से रहित मणि को एक बार देखने ही से उसका यथार्थ परिचय नहीं होता, किन्तु चार-बार निरीक्षण-प्रोक्षण से ही उसका यथार्थ परिचय होता है। परन्तु, विज्ञानवादी बौद्धों के मत में भावना का प्रकर्ष ही ही नहीं सकता। कारण, स्थिर पदार्थ में ही भावना का प्रकर्ष होता है, अस्थिर में नहीं। और उनके मत में भावना का आधार कोई भी स्थिर नहीं है। क्योंकि, उनके मत में सब कुछ ज्ञाणिक ही माना जाता है, स्थिर कुछ भी नहीं। आत्मा के भी प्रतिज्ञण मिथ्य-मिथ्य होने से ‘दुःखं ज्ञाणिकं’ इत्यादि भावना का प्रकर्ष इसमें असम्भव ही है। इसलिए, मोक्ष-सामग्री का अभाव उनके मत में सिद्ध होता है।

सामानाधिकरण की भी—उपरचि, इनके मत में नहीं होती। सामानाधिकरण का

शन स्वयं निवृत्त होता है। मिथ्या शन के नष्ट होने से प्रवृत्ति के कारण जो राग, द्वेष आदि दोष हैं, वे स्वयं निवृत्त हो जाते हैं; क्योंकि कारण के नाश होने से कार्य का नाश अवश्यम्भावी हो जाता है,—‘कारणनाशात् कार्यनाशः’ यह सर्वतन्त्र-सिद्धान्त है। दोष के नष्ट होने पर प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, और प्रवृत्ति के न होने से जन्म भी नहीं हो सकता; क्योंकि जन्म का कारण धर्माधर्म-रूप प्रवृत्ति ही है। जन्म का अपाय (नाश) होने से दुःख का भी आत्यन्तिक उच्छेद हो जाता है। इसी आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति का नाम अपवर्ग या मोक्ष है। आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति वही है, जहाँ सजातीय दुःखान्तर की उत्पत्ति होने की सभावना भी नहीं रहती। यही सिद्धान्त महर्षि गौतम का है—

‘दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिथ्याज्ञानानासु त्रोत्तरापायादपवर्गः।’

—गौ० स०, १११२

अर्थात्, दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या-शन—इनके उत्तरोत्तर के नाश से पूर्यन्पूर्व के नाश होने के कारण अपवर्ग होता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि दुःख के अत्यन्त उच्छेद का ही नाम अपवर्ग या मोक्ष है।

यहाँ यह आशङ्का होती है कि दुःख का अत्यन्त उच्छेद-रूप मोक्ष तो अभी तक अठिक्क है, पुनः इसके लिए उपाय की क्या आवश्यकता है? उत्तर यह होता है कि जितने मोक्षवादी आचार्य हैं, उनके मत में मोक्ष-दर्शा में दुःख का अत्यन्त उच्छेद होता है। जैसे—बौद्ध के एकदेशी माध्यमिकों के मत में आत्मोच्छेद को ही मोक्ष माना गया है। इस अवस्था में दुःख का आत्यन्तिक उच्छेद रहता ही है। इसमें कोई विवाद नहीं है। यदि ऐसा कहें कि शरीर के समान ही आत्मा भी दुःख का हेतु है, इसलिए आत्मा भी उच्छेद है, तो यह नैयायिकों से विरोध हो जाता है; क्योंकि नैयायिक आत्मा को अविनाशी मानते हैं, और इस तरह यह विनाशशील हो जाता है। इसलिए, वस्था-पुत्र के समान मोक्ष का अस्तित्व असम्भव ही हो जाता है। यही इस शङ्का का तात्पर्य है। परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि इसमें विकल्प का समाधान नहीं होता।

वैमाणिकों ने आत्मोच्छेद को ही मोक्ष माना है। वे शन-सन्तान को आत्मा मानते हैं। सन्तान का अर्थ प्रवाह होता है। प्रवाह जिस तरह प्रतिक्षण नयेन्ये लूपों में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार इनके मत में शन भी प्रतिक्षण नयेन्ये लूपों में उत्पन्न होता है। इसमें यह विकल्प होता है कि क्या आत्मा क्षणिक शन-सन्तान ही है, अथवा उससे भिन्न उसका आश्रय अन्य कोई? यदि शन-प्रवाह को ही आत्मा मान लें, तब तो कोई विवाद ही नहीं; क्योंकि आत्मोच्छेद का अर्थ शानोच्छेद ही होगा और मोक्षावस्था में शन का उच्छेद नैयायिकों का अभीष्ट ही है। मोक्षावस्था में सब प्रकार के शन का नाश होने से जीवात्मा की हितता पापाण-तुल्य रहती है, पर नैयायिकों का सिद्धान्त है। इस स्थिति में शन-सन्तान को आत्मा मानकर उसका उच्छेद मोक्ष में माध्यमिका मानना नैयायिकों के प्रतिकूल नहीं होता, इसलिए उसके खण्डन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि शन-प्रवाह के

आत्मा से भिन्न शरीर आदि में आत्म-बुद्धि का होना ही मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान से ही अनुकूल वस्तु में राग और प्रतिकूल में द्वेष उत्पन्न होता है। राग और द्वेष को ही दोष माना गया है। इसी दोष से प्रवृत्त होकर मनुष्य अपने शरीर के द्वारा हिंसा, चोरी आदि निषिद्ध कर्म का आचरण करता है, बचन से मिथ्या भाषण करता है और मन के द्वारा दूसरे से द्वोह आदि करता है। इसी पाप-प्रवृत्ति को अधर्म कहा जाता है।

मनुष्य शरीर से जो दान, पुण्य या दूसरे की रक्षा आदि पुण्य-कर्म करता है, मन के द्वारा सबकी भलाई करने की चेष्टा करता है, और किसी की बुराई नहीं चाहता, उसी पुण्यमय प्रवृत्ति को धर्म कहा जाता है। धर्म और अधर्म दोनों की संज्ञा 'प्रवृत्ति' है। यद्यपि धर्म और अधर्म प्रवृत्ति के साधन माने गये हैं, तथापि 'आयुर्वेद धृतम्', 'अग्नं वै प्राणिनः प्राणाः' इत्यादि व्यवहार के समान धर्म तथा अधर्म का प्रवृत्ति शब्द से सत्रकार ने व्यवहार किया है। इसी धर्माधर्मस्त्वपी प्रवृत्ति के अनुकूल मनुष्य प्रशस्त या निन्दित शरीर ग्रहण करता है। जबतक धर्माधर्मस्त्वपी प्रवृत्ति-जन्य संस्कार बना रहेगा, तबतक कर्मफल भोगने के लिए शरीर ग्रहण करना आवश्यक रहता है। शरीर ग्रहण करने पर प्रतिकूलवेदनीय होने के कारण बाधनात्मक दुःख का होना अनिवार्य रहता है। इसलिए, धर्माधर्मस्त्वपी कर्म में प्रवृत्ति के विना दुःख नहीं होता। मिथ्या ज्ञान से दुःख-पर्यन्त अविष्टेदेन निरन्तर प्रवर्त्तमान होता हुआ यहीं संसार शब्द का बाब्य होता है। यह घटी की तरह निरन्तर अनुवृत्त होता रहता है। प्रवृत्ति ही पुनः आवृत्ति का कारण होती है। प्रवृत्ति के विना पुनर्जन्म न होने के कारण दुःख की सभ्मावना भी नहीं रहती। इसलिए, कोई भी उस अवस्था में दुःख का अनुभव नहीं करता। फिर प्रवृत्ति होने से दुःख से छुटकारा भी नहीं पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि घटी की तरह पुनः-पुनः प्रवर्त्तमान दुःखमय इस संसार में कोई विरला ही भाग्यशाली मनुष्य है, जिसने पूर्यजन्म में मुकृत किया है, और उस सुकृत के परिपाकवश, सद्गुरु की कृपा और उनके उपदेश से संसार का असली रूप जानकर उसे हैय समझ लिया है तथा इस समस्त संसार को दुःखानुसक्त और दुःख के आयतन के रूप में देखता और समझता है। वह किसी प्रकार इससे छुटकारा पाना चाहता है और इसके मूल कारण अविद्या और राग, द्वेष आदि की निवृत्ति का उपाय खोजता है।

अविद्या की निवृत्ति का उपाय तत्त्व-ज्ञान ही है। वह तत्त्व-ज्ञान प्रमेयों की चार प्रकार की भावनाओं से किसी विरला ही मनुष्य को होता है। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा और विमाग, प्रमेयों को ये ही चार भावनाएँ हैं, अथवा दुःख, दुःखद्वेष, मोक्ष और उसका उपाय, ये ही चार प्रकार हैं। प्रकृत में ये ही चार मात्र हैं। दुःख तो प्रसिद्ध ही है। उसका ऐसु मिथ्या ज्ञानादि उकल संसार है।

### भोक्त, अपवर्ग या मुक्ति

दुःख के आत्मनितक उच्छेद का ही नाम मोक्ष है। इसका उपाय तत्त्व-ज्ञान है। तत्त्व-ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान स्वयं निवृत हो जाता है; वैसे, रजु के ज्ञान से सर्व का

शान स्वयं निवृत्त होता है। मिथ्या शान के नष्ट होने से प्रवृत्ति के कारण जो राग, द्वेष आदि दोष हैं, वे स्वयं निवृत्त हो जाते हैं; क्योंकि कारण के नाश होने से कार्य का नाश अवश्यम्भावी हो जाता है,—‘कारणानाशात् कार्यनाशः’ यह सर्वतन्त्र-सिद्धान्त है। दोष के नष्ट होने पर प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, और प्रवृत्ति के न होने से जन्म भी नहीं हो सकता; क्योंकि जन्म का कारण धर्माधर्म-रूप प्रवृत्ति ही है। जन्म का अपाय (नाश) होने से दुःख का भी आत्यन्तिक उच्छेद हो जाता है। इसी आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति का नाम अपवर्ग या मोक्ष है। आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति वही है, जहाँ सजातीय दुःखान्तर की उत्पत्ति होने की सम्भावना भी नहीं रहती। यही सिद्धान्त महर्षि गौतम का है—

‘दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः।’

—गौ० स०, १११२

अर्थात्, दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या-ज्ञान—इनके उत्तरोत्तर के नाश से पूर्व-पूर्व के नाश होने के कारण अपवर्ग होता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि दुःख के अत्यन्त उच्छेद का ही नाम अपवर्ग या मोक्ष है।

यहाँ यह आशङ्का होती है कि दुःख का अत्यन्त उच्छेद-रूप मोक्ष तो अभी तक असिद्ध है, पुनः इसके लिए उपाय की क्या आवश्यकता है? उत्तर यह होता है कि जितने मोक्षवादी आचार्य हैं, उनके मत में मोक्ष-दर्शा में दुःख का अत्यन्त उच्छेद होता है। जैसे—धौद के एकदेशी माध्यमिकों के मत में आत्मोच्छेद को ही मोक्ष माना गया है। इस अवस्था में दुःख का आत्यन्तिक उच्छेद रहता ही है। इसमें कोई विवाद नहीं है। यदि ऐसा कहें कि शरीर के समान ही आत्मा भी दुःख का हेतु है, इसलिए आत्मा भी उच्छेद है, तो यह नैयायिकों से विरोध हो जाता है; क्योंकि नैयायिक आत्मा को अविनाशी मानते हैं, और इस तरह वह विनाशशील हो जाता है। इसलिए, वन्ध्या-पुत्र के समान मोक्ष का अस्तित्व असम्भव ही हो जाता है। यही इस शङ्का का तात्पर्य है। परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि इसमें विकल्प का समाधान नहीं होता।

वैभाषिकों ने आत्मोच्छेद को ही मोक्ष माना है। वे शान-सन्तान को आत्मा मानते हैं। सन्तान का अर्थ प्रवाह होता है। प्रवाह जिस तरह प्रतिक्षण नये-नये रूपों में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार इनके मत में शान भी प्रतिक्षण नये-नये रूपों में उत्पन्न होता है। इसमें यह विकल्प होता है कि क्या आत्मा क्षणिक शान-सन्तान ही है, अथवा उससे भिन्न उसका आधय अन्य कोई? यदि शान-प्रवाह को ही आत्मा मान लें, तब तो कोई विवाद ही नहीं; क्योंकि आत्मोच्छेद का अर्थ शानोच्छेद ही होगा और मोक्षावस्था में शान का उच्छेद नैयायिकों का अभीष्ट ही है। मोक्षावस्था में सब प्रकार के शान का नाश होने से जीवात्मा की स्थिति पापाण्य-तुल्य रहती है, यह नैयायिकों का सिद्धान्त है। इस स्थिति में शान-सन्तान को आत्मा मानकर उसका उच्छेद मोक्ष में माध्यमिका मानना नैयायिकों के प्रतिकूल नहीं होता, इसलिए उसके खण्डन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि शान-प्रवाह के

अतिरिक्त उसका आधय आत्मा को मानें, तो भी उसमें यह विकल्प होता है कि आत्मा नित्य है, अथवा अनित्य ?

यदि नित्य मानते हैं, तो उसका उच्छ्रेद हो नहीं सकता; क्योंकि नित्य वही कहा जाता है, जिसका कभी विनाश न हो। इस स्थिति में आत्मा के उच्छ्रेद की आशङ्का दी नहीं हो सकती। यदि आत्मा को अनित्य माना जाय, तब तो मोक्ष के लिए किसी की प्रवृत्ति ही नहीं होगी; क्योंकि कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आत्मनाश के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता। संसार में सबसे प्रिय आत्मा ही होता है। श्रुति भी यही बताती है—‘आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति’। और, आत्मा को अनित्य मानने से यह लोक-प्रसिद्ध व्यवहार उपर्यन्त नहीं होता कि अमुक-अमुक मुक्त हो गये। इससे यह सिद्ध होता है कि मोक्षरूप धर्म के अतिरिक्त, उसका आधय धर्मी कोई अवश्य है, और वह नित्य है।

विज्ञानवादी वौद्धों का मत है कि धर्मी के निवृत्त होने से जिस निर्मल शान का उदय होता है, वही मोक्ष है। उनका कहना है कि शान तो स्वभाव से ही निर्मल और स्वच्छ है, केवल आधय—आत्मा—के सम्बन्ध से वह मलिन हो जाता है। आधय के निवृत्त हो जाने पर प्रतिक्षण निर्मल शान का उदय होता रहता है। वही ‘महोदय’ कहा जाता है और उसी का नाम ‘मोक्ष’ है। परन्तु, विज्ञानवादी का यह मत भी ठीक नहीं ज़िंचता। कारण, इसमें सामग्री का अभाव और सामानाधिकरण की अनुपपत्ति बनी ही रहती है। तात्पर्य यह है कि निर्मल शानोदय में चार प्रकार की भावनाएँ कारण होती हैं। ये ही महोदय की सामग्रियाँ हैं। ‘सर्वे दुःखे, सर्वे ज्ञाणिके’ सर्वे ख्वलज्ञर्ण, सर्वे शून्यम्—यही भावनाचतुष्टय नाम से प्रसिद्ध है। इसका विवेचन यूर्णतया बौद्ध दर्शन में किया गया है।

अब यहाँ विचारना है कि साधारणतया जायमान जो भावना है, वह अभिज्ञान की जनक नहीं होती है; किन्तु अतिशय जायमान जो भावना है, वह अभिज्ञान की जनक होती है। यथा, स्पष्ट लक्षण से रहित मणि को एक बार देखने ही से उसका यथार्थ परिचय नहीं होता, किन्तु चार-बार निरीक्षण-परोक्षण से ही उसका यथार्थ परिचय होता है। परन्तु, विज्ञानवादी वौद्धों के मत में भावना का प्रकर्ष ही ही नहीं सकता। कारण, स्थिर पदार्थ में ही भावना का प्रकर्ष होता है, अस्थिर में नहीं। और उनके मत में भावना का आधार कोई भी स्थिर नहीं है। क्योंकि, उनके मत में सब कुछ ज्ञाणिक ही माना जाता है, स्थिर कुछ भी नहीं। आत्मा के भी प्रतिक्षण भिन्न-भिन्न होने से ‘दुःखे ज्ञाणिक’ इत्यादि भावना का प्रकर्ष इसमें असम्भव ही है। इसलिए, मोक्ष-सामग्री का अभाव उनके मत में सिद्ध होता है।

सामानाधिकरण की भी उपपत्ति इनके मत में नहीं होती। सामानाधिकरण का तात्पर्य है—ददता और मुक्तता का एक आधय में रहना। जो बद होता है, वही मुक्त होता है, इस प्रकार की व्यवस्था, जो सर्वसिद्धान्त-सिद्ध है, वह इनके मत में नहीं बनती। कारण, इनके मत में सोपङ्ग शान-सन्तान-रूप आत्मा को बद और निष्पङ्ग शान-सन्तान-रूप आत्मा को मुक्त माना जाता है। आधय से सम्बद्ध

मलसंहित शान-प्रवाह का नाम सोपङ्कव है, और वही बद है। इससे भिज निष्पङ्कव अर्थात् मुक्त है। ये बदता सोपङ्कव शान-सन्तान में और मुक्तता निष्पङ्कव शान-सन्तान में मानते हैं। इसलिए, जो बद है, वही मुक्त होता है; इस प्रकार की व्यवस्था इनके मत में नहीं होती। कारण, चृण-बण में उसको ये भिज मानते हैं।

इसी प्रकार, जैनों का भी मुक्ति-लक्षण प्रतिवन्ध-रहित नहीं है। इनके मत में आवरण-भंग का ही नाम मुक्ति है। अब उनसे पूछना है कि आवरण कहते किसे हैं? यदि यह कहें कि धर्माधर्म की आन्ति ही आवरण है, तो यह इष्ट ही है, इसलिए खण्डनीय नहीं है। यदि यह कहें कि देह ही आवरण है, और इससे मुक्त होने पर पिंजड़े से मुक्त सुगों की तरह आत्मा का निरन्तर ऊर्ध्व-गमन ही मोक्ष है, तो उनसे पूछना है कि वह आत्मा मूर्त्त है अथवा अमूर्त? यदि मूर्त्त कहें तो यह प्रश्न होता है कि निरवयव है अथवा सावयव? यदि निरवयव कहें, तो निरवयव मूर्त्त परमाणु ही होता है, इसलिए परमाणु का लक्षण आत्मा में आ जाने से परमाणु-धर्म के अतीन्द्रिय होने के कारण आत्मा का धर्म भी अतीन्द्रिय होने लगेगा, जो किसी को इष्ट नहीं है। यदि सावयव मानें, तो भी ठीक नहीं होता। कारण, सावयव पदार्थ अनित्य होते हैं, इस नियम से आत्मा भी अनित्य हो जायगा। इस स्थिति में अकृताभ्यागम और कृतप्रणाश दोप हो जाते हैं। जिसने कर्म किया, यदि उसका फल उसको न मिले, तो यह कृतप्रणाश है और जो कर्म न करे और फल पावे, तो यह अकृताभ्यागम है। यह उचित नहीं है। उचित तो यह है कि जो कर्म करे, वही फल पावे। यह आत्मा के नित्य मानने में ही सम्भव है, अनित्य मानने में कदापि नहीं। इसलिए, सावयव या निरवयव—किसी के भी मानने में उनका मत ठीक नहीं होता। यदि आत्मा को अमूर्त मानें, तो भी ठीक नहीं होता; क्योंकि वे ऊर्ध्वगमनरूपी किया को मुक्तात्मा में मानते हैं, और किया मूर्त्त में ही हो सकती है, अमूर्त में नहीं।

चार्वाकों के मत में स्वतन्त्रता को ही मोक्ष माना गया है। यहाँ भी विचार करना है कि यदि दुःख-निवृत्ति को ही स्वातन्त्र्य माना गया हो, तो कोई विवाद नहीं है, इष्टापत्ति है। यदि स्वातन्त्र्य ऐश्वर्य को मानें, तो यह विचार का विषय होता है। विचारशीलों की दृष्टि से मोक्ष का स्वरूप वही है, जिसमें उत्तम कोई दूसरा सुख न हो और उसके उद्दश भी कोई न हो। इसी को निरतिशय और निष्पम कहते हैं। जीव का ऐश्वर्य निरतिशय कदापि नहीं हो सकता। सघ-कुछ होने पर भी जीवन-मरण के विषय में उसका स्वातन्त्र्य कभी नहीं हो सकता। निरतिशय सुख वही है, जिसके प्राप्त हो जाने पर दूसरी वस्तु की अभिलापा न हो। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाने पर भी किसी-न-किसी वस्तु की अभिलापा बनी ही रहती है। अतः, वह निरतिशय नहीं हो सकता। इसलिए, इनका मत भी ठीक नहीं है।

मुक्ति के विषय में सांख्य-यात्रा का मत है कि प्रकृति और पुण्य का विवेक-शान होने पर भी पुण्य का जो अपने स्वरूप में अवस्थान है, वही मुक्ति या मोक्ष है। समस्त जग-वर्ग का मूल कारण प्रकृति है। वह बह और विगुणात्मक भी है। इसीका नाम प्रधान या अव्यक्त मो है। पुण्य जीव को कहने हैं। इन दोनों के मेद-शान से ही मुक्ति

होती है। इस प्रकार, मुक्ति-स्वरूप मानने पर भी दुःख का उच्छ्रेद होता है। इसलिए, कोई विवाद नहीं। परन्तु, इसमें एक बात विचारणीय है कि उस विवेक-ज्ञान का आश्रय कौन है, प्रकृति अथवा पुरुष ? यदि प्रकृति को ही विवेक-ज्ञान का आश्रय मानें, तो इसी समय संसार का अस्त हो जाना चाहिए। क्योंकि, संसार प्रकृति का परिणाम है और निष्वर्त्तक मुक्ति-स्वरूप विवेक-ज्ञान प्रकृति में ही वर्तमान है। यदि पुरुष को विवेक-ज्ञान का आश्रय मानें, तो सांख्य का सिद्धान्त ही भङ्ग हो जाता है; क्योंकि पुरुष का जो मूल-स्वरूप से एकरूपतया अवस्थान है, उसी का नाश हो जाता है। संसार-दशा में विवेक के नाश होने और मुक्ति-दशा में विवेक होने के कारण समानलूपता भङ्ग हो जाती है। इसलिए, मुक्ति के विषय में सांख्य का सिद्धान्त ठीक नहीं है। यदि नैयायिकों का कहना है।

मीमांसिकों के मत में भी मोक्ष-काल में दुःख-निवृत्ति मानी ही जाती है। उनके मत में आत्यन्तिक सुख-प्राप्ति को मोक्ष माना जाता है। दुःख का लेश-मात्र रहने पर भी आत्यन्तिक सुख नहीं होता। इसलिए, आत्यन्तिक सुख में दुःख-निवृत्ति अवश्यम्भावी है। परन्तु, उनके मत में भी यह विचारणीय है कि नित्य-निरतिशय सुख में प्रमाण क्या है ? सांसारिक सुख तो प्रत्यक्ष और अनुमान-प्रमाण से, दुःख-स्थिति है, यह सिद्ध हो चुका है। यदि 'सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विषयिता' इत्यादि श्रुति-प्रमाणों से समस्त कामनाओं की प्राप्ति को ही आत्यन्तिक सुख माना जाय, वह भी ठीक नहीं होता। कारण, योग्य अनुपलब्धि से बाधित होने पर उसका अवकाश नहीं रहता। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ भूति से प्रतिपादित विषय प्रत्यक्ष या अनुमान से बाधित होने के कारण प्रतीत नहीं होता, वहाँ भूति का गौण ही अर्थ माना जाता है, सुख्य अर्थ नहीं। जैसे—'आत्मनः आकाशः सम्भूतः' इस श्रुति से आकाश की उत्पत्ति आत्मा से मानी गई है, परन्तु निरवयव होने के कारण प्रत्यक्ष या अनुमान से उसकी उत्पत्ति अस्तिद्ध है। इसलिए, 'सम्भूतः' का मुख्य अर्थ 'उत्पन्नः' न मानकर 'अभिव्यक्तः' यह गौण अर्थ ही माना जाता है।

इसी प्रकार, मोक्षावस्था में शरीर और इन्द्रिय के सम्बन्ध न होने के कारण सुख की उपलब्धि न होने से श्रुति का सुख-प्राप्ति-विषय बाधित हो जाता है। इच्छिप, यहाँ श्रुति का गौण अर्थ ही माना जायगा। सुख-प्राप्ति का गौण अर्थ मुख की अप्राप्ति का अमाव ही होगा। मोक्षकाल में शरीर और इन्द्रिय के सम्बन्ध न रहने से कोई कामना ही नहीं रहती। इस रिप्ति में, काम की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? इसलिए, उसका उक्त गौण अर्थ ही मानना समुचित है। एक बात यह भी है कि भूति में 'सह अश्नुते' यह पाठ है, जिसका अर्थ एक काल में साथ-साथ उपभोग करना है। सब इन्द्रियों से सब विषयों का एक काल में उपभोग असम्भव है। इसलिए श्रुति का गौण अर्थ मानना अनिवार्य है। इस विषय में नैयायिकों के उपर यह आदेष होता है कि मोक्ष के विषय में स्वयं मनुष्यों की अवचि रहती है। अतिशय सुख के लोम से ही किसी की प्रवृत्ति होती है। यदि सरस सुमधुर सुख-प्राप्ति को मोक्ष न मानकर नीरस दुःख-निवृत्ति को ही मोक्ष माना जाव, तो अवचि रीग से ग्रस्त

मनुष्य को सरस मधुर दूध छोड़कर नीरस पदार्थ देने के समान अरुचिकारक ही हो सकता है। इसलिए, सरस मधुर सुख-प्राप्ति को ही मोक्ष मानना समुचित है। इसके उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि केवल दृष्टान्त-मान्य से ही साध्य की सिद्धि नहीं होती। उसके लिए अनुकूल तर्क की आवश्यकता होती है। और, निरतिशय सुख-प्राप्ति में कोई भी अनुकूल तर्क नहीं है, बल्कि इसके विरोध में ही अनुकूल तर्क देखे जाते हैं। जैसे—इस संसार में जितने सुख पाये जाते हैं, सब सातिशय<sup>१</sup> हैं, निरतिशय<sup>२</sup> कोई भी नहीं। इसलिए निरतिशय सुख की प्राप्ति की आशा में बद मनुष्य को, उसके अभाव में, दुःख ही अवर्जनीय हो जाता है। सुख के अनुभव-काल में भी परिणाम की दृष्टि से दुःख ही प्रत्यक्ष होता है। पतञ्जलि ने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है—‘दुःखमेव सर्वं विवेकिनः’, और भी जितने सांसारिक सुख हैं, वे सुखविरोधी पदार्थों से आकान्त होने के कारण हैं हैं। सुख-साधन की जितनी सामग्रियाँ संसार में प्रसिद्ध हैं, उनकी प्राप्ति में अधिक-से-अधिक बलेश सहना पड़ता है। इसलिए, सिद्ध होता है कि समस्त सुख-दुःख से आकान्त है। मधुमिथित-विषय की तरह दुःख से मिथित सुख भी त्याज्य है। इसलिए, सुख के उद्देश्य से मोक्ष में किसी की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः, दुःख-निवृत्ति को ही मोक्ष मानना समुचित है।

### ईश्वर और उसकी सत्ता

ईश्वर के विषय में यह प्रश्न होता है कि उसकी सत्ता में प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष तो कह नहीं सकते; क्योंकि रूप आदि गुणों से रहित होने के कारण वह अतीन्द्रिय<sup>३</sup> माना जाता है और अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष होता नहीं, यह सर्व-सिद्धान्त है। अनुमान भी ईश्वर में प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि ईश्वर का साधक कोई व्याप्त लिङ्ग<sup>४</sup> नहीं है, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उपलब्ध हो। आगम<sup>५</sup> भी प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि इसमें विकल्प का समाधान नहीं होता। विकल्प यह होता है कि आगम नित्य है अथवा अनित्य। यदि नित्य कहें, तो अपसिद्धान्त हो जाता है। कारण, आगम वर्णसम्मूहात्मक ही होता है और वर्ण उच्चरित-प्रधानसी होने के कारण स्पष्ट ही अनित्य है। यह नैयायिकों का परम सिद्धान्त है। इसे नित्य मानने से सिद्धान्त के भंग हो जाने के कारण यह अपसिद्धान्त हो जाता है। यदि वेद को अनित्य मानें, तो परस्पराश्रय दोष हो जाता है। जैसे, वेद के अनित्य होने के कारण उसका प्रामाण्य उसके कर्त्ता के प्रामाण्य के अधीन होगा और उसके कर्त्ता ईश्वर का प्रामाण्य उसके बनाये हुए वेद के प्रामाण्य के अधीन होगा। इसलिए, परस्पर आभित होने से अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है। सादृश्य में नियत विषय होने के कारण उपमान मी ईश्वर में प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए, ईश्वर की सत्ता अप्रापाणिक है। यही पूर्वपक्षियों का तात्पर्य है। इसके उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि ईश्वर की सत्ता आवश्य है। यह प्रत्यक्ष-प्रमाण न होने पर भी अनुमान-प्रमाण आवश्य है। जितने कार्य हैं, उनका कर्त्ता कोई अवश्य होता है। यह कार्य-कारण-भाव का नियम है, पृथिवी, समुद्र और

१. अस्य। २. निस्ते बढ़कर कोई न ही। ३. जो शब्दों का विषय नहीं है। ४. हेतु। ५. वेद।

पर्वत आदि जो सुषिं-प्रपञ्च है, कार्य होने से उनका भी कर्त्ता कोई अवश्य होगा। जैसे, घट का कर्त्ता कुम्भकार होता है। इसलिए, जगत् का जो कर्त्ता होगा, वही ईश्वर माना जायगा। इसके अनुमान का स्वरूप इस प्रकार है—पृथिवी, सागर आदि की समष्टि (जगत्) (पञ्च), सकर्त्तृक है, कार्य (साध्य) होने से (हेतु); जो-जो कार्य होता है, वह सकर्त्तृक होता है (व्याप्ति); घट-पट आदि के समान (दृष्टान्त)। यहाँ प्रतिपक्षियों का यह आद्वेप है कि ईश्वर के साधन में जो कार्यत्व-हेतु दिया है, वह असिद्ध है; क्योंकि पृथिवी, समुद्र आदि की उत्पत्ति किसी ने नहीं देखी है। इसलिए, उत्पन्न न होने से ये कार्य नहीं हो सकते हैं। कार्य न होने से ये कारण (ईश्वर) के साधक किस प्रकार हो सकते हैं? इसके समाधान में नैयायिकों का कहना है कि यथापि पृथिवी, सागर आदि की उत्पत्ति किसी ने नहीं देखी है, तथापि सावयव होने के कारण इनकी उत्पत्ति सिद्ध है। इसलिए, वे कार्य हैं। और, कार्य होने से अपने कारण (ईश्वर) के साधक हैं। पृथिवी आदि के कार्यत्व-साधक अनुमान का प्रकार यही होगा। पृथिवी आदि समष्टि (जगत्) (पञ्च) उत्पन्न होनेवाला (साध्य) है, सावयव होने के कारण (हेतु), जो-जो सावयव होता है, वह कार्य होता (व्याप्ति) है। घट-पट आदि के समान (दृष्टान्त)। इस प्रकार सावयवत्व हेतु से जगत् का कार्यत्व सिद्ध हो जाने पर उसी कार्यत्व-हेतु से ईश्वर का अनुमान हो जाता है।

इसमें शङ्का होती है कि सावयवत्व का तात्पर्य क्या है? अवयवसंयोगित्व अथवा अवयवसमवेतत्व? संयोग-सम्बन्ध से रहनेवाले का नाम संयोगित्व है और समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाले का समवेतत्व। यदि सावयवत्व का तात्पर्य अवयवसंयोगित्व मानें, तो पटादि अवयवों के साथ आकाश का संयोग होने के कारण आकाश भी सावयव होने से कार्य होने लगेगा जो नैयायिकों का अभिप्रेत नहीं है। नैयायिक आकाश को नित्य मानते हैं, कार्य नहीं। यदि अवयवसंयोगित्व का अर्थ स्वावयव संयोगित्व, अर्थात् अपने अवयवों में संयोग-सम्बन्ध से रहनेवाला मानें, तो भी ठीक नहीं होता। कारण, अवयव और अवयवी के साथ समवाय-सम्बन्ध होता है, संयोग नहीं। ‘अवयवावयविनोः समवायः’, यह नैयायिकों का दिदान्त है।

यदि स्वावयवसंयोगित्व का अर्थ ‘अपने अवयवों के साथ जो परस्पर संयोग है, उसका आश्रय’ मानें, तो अवयवों के परस्पर-संयोग के आश्रय अवयव ही होते हैं, अवयवी नहीं; इसलिए दोष बना ही रहता है। इस दोष के बारण के लिए यदि सावयव का अर्थ अवयवसमवेत मानें, तो पटादि के अवयव जो तनु आदि हैं, उनमें समवाय सम्बन्ध से तनुव्यादि सामान्य भी रहते हैं, इसलिए वहाँ सावयवत्व लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। इसलिए, सावयवत्व लक्षण किसी प्रकार भी उक्त नहीं होता है, वह पूर्वपक्षी का तात्पर्य है।

इसके उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि सावयवत्व का अर्थ समवेतद्रव्यत्व होता है। आकाश का कोई अवयव न होने से वह समवेत नहीं होता। और, सामान्य-समवेत होने पर भी द्रव्य नहीं है, इसलिए सावयवत्व का लक्षण इन दोनों में नहीं घटता। अतएव, सावयवत्व-हेतु निर्दुष्ट होने से कार्यत्व का साधक हो सकता है।

अवान्तर-महत्व हेतु से भी जगत् के कार्य होने का अनुमान किया जा सकता है। अवान्तर-महत्व उसको कहते हैं, जिसमें परम महत्व न रहे और महत्व का आश्रय हो। परम महत्व उसको कहते हैं, जिससे बड़ा दूसरा कोई न हो, जैसे आकाश आदि व्यापक पदार्थ। पर्वत आदि में परम महत्व नहीं रहता। दूधणुक से लेकर पर्वत, सागर आदि समस्त अनित्य द्रव्यों में परम महत्व का अभाव ही रहता है। इसलिए, कार्यत्व-साधक अनुमान का स्वरूप इस प्रकार होगा—पर्वतादि सकल जगत् (पक्ष) कार्य है (साध्य), परम महत्वाभावयान् होने पर भी महत्व के आश्रय होने से (हेतु); घट आदि के सदृश (दृष्टान्त)। इस प्रकार जगत् का कार्यत्व सिद्ध कर, उसी कार्यत्व-हेतु से उसको सकर्तृक सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार, कार्यत्व-हेतु में कोई भी ऐत्याभास नहीं है। जैसे—

विश्व नाम का हेत्याभास इसलिए नहीं है कि साध्याभाव से व्याप्त जो हेतु है, वही विश्व कहा जाता है। प्रकृत में जहाँ-जहाँ कार्यत्व है, वहाँ-वहाँ सकर्तृकत्व रहता ही है, सकर्तृकत्व का अभाव नहीं रहता। इसलिए, साध्याभाव से व्याप्त न होने के कारण हेत्याभास नहीं है।

अनैकानितिक, जिसको सब्यभिचार कहते हैं, वह भी कार्यत्व-हेतु में नहीं है। साध्य के अभाव-स्थल में जो हेतु रहता है उसी को सब्यभिचार कहते हैं। प्रकृत में सकर्तृत्व-रूप साध्य के अभाव-स्थल जो नित्य परमाणु आदि है, उसमें कार्यत्व-हेतु नहीं रहता, इसलिए कार्यत्व-हेतु अनैकानितिक भी नहीं होता है।

कालात्ययापदिष्ट, जिसको बाधित भी कहते हैं, भी यहाँ नहीं है; क्योंकि कार्यत्व-हेतु किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होता।

सत्यतिपक्ष नाम का हेत्याभास भी यहाँ नहीं है। कारण, साध्य के अभाव का साधक जो हेत्यन्तर है, उसी को सत्यतिपक्ष कहते हैं। प्रकृत में पूर्वपक्षी शरीराजन्यत्व-हेतु से जो सकर्तृकत्व-रूप साध्य का अभाव सिद्ध कर शरीराजन्यत्व को सत्यतिपक्ष मानते हैं, वह ठीक नहीं है; क्योंकि कार्यत्व-हेतु के सामने शरीराजन्यत्व-हेतु अत्यन्त दुर्बल है। कारण, शरीराजन्यत्व जो हेतु है, उसमें अजन्यत्व-हेतु से ही अकर्तृकत्व के सिद्ध हो जाने से शरीर विशेषण लगाना निरर्थक हो जाता है, जिससे प्रयोक्ता का अशान ही सचित होता से। इसलिए, यह हेतु दुर्बल हो जाता है। जैसे, यिह का प्रतिपक्ष मृगशावक नहीं होता, उसी प्रकार शरीराजन्यत्व-हेतु कार्यत्व-हेतु का सत्यतिपक्ष नहीं हो सकता। यदि यह कहें कि 'अजन्यत्वात्' हेतु ही कार्यत्व-हेतु का सत्यतिपक्ष क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर यह होता है कि अजन्यत्व-हेतु को सत्यतिपक्ष तभी कह सकते हैं, जब जगत् का अजन्यत्व सिद्ध हो; परन्तु आजतक किसी प्रमाण से भी उसका अजन्यत्व सिद्ध नहीं हुआ है।

कार्यत्व-हेतु में उपाधि, जो हेतु के व्यभिचारी होने का अनुमापक होता है, की आशङ्का भी नहीं हो सकती। कारण, जो साध्य का व्यापक और साधन का व्याप्त है, वही उपाधि होता है। प्रकृत में सकर्तृकत्व-रूप साध्य का व्यापक और कार्यत्व-रूप हेतु का अव्यापक यदि कोई यस्तु हो, तो उपाधि की सम्भावना

हो सकती है, परन्तु ऐसी कोई वस्तु नहीं है। इसकी सम्भावना तभी हो सकती है, जब कार्यत्व-हेतु का कहीं व्यभिचार देखा गया हो। कार्यत्व का व्यभिचार तभी हो सकता है, जब सकतृक्त्व के अभाव-स्थल में भी कार्यत्व रहता हो, अर्थात् विना कर्ता के भी कोई कार्य उत्पन्न होता हो, परन्तु ऐसा कहीं भी नहीं होता। ‘यदि सकतृक्त्व न स्यात्तदा कार्यत्वमपि न स्यात्’, अर्थात् यदि सकतृक्त्व न हो, तो कार्यत्व भी नहीं हो सकता, इस अनुकूल तर्क से वह बाधित हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि कर्ता से जो उत्पन्न होता है, उसीको कार्य कहते हैं। यदि यह अकर्तृक होगा, तो कार्य भी नहीं होगा; क्योंकि समस्त कार्य का प्रयोक्ता कर्ता ही होता है। इतर जितने कारक हैं, वे कर्ता के ही अधीन हैं। मृत्तिका, दरड़, चक्र आदि साधनों के रहने पर भी कुलाल के विना घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि सब कारकों का प्रयोग करनेवाला कुलाल ही होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सकतृक्त्व के अभाव में कार्यत्व रहता ही नहीं। इसलिए, कार्यत्व-हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकता और उपाधि भी नहीं हो सकती। शास्त्रकारों ने भी लिखा है कि जहाँ अनुकूल तर्क रहता है, वहाँ उपाधि की सम्भावना नहीं होती—

‘अनुकूलेन तर्केण सनाध्ये सति साधने।  
साध्यत्वापक्ताभद्रात् पवे नोपाधिसम्भवः ॥’

तात्पर्य यह है कि अनुकूल तर्क से यदि हेतुयुक्त हो, तो उपाधि की सम्भावना नहीं रहती।

ईश्वर को कर्ता मानने पर पूर्वपक्षी दूसरा आदेष यह करते हैं कि यदि ईश्वर को कर्ता मानते हैं, तो उसकी शरीरी भी मानना आवश्यक हो जाता है; क्योंकि लोक में शरीरी को ही कर्ता देखा जाता है, अशरीरी आकाश आदि को नहीं। इस तर्क की सहायता से पूर्वपक्षी का ऐसा अनुमान होता है कि ईश्वर (पक्ष), जगत् का कर्ता नहीं होता (साध्य), अशरीरी होने के कारण (हेतु), आकाश के सदृश (दृष्टान्त)। यह अनुमान ईश्वर-सिद्धि के लिए प्रतिकूल है। परन्तु इस प्रकार का अनुमान ईश्वर की सिद्धि अथवा असिद्धि—दोनों अवस्थाओं में व्याहृत होता है; क्योंकि आगम आदि किसी प्रमाण के द्वारा ईश्वर को सिद्ध कर ही, ‘ईश्वर कर्ता नहीं हो सकता, अशरीरी होने से’, इत्यादि अनुमान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस अवस्था में जिस प्रमाण से ईश्वर को सिद्ध कर इस प्रकार अनुमान करते हैं, उसी प्रमाण से ईश्वर का जगत् का कर्ता होना भी सिद्ध होता है, ऐसी स्थिति में जगत् का कर्ता ईश्वर नहीं होता, ऐसा कहना बाधित हो जाता है, अतः व्याधात दोष हो जाता है।

यदि यह कहें कि आगम प्रमाण नहीं, किन्तु प्रमाणामात्र है, तो ईश्वर के सिद्ध न होने से ‘ईश्वरः जगत्कर्ता न भवति’, इस प्रकार का अनुमान पद्धारिद्वि नाम के दोष से दूषित हो जाता है। इसलिए, व्याधात हो जाता है। इस अवस्था में ईश्वर की सिद्धि या असिद्धि—दोनों हालत में प्रतिपक्षी का अनुमान बाधित होता है। इसलिए, पूर्वोक्त प्रतिकूल तर्क किसी प्रकार भी उचित नहीं होता।

अब दूसरा प्रश्न यह होता है कि जगत् की रचना करने में ईश्वर की जो प्रवृत्ति होती है, वह स्वार्थ है, अथवा परार्थ ? स्वार्थ मानने में भी दो विकल्प होते हैं— इष्ट-प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति है अथवा अनिष्ट-परिहार के लिए ? इष्ट-प्राप्ति के लिए तो कह नहीं सकते हैं; क्योंकि वह स्वयं परिपूर्ण और सकल कामनाओं को प्राप्त किया हुआ है। ऐसी कोई भी प्राप्ति करने योग्य वस्तु नहीं है, जो ईश्वर को प्राप्त नहीं है। अनिष्ट-परिहार के लिए भी प्रवृत्ति नहीं कर सकते; क्योंकि सकल इष्ट कामनाओं के प्राप्त होने के कारण अनिष्ट की सम्भावना ही नहीं है।

यदि परार्थ प्रवृत्ति मानें, तो भी नहीं बनता; क्योंकि परार्थ प्रवृत्तिवालों को कोई भी बुद्धिमान् नहीं मानता। यदि कहें कि करण से ही ऐसी प्रवृत्ति होती है, तो प्राणिमात्र को मुखी होना चाहिए, किसी को भी दुःखी नहीं होना चाहिए। कारण, स्वार्थ की अनपेक्षा से दूसरों के दुःखों के नाश करने की जो इच्छा है, उसी को करण कहते हैं। इस प्रकार, जगत् के निर्माण में ईश्वर की प्रवृत्ति उचित नहीं प्रतीत होती।

इसका उत्तर यह है कि भली भाँति विचार करने पर प्रतीत होता है कि करण से प्रवृत्ति मानने में कोई वाधक नहीं है। करण से प्रवृत्ति मानने पर सुखमय सुष्टि होनी चाहिए, यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि सज्जमान प्राणियों के सुकृत और दुष्कृत कर्म का जो परिपाक-विशेष है, उसके वैषम्य होने के कारण सुख और दुःख होना अनिवार्य हो जाता है। ईश्वर की जगत्सुष्टि में प्राणिकृत कर्म की अपेक्षा मानने में परावलम्बी होने के कारण ईश्वर का स्वातन्त्र्य भङ्ग हो जायगा—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि ‘स्वाङ्ग स्वस्य व्यवधायकं न भवति’ अर्थात्, अपना अङ्ग अपना व्यवधायक नहीं होता, इस न्याय से उसका निर्वाह हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोक में किसी अन्यारमण-प्रसंग में, अपने हस्त-पादादि अवयवों से व्यवधान नहीं माना जाता, उसी प्रकार यहाँ कर्म भी जगत् के अन्तर्गत ईश्वरकारित होने से ईश्वराङ्ग ही है। इसलिए, कर्म की अपेक्षा रहने पर भी ईश्वर परावलम्बी नहीं होता। स्वारब्ध जो कार्य है, उसका साधन भी स्वाधीन ही है। यह स्वातन्त्र्य का गौरव (उत्कर्ष) ही है। इसलिए, कर्मापेक्षा होने पर भी ईश्वर का स्वातन्त्र्य-भङ्ग नहीं होता।

### आगम-प्रमाण से ईश्वर-सिद्धि

आगम-प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि होती है। ‘एक एव सद्गुरु न द्वितीयोऽवतस्ये’ (तै० सं० १८६), ‘यावाभूमी जनयन् देव एकः’ इत्यादि थुतियाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण हैं। इन थुतियों का तात्पर्य यह है कि एक ईश्वर की ही सत्ता वर्तमान है, दूसरा कुछ नहीं, जो भी कुछ दूसरा देखा जाता है, वह उसी ईश्वर का कार्य है। यहाँ यह शब्द होती है कि यदि ईश्वर को आगम से सिद्ध करते हैं, तो ईश्वर और आगम में परस्पराभ्य दोष हो जाता है; क्योंकि आगम से ईश्वर की सिद्धि और ईश्वर से ही

आगम की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार, दोनों के परस्पर अपेक्षित होने से परस्पराश्रय होना अनिवार्य हो जाता है।

इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि यहाँ परस्पराश्रय का उत्थान नहीं होता। कारण यह है कि आगम ईश्वर के ज्ञान में कारण है, उत्पत्ति में नहीं। ईश्वर तो नित्य द्रव्य है। वह आगम की उत्पत्ति में कारण होता है। इस प्रकार, विषय-मेद होने से वह परस्परापेक्षा नहीं है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति में ईश्वर आगम की अपेक्षा नहीं रहता; वयोंकि वह नित्य है और नित्य होने के कारण स्वयं प्रमाण है। इसलिए, ईश्वर का प्रामाण्य भी उत्पत्ति में आगम की अपेक्षा नहीं रहता; वयोंकि ईश्वर स्वतः प्रमाण है। वह भी आगम की उत्पत्ति में ही कारण होता है, ज्ञान में नहीं। आगम का ज्ञान तो गुरु-परम्परा और अध्ययन से ही होता है। इसमें ईश्वर की अपेक्षा नहीं होती। जिस प्रकार घट की उत्पत्ति में कुम्भकार की अपेक्षा रहती है, परन्तु घट के ज्ञान में नहीं, इसी प्रकार आगम के ज्ञान में ईश्वर की अपेक्षा नहीं रहती। आगमवृत्ति के अनित्यत्व आदि धर्म के ज्ञान में भी ईश्वर की अपेक्षा नहीं होती। आगम के अनित्यत्व का ज्ञान तो कद्दु, तीव्र आदि धर्म से युक्त होने से ही हो जाता है। तात्पर्य यह है कि अर्थविशेषविशिष्ट शब्द-विशेष को ही आगम कहते हैं और कहीं-कहीं अर्थ में भी तीक्ष्णत्व आदि धर्म उपलब्ध होते हैं। शब्द में भी कर्णकदुत्व आदि धर्म लक्षित होते हैं। ये तीक्ष्णत्व, कदुत्व आदि धर्म अनित्यत्व के व्याप्ति भी हैं। अर्थात्, जहाँ-जहाँ तीक्ष्णत्व, कदुत्वादि धर्म हैं, वहाँ-वहाँ अनित्यत्व अवश्य रहता है। इस कारण आगम का अनित्य होना सिद्ध है। तीक्ष्णत्व, कदुत्व आदि जो धर्म हैं, वे ही आगम के अनित्य होने में शापक होते हैं। इसी कारण, प्रकृत में ईश्वर और आगम के परस्पराश्रित न होने से परस्पराश्रय नहीं होता है, अर्थात् विषय के मेद होने पर परस्पराश्रय दोष नहीं होता। जैसे—स्थल में नौका के कहीं अन्यत्र ले जाने में शकट (गाड़ी) की अपेक्षा रहती है और जल में शाकट को कहीं अन्यत्र ले जाने में नौका की अपेक्षा रहती है। दोनों (नौका और शकट) के परस्पर अपेक्षित रहने पर भी आधार-मेद होने के कारण परस्पराश्रय दोष नहीं होता। उसी प्रकार, आगम की उत्पत्ति में ईश्वर की अपेक्षा होने पर भी ज्ञान में उसकी अपेक्षा नहीं है। ईश्वर के ज्ञान में आगम की अपेक्षा होने पर भी उत्पत्ति में आगम की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार, विषय-मेद होने के कारण परस्पराश्रय दोष नहीं होता।

इसी प्रकार, ईश्वर-प्रामाण्य और आगम-प्रामाण्य भी परस्पराश्रय दोष नहीं होते, यह भी जान लेना चाहिए। न्याय-दर्शन में महर्षि गौतम का यही मत संक्षेप में लिखा गया है।



अध्याय में दो-दो आहिक हैं। एक दिन में एक 'आहिक' लिखा जाता था, इर्हीसे इसका नाम 'आहिक' रखा गया है।

दशाध्यायी के प्रथम अध्याय में समवेत उकल पदार्थों (द्रव्यादि) का विवेचन किया गया है। समवेत उसको कहते हैं, जो समवाय-सम्बन्ध से कहीं रहता है, या जिसमें समवाय-सम्बन्ध से कोई रहता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष, ये पाँचों पदार्थ समवेत कहे जाते हैं। वेवल समवाय ही समवेत नहीं कहा जाता; यद्योऽकि समवाय एक नित्य-सम्बन्ध है। इसके लिए समवायान्तर की कल्पना करने से अनवस्था दोष हो जाता है। समवाय के अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, वे सब समवाय-सम्बन्ध से अवश्य कहीं रहते हैं। द्रव्य अपने अवयवों में समवाय-सम्बन्ध से रहता है। गुण और कर्म भी द्रव्य में समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं। इसी प्रकार, सामान्य भी द्रव्य, गुण और कर्म—तीनों में समवाय-सम्बन्ध से रहता है। विशेष भी नित्य द्रव्यों में समवाय-सम्बन्ध से रहता है। यद्यपि आकाश तथा परमाणु निरवयव होने के कारण कहीं भी समवाय-सम्बन्ध से नहीं रहते, तथापि समवेत कहे जाते हैं; क्योंकि आकाश में शब्द और परमाणु में रूपादि समवाय-सम्बन्ध से रहते ही हैं।

समवाय से मित्र सुकल पदार्थ समवेत कहे जाते हैं। इन समवेत पदार्थों का विवेचन प्रथम अध्याय में किया गया है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहिक में जातिसान् द्रव्य, गुण एवं कर्म का निरूपण किया गया है और द्वितीय आहिक में जाति तथा विशेष का। द्वितीय अध्याय में द्रव्य का निरूपण किया गया। इसके प्रथम आहिक में भूत-विशेष का और द्वितीय आहिक में दिक् तथा काल का। तृतीय अध्याय के प्रथम आहिक में आत्मा का और द्वितीय आहिक में अन्तःकरण का निरूपण है। चतुर्थ अध्याय में शरीर और शरीर-विवेचन के उपयोगी परमाणु कारणत्व आदि का निरूपण है। पाँचवें अध्याय में कर्म का प्रतिपादन है। उसके प्रथम आहिक में दान और प्रतिग्रह का तथा द्वितीय आहिक में ब्रह्मचर्य, गार्हस्य, यानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों के उपयुक्त धर्मों का विवेचन है। इसी प्रकार, सातवें अध्याय में गुण और समवाय का प्रतिपादन है। उसके प्रथम आहिक में बुद्धि-निरपेक्ष जो रूप, रस आदि गुण हैं, उनका विवेचन है और द्वितीय आहिक में बुद्धि-सापेक्ष जो द्रित्व, परत्व, अपरत्व, पृथक्त्व आदि गुण हैं, उनका और समवाय का भी विवेचन है। अष्टम अध्याय में निविकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष-प्रमाण का विवेचन है। नवम अध्याय में बुद्धि-विशेष का और दशम अध्याय में अनुमान-भेद पर विचार किया गया है। इस प्रकार, कुल दस अध्यायों में द्रव्य आदि सुकल पदार्थ पूर्णरूपेण विवेचित हैं।

कणाद की मन्त्र-चनना की प्रक्रिया तीन प्रकार की है—उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। अर्थात्, पहले उद्देश्य, तत्पश्चात् लक्षण, तदनन्तर परीक्षा। इस प्रकार मन्त्र की समाप्ति-पर्यन्त आचार्य की शैली विवेचन-प्रधान रही है।

उद्देश्य का तात्पर्य यह है, नाम-मात्र से वस्तु का संकीर्तन। जैसे—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय—ये छह पदार्थ हैं। इस प्रकार, वस्तु का नाम-मात्र से निर्देशन कर देना ही उद्देश्य है। पदार्थों का साधारण ज्ञान होना, उद्देश्य का फल है।

असाधारण धर्म का नाम लक्षण है। जैसे—पृथिवी का असाधारण धर्म है गन्ध। यही पृथिवी का लक्षण हुआ। लक्षण का प्रयोजन है इतर-पदार्थ से भेद का ज्ञान कराना। जैसे—पृथिवी का लक्षण गन्धवत्त्व है। इसी से पृथिवी जलादि से भिन्न है। योकि, जलादि में गन्ध नहीं है।

लक्षित<sup>१</sup> का लक्षण युक्त है या नहीं—इस प्रकार के विचार का नाम परीक्षा है। लक्षण में दोष का परिहार परीक्षा का फल है।

अब प्रश्न यह है कि आचार्य ने पदार्थों का विभाग किया है, किर भी विभाग-सहित चार प्रकार की प्रवृत्तियों को तीन प्रकार की ही व्यों कहा? उत्तर यह है कि उद्देश्य दो प्रकार के हैं—सामान्य और विशेष। द्रव्य आदि छह पदार्थ हैं—यह सामान्य उद्देश्य है तथा पृथिवी आदि नव द्रव्य हैं; रूप, रूप आदि चौबीस गुण हैं—यह विशेष उद्देश्य है। इस प्रकार, विशेष उद्देश्य में ही विभाग का भी अन्तर्भुव हो जाने से विभाग की पृथक् प्रकार में गणना नहीं की गई।

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय—इस तरह पदार्थों का जो क्रम रखा गया है, उसका तात्पर्य यह है कि द्रव्य समस्त पदार्थों का आधय है। और धर्मों के ज्ञान के विना धर्म का ज्ञान मुलभ नहीं होता। धर्म-रूप मनुष्य का ज्ञान होने पर ही उसमें विद्यमान स्थूलता, कृशता-रूप धर्म का ज्ञान होता है। द्रव्यादि दृष्टि पदार्थों में द्रव्य से भिन्न गुणादि जो पर्याप्त पदार्थ हैं, उन सबका साक्षात् या परम्परया द्रव्य ही आधय होता है। गुण और कर्म का साक्षात् आधय द्रव्य ही होता है। व्योकि, द्रव्य से भिन्न पदार्थ में कहीं भी गुण-कर्म नहीं रहते। द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, पटत्व, पटत्व आदि जो सामान्य हैं, उनका भी साक्षात् आधय द्रव्य ही है। गुण-कर्म में विद्यमान जो गुणत्व, कर्मत्व-सामान्य है, उनका गुण और कर्म के द्वारा परम्परया द्रव्य ही आधय है। विशेष का भी साक्षात् आधय द्रव्य ही है। समवाय का कहीं साक्षात्, कहीं गुण, किया आदि के द्वारा परम्परया आधय द्रव्य ही होता है। इसलिए, द्रव्य का पहला स्थान है।

इसके बाद रूप आदि जो गुण हैं, वे द्रव्य के धर्म हैं। इसलिए, इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गुण और कर्म में भी गुण के सकल द्रव्य-वृत्तिवाला होने के कारण वह पहले आया और चूँकि, कर्म सब द्रव्यों में नहीं रहता, इसलिए उसका स्थान गुण के बाद रखा गया। आकाश, काल, दिक्, आत्मा—इन चार विसु-द्रव्यों में

१. विषय स्थान हिंदा जाता है, उसके 'लक्षित' और 'लक्षण' कहा जाता है।

२. सामान्य की जाति की रहते हैं।

कर्म नहीं रहता। इनमें भी यदि कर्म की स्थिति मानें, तो इसका व्यापकत्व नहीं हो सकता। यद्यपि उब गुण भी उब द्रव्यों में नहीं रहते, जैसे आकाश आदि में रूप, रस आदि नहीं हैं और पृथिवी में बुद्धि आदि नहीं है, तथापि कोई गुण प्रत्येक द्रव्य में अवश्य ही रहता है। जैसे—आकाश में शब्द और पृथिवी में गन्ध। इसलिए, सभी द्रव्य गुणों के आधार हैं, ऐसा माना जाता है। अतः, द्रव्य का गुणाभ्यात्म-रूप लक्षण भी सिद्ध होता है।

अब यहाँ प्रश्न है कि कणाद ने छह ही पदार्थ क्यों माने हैं? छह के अतिरिक्त भाव भी तो एक पदार्थ है, उसे क्यों नहीं माना गया? उत्तर यह है कि महापि कणाद ने यहाँ भाव-पदार्थ का ही विवेचन किया है। अभाव-पदार्थ का नहीं। अभाव यद्यपि पदार्थान्तर है, तथापि वह निषेध-विषयक बुद्धि का विषय है। जो निषेध-विषयक बुद्धि का विषय न हो, इस प्रकार के जो भाव-पदार्थ हैं, उन्हीं के लिए यह ‘षड्ब पदार्थः’—ऐसा नियम है।

अब यहाँ शङ्खा होती है कि ‘षड्ब’ में ‘एव’ शब्द से जिस पदार्थान्तर का निषेध किया जाता है, वह यथार्थ है या अयथार्थ? यदि यथार्थ है, तो उसका निषेध ही नहीं सकता। यदि अयथार्थ है, तो भी निषेध करना व्यर्थ है। क्योंकि, असत् पदार्थ का निषेध करना तो मूलिक-विषय और वन्द्या-पुञ्च आदि के निषेध के समान व्यर्थ ही है। इस अवस्था में असत्-पदार्थान्तर के निषेध के लिए जो ‘षड्ब’ में ‘एव’ शब्द का प्रयोग किया, वह भी तो निष्कल ही हो जाता है। परन्तु, इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि ‘षड्ब’ इस नियम से न तो केवल सप्तम का निषेध किया जाता है और न तो केवल भाव का ही। किन्तु, सप्तम भाव का निषेध किया जाता है। केवल सप्तम से अन्यकार की प्रतीति होती है, और केवल भाव से शक्ति और सादृश्य की प्रतीति होती है। यहाँ भाग्यः निषेध का प्रतिशेषी यथार्थ है। इसी की व्यावृत्ति के लिए ‘षड्ब’ यह नियम उपयन्त होता है। यद्यपि अन्यकार की प्रतीति सप्तमलप में नहीं होती है, तथापि वह भाव नहीं है, किन्तु तेज का अभाव-रूप अन्धकार है। इसी प्रकार शक्ति और सादृश्य की भी भावलप में प्रतीति होती है, परन्तु वे भी सप्तम नहीं हैं। क्योंकि, उनका उपर्युक्त छह पदार्थों (द्रव्य, गुण आदि) में ही अन्तर्भव ही जाता है। जैसे—शक्ति को पदार्थ इसलिए माना जाता है कि दाह का प्रतिवर्धक जो चन्द्रकान्त मणि है, उससे सम्बन्ध होने पर अग्नि को दाहकत्व-शक्ति उत्पन्न हो जाती है तथा मणि के संयोग के नष्ट होने पर दाहकत्व-शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार, शक्ति की उत्पत्ति और विनाश होने से शक्ति को भी कुछ लोगों ने पदार्थ माना है। पर, यह कणाद-सम्मत नहीं है। इनका कहना है कि दाह के प्रति अग्नि की जो कारणता है उसी का नाम शक्ति है। इनके मत में शक्ति कोई विशिष्ट पदार्थ नहीं है। और, कार्य-भाव के प्रति प्रतिवर्धक का अभाव कारण होता है। मणि के संयोग में प्रतिवर्धक का अभाव नहीं है। किन्तु, दाह का प्रतिवर्धक मणि विद्यमान है, इसलिए मणि-संयुक्त अग्नि दाह का कारण नहीं होती। इसलिए, इनके मत से शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना जाता।

इसी प्रकार, साधश्य भी इनके मत में पदार्थान्तर नहीं है ; क्योंकि, उससे भिन्न और उसमें रहनेवाले धर्म का नाम ही साधश्य है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं। इसलिए, उसका सप्तम पदार्थत्व सिद्ध नहीं होने से 'पडेव पदार्थोः' यह नियम संगत हो जाता है।

### द्रव्यादि के लक्षण

जो आकाश और कमल में समवाय-संबंध से रहता हो और नित्य हो और गंध में समवाय-संबंध से न रहता हो, वही द्रव्य का लक्षण है। जैसे—द्रव्यत्व पृथिवी आदि नवों द्रव्यों में समवाय-संबंध से है। आकाश और कमल में भी है। कमल भी पृथिवी के ही अन्तर्गत है, इसलिए उसमें भी द्रव्यत्व का रहना सिद्ध है, और जाति के नित्य होने से द्रव्यत्व जाति नित्य भी है। और, गन्धासमवेत<sup>१</sup> भी है। क्योंकि गन्ध गुण है और द्रव्यत्व केवल द्रव्य में ही रहनेवाला धर्म है। यह गुण में नहीं रहता। इसलिए, द्रव्यत्व के चार लक्षण सिद्ध होते हैं—आकाश-समवेत,<sup>२</sup> कमल-समवेत, गन्धासमवेत, और नित्य। यहाँ लक्षण-कोटि में आकाश-समवेत यदि न लिया जाय तो पृथिवीत्व में द्रव्य-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। क्योंकि, पृथिवीत्व नित्य और कमल-समवेत और गन्धासमवेत भी है। पृथिवीत्व का गन्ध के साथ समानाधिकरण<sup>३</sup> होने पर भी, गन्ध में पृथिवीत्व समवाय-संबंध से नहीं रहता। और, कमल में समवाय-संबंध से रहता है तथा नित्य भी है, अतः पृथिवीत्व में द्रव्य-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। इसलिए आकाश-समवेत का भी लक्षण-कोटि में निवेश करना चाहिए। इस स्थिति में अतिव्याप्ति<sup>४</sup> नहीं होती। क्योंकि, पृथिवीत्व केवल पृथिवी में ही रहता है, आकाश में नहीं रहता। यदि लक्षण में कमल-समवेत न कहें, तो आकाश में रहनेवाली जो एकत्व-संख्या है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाती है। क्योंकि, एकत्व-संख्या आकाश-समवेत है और नित्य भी है; क्योंकि नित्यगत संख्या नित्य ही होती है तथा गन्धासमवेत भी है। क्योंकि, गुण में गुण नहीं रहता, इस सिद्धांत से गन्ध में एकत्व नहीं रह सकता। क्योंकि, दोनों गुण ही हैं। यद्यपि कमल में एकत्व रहता है, परन्तु वह एकत्व आकाशगत एकत्व संख्या से भिन्न है। इसलिए, आकाशगत एकत्व-संख्या में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कमल-समवेत भी लक्षण में रखना चाहिए। यदि लक्षण में नित्यत्व न रखा जाय, तो आकाश और कमल दोनों में रहनेवाली जो द्वित्व-संख्या है, उसमें अतिव्याप्ति दोष हो जायगा। क्योंकि, आकाश और कमलगत द्वित्व-संख्या आकाश और कमल दोनों में समवेत है और गन्धासमवेत भी है। किन्तु, नित्य नहीं है। अपेक्षाबुद्धि से जन्य होने के कारण द्वित्वादि संख्या अनित्य ही होती है।

यदि लक्षण में गन्धासमवेतत्व विशेषण न दै, तो द्रव्य, गुण, कर्म—इन तीनों में रहनेवाली जो सत्ता-जाति है, उसमें द्रव्यत्व-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है; क्योंकि

१. जो गन्ध में समवाय-संबंध से नहीं रहे।

२. समवाय-संबंध से रहनेवाले का नाम समवेत है।

३. एक ही स्थान में रहनेवाला।

४. जिसका लक्षण न करते हों, उसमें भी लक्षण का चला जाना अतिव्याप्तिस्तोष कहलाता है।

उत्ता, आकाश और कमल दोनों में समवेत है और नित्य भी है। किन्तु, गन्धासमवेत नहीं है। क्योंकि, गन्ध में भी उत्ता समवाय-संबंध से रहती ही है। इसलिए, द्रव्य के लक्षण में गन्धासमवेत भी विशेषण देना आवश्यक है।

**गुणत्व-निरूपण—**समवायिकारणासमवेत और असमवायिकारण से भिन्न में समवेत तथा उत्ता की साक्षात् व्याप्ति जो जाति है, वही गुणत्व है। द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में रहनेवाली जो उत्ता-जाति है, उसके साक्षात् व्याप्ति द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व ये तीनों जातियाँ हैं। पृथिवीत्व, जलत्व आदि जाति द्रव्यत्वादि के साक्षात् व्याप्ति हीने पर भी उत्ता के साक्षात् व्याप्ति नहीं हैं। किन्तु, उत्ता के परम्परया (द्रव्यत्वादि के द्वारा) व्याप्ति है। गुणत्व उत्ता का साक्षात् व्याप्ति है और समवायिकारणासमवेत भी है। क्योंकि, समवायिकारण द्रव्य है, उसमें समवाय-संबंध से गुणत्व नहीं रहता। यद्यपि शुक्लादि गुण द्रव्य में समवाय रूप में रहते हैं तथापि गुणत्व केवल गुण में ही रहता है, द्रव्य में नहीं एवं असमवायिकारण से भिन्न में समवेत भी है, जैसे असमवायिकारण से भिन्न जो आत्म-विशेष गुण, ज्ञान आदि हैं, उनमें समवाय-संबंध से गुणत्व रहता है।

आत्मा के जो विशेष गुण ज्ञानादि हैं, वे किसी के प्रति असमवायिकारण नहीं होते। यदि गुण के लक्षण में असमवायिकारणासमवेत यह विशेषण न दें, तो द्रव्य में भी गुण-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी। जैसे—द्रव्यत्व जाति उत्ता के साक्षात् व्याप्ति और असमवायिकारण से भिन्न द्रव्य में समवाय-सम्बन्ध से रहती भी है। उक्त विशेषण रहने पर द्रव्यत्व में गुण-लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। क्योंकि, समवायिकारण जो द्रव्य है, उसमें गुणत्व समवाय-सम्बन्ध से रहता है।

यदि असमवायिकारणभिन्नसमवेत यह विशेषण गुण-लक्षण में न दिया जाय, तो कर्मत्व में गुण-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। क्योंकि, कर्मत्व उत्ता का साक्षात् व्याप्ति है और समवायिकारणासमवेत भी है। इसलिए, असमवायिकारण भिन्न समवेत भी गुण-लक्षण में देना आवश्यक है। उक्त विशेषण के देने पर अतिव्याप्ति नहीं होती। कारण यह है कि संयोग-विभाग के प्रति कर्ममात्र, असमवायिकारण है। असमवायिकारण से भिन्न कर्म होता ही नहीं।

यदि गुण-लक्षण में उत्ता साक्षात् व्याप्ति जाति यह विशेषण न दें, तो ज्ञानत्व में भी गुण-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। क्योंकि, समवायिकारण जो द्रव्य है, उसमें ज्ञानत्व समवाय-संबंध से नहीं रहता। इसलिए, समवायिकारणासमवेत है। और, असमवायिकारण से भिन्न जो ज्ञान है, उसमें समवेत यानी समवाय सम्बन्ध से रहता है। किन्तु, उत्ता का साक्षात् व्याप्ति ज्ञानत्व नहीं है, इसलिए उक्त विशेषण देने पर ज्ञानत्व में अतिव्याप्ति नहीं होती।

कहीं-कहीं गुण का लक्षण भिन्न प्रकार से भी किया गया है, जैसे समवायिकारण और असमवायिकारण में भिन्न में समवेत हो, और उत्ता का साक्षात् व्याप्ति हो, यही गुण का लक्षण माना गया है। द्रव्यत्व में यह लक्षण नहीं घटेगा। कारण यह है कि द्रव्यत्व

द्रव्य-भाव में ही समवेत है तथा द्रव्यमात्र समवायिकारण अवश्य होता है। द्रव्य-घटक ईश्वर भी 'जीवेश्वरी' यहाँ पर जीव और ईश्वरगत द्वित्व-संख्या के प्रति समवायिकारण होता ही है। क्योंकि, द्वित्व के प्रति अपेक्षाकुदि कारण है और 'अयमेकः अयमेकः इति इमी द्वौ' यही अपेक्षाकुदि का स्वरूप है।

**कर्मत्व—**जो नित्य पदार्थ ने समवाय-सम्बन्ध से न रहता हो और सत्ता का साक्षात् व्याप्त्य जाति हो, वही कर्मत्व है। द्रव्यत्व जाति सत्ता का साक्षात् व्याप्त्य होने पर भी नित्य द्रव्य जो आकाश, परमाणु आदि है, उनमें समवाय-सम्बन्ध से रहता है, अतः द्रव्यत्व में अतिव्याप्ति नहीं होती। इसी प्रकार, जलादि परमाणु में रहने-शाले जो रूपादि हैं और परमात्मगत जो नित्य शान है, उनमें गुणत्व जाति भी समवाय संबंध से रहती ही है। इसलिए, वहाँ भी अतिव्याप्ति नहीं है। और, कर्म तो कोई भी नित्य नहीं होता, इसलिए कर्मत्व-जाति नित्यासमवेत है; पर सत्ता का साक्षात् व्याप्त्य रूप कर्म-लक्षण का समन्वय हो जाता है।

**सामान्य—**सामान्य का लक्षण करते हुए महर्षि कणाद ने कहा है कि जो नित्य है और अनेक में समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाला है, वही सामान्य है। जैसे— गोल आदि।

**विशेष—**विशेष उषको कहते हैं, जो अन्योन्याभाव के विरोधी सामान्य से रहित समवेत अर्थात् समवाय-संबंध से नित्य द्रव्यों में रहनेवाला होता है। सामान्य-रहित यह विशेषण कहने से द्रव्य, गुण, कर्म की व्यावृत्ति हो जाती है। क्योंकि, द्रव्यादि जो पदार्थ हैं वे सामान्य से रहित नहीं हैं। किन्तु द्रव्यत्वादि सामान्य से युक्त ही हैं तथा समवेत विशेषण से समवाय की व्यावृत्ति होती है। समवायान्तर (दूसरा समवाय) न होने के कारण समवाय समवेत नहीं होता। अर्थात्, समवाय कहीं समवाय-संबंध से नहीं रहता। अन्योन्याभाव-विरोधी इस विशेषण से सामान्य की व्यावृत्ति होती है। यद्यपि सामान्य स्वतः ही सामान्य-रहित है, तथापि उषका सामान्य से रहित होना अन्योन्याभाव-विरोधी होने के कारण नहीं चिद होता। परन्तु, सामान्यान्तर के स्वीकार करने पर अनवस्था-दोष हो जाता है—अतः यह सामान्य से रहित होता है। यह बात विशेष में नहीं है; क्योंकि विशेष में यदि विशेषत्व-रूप सामान्य स्वीकार करें, तब तो विशेष में ही विशेषत्व का अभाव हो जाता है, जिससे इस दशा में रूप-द्वानि-दोष हो जायगा। न्यायसिद्धांत-मुक्तावली में भी आता है—

'अवत्तेरभेदसुल्पत्वं शङ्कोऽपानवस्थितिः ।

रूपहातिरसम्बन्धो जातियाधकसंग्रहः ॥"

**समवाय—**गुण, गुणी और जाति, व्यक्ति, तथा किया, क्रियावान् का जो सम्बन्ध है, वही समवाय है तथा यह नित्य सम्बन्ध है। इस प्रकार, छहों पदार्थों का संचेप में लक्षण दिया गया। अब क्रम-प्राप्त द्रव्यादि का विभाग और लक्षण किया जाता है।

द्रव्य नव प्रकार के होते हैं। पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन।

**पृथिवीत्व—पाकज़<sup>१</sup>** रूप के समानाधिकरण में रहनेवाला जो द्रव्यत्व के साक्षात् व्याप्ति जाति है, वही पृथिवीत्व है। तेज के संयोग से पृथिवी के जो रूप, रस आदि गुण हैं, उनकी परावृत्ति होती रहती है। जैसे—पके हुए आमादि फलों में तेज के संयोग से पूर्व हरित रूप का नाश और पीत रूप की उत्पत्ति होती है।

जलादि का रूप पाकज नहीं कहा जाता; क्योंकि तेज के कितना भी संयोग होने से उसका रूप नहीं बदलता। जल में उष्णता की जो प्रतीति होती है, वह उसमें प्रविष्ट सूख्म अश्विन-कणों की ही उष्णता है। जल का वस्तुतः स्पर्श तो शीतल ही है। पृथिवीत्व लक्षण में पाकज-रूप समानाधिकरण जो विशेषण दिया है, उससे जलादि की ही व्यावृत्ति होती है। जलत्वादि जाति द्रव्यत्व के साक्षात् व्याप्ति होने पर भी पाकज-रूप समानाधिकरण नहीं है। एक चात और भी विचारने योग्य है कि किसी जाति का लक्षण करना हो, तो उससे भिन्न जितनी जातियाँ हैं, उनकी व्यावृत्ति लक्षण में विचारान पदों के द्वारा ही करनी चाहिए। जातियाँ दो प्रकार की हैं—एक लक्ष्यभूत<sup>२</sup> जाति के समानाधिकरण और दूसरा, उसके व्यधिकरण। समानाधिकरण के दो भेद हैं—एक तदव्याप्ता और दूसरा तदव्यापिका।

पृथिवीत्व के लक्षण में पाकजरूप समानाधिकरण जो विशेषण दिया गया, उसके पृथिवीत्व के व्यधिकरण जो जलत्वादि जातियाँ हैं, उनकी व्यावृत्ति होती है। तथा द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्ति जो विशेषण दिया, उसके द्वारा व्याप्ता और व्यापिका ये दो प्रकार की समानाधिकरण जातियों की व्यावृत्ति होती है। जैसे—पृथिवीत्व की व्यापक जाति जो द्रव्यत्व और सत्ता है, वह द्रव्यत्व की व्याप्ति जाति नहीं है एवं पृथिवीत्व के व्याप्ति जो घटत्वादि जाति है, उसके द्रव्यत्व व्याप्ति जाति होने पर भी साक्षात् व्याप्ति नहीं है। इसलिए, उसके विशेषण से अन्य सभी की व्यावृत्ति हो जाती है।

**जलत्व**—जलत्व की परिभाषा में महायि कणाद कहते हैं कि जो अश्विन में नहीं रहता हो और सरित्, सागर आदि में समवाय-संबंध से रहता हो, वह जलत्व जाति है। यहाँ सरित्-समुद्र-समवेत विशेषण देने से जलत्व के व्यधिकरण पृथिवीत्व आदि की व्यावृत्ति हो जाती है; क्योंकि पृथिवीत्व आदि सरित्-सागर में समवेत नहीं है। इसी प्रकार, जलत्व के व्याप्ति जो सरित्, सागरत्व आदि हैं, उनकी व्यावृत्ति भी उसके विशेषण से हो जाती है। क्योंकि, सरित्व सागर-समवेत नहीं है और सागरत्व सरित्-समवेत नहीं है, और जलत्व के व्यापक जो द्रव्यत्व अथवा सत्ता-जाति है, उसका सरित्-समुद्र में समवेत होने पर भी अश्विन में समवेत न होने से उसकी भी व्यावृत्ति हो जाती है।

**तेजत्व**—जो सामान्य (जाति) चन्द्र और सुवर्ण में समवाय-संबंध से रहता हो और जो जल में न रहता हो, उसे 'तेजत्व' कहते हैं। पृथिवीत्व की व्यावृत्ति के लिए

१. तेज के संयोग से उत्पन्न का नाम 'पाकज' है।

२. लक्ष्य, यानी जिसका लक्षण करते हैं।

चन्द्र-मुखर्ण-समवेत विशेषण दिया गया। पृथिवीत्व चन्द्र और मुखर्ण में नहीं रहता, इसलिए उसकी व्यावृत्ति होती है। जलत्व-जाति सलिलासमवेत नहीं है। इससे उसकी भी व्यावृत्ति होती है।

**वायुत्व**—जो त्वगिन्द्रिय में समवाय-सम्बन्ध से रहता हो और द्रव्यत्व का साक्षात् व्याप्त हो, वही वायुत्व की परिभाषा है। आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व—ये द्रव्यत्व में भिन्न कोई जाति नहीं हैं; क्योंकि ये सब एकमात्र वृत्ति हैं। अनेक में जो समवेत हो और नित्य हो, उसी को जाति माना गया है। आकाश, काल और दिक्—ये पारिमापिक संशार्दें हैं।

**आकाशत्व**—संयोग से अजन्य जो अनित्य विशेष गुण है, उसका समानाधिकरण जो विशेष है, उसीके आश्रय का नाम आकाश है। विशेष नित्य द्रव्यों में अवश्य रहता है और आकाश मी नित्य द्रव्य है, अतः आकाश में भी कोई विशेष गुण अवश्य रहता है, यह मानना होगा। आकाश में विशेष गुण-शब्द तो रहता होता है। अतः, एकही अधिकरण में रहने से शब्द का समानाधिकरण भी विशेष होता है तथा शब्द अनित्य होने से जन्य भी है। क्योंकि, कणाद के मत में विभागज और शब्दज दो ही प्रकार के शब्द माने गये हैं, वे संयोगज शब्द को नहीं मानते। इसलिए, शब्द संयोगाजन्य भी इनके मत में सिद्ध होता है। यहाँ विशेषाधिकरण लक्षण करने से दृग्यणुक और दृग्यणुक जो अनित्य द्रव्य हैं, उनकी और गुण, कर्म आदि की भी व्यावृत्ति सिद्ध होती है। क्योंकि, विशेष नित्य द्रव्य में ही रहनेवाला होने के कारण दृग्यणुक आदि में नहीं रहता। और, पृथिवी परमाणु में रहनेवाले जो रूपादि विशेष गुण हैं, वे यद्यपि जन्य हैं, तथापि संयोगाजन्य नहीं हैं। कारण यह है कि पृथिवी-परमाणुगत रूपादि भी 'पाकज' होते हैं तथा तेज के संयोग का ही नाम 'पाक' है। अतः, पृथिवी-परमाणुगत रूपादि संयोग-जन्य ही हैं, न कि संयोगाजन्य। जल, तेज, वायु के परमाणुगत जो विशेष गुण हैं, वे जन्य नहीं हैं, इसलिए उनकी भी व्यावृत्ति होती है। दिक्, काल और मन में कोई विशेष गुण नहीं है, अतः इनका भी निराप होता है तथा परमात्मा में रहनेवाले जो बुद्धि आदि विशेष गुण हैं, वे जन्य नहीं हैं। जीवात्मा में रहनेवाले जो बुद्ध्यादि गुण हैं, वे जन्य होने पर भी संयोगाजन्य नहीं हैं। क्योंकि, जीवात्मगत गुण मनःसंयोग से जन्य ही है। अतः आकाश ही ऐसा बचता है, जिसमें पूर्वोक्त लक्षणों का पूर्ण समन्वय होता है। 'शब्दगुणकम्' यही आकाश का पूर्ण लक्षण हो सकता है। अर्थात्, जिसमें शब्द-मात्र ही एक विशेष गुण हो। आकाश का शब्दगुणक लक्षण से ही सबकी व्यावृत्ति हो जाती है। पूर्वोक्त विशद लक्षण के बल बुद्धि-पैशद्य के लिए भी आचार्यों ने किया है।

**कालत्व**—विभु और दिक् में असमयेत जो परत्व है, उसका जो अथमवायिकारण है, उसका जो अधिकरण है, वही काल है। अर्थात्, दिक् में समवाय-सम्बन्ध से नहीं रहनेवाला परत्व का आधारभूत जो विभु पदार्थ है, उसी को 'काल' कहते हैं।

परत्व दो प्रकार का होता है—एक समीपस्थ वस्तु की अपेक्षा दूरस्थ वस्तु में रहनेवाला, दूसरा कनिष्ठ की अपेक्षा ज्येष्ठ में रहनेवाला। जैसे—पहले का उदाहरण

पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग पर है, अर्थात् दूरस्थ है। पर प्रयाग की भी अपेक्षा काशी अपर या समीपस्थ है। इस परत्व और अपरत्व में दिक् और वस्तु (काशी आदि) का संयोग ही असमवायिकारण है। यह संयोग दिक्-समवेत, अर्थात् दिशा में समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाला है तथा परत्व में भी रहता है। ज्येष्ठ में कालकृत परत्व है। जैसे—लक्ष्मण की अपेक्षा राम पर। यहाँ काल और वस्तु का संयोग असमवायिकारण है। यह दिक् में असमवेत और काल में समवेत है।

संयोग दो पदार्थों में रहनेवाला है; अतः संयोग द्विष्ट कहलाता है, यद्यपि यह संयोग द्विष्ट होने से ज्येष्ठ रासादि में भी रहता है, तथापि 'विशुद्धे सति' यह विशेषण देने से उसको व्यावृत्ति हो जाती है। यहाँ परत्व विशेषण न देने से आकाश और आत्मा में भी अतिव्याप्ति हो जाती है। क्योंकि, दिक् में असमवेत असमवायिकारण जो शब्द और शब्द है, उनका अविकरण आकाश और आत्मा ही है और विशु भी है। अतः, अतिव्याप्ति दोष-वारण के लिए परत्व विशेषण दिया गया।

परत्व का असमवायिकारण काल-वस्तु-संयोग की तरह दिक्-वस्तु-संयोग भी है। दिक्-वस्तु-संयोग में समवाय-सम्बन्ध से रहता ही है, इसीसे दिक् समवेत ही है, असमवेत नहीं। इसीलिए, 'दिक्-समवेत' यह विशेषण दिक् में अतिव्याप्ति-वारण के लिए दिया गया है।

दिक्-त्व—विशेष गुण से रहित और काल से भिन्न जो महत् पदार्थ है, वही दिक् है। यहाँ कारण-भिन्न कहने से काल में अतिव्याप्ति नहीं होती। विशेष गुण से रहित-विशेषण देने से आकाश और आत्मा में अतिव्याप्ति नहीं होती। क्योंकि, ये विशेष गुण से युक्त ही हैं। मन में अतिव्याप्ति-वारणार्थ महत् विशेषण दिया गया है।

आत्मत्व—आत्मा की परिभाषा करते हुए महर्षि कणाद ने कहा है कि मूर्त्त पदार्थ से भिन्न द्रव्यत्व में जो व्याप्त जाति है, वही आत्मत्व है। पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन—ये ही मूर्त्त पदार्थ हैं। एक व्यक्ति-मन में रहने के कारण ही आकाश जाति नहीं होता। अतः, मूर्त्त में असमवेत द्रव्यत्वव्याप्त-जाति ही आत्मत्व-जाति हो सकती है।

मनस्त्व—जो द्रव्य का समवायिकरण न हो, ऐसा जो अणु पदार्थ है, उसमें रहनेवाली जो द्रव्यत्व की व्याप्त-जाति है, वही मनस्त्व है। आत्मा विशु है, अणु नहीं; इसलिए मन की व्यावृत्ति होती है।

## गुण के भेद

वैशेषिकों मत में चौबीस प्रकार के गुण माने गये हैं—स्प, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, तुलि, सुख, दुःख, इच्छा, देघ, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, अदृष्ट (धर्म, अधर्म) और शब्द।

स्पादि शब्दों के स्पत्व आदि जाति ही लक्षण हैं। यथा, नील जो स्पविशेष है, उसमें समवेत जो गुणत्व के साकात् व्याप्त-जाति है; वही स्पत्व है। यहाँ नीलसमवेत

विशेषण देने से रसत्वादि जाति में रूपलक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। क्योंकि, रसत्वादि जाति नीलसमवेत नहीं है। सत्ता जाति यथपि नीलसमवेत है, परन्तु वह गुणत्व के व्याप्ति नहीं है। अतः, उसमें भी अतिव्याप्ति नहीं होती। क्योंकि, नीलत्व गुणत्व का साक्षात् व्याप्ति नहीं है। अतः, स्प का नीलसमवेत गुणत्व के साक्षात् व्याप्ति जाति—यद्युलक्षण निर्दोष होता है। इसी प्रकार रसादि के लक्षण में भी स्वयं-विचार करना चाहिए। यथा, मधुरसमवेत जो गुणत्व की साक्षात् व्याप्ति-जाति है, वही रसत्व का लक्षण होती है। विशेषणों की सार्थकता (पदकृत्य) पूर्ववत् समझ लेना चाहिए।

**कर्म—कर्म पाँच प्रकार के होते हैं—उत्तेपण, अपत्तेपण, आकुञ्जन, प्रसारण, और गमन। अमण, रेचन आदि जो भी कर्म देखे जाते हैं, उन सबका अन्तर्माव गमन में हो जाता है। यथा—**

**'अमणं रेचनं स्यन्दनोदूध्यं वज्ज्ञामेव च ।**

**तियं गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥'** (कारिकावली)

ऊपर की ओर वस्तु का जो संयोग होता है, उस संयोग के असमवायिकारण तथा उसमें समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाली जो द्रव्यत्व-व्याप्ति जाति है, उसे ही उत्तेपण कहते हैं। इसी प्रकार अधोदेश के संयोग का जो हेतु है, वही अपत्तेपण है। बटोरने (समेटने) का जो हेतु है, उसे आकुञ्जन; और पसारने के हेतुविशेष कर्म को ही प्रसारण कहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कर्म गमन हैं।

**सामान्य—सामान्य** दो प्रकार के हैं : परस्यामान्य और अपरस्यामान्य। द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाली जो सत्ता है, उसीको परस्यामान्य कहते हैं। द्रव्यत्व, गुणत्व आदि अत्यन्तेश्वर में रहनेवाली जो व्याप्ति-जाति है, उसीको अपरस्यामान्य कहते हैं।

**विशेष सामान्य—विशेष** अनेत्र प्रकार का होता है और समवाय एक ही प्रकार का है। अतः, इनका विभाजन सूत्रकार ने भी नहीं किया।

द्वित्वादि संख्याओं की उत्पत्ति के प्रकार—द्वित्व-संख्या, पाकज-उत्पत्ति, और विभागज-विभाग के विषय में वैशेषिकों का विशेष आम्रह रहता है। आचार्यों ने भी लिखा है—

**'द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे ।**

**पर्य न स्वलिता प्रश्ना तं द्यै वैशेषिकं विदुः ॥'**

द्वित्व की उत्पत्ति किस प्रकार और किस रूप में होती है, इस विषय में पहले भीमांशकों का गिर्दांत दिलाया जाता है—जब दो घट परस्पर एक स्थान पर सन्तुष्टि होते हैं, तब उस समय द्वित्व-संख्या की उत्पत्ति होती है। इसके बाद इन्द्रियसंज्ञिकर्य होने पर, 'अयमेकः अयमेकः' इस प्रकार की अपेक्षाकुद्धि होने पर द्वित्व का शन होता है। अतः, अपेक्षाकुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति नहीं होती, यत्किं द्वित्व का शन ही होता है, यद्युलीमांशकों का मत है। ये लोग अपेक्षाकुद्धि को द्वित्व का उत्पादक नहीं, यत्किं व्यंजक-

मात्र मानते हैं। और, जब दोनों घट वियुक्त हो जाते हैं, तब द्वित्व का नाश हो जाता है। इसी प्रकार, त्रित्व आदि संख्याओं की उत्पत्ति और नाश के विषय में भी भीमांसकों का मत समझना चाहिए। वैशेषिकों का मत इससे विपरीत है। इनका कहना है कि अश्वात द्वित्व की उत्पत्ति मानना निरर्थक है। अतः, अपेक्षाबुद्धि ही द्वित्व की उत्पादिका है, अभिव्यजिका नहीं। इस अवस्था में इन्द्रिय और विषयों के सम्बन्ध होने के बाद संस्कार उत्पन्न होने तक आठ ज्ञाण लगते हैं। प्रथम ज्ञाण में इन्द्रिय का घटदृश्य के साथ सम्बन्ध होता है। द्वितीय ज्ञाण में एकत्व सामान्य का ज्ञान होता है। तृतीय ज्ञाण में 'अथमेकः अथमेकः' १ इस प्रकार की अपेक्षाबुद्धि होती है। चतुर्थ ज्ञाण में द्वित्व संख्या की उत्पत्ति और पञ्चम ज्ञाण में द्वित्वत्व-सामान्य (जाति) का ज्ञान होता है। तथा पठ ज्ञाण में द्वित्व-संख्या का ज्ञान होता है। सप्तम ज्ञाण में ये दो घड़े हैं, इस प्रकार द्वित्व-संख्याविशिष्ट दो घट-व्यक्ति का ज्ञान होता है। अष्टम ज्ञाण में उस ज्ञान से आत्मा में संस्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष २ के बाद से संस्कारार्थन्त की उत्पत्ति में कुल आठ ज्ञाण लगते हैं। और, पूर्व-पूर्व की उत्पत्ति, उत्तरोत्तर की उत्पत्ति में कारण होती है, यह सिद्ध होता है। इसी उत्पत्तिन्कम को आचार्यों ने लिखा है—

‘आदाविन्द्रियसञ्जिकपंघटनादेकत्वसामान्यधी  
रेकत्वोभयगोचरामतिरतो द्वित्वं ततो जायते ।  
द्वित्वत्वश्रमितिस्ततोऽनुपरतो द्वित्वप्रमानन्तरम्  
द्वे द्वये हृति धोरियं निगदिता द्वित्वोदयप्रक्रिया ॥’

यही द्वित्वादि के उदय में प्रक्रिया है।

भीमांसकों और वैशेषिकों में मतभेद यही है कि अपेक्षाबुद्धि द्वित्व की अभिव्यजिका है या उत्पादिका। जैसा कउपर कहा जा चुका है कि भीमांसक अपेक्षाबुद्धि को द्वित्व का अभिव्यंजक-मात्र मानते हैं और वैशेषिक उत्पादक-मात्र। नैयायिकों का कहना है कि अपेक्षाबुद्धि द्वित्व की उत्पादिका भी हो सकती है। कारण यह है कि जहाँ व्यञ्जकत्वाभाव से सहकृत अपेक्ष्यमाण रहता है, वहाँ उत्पादकत्व भी रहता है। यथा शब्द से अपेक्षित करठ, तालु आदि स्थानों में जो वायुन्संयोग है, वह शब्द का उत्पादक भी होता है। इसी प्रकार, द्वित्व की उत्पत्ति में भी अपेक्षाबुद्धि अपेक्षित है और व्यञ्जकत्वाभाव सहकृत भी है। अतः, अपेक्षाबुद्धि द्वित्व की उत्पादिका हो सकती है। यही नैयायिकों का सिद्धान्त है।

वैशेषिकों का कहना है कि अपेक्षाबुद्धि द्वित्व की उत्पादिका भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि, इससे तो अपेक्षाबुद्धि द्वित्व की अभिव्यजिका भी सिद्ध हो जाती है, जो अभीष्ट नहीं है।

द्वित्वादि अपेक्षाबुद्धि के व्यंग्य हो ही नहीं सकते, अपितु जन्य ही होते हैं। इसमें अनुमान का स्वरूप ऐसा है कि द्वित्व, त्रित्व आदि संख्या (पक्ष) अपेक्षाबुद्धि का

१. 'एक यद, एक यह', इसीको अपेक्षाबुद्धि भी कहते हैं। २. सम्बन्ध।

ब्यंग्य नहीं है ( साध्य ); द्वित्व, त्रित्व आदि संख्याओं के अनेकांशित होने के कारण ( हेतु ) जो-जो अनेकांशित गुण हैं, वे अपेक्षा-बुद्धि के ब्यंग्य नहीं होते ( व्याप्ति ) । जैसे, पृथक्त्व आदि गुण ( दृष्टान्त ) । यही अनुमान के स्वरूप है ।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पृथक्त्व आदि गुण अनेक द्रव्यों में आंशित होने के कारण अपेक्षा-बुद्धि के ब्यंग्य नहीं होते, इसी प्रकार द्वित्व आदि भी अनेक में आंशित होने से अपेक्षा-बुद्धि के ब्यंग्य नहीं हो सकते । इससे सिद्ध हो जाता है कि अपेक्षा-बुद्धि द्वित्व आदि की उत्पादिका ही होती है, ब्यंजिका नहीं ।

## द्वित्वादि-निवृत्ति-प्रकार

पूर्व में हन्दिय और विषयों के साथ सम्बन्ध होने में संस्कार की उत्पत्ति-पर्यन्त जो आठ ज्ञण दिखाये गये हैं, उनमें तृतीय ज्ञण उत्पन्न होनेवाली जो अपेक्षा-बुद्धि है, वह अपने से उत्तर चतुर्थ ज्ञण में द्वित्व का उत्पादन और द्वितीय ज्ञण में उत्पन्न एकत्व-ज्ञाति-ज्ञान का नाश भी करती है, इसी प्रकार पञ्चम ज्ञण में उत्पन्न होनेवाला जो द्वित्वत्त्व-ज्ञान है, वह अपने से उत्तर पष्ठ ज्ञण में द्वित्व-संख्या-ज्ञान को उत्पन्न करता है और तृतीय ज्ञण में उत्पन्न होनेवाली अपेक्षा-बुद्धि का नाश भी करता है । सप्तम ज्ञण, अर्थात् जिस ज्ञण में 'दो घट' इस आकार का द्रव्य-ज्ञान होता है, चतुर्थ ज्ञण में उत्पन्न जो द्वित्व-संख्या है, उसका नाश करता है; वयोंकि द्वित्व-संख्या के कारणीभूत जो अपेक्षा-बुद्धि है, उसकी निवृत्ति पहले ही हो चुकी है । इसी प्रकार, सप्तम ज्ञण उत्पन्न होनेवाला जो 'दो घट' इस आकार का द्रव्य-ज्ञान है, वह अपने से उत्तर अष्टम ज्ञण में ज्ञाता में संस्कार उत्पन्न करता है और पष्ठ ज्ञण में उत्पन्न द्वित्व-संख्या-ज्ञान को नष्ट भी करता है । इसी प्रकार, अष्टम ज्ञण में संस्कार की उत्पत्ति-काल में 'दो घट' इस द्रव्य-बुद्धि का भी नाश हो जाता है । इसी नाश-प्रक्रिया को संस्कृत के दर्शन-प्रन्थों में दिखाया गया है । जैसे—

'आदावपेक्षाबुद्धया हि नश्येदेकत्वज्ञातिधीः ।

द्वित्वोदयसमं पश्चात् सा च तज्जातिवृद्धितः ॥

द्वित्याखयगुणाणीकाले ततो द्रव्यं निवर्त्तते ।

अपेक्षाबुद्धिनाशेन द्रव्यधीजन्मकालतः ॥

गुणबुद्धिदंष्यबुद्धया संस्कारोत्पत्तिकालतः ।

द्रव्यबुद्धिश्च संस्कारादिति नाशकमो भतः ॥'

विवादास्पद जो ज्ञान है ( पच्च ); वह उत्तरोत्तर कार्य से नाश्य होता है ( साध्य ); विमु-द्रव्य के ज्ञातिक विशेष गुण होने के कारण ( हेतु ); विमु ( व्यापक )-द्रव्य के जितने ज्ञातिक विशेष गुण हैं, वे सब उत्तरोत्तर काल में अपने कार्य के नाश्य होते हैं ( व्याप्ति ) ; जैसे, आकाश का विशेष ज्ञातिक-गुण शब्द ( दृष्टान्त ) । तात्पर्य यह है कि विमु-द्रव्य जो आकाश है, उसका विशेष-गुण जो शब्द है, वह अपने द्वितीय ज्ञण में अपने सहश शब्दान्तर को उत्पन्न करता है और उसी ज्ञण में नष्ट भी हो जाता है, अर्थात् कार्यभूत शब्द के उत्पन्न होने से कारणभूत शब्द का विनाश

हो जाता है। यही कारणभूत और कार्यभूत शब्दों का विनाश-विनाशक-भाव सम्भव है। अर्थात्, कारणभूत शब्द विनाश और कार्यभूत शब्द विनाशक होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि शब्द प्रथम चरण में स्वयं उत्पन्न होकर द्वितीय चरण में शब्दनात्तर को उत्पन्न करता है और तृतीय चरण में स्वयं नए हो जाता है और द्वितीय चरण में जो कार्यभूत शब्द है, वही प्रथम (कारणभूत) शब्द का विनाशक होता है। इसी प्रकार विषुद्धन्य में शनानात्तर को उत्पन्न करता है और तृतीय चरण में शनानात्तर से स्वयं नए भी हो जाता है। अर्थात्, प्रथम चरण में उत्पन्न शन से उत्पादित जो शन वह भी द्वितीय चरण में शनानात्तर से उत्पन्न करता है और तृतीय चरण में शनानात्तर से अथवा संस्कार है, वही प्रथम शन का विनाशक होता है। इससे उच्चरोत्तर शन अपेक्षाकुद्धि के नाश होने से द्वित्व का नाश होता है। यह पहले दिलाया जा चुका है। यहाँ एक और विशेष बात है—कहो-कहीं अपेक्षाकुद्धि के नाश के उत्प संयोग के विनाशक जो विमाग है, उत्प विमाग के विनाशक के नाश-मात्र से द्वित्व का नाश चतुर्थ चरण में घट का नाश होता है, यह इदानात्त है। जैसे—घटादि द्रव्यों का अवयवों का विमाग हुआ। विमाग के बाद तृतीय चरण में हुआ। उत्प कर्म है, उन कर्मों से चतुर्थ चरण में घट का नाश होता है, यह द्रव्य-नाश का क्रम है।

पहले द्वित्व की उत्पत्ति के विचार में जो आठ चरण बताये गये हैं, उनमें अपेक्षाकुद्धि का जनक (उत्पादक) एकत्व-जाति का शन द्वितीय चरण में उत्पन्न होता है, यह कहा गया है। वह एकत्व-जाति का शन यदि उक्त चरण-चतुर्थ के प्रथम चरण में हो, अर्थात् घट के नाश में जो चार चरण दिलाये गये हैं, उनमें विमाग-चरण में अपेक्षाकुद्धि की उत्पत्ति का शन होगा। इस चरण में द्वितीय चरण में, अर्थात् संयोगनाशक जाति का शन होगा। इस चरण में घटवय में रहनेवाला द्वित्व का आश्रय जो घट है, उसके नाश से ही उत्पर चरण में घटवय के विना ही केवल आश्रय के नाश हो गया, तो द्वित्व रहेगा कहाँ! यहाँ अपेक्षाकुद्धि के नाश के विना ही केवल आश्रय के नाश से द्वित्व का नाश हो जाता है। यहाँ द्वित्व के नाश के पहले अपेक्षाकुद्धि का शन होता है, उसके बाद अपेक्षाकुद्धि का नाश होता है। यहाँ द्वित्व-जाति के शन-काल में ही घट-त्व आश्रय का नाश हो जाता है। यहाँ द्वित्व-जाति के शन-काल में ही द्वित्व-संख्या का शन न होने से अपेक्षाकुद्धि का नाश नहीं हो सकता। यथोकि, अपेक्षाकुद्धि के नाश में द्वित्व-संख्या-शन ही कारण है। कारण के आमाव से कार्य का आमाव सर्वसम्मत है। यहाँ आश्रय के नाश के चरण में अपेक्षाकुद्धि वनी रहती है,

इसलिए यहाँ अपेक्षा-बुद्धि के रहने पर भी केवल आश्रय के नाश से ही द्वित्व का नाश मानना होगा।

यदि विमागजनक कर्म से पहले ही एकत्व-जाति का ज्ञान कदाचित् हो गया, तो उस स्थिति में विमागजनक कर्म की उत्पत्ति के ज्ञान में ( अर्थात् प्रथम ज्ञान में ) अपेक्षा-बुद्धि की उत्पत्ति होगी। द्वितीय विमाग-ज्ञान में द्वित्व की उत्पत्ति होगी। तृतीय संयोग-नाश-ज्ञान में द्वित्वत्व-जाति का ज्ञान होगा। चतुर्थ घट-नाश-ज्ञान में अपेक्षा-बुद्धि का नाश होगा। इस स्थिति में, अपेक्षा-बुद्धि और घटरूप आश्रय के एक ही ज्ञान में नाश होने से अपेक्षा-बुद्धि और आश्रय ( घट ) इन दोनों के नाश से द्वित्व का नाश माना जाता है। यहाँ द्वित्व के नाश के दोनों कारण, अपेक्षा-बुद्धि और आश्रय का नाश, विद्यमान हैं। विनाशक-विनाश की प्रतियोगिनी जो बुद्धि है, वही अपेक्षा-बुद्धि है। अर्थात् विनाशक का जो विनाश है, उस विनाश की प्रतियोगिनी जो बुद्धि है, उसी का नाम अपेक्षा-बुद्धि है। जैसे—अपेक्षा-बुद्धि का जो नाश है, वह द्वित्व-संख्या का विनाशक है। इस विनाशक बुद्धि के नाश की प्रतियोगिनी अपेक्षा-बुद्धि है। इस प्रकार, लक्षण का समन्वय होता है। इस लक्षण में यदि विनाशक पद न दें, तो केवल विनाश-प्रतियोगिनी बुद्धि को ही अपेक्षा-बुद्धि मानना होगा। इस स्थिति में, सकल जीव-बुद्धि में अतिव्याप्ति हो जायगी। क्योंकि, 'यह घट है, यह पट है', इत्याकारक जो जीव-बुद्धि है, उसका भी तृतीय ज्ञान में नाश अवश्यम्भावी है। इसलिए, 'यह घट है', इत्यादि बुद्धि भी विनाश की प्रतियोगिनी हो जाती है, इससे अपेक्षा-बुद्धि के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। यदि विनाशक पद देते हैं, तो 'यह घट है', इत्यादि बुद्धि के विनाशक न होने के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं होता; क्योंकि उस घट-ज्ञान के नाश से किसी अन्य विनाश की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए, उस घट-ज्ञान का विनाश किसी का विनाशक नहीं है। और, अपेक्षा-बुद्धि के नाश से द्वित्व-संख्या का विनाश होता है, इसलिए अपेक्षा-बुद्धि का विनाश विनाशक-विनाश होता ही है। अतः, इस विनाशक-विनाश की प्रतियोगिनी बुद्धि अपेक्षा-बुद्धि ही होगी, दूसरी नहीं। इस प्रकार, लक्षण का समन्वय होता है।

उक्त संदर्भ के द्वारा यह दिखाया गया कि द्वित्व-संख्या अपेक्षा-बुद्धि का जन्य है और अपेक्षा-बुद्धि द्वित्व का जनक है, अभिव्यञ्जक नहीं, यह वैशेषिकों का मत है। यद्यपि नैयायिक लोग भी इसी का अनुसरण करते हैं, तथापि उनका इतना आप्रह इस विषय में नहीं है, जितना वैशेषिकों का। यदि कोई कहे कि द्वित्व अपेक्षा-बुद्धि का व्यवृत्त्य है जन्य नहीं, तो नैयायिक यहाँ मौन रह जाते हैं। अर्थात्, इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं दीख पड़ती। परन्तु, वैशेषिक इस बात को नहीं सह सकते। वैशेषिक किसी प्रकार भी द्वित्व को अपेक्षा-बुद्धि का व्यवृत्त्य नहीं मान सकते। इसी प्रकार, विमागज-विमाग के विषय में भी इनका यही सिद्धान्त है।

यहाँ तक वैशेषिकों का मत दिखाने के बाद, क्रम-प्राप्त पाकजोत्पत्ति के विषय में लिखना आवश्यक हो जाता है, इसलिए पाकज-उत्पत्ति का प्रकार दिखाया जा रहा है—द्रव्य के साथ जब तेज का संयोग होता है, तब रूप, रस, गन्ध, स्पर्श की

परावृत्ति देखी जाती है। जैसे—अपक्ष अवस्था में श्यामवर्ण का जो घट है, वह अग्नि के संयोग से रक्त हो जाता है और दूरित वर्ण का जो आम और तेज़ का फल है, वह तेज के संयोग से ही पीत वर्ण का हो जाता है। इसी प्रकार तेज के संयोग से उसमें मधुर सुगंध और मृदुता आ जाती है। यहाँ घटादि का अवयव जो कपाल है, उसके वियुक्त ( अलग ) होने से या नाश होने से घटादि का नाश होता है।

इसी प्रकार, कपालों के भी अवयवों का वियोग अथवा नाश होने से कपाल का नाश होता है। इसी प्रकार, च्यणुक-पर्यन्त द्रव्यों का नाश उनके अवयवों के नाश होने से होता है। किन्तु, द्रव्यणुक का नाश अवयवों के नाश से नहीं होता, बल्कि द्रव्यणुक के अवयवों का वियोग होने से ही द्रव्यणुक का नाश होता है; क्योंकि द्रव्यणुक के अवयव जो परमाणु हैं, उनके नित्य होने के कारण उनका विनाश होना असम्भव ही है। इसलिए, द्रव्यणुक के अवयव-परमाणुओं का परस्पर वियोग होने पर ही द्रव्यणुक का नाश माना जाता है। इस प्रकार, परमाणु-पर्यन्त अवयवों के परस्पर-वियुक्त होने पर स्वतंत्र परमाणु में ही रूप, रस आदि की परावृत्ति होती है। अर्थात्, परमाणु में पूर्व रूपादि का नाश और नवीन रूपादि की उत्पत्ति होती है और पुनः उन परमाणुओं के द्रव्यणुक, च्यणुक आदि क्रम से नवीन घटादि उत्पन्न होते हैं। यही वैशेषिकों की पीलुपाक-प्रक्रिया है। 'पीलु' परमाणु को ही कहते हैं। वैशेषिक लोग इसी क्रम से परमाणु में ही पाक मानते हैं। अर्थात्, परमाणु के वियुक्त होने पर स्वतंत्र परमाणु में ही पाक-जन्य रूपादि की परावृत्ति होती है, ऐसा वैशेषिक मानते हैं। इन विषयों का विवेचन मुकावली में विश्वनाथमहान् ने भली भाँति किया है। वैशेषिकों का कहना है कि अवयवी से मुक्त अवयवों में पाक होना असम्भव है, किन्तु अग्नि-संयोग से जब अवयव-वियुक्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तभी स्वतंत्र परमाणु में पाक होता है।

## पीलुपाक

पक परमाणुओं के संयोग होने से द्रव्यणुक, च्यणुक आदि क्रम से महा अवयवी घटादि-पर्यन्त की उत्पत्ति होती है। यहाँ तेज के अतिशय वेग के कारण मरिति पूर्व-व्यूह का नाश और व्यूहान्तर की उत्पत्ति होती है। इसमें सूक्ष्मतर काल के आकलन ( ज्ञान ) न होने के कारण पूर्व घट का नाश लक्षित नहीं होता। यह वैशेषिकों की पीलुपाक-प्रक्रिया का क्रम है।

## पिठरपाक

नैयायिकों की पाक-प्रक्रिया का नाम पिठरपाक-प्रक्रिया है। पिठरभूत घटादि अवयवी का नाम 'पिठर' है। इनके मत में तेज के संयोग होने पर भी अवयवों का विनाश नहीं होता। अवयवों से सम्बद्ध अवयवी में ही पाक होता है। अर्थात्, वैशेषिकों के समान इनके मत में अग्नि-संयोग से परमाणुओं का विमाग और पूर्व श्याम आदि रूप का नाश तथा रक्त आदि रूप की उत्पत्ति-पर्यन्त नव या दस लक्षण लगते हैं। नैयायिकों के मत में इस प्रकार इतने लक्षण नहीं लगते। एक काल में ही अग्नि-संयोग से

पूर्वरूप का नाश और रूपान्तर की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ अवयवों का विभाग नहीं होता, किन्तु अवयवों से युक्त अवयवी (धटादि) में एक काल में ही पूर्वरूप (श्यामता आदि) का नाश और पररूप (रक्तता आदि) की उत्पत्ति होती है। यही पिठरपाक है। वैशेषिकी पीलुगाक-प्रक्रिया में अग्नि-संयोग से सर्वप्रथम परमाणुओं में कर्म उत्पन्न होता है। वह कर्म द्रव्य का आरम्भक जो संयोग है, उसके विनाशक-विभाग को उत्पन्न करता है। तात्पर्य यह है कि उस परमाणु के कर्म से परमाणु में विभाग उत्पन्न होता है, उस विभाग से परमाणुओं के संयोग का नाश होता है। यही द्रव्यारम्भक संयोग है। द्रव्यणुकारम्भक संयोग के नाश होने पर द्रव्यणुक का नाश हो जाता है। इस अवस्था में स्वतन्त्र परमाणु में अग्नि-संयोग से श्यामरूप का नाश होता है। द्रव्यणुक के नाश होने के पूर्व परमाणु द्रव्यणुक से युक्त रहता है, इसलिए सर्वावयव से सम्पूर्ण श्यामता की निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए द्रव्यणुक का नाश मानना आवश्यक हो जाता है। श्यामता की निवृत्ति होने के बाद अन्य अग्नि के संयोग से रक्तता की उत्पत्ति होती है। पूर्वरूप का ध्वंस ही रूपान्तर की उत्पत्ति में कारण होता है। इसलिए, श्यामता के नाश के बाद ही रक्तता की उत्पत्ति होती है, उसके पहले नहीं। एक बात और भी है कि जिस अग्नि-संयोग से श्यामता का नाश होता है, उसीसे रक्तता की उत्पत्ति नहीं होती। कारण यह है कि रूप का नाशक जो अग्नि-संयोग है, वह रूपान्तर का उत्पादक नहीं हो सकता। इसलिए, रूपनाशक अग्नि-संयोग से रूपान्तरजनक अग्नि-संयोग विजातीय होता है, यह मानना ही होगा। इसी प्रकार रूपजनक तेज के संयोग से विजातीय रसजनक तेज का संयोग होता है। आम आदि फल में जिस तेज के संयोग से पीत आदि रूप उत्पन्न होते हैं, उस तेज के संयोग से भिन्न तेज के संयोग से मधुर आदि रस उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक रूप, रस, गंध आदि के जनक जो तेज के संयोग हैं, वे परस्पर भिन्न होते हैं। एक बात और है कि घट में अग्नि-संयोग से जब श्यामता की निवृत्ति और रक्तता की उत्पत्ति हो जाती है, तब परमाणु में अदृष्ट का आश्रय जो आत्मा है, उसके संयोग से द्रव्यारम्भक किया उत्पन्न होती है। रक्तता आदि की उत्पत्ति के पहले द्रव्य का आरम्भ करनेवाली किया की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कारण यह है कि निर्गुण द्रव्य में किया का रहना असम्भव है।

परमाणु में द्रव्यारम्भक किया की उत्पत्ति में कोई भी दृष्ट कारण नहीं है और विना कारण के कार्य की उत्पत्ति असम्भव ही है। इसलिए, अदृष्ट को कार्य-मात्र के प्रति कारण माना गया है। अदृष्ट शब्द से धर्माधर्म का ग्रहण किया जाता है। उस अदृष्ट का आश्रय जीवात्मा है और वह व्यापक है। व्यापक होने के कारण उक्ल कार्य देश में सञ्चिहित रहता हुआ, सकल कार्य-मात्र का साधारण कारण होता है। इसी अदृष्ट कारण से परमाणु में द्रव्यारम्भक किया होती है और उस किया से पूर्व देश से विभाग होता है। विभाग से पूर्व देश के साथ जो संयोग है, उसकी निवृत्ति होती है। उसके निवृत्त होने पर दूसरे परमाणु के साथ संयोग होता है। इसी युक्त परमाणु-द्रव्य से द्रव्यणुक का आरम्भ होता है। द्रव्यणुक की उत्पत्ति के बाद कारण-परमाणु में जो-जो

गुण है, उनकी कार्य में उत्पत्ति होती है। कारण में जो गुण है, वे ही कार्य में उत्पन्न होते हैं। यह सर्वचिदानन्दसिद्ध है 'कारणगुणः कार्यगुणानारम्भते', अर्थात् कारण में रहनेवाले गुण ही कार्य में गुण के आरम्भक होते हैं। जैसे, तन्तु का स्पष्ट पट के रूप का आरम्भक होता है। जिस प्रकार, तन्तु का स्पष्ट पट का समवायी कारण होता है, उसी प्रकार तन्तु का रूप पटगत रूप का असमवायी कारण होता है। इस प्रकार, पाकज स्पादि की उत्पत्ति में पीलुपाप-प्रक्रिया से नव चूण लगते हैं। विभागज-विभाग के अद्भीकार करने पर दस चूण भी माने जाते हैं।

### विभागज-विभाग

विभागज-विभाग दो प्रकार का होता है। एक कारण-मात्र विभाग से उत्पन्न, दूसरा कारणाकारण-विभाग से उत्पन्न। कारण-मात्र विभाग से उत्पन्न प्रकार— कार्य से व्याप्त जो कारण है, उसमें जो कर्म उत्पन्न होता है, वह जब अवयवान्तर से विभाग उत्पन्न करता है, तब आकाश आदि प्रदेश से विभाग उत्पन्न करता है, तब अवयवान्तर से और जब आकाश आदि प्रदेश से विभाग उत्पन्न करता है, तब अवयवान्तर से विभाग उत्पन्न नहीं करता।

इसका तात्पर्य यह है कि कार्य से व्याप्त जो कारण है, उसमें उत्पन्न जो कर्म है, वह द्रथणुक का आरम्भक जो परमाणुद्वय का संयोग है, उसके विनाशक विभाग का आरम्भक आकाश-प्रदेश का जो संयोग है, उसके उत्पन्न करता है और द्रथणुक के अनारम्भक आकाश-प्रदेश का जो संयोग है, उसके विनाशक विभाग को उत्पन्न नहीं करता।

कारण यह है कि एक कर्म में कार्य का आरम्भक जो संयोगविशेष है, उसके विनाशक विभाग को उत्पन्न करने की शक्ति और कार्य के अनारम्भक संयोगविशेष के दो घर्मों का रहना सर्वशाखविशेष है। तात्पर्य यह है कि अभिन्नसंयोग से जो परमाणु में कर्म उत्पन्न होता है, उस कर्म से विभाग उत्पन्न होता है। उस विभाग में एक ही शक्ति रह सकती है, चाहे वह कार्य के आरम्भक संयोग का। यदि कार्य के आरम्भक संयोग का अध्यवा अनारम्भक के नाश करनेवाली शक्ति विभाग में मान लें, तो कमल-कुड़मल का

विकास-काल में ही मङ्ग हो जायगा। कमल के विकास-काल में कमल का अनारम्भक आकाश देश के साथ होता है। अर्थात्, विकास-काल में जो कमल एक प्रकार का कर्म उत्पन्न होता है, उनके विनाशक विभाग का अवयवों में कर्म उत्पन्न होता है, उस कर्म से अवयवों में विभाग उत्पन्न होता है और उस विभाग से कमल का आरम्भक नहीं है। अर्थात्, उसका नाश होता है और वह संयोग कमल-कुड़मल का संयोग है, उसका नाशक विभाग के उत्पन्न करनेवाली शक्ति उस कर्म में मानी जाती है।

इस स्थिति में यदि कमल के आरम्भक अवयवों के साथ जो संयोग है, उसके विनाशक विभाग को उत्पन्न करने की शक्ति भी उस कर्म में मान लें, तब तो कमल के आरम्भक संयोग के नाश होने से कमल का भी नाश अवश्यम्भावी है। इसलिए, कमल-कुड़मल का भङ्ग होना निश्चित हो जाता है। इस अवस्था में, जिस प्रकार 'जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य है' इस साहचर्य-रूप व्याप्ति का व्यभिचार कहीं नहीं देखा जाता। उसी प्रकार, जिस कर्म में अनारम्भक आकाश-प्रदेश के साथ संयोग के विनाशक-विभाग को उत्पन्न करने की शक्ति रहेगी, उस कर्म में आरम्भक अवयवान्तरों के साथ संयोग के विनाशक विभाग को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहेगी, इस नियम का भी व्यभिचार नहीं हो सकता। इसी प्रकार, जहाँ आरम्भक अवयवान्तरों के साथ संयोग के विनाशक विभाग को उत्पन्न करने की शक्ति रहती है, वहाँ अनारम्भक आकाश-देश के साथ संयोग के नाशक विभाग को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती, यह नियम भी व्यभिचरित है। इसलिए, परमाणु में होनेवाला जो अनारम्भक संयोग कर्म है, उसके विरोधी आकाश-प्रदेश के विभाग को उत्पन्न नहीं करता। किन्तु, उस कर्म से जन्य (उत्पन्न) जो विभाग है, वह उस कर्मवान् में भी आकाश-प्रदेश के विभाग को उत्पन्न करता है। वह जो विभाग का जनक विभाग है, वह अपने से अव्यवहित उत्तर-क्षण में आकाश-प्रदेश के विभाग को उत्पन्न नहीं करता; क्योंकि इसमें कोई सहायक नहीं है। यदि सहायक से रहित (असहाय) विभाग को ही आकाश-प्रदेश के विभाग का जनक मान लें, तो कर्म का जो लक्षण आचार्य ने किया है, उसकी विभाग में अतिव्याप्ति हो जायगी; क्योंकि संयोग और विभाग का जो असहाय कारण है, वही कर्म का लक्षण है, ऐसा आचार्य ने स्वयं कर्म का लक्षण किया है और यहाँ विभाग का असहाय कारण-विभाग भी हो जाता है। इसलिए, अतिव्याप्ति दोष कर्म-लक्षण के विभाग में ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सहायवान् जो विभाग जनक विभाग है, वही अपने उत्तर-क्षण में आकाश-प्रदेश का विभाग उत्पन्न करता है, असहाय नहीं है। यहाँ असहाय उसीको कहते हैं, जो अपने उत्तर-क्षण में उत्पन्न भावान्तर की अपेक्षा न करे।

अब यहाँ शङ्का होती है कि जो विभाग जिस विभाग का उत्पादक है, उसमें सहायक कौन है। इसका उत्तर यह है कि प्रथम क्षण में अग्नि के संयोग से परमाणु में कर्म उत्पन्न होता है और द्वितीय क्षण में दूसरे परमाणु के साथ विभाग उत्पन्न होता है और तृतीय क्षण में दूसरुक का आरम्भक जो संयोग है, उसका नाश होता है। चतुर्थ क्षण में दूसरुक का नाश होता है। दूसरुक के नाश-पर्यन्त यही क्रम रहता है। अब यहाँ यह विचारणीय है कि द्वितीय क्षण में उत्पन्न जो विभाग है, वह तृतीय क्षण के आरम्भक संयोग का नाशक द्वयुक्त है, उसकी उदायता से आकाश-प्रदेश के विभाग को उत्पन्न करता है, जब यह माना जाय, तब तो वह विभाग-विभाग चतुर्थ क्षण में उत्पन्न होता है, यह मानना होगा और यदि चतुर्थ द्वयुक्त-नाश-क्षण की सहायता से आकाश-प्रदेश का विभाग होता है, यह माना जाय, तो द्वयुक्त-नाश के उत्तर क्षण में,

अर्थात् द्वयगुक के श्याम रूप के नाश के क्षण में आकाश-प्रदेश का विभाग उत्पन्न होता है, यह मानना होगा। इस प्रकार ये दो पक्ष सिद्ध होते हैं।

यहाँ एक सिद्धान्त यह है कि आरम्भक संयोग का नाश-विशिष्ट जो क्षण है, और द्वयगुक का नाश-विशिष्ट जो क्षण है, वे दोनों क्षण उक्त विशिष्ट रूप से ही विभाग की सहायता करते हैं। दूसरे दार्शनिकों का सिद्धान्त यह है कि विशिष्ट भी उक्त क्षण में अपने एकमात्र स्वतन्त्र रूप से ही सहायता करते हैं। इस प्रकार, विशिष्ट अथवा केवल आरम्भक संयोग का नाशक जो क्षण है, यदि उसको विभाग का सहायक मानें, तो पहले द्वयगुक के नाश से लेकर रूपान्तर-युक्त द्वयगुक की उत्पत्ति-पर्यन्त जो नव क्षण दिखाये गये हैं, वहाँ दस क्षण मानना होगा। कारण यह है कि तृतीय और चतुर्थ क्षण के बीच में एक अधिक क्षण का स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार विशिष्ट अथवा केवल द्वयगुक के नाश के क्षण को विभाग का सहायक मानें, अर्थात् द्वितीय क्षण मानें, तो यारह क्षण मानना होगा; क्योंकि उसी तृतीय और चतुर्थ क्षण के बीच में दो क्षण और भी मानना आवश्यक हो जाता है। जैसे—पूर्व में उक्त जो नव क्षण हैं, उनमें चतुर्थ में पुनः द्रव्य का आरम्भक कर्म उत्पन्न होता है, यह पहले ही कहा जा चुका है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि चतुर्थ क्षण में जो पुनः द्रव्यारम्भक कर्म की उत्पत्ति होती है, वह विभागजनक जो कर्म है, उसके नाश के बाद ही हो सकती है। विभागजनक कर्म के विद्यमान रहने पर भी आरम्भक कर्म का होना असम्भव ही है। कारण यह है कि विभाग और आरम्भ दो परस्पर-विरोधी होने के कारण एक काल में असम्भावित हैं।

दो पक्ष, जिनके विषय में पहले कहा जा चुका है, उनमें प्रथम पक्ष में विभागज-विभाग प्रथम, अर्थात् द्वयगुक नाश-क्षण में उत्पन्न होता है। इसके बाद पूर्व संयोग का, द्वितीय, अर्थात् श्यामरूप के नाश-क्षण में, नाश होता है। उत्तर देश के साथ संयोग की उत्पत्ति तृतीय, अर्थात् रक्तता की उत्पत्ति के क्षण में होती है। यहाँ उत्तर देश के साथ संयोग की उत्पत्ति-पर्यन्त विभागजनक कर्म को अवश्य मानना होगा। क्योंकि, कर्मरहित वस्तु का उत्तर-देश के साथ संयोग होना असम्भव ही है; इसलिए विभागजनक कर्म का नाश चतुर्थ क्षण में और आरम्भक कर्म की उत्पत्ति पञ्चम क्षण में माननी होगी।

द्वितीय पक्ष में, द्वितीय क्षण के विभागज-विभाग की उत्पत्ति होगी और तृतीय, अर्थात् रक्तता की उत्पत्ति के क्षण में पूर्व-संयोग का नाश होगा। चतुर्थ क्षण में उत्तर संयोग की उत्पत्ति होगी। पञ्चम क्षण में विभागजनक कर्म का नाश होगा। इसके बाद पठ क्षण में आरम्भक कर्म की उत्पत्ति माननी होगी।

इस प्रकार विभागज-विभाग के अद्वीकार करने में कारणभूत विभाग और कार्यभूत विभाग में पीरोपर्य के भेद होने पर वह लक्षित नहीं होता। कारण यह है कि चारात्मक काल अत्यन्त दूरमत्तर है, इसलिए शन का यापन कियी इन्द्रिय का

विषय नहीं होता । अर्थात्, ज्ञाणात्मक काल के अत्यन्त सूक्ष्मतर होने से पौर्वपर्यं का मेद लोक में प्रतीत नहीं होता ।

इस प्रकार कारणमात्र विभागजन्य विभाग का निर्देश संक्षेप में किया गया । अब कारणाकारण-विभागजन्य विभाग का निर्देश संक्षेप में किया जाता है । यहाँ यह भी समझना चाहिए कि कारणमात्र-विभागज-विभाग इसलिए कहा जाता है कि केवल कारण-मात्र के ही विभाग से विभाग उत्पन्न होता है । जैसे द्वयगुक का परमाणुद्वय ( दोनों परमाणु ) कारण होता है । इनमें कोई परमाणु श्रकारण नहीं होता है, इसलिए इन परमाणुओं के विभाग से जो विभाग उत्पन्न होगा, वह कारण-मात्र विभागजन्य कहा जायगा ।

कारणाकारण-विभाग-जन्य-विभाग इसलिए कहा जाता है कि कारण और श्रकारण दोनों के विभाग से यह विभाग उत्पन्न होता है । जैसे—हाथ में उत्पन्न जो कर्म है, वह जिस प्रकार अपने अवयवान्तरों से विभाग उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आकाश देश से भी विभाग पैदा करता है । यहाँ हाथ शरीर का अवयव होने का कारण होता है । आकाश शरीर का कारण नहीं होता, इसलिए आकाश श्रकारण ही है । इस कारण ( हाथ ) और श्रकारण ( आकाश ) के विभाग से जो शरीर और आकाश का विभाग होता है, वह कारणाकारण-विभाग से जन्य विभाग होता है । क्योंकि, हाथ कारण और आकाश श्रकारण—इन दोनों कारण-श्रकारण के अनुकूल ही विभाग होता है । जैसे—हाथ दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है, उस समय दक्षिण आकाश-प्रदेश से ही इस्ताकाश का विभाग करता है और उस विभाग से उत्पन्न शरीराकाश का विभाग भी उसी प्रकार होता है । अब यहाँ यह विचार होता है कि शरीराकाश का जो विभाग है, वह शरीरगत कर्म-जन्य है अथवा इस्ताकाश के विभाग से जन्य । शरीरगत कर्म-जन्य तो कह नहीं सकते; क्योंकि उस काल में शरीरगत कोई कर्म नहीं है । केवल हस्तगत कर्म होने से कर्म का आधय हस्त ही कहा जायगा, इसलिए शरीर निष्क्रिय है । अवयवी की क्रिया से अवयव भी क्रियाश्रय कहा जा सकता है, परन्तु अवयव की क्रिया से अवयवी क्रिया का आधय नहीं हो सकता । यहाँ इस्तमात्र अवयव के प्रचलन होने से शरीर का प्रचलन नहीं कहा जा सकता । इसलिए, कारणाकारण के विभाग से ही शरीराकाश का विभाग मानना ही होगा । यदि कहें कि इस्त में रहनेवाली जो क्रिया है, उसीसे शरीराकाश का भी विभाग हो जायगा । तात्पर्य यह कि जिस प्रकार हस्तगत क्रिया से एस्ट और आकाश का विभाग होता है, उसी प्रकार हस्तगत क्रिया से ही शरीराकाश का भी विभाग हो सकता है, तो यह भी ठीक बात नहीं है । कारण यह है कि क्रिया अपने आधय में ही अपना कार्य उत्पन्न कर सकती है, अनाधय में नहीं । प्रकृत में कर्म इस्त में रहनेवाला है, शरीर में नहीं; इसलिए इस्ताकाश के विभाग के उत्पादक होने पर भी शरीराकाश के विभाग का उत्पादक नहीं हो सकता । तात्पर्य यह कि हस्तगत कर्म व्यधिकरण होने के कारण शरीर और आकाश के विभाग का जनक नहीं हो सकता । इसलिए, इस्ताकाश के विभाग से ही शरीराकाश का विभाग मानना होगा । यही कारणाकारण-विभागज-विभाग कहा जाता है ।

## अन्धकार-विचार

अब 'अन्धकार' के विषय में विचार किया जाता है—यहाँ वेदान्तियों और भीमांसकों का मत है कि स्वाभाविक नीलरूप से विशिष्ट अन्धकार भी द्रव्य है। इसमें श्रीधराचार्य का कहना है कि अन्धकार यद्यपि द्रव्य है, परन्तु उसमें नीलरूप जो भासित होता है, वह आरोपित है, वास्तविक नहीं। जैसे—आकाश-मण्डल या जल में नील रूप का मान आरोपित होता है, उसी प्रकार, तम (अन्धकार) में भी नील रूप आरोपित है। भीमांसकों में प्रभाकर के अनुयायियों का कहना है कि आलोक-शान का अभाव-स्वरूप ही तम है, कोई यस्तु नहीं। नैयायिकों और वैशेषिकों का मत है कि आलोक के अभाव का ही नाम तम है, दूसरा नहीं। यह भीमांसकों और वेदान्तियों का जो द्रव्य-पद है, वह तो ठीक नहीं; क्योंकि अन्धकार को यदि द्रव्य मानते हैं, तो यह शङ्खा होती है कि उक्त नव द्रव्य में ही इसका अन्तर्भाव है, अथवा यह दशम द्रव्य है। नव द्रव्यों में तो इसका अन्तर्भाव कह नहीं सकते; क्योंकि जिस द्रव्य में अन्तर्भाव मानेंगे, उस द्रव्य के जितने गुण हैं, उन सबको तम में मानना होगा, जो तम में उपलब्ध नहीं होते। जैसे—यदि पृथिवी में अन्धकार का अन्तर्भाव मानें, तो पृथिवी के जो गन्ध, स्पर्श आदि चौदह गुण हैं, इन सबको अन्धकार मानना होगा। पृथिवी आदि के जो गुण हैं, उनको आगे दिखाया जायगा। इसी प्रकार तेज में अन्तर्भाव मानने से तेज के जो उष्ण-स्पर्शादि गुण हैं, उनको तम में मानना होगा। परन्तु, पृथिवी आदि के गन्ध आदि जो गुण हैं, उनकी उपलब्धि अन्धकार में नहीं होती, इसलिए किसी में भी अन्तर्भाव नहीं कह सकते। यदि द्वितीय पञ्च, अर्थात् दशम द्रव्य मानें, वह भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि अन्धकार निर्गुण होने के कारण द्रव्य ही नहीं हो सकता, को दशम द्रव्य मानना अनुचित ही है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य का लक्षण गुणाध्यत्व है, अर्थात् जो गुण का आश्रय हो, वही द्रव्य है। अन्धकार में रूप, रस आदि गुणों में किसी गुण का भी सन्दर्भ नहीं है, इसलिए जब द्रव्य का लक्षण ही अन्धकार में नहीं घटता, तो पुनः उसका दशमद्रव्यत्व किस प्रकार सिद्ध हो सकता। यदि यह कहें कि नील रूप गुण के आश्रय होने से तम भी द्रव्य कहा जायगा। इससे तम का दशमद्रव्यत्व उपपन्न हो जाता है, यह भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि नील रूप रस, गन्ध आदि से व्याप्त रहता है, अर्थात् जहाँ-जहाँ नील रूप है, वहाँ-वहाँ गन्ध, रस आदि की उपलब्धि अवश्य रहती है। जैसे—नीलकमल, प्रियद्वृ-कलिका आदि में नील रूप के साथ-साथ गन्धादि गुण अवश्य रहते हैं। इसलिए, नील रूप के व्यापक गन्धादि गुण होते हैं और व्यापक के अभाव में व्याप्त कभी नहीं रह सकता। इसलिए, अन्धकार में व्यापकीभूत गन्धादि गुणों के न रहने से व्याप्त नील रूप का अभाव सुतरा सिद्ध हो जाता है, इसलिए अन्धकार में नील रूप के अभाव का निश्चय होता है। अब यहाँ यह भी आशङ्का होती है कि 'नीलं तमः चलति'; अर्थात् नीला अन्धकार चलता है। यहाँ नील तम में गमन-क्रिया की जो प्रतीति होती है, उसकी क्या गति होगी? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार शून्य नभ में

भ्रममूलक नील रूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार अन्धकार में भी नील रूप और चलन किया की प्रतीति भ्रम के कारण ही है, वास्तविक नहीं।

इस प्रकार, अन्धकार जब दशम द्रव्य सिद्ध नहीं हुआ, तो उसमें नील रूप आरोपित है। यह जो शीधराचार्य का कहना है, वह भी नहीं बनता। योकि, अधिष्ठान के निश्चय के बिना आरोप होना असम्भव है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शहू के देखने पर ही उसमें पाण्डुरोग आदि दोष से ही पीतत्व आदि की प्रतीति होती है, अन्यथा नहीं। एक बात और भी है कि सहकारी जो बालालोक है, उससे रहित चक्षु-रूप के आरोप में समर्थ नहीं होता है, अर्थात् सहकारी बालालोक से युक्त जो चक्षु है, वही रूप के आरोप में समर्थ होता है और 'इदं तमः' (यह तम है), इस प्रकार का जो शान है, वह चक्षुरिन्द्रिय से अजन्य है, ऐसी बात नहीं है। किन्तु, अन्धकार का शान चक्षुरिन्द्रिय का जन्य ही है। योकि, अन्धकार के शान में चक्षुरिन्द्रिय की अपेक्षा जो देखी जाती है, वह अन्यथा अनुपम ही है। अर्थात्, वह अपेक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार, अन्धकार यदि चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है, यह सिद्ध हो गया, तो प्रभाकर के एकदेशियों का जो यह कहना है कि 'आलोक शान का अभाव-स्वरूप ही तम है', यह भी नहीं बनता। कारण यह है कि अभाव का जो प्रतियोगी है, उसका प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय से होता है, उसी इन्द्रिय से उस अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। 'येनेन्द्रियेण यद् यद्यते तेनेन्द्रियेण तदभावोऽपि', यह नियम सर्वसम्मत है। जिस पदार्थ का अभाव होता है, वह पदार्थ उस अभाव का प्रतियोगी कहा जाता है। जैसे, घट के अभाव का प्रतियोगी घट होता है और जिस इन्द्रिय से घट का शान होता है, उसी इन्द्रिय से घट के अभाव का भी ग्रहण होता है। इस स्थिति में अन्धकार को यदि आलोक-शान का अभाव-स्वरूप मानते हैं, तो यहाँ अभाव का प्रतियोगी जो शान है, उसके मानस-प्रत्यक्ष होने के कारण अन्धकार भी मानस-प्रत्यक्ष का विषय होने लगेगा, जो सर्वथा अनुभव-विशद है। इसलिए, आलोक-शान का अभाव-स्वरूप ही तम है, यह वैशेषिकों का सिद्धान्त है।

अब यहाँ आशङ्का होती है कि जितने अभाव हैं, उनका बोध 'नन्' शब्द के द्वारा ही किया जाता है और यहाँ तम, अन्धकार इत्यादि विधि-प्रत्यय के बेद्य हैं, इसलिए अन्धकार अभाव-स्वरूप नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि जिसका शान नन् के द्वारा होता है, वही अभाव है और जिसका शान नन् के द्वारा नहीं होता, वह भाव ही है, अभाव नहीं। इसलिए, तम आदि शब्द से बोधित होने से अन्धकार भाव ही है, यहाँ इस प्रकार का अनुमान किया जाता है। जैसे—विवादास्पद अन्धकार (पत्र) भावरूप है (साध्य); नन् से अनुज्ञिति बुद्धि के विषय होने से (हेतु), जो-जो नन् से अनुज्ञिति बुद्धि के विषय है, वे सब भाव-रूप ही होते हैं, (व्याप्ति), जैसे—घट-पट आदि (दृष्टान्त); अर्थात्, जिस प्रकार घट-पट आदि पदार्थों के अभाव की प्रतीति निषेध-मुख से होती है, विधि-मुख से नहीं, जैसे—'घट नहीं है', 'पट नहीं है' इत्यादि। इस प्रकार घट-पट आदि पदार्थों की प्रतीति निषेध-मुख से नहीं होती; किन्तु 'घट है', 'पट है' इत्यादि की विधि-मुख से ही प्रतीति

होती है। इसी प्रकार अन्धकार है, इस प्रकार विधि-मुख से ही अन्धकार की प्रतीति होने के कारण अन्धकार भाव ही है, अभाव नहीं; यह सिद्ध हो जाता है।

इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि विधि-प्रत्यय वेद्य होने से अथवा 'नज्' से अनुलिलिखित बुद्धि का विषय होने से यह जो हेतु दिया गया, वह व्यभिचरित है। जैसे—प्रलय, विनाश, अवसान इत्यादि अभावार्थक शब्द भी विधि-प्रत्यय-वेद्य अथवा 'नज्' से अनुलिलिखित बुद्धि के विषय होने से भावार्थक हो जाते हैं। यहाँ प्रलय शब्द से सृष्टि का अभाव, विनाश शब्द से ध्वंस और अवसान शब्द से समाप्ति अथवा वर्ण का अभाव ही प्रतीत होता है और ये विधि-प्रत्यय-वेद्य हैं तथा नज् से अनुलिलिखित बुद्धि के विषय भी हैं। इसलिए यह हेतु व्यभिचरित होने से अन्धकार के भावत्व का साधक नहीं हो सकता। इसलिए, यह सिद्ध होता है कि अन्धकार अभाव-स्वरूप ही है। यदि यह कहें कि अन्धकार अभाव-रूप है, तो उसमें भावधर्म का आरोप कैसे होगा? अर्थात्, भाव जो नीलपुष्पादि हैं, उनके जो नील आदि धर्म हैं, उनका आरोप अभाव-स्वरूप अन्धकार में नहीं हो सकता। यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि लुःख के अभाव में सुख की प्रतीति और संयोगाभाव में भी विभाग का अभिमान देखा जाता है। जैसे, भार के उत्तर जाने पर 'मैं सुखी हो गया', इस प्रकार की प्रतीति सर्वानुभवसिद्ध है।

अब यहाँ एक शङ्का और होती है। जिस प्रकार, रूपवान् घट के अभाव का शान आलोक-सहकृत चक्षुरिन्द्रिय से ही होता है, उसी प्रकार रूपवान् आलोक के अभाव का भी ज्ञान आलोक-सहकृत चक्षु से ही होना चाहिए, और ऐसा नहीं होता। किन्तु, अन्धकार के ज्ञान में आलोकनिरपेक्ष चक्षु ही कारण होता है, इसलिए आलोकाभाव-स्वरूप अन्धकार नहीं हो सकता। यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि जिसके ज्ञान में चक्षु जिसकी अपेक्षा रखता हो, उसी के अभाव के ज्ञान में उसकी अपेक्षा होती है। जैसे—घट के ज्ञान में चक्षु को आलोक की अपेक्षा है, इसलिए घट के अभाव-ज्ञान में भी आलोक की अपेक्षा आवश्यक है। प्रकृत में आलोक के ज्ञान में आलोकान्तर की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए आलोक के अभावरूप अन्धकार के ज्ञान में भी आलोक की अपेक्षा नहीं होती। यदि यह कहें कि अन्धकार के ज्ञान में अधिकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि, अभाव के ज्ञान में अधिकरण-ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। अन्यथा, 'कोलाहल बन्द हो गया', यहाँ शब्दनाश का जो प्रत्यक्ष होता है, वह नहीं हो सकता। क्योंकि, शब्दनाश का आश्रय (अधिकरण) जो आकाश है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। इस प्रकार, अन्धकार के आलोकाभाव को रूपसिद्ध हो जाने से अन्धकार को जो द्रव्यरूप मानते थे, वे परास्त हो जाते हैं। इसी अभिमाय से महर्षि कणाद ने यह सूत्र बनाया है—'द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्याद्भावस्तमः'। यहाँ निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है और वैधर्म्य का अर्थ वैलक्षण्य है। अर्थात्, द्रव्य-गुण-कर्म की उत्पत्ति की विलक्षणता से अभाव-रूप ही तम है। तात्पर्य यह है कि तम उत्पत्ति-विनाशशाली होने से अनित्य है, इसलिए नित्य जो सामान्यविशेष

समवाय है, उसमें उसका अन्तर्भुवं नहीं होता और न उत्पत्तिमान् द्रव्य-गुण-कर्म में ही; क्योंकि द्रव्य-गुण-कर्म की अपेक्षा इसकी उत्पत्ति विलक्षण है। जितने जन्य ( उत्पन्न होनेवाले ) द्रव्य हैं, वे अवयव से आरब्ध होते हैं, जैसे—घट आदि।

तम की उत्पत्ति अवयव से आरब्ध नहीं है। आलोक के अवसरण में सहसा तम का अनुभव होने लगता है। तात्पर्य यह है कि गुण-कर्म की उत्पत्ति द्रव्य के आश्रय से होती है और तम की उत्पत्ति में यह बात नहीं है। इसी उत्पत्ति की विलक्षणता से तम अभाव-रूप है, यह सिद्ध होता है और यही सूत्रकार का तात्पर्य भी है।

### अभाव-विचार

इसके बाद सप्तम अभाव पदार्थ का विवेचन किया जाता है। अभाव की प्रतीति निषेध-मुख्य प्रभाव से होती है। जैसे—‘घट नहीं है, पट नहीं है’ इत्यादि। समवाय-सम्बन्ध से रहित और समवाय से भिन्न जो पदार्थ है, वही अभाव का लक्षण है।

समवाय-सम्बन्ध-रहित, यह विशेषण देने से द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष में अभाव का लक्षण नहीं जाता है। क्योंकि, उक्त द्रव्यादि समवाय सम्बन्धवान् ही हैं। जैसे, द्रव्य का द्रव्य में रहनेवाले गुणों और क्रियाओं के साथ समवाय-सम्बन्ध है और अनित्य द्रव्यों का स्वाश्रयभूत अवयवों के साथ समवाय है और गुण-कर्म का स्वाश्रयभूत द्रव्य के साथ और आश्रित सामान्य के साथ समवाय-सम्बन्ध है। सामान्य का स्वाश्रयभूत द्रव्य, गुण और कर्म के साथ समवाय-सम्बन्ध है और विशेष का आश्रयभूत नित्य द्रव्य के साथ समवाय-सम्बन्ध से रहित न होने के कारण अभाव-लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। यद्यपि समवाय समवाय-सम्बन्ध से रहित है; क्योंकि अनवस्था के भय से समवाय में समवाय का अंगीकार नहीं किया जाता, इसलिए समवाय-सम्बन्ध से रहित होने के कारण समवाय में अभाव-लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। तथापि, समवाय-भिन्न इस विशेषण से उसकी व्यावृत्ति हो जाती है।

संक्षेप में अभाव दो प्रकार का होता है। पहला संसर्गभाव, दूसरा अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव एक ही प्रकार का है। इसलिए, इसका विभाग नहीं हो सकता। संसर्गभाव तीन प्रकार का होता है—प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव। इन तीनों में संसर्ग ( सम्बन्ध ) का ही अभाव होता है, इसलिए उसका नामकरण संसर्गभाव किया गया। संसर्ग-प्रतियोगी जो निषेध है, वह संसर्गभाव है। जैसे—घटोत्पत्ति के पहले यहाँ घट नहीं है। इस प्रकार, प्रागभाव का व्यवहार किया जाता है। यहाँ मृतपिण्ड में घट के सम्बन्ध का निषेध किया जाता है। इसी प्रकार, घट के नाश के बाद यहाँ घट नहीं है, ऐसा प्रध्वंसाभाव का व्यवहार किया जाता है। यहाँ घड़े के ढुकड़ों में घट के सम्बन्ध का निषेध प्रतीत होता है। इसी प्रकार, भूतल में घट नहीं है, इस अत्यन्ताभाव-स्थल में भी भूतल में घट के सम्बन्ध का ही

निषेध किया गया है। संसर्गभाव में प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव अनित्य है; क्योंकि प्रागभाव अनादि होने पर भी सान्त है और प्रध्वंसाभाव अनन्त होने पर भी उत्पत्तिमान् है। केवल अत्यन्तभाव और अन्योन्यभाव नित्य है। इससे प्रागभाव का लक्षण यह होता है कि अत्यन्त अनादि होता हुआ भी जो अनित्य हो, वह प्रागभाव है और उत्पत्तिमान् होते हुए भी जो अविनाशी हो, वह प्रध्वंसाभाव है। कोई भी भाव-पदार्थ अनादि होता हुआ अनित्य और उत्पत्तिमान् होता हुआ भी नित्य नहीं है। इसलिए, अतिव्यासि न होने के कारण लक्षण में अभाव-पद की आवश्यकता नहीं है।

प्रतियोगी है आश्रय जिसका, ऐसा जो अभाव है, वह अत्यन्तभाव है। प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव का प्रतियोगी आश्रय नहीं होता; क्योंकि घटोत्पत्ति के पहले या घट-नाश के बाद प्रतियोगी घट की सत्ता नहीं है और घटाभाव भी है। इसलिए, यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ प्रागभाव प्रध्वंसाभाव का आश्रय-प्रतियोगी नहीं होता। अन्योन्यभाव भी आश्रय-प्रतियोगी नहीं होता; क्योंकि घट में घट का भेद नहीं रहता। लेकिन, अत्यन्तभाव का प्रतियोगी आश्रय होता है। जैसे भूतल में घट का अभाव है, वैसे घट में भी घट का अभाव है, यह कह सकते हैं; क्योंकि स्व में स्व नहीं रहता। अत्यन्तभाव और अन्योन्यभाव में एक यह भी विलक्षणता है कि अत्यन्तभाव की प्रतीति प्रतियोगी के समानाधिकरण में नहीं होती। भूतल में घट रहने पर उस समय उस विद्यमान घटात्यन्तभाव की प्रतीति नहीं होती और अन्योन्यभाव की प्रतीति प्रतियोगी के समानाधिकरण में होती है। जैसे, घटवान् भूतल में घट के भेद की प्रतीति देखी जाती है। अत्यन्तभाव के लक्षण में अभाव पद का जो निवेश किया जाता है, उसका तात्पर्य है कि प्रतियोगी है आश्रय जिसका, वह अत्यन्तभाव है। यदि इतना ही अत्यन्तभाव का लक्षण करें, तो आकाश के सृष्टि आकाश के आश्रित सूर्य का प्रकाश भी व्यापक है। यहाँ सादृश्य का अनुपयोगी जो सूर्य-प्रकाश है, वह प्रतियोगीभूत आकाश के आश्रित ही है, इसलिए यहाँ अतिव्यासि हो जाती है। इसके कारण के लिए यहाँ अभाव पद भी दिया गया है, जिससे अतिव्यासि न हो।

अन्योन्यभाव का लक्षण यह है कि अत्यन्तभाव से भिन्न जो नित्य अभाव है, वह अन्योन्यभाव है। अत्यन्तभाव से भिन्न नित्य परमाणु आदि अतिव्यासि के कारण के लिए यहाँ भी अभाव पद दिया गया है। यहाँ यह भी आशङ्का होती है कि यदि अन्योन्यभाव को ही अत्यन्तभाव मान लें, तो क्या आपत्ति है?

इसका उत्तर यही है कि दोनों में भेद (विलक्षणता) का ज्ञान न रहने से ही यह आशङ्का होती है। अन्योन्यभाव में तादात्म्य, अर्थात् स्वारूप्य का निषेध होता है। जैसे—‘घट-पट स्वरूप नहीं है’, इस अभिप्राय से ‘घट, पट नहीं है’—ऐसा कहा जाता है। यह अन्योन्यभाव का उदाहरण है और अत्यन्तभाव में सम्बन्ध का निषेध किया जाता है। जैसे—वायु में रूप नहीं है। यहाँ वायु में रूप के सम्बन्ध का ही निषेध किया जाता है। इसीलिए, अन्योन्यभाव से विलक्षण अत्यन्तभाव सिद्ध होता है।

अब यहाँ एक आशङ्का और होती है कि यदि यह अभाव पुरुषार्थ का उपयोगी नहीं है, तो इसके विवेचन की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य यह है कि यदि छह पदार्थों के ज्ञान से ही मुक्ति होती है, तो पुनः अभाव का विवेचन क्यों किया?

इसका उत्तर यह है कि पुरुषार्थ के उपयोगी न होने पर भी अभाव पुरुषार्थ-स्वरूप ही है; क्योंकि मुक्ति ही परम पुरुषार्थ है और मुक्ति का स्वरूप है—दुःख का अत्यन्तोच्छ्रेद और अत्यन्तोच्छ्रेद अभाव-रूप ही है। इसलिए, अभाव को परम पुरुषार्थ मुक्ति-स्वरूप होने के कारण इसका विवेचन युक्त होता है; क्योंकि यह अभाव स्वयं परम पुरुषार्थ-स्वरूप है।

आन्धकार के विवेचन के समय गुण का आश्रय न होने के कारण तम का किसी में अन्तर्भाव नहीं होता, ऐसा कहा गया है। यहाँ जिज्ञासा होती है कि किन-किन द्रव्यों में कौन-कौन गुण रहते हैं? इसके उत्तर में विश्वनाथभट्ट ने अपनी कारिकावली में लिखा है—

‘स्पर्शादयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः ।  
स्पर्शादयाष्टौ रूपवेगी द्रवत्वं तेजसो गुणाः ॥  
स्पर्शादयोऽष्टौ वेगश्च गुरुत्वश्च द्रवत्वकम् ।  
रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिश्येते चतुर्दश ॥  
स्नेहहीना गन्धयुताः वितावेते चतुर्दश ।  
बुद्ध्यादिपट्टकं संख्यादिपट्टकं भावना तथा ।  
धर्माधिमौ गुणावेते आत्मनस्तु चतुर्दश ॥  
संख्यादिपट्टकं कालदिशोः शब्दश्च ते च से ॥  
संख्यादयः पञ्च बुद्धिरिच्छा यत्तोऽपि चेश्वरे ।  
परापरत्वे संख्याद्याः पञ्च वेगश्च मानसे ॥’

## द्रव्यों का गुणवीचक चक्र

परिपक्वी	जग्ज	तेज	शयु	आकाश	फल	दिक्.	जीवालमा	ईश्वर	मन
सर्वी	सर्प्य	सर्प्य	सर्प्य	संख्या	संख्या	बुदि	संख्या	संख्या	संख्या
संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	परिमाण	परिमाण	सुख	परिमाण	परिमाण	परिमाण
परिमाण	परिमाण	परिमाण	परिमाण	पृथक्त्व	पृथक्त्व	तुःख	पृथक्त्व	पृथक्त्व	पृथक्त्व
पृथक्त्व	पृथक्त्व	पृथक्त्व	पृथक्त्व	संयोग	संयोग	इच्छा	संयोग	संयोग	संयोग
संयोग	संयोग	संयोग	संयोग	विभाग	विभाग	द्वेष	विभाग	विभाग	विभाग
विभाग	विभाग	विभाग	विभाग	शब्द	शब्द	बुदि	परत्व	परत्व	अपरत्व
परत्व	परत्व	परत्व	परत्व	परत्व	परत्व	संख्या	इच्छा	यज्ञ	
अपरत्व	अपरत्व	अपरत्व	अपरत्व	अपरत्व	अपरत्व	परिमाण	परिमाण	परिमाण	
येग	येग	येग	येग	वेग	वेग	पृथक्त्व	संयोग	मावना	अथम
गुरुल	गुरुल	द्रवत्व	द्रवत्व	रूप	द्रवत्व	संयोग	विभाग	भावना	अथम
द्रवत्व	द्रवत्व	द्रवत्व	द्रवत्व	रूप	द्रवत्व	पृथक्त्व	संयोग	विभाग	विभाग
रूप	रूप	रूप	रूप	रूप	रूप	यज्ञ	परत्व	परत्व	अपरत्व
रात्रि	रात्रि	रात्रि	रात्रि	रात्रि	रात्रि	यज्ञ	परत्व	परत्व	अपरत्व

अन्त में ऊपर हम जो कुछ लिख गये हैं, उसे संक्षेप में यो समस्ता जाय कि कणाद ने अपने वैशेषिक-दर्शन को दृष्ट अध्यायों में लिखा है। प्रत्येक अध्याय के दो-दो आहिक हैं। अध्यायों और आहिकों का प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार है—

अध्याय १

आहिक १	सामान्य (जाति) वान्
आहिक २	सामान्य, विशेष

अध्याय २

आहिक १	द्रव्य
आहिक २	पृथिवी आदि भूत दिशा, काल

अध्याय ३

आहिक १	आत्मा, मन
आहिक २	मन

अध्याय ४

आहिक १	कार्य, कारण, भाव आदि
आहिक २	शरीर (पार्थिव, जलीय...नित्य...)

अध्याय ५

आहिक १	शारीरिक कर्म
आहिक २	मानसिक कर्म

अध्याय ६

आहिक १	दान आदि धर्मों की विवेचना
आहिक २	धर्मानुष्ठान

अध्याय ७

आहिक १	गुण, समवाय
आहिक २	निरपेक्ष गुण

अध्याय ८

आहिक १	सापेक्ष गुण
आहिक २	प्रत्यक्ष-प्रमाण

अध्याय ९

आहिक १	कल्पना-संहित प्रत्यक्ष
आहिक २	कल्पना-रहित प्रत्यक्ष

अध्याय १०

आहिक १	अभाव
आहिक २	हेतु

अध्याय ११

आहिक १	अनुमान के मेद
आहिक २	अनुमान के मेद

यद्यपि कणाद ने द्रव्य, गुण, कर्म, प्रत्यक्ष, अनुमान-जैसी सांसारिक वस्तुओं पर ही एक बुद्धिवादी की दृष्टि से विवेचना की है, तथापि उस विवेचना का मुख्य लक्ष्य है—धर्म के प्रति की गई शङ्खाओं को युक्तियों के द्वारा दूर कर किर से धर्म की घाक को स्थापित करना। इस दर्शनिक प्रयोजन की चिद्रि के लिए इष्ट हेतु और अहं कल्पना का वे आश्रय लेते हैं। अहं के उदाहरण में जुम्बक और लोहा का उदाहरण खटीक वैठता है। कणाद पूछते हैं—जुम्बक की ओर लोहा क्यों खिचता है?

वृक्ष के शरीर में ऊपर की ओर पानी कैसे चढ़ता है ? आग की लपट ऊपर की ओर कैसे उठती है ? इवा क्यों अगल-बगल में फैलती है ? परमाणुओं में एक दूसरे के साथ संयोग से प्रवृत्ति क्यों होती है ? इसी तरह जन्मान्तर—गर्भ में जीव का आना—आदि में हमें अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। इन सबका मूल हेतु यह है कि कणाद धर्म की स्थापना चाहते हैं और इसलिए अदृष्ट पर विश्वास रखने की बात सामने आती है। आहार भी धर्म का अंग है। शुद्ध आहार वह है, जो यज्ञ करने के बाद बच रहता है। जो आहार ऐसा नहीं है, वह अशुद्ध है। कणाद ने विश्व के तत्त्वों को छाँह पदार्थों में विभाजित किया है—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। वे नव द्रव्य मानते हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इनमें आकाश, काल, दिक् और आत्मा सर्वव्यापी तत्त्व हैं। मन भी अति सूक्ष्म अणु-परिमाणवाला है। गुण सदा किसी द्रव्य में रहता है। जैसे—

	द्रव्य	विशेष गुण	सामान्य गुण			
१.	पृथिवी	गन्ध	रस, रूप, स्पर्श	{ संयोग विभाग } { परत्व, अपरत्व }	संख्या परिमाण पृथक्त्व	
२.	जल	रस	रस रूप, स्पर्श { तरलता, स्निग्धता }			
३.	अग्नि	रूप	रूप, स्पर्श			
४.	वायु	स्पर्श	स्पर्श			
५.	आकाश	शब्द	शब्द			
६.	काल					
७.	दिक्					
८.	आत्मा					

कणाद ने सिर्फ ११ गुण माने हैं—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व और अपरत्व।

आत्मा के सम्बन्ध में कणाद का विचार है कि इन्द्रियों और विषयों के सम्पर्क से हमें जो ज्ञान होता है, उसका आधार ज्ञान का अधिकरण आत्मा है; क्योंकि इन्द्रियों और विषय दोनों ही जड़ हैं। श्वास-प्रश्वास, निर्मेष-उन्मेष, सुख-दुःख, इच्छा-देश, प्रयत्न ये सब-के-सब शरीर के रहने हुए भी जिस एक तत्त्व के अभाव में नहीं होते, वही ( तत्त्व ) आत्मा है। आत्मा प्रत्यक्ष-सिद्ध है।

प्रत्येक आत्मा का अलग-अलग मन है। मन प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। एक बार एक ही विषय का ज्ञान होने के कारण हम मन का अनुमान कर सकते हैं। उसके नव द्रव्यों में आत्मा परिगणित हुआ है, किन्तु वह इन्द्रियों और मन की उद्दायता से ज्ञान प्राप्त करनेवाला अनेक जीव-रूप है। फल देनेवाला जो अदृष्ट—मुकृत-दुष्कृत—है, वह शैय वासना का संस्कार है, उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता। सृष्टि के निर्माण के लिए परमाणुओं में गति की आवश्यकता है। कणाद के अनुसार यह परमाणु-गति अदृष्ट के अनुसार होती है। इस प्रकार, कुल मिलाकर कणाद के वैशेषिक-दर्शन को हम अदृष्टवादी दर्शन कहते हैं।

## योग-दर्शन

योग-दर्शन महर्षि पतञ्जलि की रचना है। पतञ्जलि ने जीव और ईश्वर दोनों तत्त्वों को माना है। इसीलिए, इसे 'सेश्वर सांख्य-दर्शन' कहते हैं। इसका एक नाम 'सांख्य-प्रवचन' भी है। पतञ्जलि-प्रणीत होने के कारण इसे 'पातञ्जल-दर्शन' भी कहते हैं। पतञ्जलि के पूर्व हिरण्यगर्भ, याज्ञवल्क्य आदि अनेक आचार्य योग-शास्त्र के प्रवक्ता थे। परन्तु, जनसाधारण के लिए पतञ्जलि ने उसी योग-शास्त्र को सूत्र-रूप में, सरल रीति से समझाया है। इसीलिए, इसे 'पातञ्जल-दर्शन' नाम से अभिहित करते हैं।

योग-शास्त्र में चार पाद हैं—समाधि-पाद, साधन-पाद, विभूति-पाद और कैवल्य-पाद। प्रथम पाद में 'श्रथ योगानुशासनम्' इस सूत्र से पतञ्जलि ने योग-शास्त्रारम्भ की प्रतिशा की है। इसमें 'श्रथ' शब्द मङ्गलवाचक है। 'श्रथ' शब्द का दूसरा अर्थ है—अधिकार, प्रस्ताव या प्रारम्भ। अतः, योगानुशासन का अर्थ है, सज्जोपाङ्ग विवेचन। इसके अनन्तर योग की परिभाषा है—'योगधित्तवृत्तिनिरोधः'। चित्त की वृत्तियाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प आदि हैं। इनका निरोध अर्थात् नियर्चन 'योग' शब्द का अर्थ है। समाधि का अर्थ है सम्यक् आधान, अर्थात् चित्त का अपने स्वरूप में अवस्थान। योग-व्याख्यिष्ठ में भी समाधि का लक्षण इस प्रकार बताया गया है—

‘इमं गुणसमाहारमनाम्यवेन पश्वतः ।  
अन्तःशीतलता यस्य समाधिरिति कथ्यते ॥’

अर्थात्, इस गुण-समूह को आत्मा से भिन्न देखते हुए जब अन्तःकरण में शीतलता का अनुभव होता है, तब वही समाधि कही जाती है। वह दो प्रकार की है—सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात। सम्प्रज्ञात समाधि में संशय और विपर्यय से शून्य ध्येय का आकार अच्छी तरह ज्ञात होता है। इस अवस्था में वृत्ति तो ध्येयाकार रहती है; किन्तु ध्यान और ध्येय में भेद बना रहता है। असम्प्रज्ञात समाधि में ध्येयाकार वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। इसलिए, इसमें ध्यान और ध्येय का भेद नहीं रहता। अर्थात्, ध्येय से पृथक् ध्यान भी मासित नहीं होता है।

द्वितीय पाद में—‘तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि कियायोगः’ इत्यादि सूत्रों के द्वारा चञ्चल चित्तवालों के लिए तप, स्वाध्याय प्रभृति, क्रिया-योग और यम, नियम आदि बहिरङ्ग साधनों का वर्णन है। उक्त सूत्र में 'तप' शब्द से चान्द्रायण आदि वलेशकारक तप का बोध नहीं होता; व्योक्त शरीर में वलेश होने से चित्त एकाग्र नहीं रह सकता। यहाँ 'तप' का अर्थ है—हितकारक, स्वल्प और सात्त्विक भोजन तथा शीत, उष्ण, सुख, दुःख आदि का सहन एवं इन्द्रियों का निरोध। योग में तप प्रसन्नता का कारण होता है, न कि पीड़ा का। स्वाध्याय का अर्थ है—मोह-शास्त्र का

अध्ययन, अथवा नियमपूर्वक प्रणव आदि का जप। ईश्वर-प्रणिधान का अर्थ है—परमात्मा का अनुचिन्तन और सब कर्मों का परमात्मा में समर्पण। अस्तु, ईश्वर-प्रणिधान सब क्रिया-योगों में उत्तम क्रिया-योग माना गया है। ईश्वर में प्रणिधान करनेवाला व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर की सेवा-बुद्धि से करता है। 'यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो ! तवाराधनम्', अर्थात् है परमात्मन् ! मैं जो कुछ कर्म करता हूँ, सब आपकी आराधना है। इस भावना में ममता का लेश भी नहीं रहता। यथपि उक्त 'क्रिया-योग' वस्तुतः योग नहीं है, तथापि योग के साधन होने के कारण क्रिया-योग शब्द से इनका व्यवहार शास्त्रकार ने किया है।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार—ये बहिरङ्ग साधन हैं। यम पांच है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपने आचरण और वाणी से किसी भी जीव को दुःख न देना अहिंसा है। जैसा मन में, वैसा बचन में, यही सत्य है। विना अनुमति के किसी की वस्तु को न लेना अस्तेय है। इन्द्रियों का नियमन करना ही ब्रह्मचर्य है। भोग-साधनों को अस्वीकार करना ही अपरिग्रह है।

नियम भी पांच है—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान। शौच दो प्रकार के है—शारीरिक और मानसिक। मिट्टी, जल आदि से शरीर आदि को शुद्ध करना ब्राह्म शौच है, और पञ्चगव्य आदि के द्वारा अन्तःशुद्धि करना आम्यन्तर शौच है। सन्तोष का अर्थ है—तृष्णा का छय, अर्थात् किसी भी वस्तु की चाहन रहना। तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान का अर्थ ऊपर आ चुका है।

आसन का लक्षण पतङ्गलि ने बताया है—'तत्र स्थिरसुखमासनम्'। अर्थात्, जो स्थिर और सुखावह हो, वही आसन है। जैसे—सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन आदि। जिसका आसन स्थिर हो जाता है, उसको शीत, उष्ण आदि द्वन्द्व बाधा नहीं पहुँचाते।

प्राणायाम का अर्थ है—श्वास और प्रश्वास की स्वामाविक गति का निरोध। नासिका के द्वारा वायु के अन्तर्गमन का नाम है श्वास, और वहिर्गमन का नाम है प्रश्वास। इसी को पतङ्गलि ने सूक्ष्म-रूप में कहा है—'श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः'।

प्राणायाम स्थिर होने से चित्त स्थिर होता है। चित्त के स्थिर होने से विषयों के साथ चित्त का सम्बन्ध टूट जाता है। उस समय इन्द्रियों भी विषयों से वियुक्त होकर नियवलम्ब चित्त का अनुसरण करने लगती हैं। इसी अवस्था का नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार की अवस्था में इन्द्रियों भी विषयों से नियृत होकर चित्त के साथ स्वरूपानुकारी हो जाती है।

योग के आठ अङ्गों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरङ्ग याधन है तथा धारणा, ध्यान और समाधि अन्तरङ्ग साधन हैं। साक्षात् साधन होने से अन्तरङ्ग और परम्परया याधन होने में विद्युत कहे जाते हैं। इन सबका शीज यम और नियम ही है।

योग-रूप दृढ़ को तैयार करने के लिए चित्त-रूप द्वेष में यम-नियम-रूप शीज का यज्ञ करना चाहिए; स्वोकि उसी शीज से आसन, प्राणायाम आदि अङ्ग का उद्भव

होता है। फिर, भद्रापूर्वक अभ्यास-रूप जल से सेचन करने पर यही अङ्गुर एक दिन प्रत्याहार-रूप कुसुम और ध्यान-धारण-रूप फल से परिपूर्ण होकर विशाल योग-वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है।

धारणा, ध्यान और समाधि—ये जो तीन अन्तरङ्ग साधन हैं, और उनके अवान्तर फल जो अनेक प्रकार की छिद्रिय हैं, उनका विवेचन तृतीय पाद में सूत्रकार ने किया है।

धारणा और ध्यान में अन्तर—विषयाकार चित्तवृत्ति को प्रत्याहार द्वारा खीचकर मूलाधार या दृष्टिपुण्ड्रीक में निहित करना धारणा है। 'देशबन्धितस्य धारणा'। इस रूप का यही तात्पर्य है। जब धारणा अभ्यास से प्रगाढ़ हो जाता है, तब उसे ध्यान कहते हैं। जब वही ध्यान अभ्यास से ध्येय-मात्राकार हो जाता है, तब प्रत्याहार कहलाने लगता है। धारणा, ध्यान और समाधि—इन तीनों की एक संश्लेषण संयम है। 'त्रयमेकत्र संयमः।' इन तीनों का मुख्य फल योग है और अवान्तर फल छिद्रिय है।

जन्मान्तर का शान, भूत-भविष्यत् अर्थ का शान, अन्तर्धान इत्यादि अनेक प्रकार की छिद्रियों का वर्णन सूत्रकार ने तृतीय पाद में किया है।

चतुर्थ पाद में सूत्रकार ने 'जन्मीपधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः' इस सूत्र से पाँच प्रकार की छिद्रियों का वर्णन किया है। देवताओं की छिद्रि जन्म से ही होती है। पश्चिमों का आकाश में उड़ना, पशुओं का जल में तैरना जन्म से ही प्रसिद्ध है। श्रौपधियों से भी छिद्रि प्राप्त होती है। यह आयुर्वेद, रसेश्वर-दर्शन आदि में वर्णित है। मन्त्र और तपोबल से भी छिद्रियों की प्राप्ति का वर्णन तन्त्रादि शास्त्रों में पाया जाता है। समाधि से छिद्रि इसी शास्त्र का गौण विषय है। यम, नियम आदि आठ शङ्कों की छढ़ उपासना से जब योग-वृक्ष फलित होता है, तब पूर्ण भावना से समाधि-रूप फल के परिपक्ष होने पर प्रकृति और पुरुष के भेद का सञ्चात्कार होता है। उस समय असङ्ग और निर्लेप पुरुष के स्वरूप में अवस्थान होने से, दुःख का आत्मनितक विनाश-रूप मोहर की छिद्रि होती है।

पतञ्जलि छब्बीस तत्त्वों को मानते हैं—एक मूलप्रकृति, सात प्रकृति-विकृति, सोलह केवल विकृति और एक पुरुष। इन पच्चीस तत्त्वों को तो सांख्य ने भी माना है। पतञ्जलि इनके अतिरिक्त एक ईश्वर तत्त्व को भी मानते हैं। इसीलिए, यह सेश्वर या ईश्वरवादी सांख्य कहा जाता है। ईश्वर का लक्षण बताते हुए पतञ्जलि लिखते हैं—

'वलेशकर्मविषयाकाशवैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः।'

अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष, द्वेष और अभिनिवेश—ये पाँच वलेश हैं। शुभ या अशुभ अथवा विहित और निविद—ये दो प्रकार के कर्म हैं। कर्म का जो फल है जाति, आयु और भोग—उन्हें विषयाक कहते हैं। चित्त में कर्मजन्य जो संस्कार है, उसीको आशय कहते हैं। इसी का नाम कर्मवासना भी है। इसी प्रकार वलेश, कर्म, विषयाक और आशय से जो मुक्त है, वही पुरुषविशेष ईश्वर है। जीव और ईश्वर में भेद यही है कि जीव अविद्यावश चित्त में रहनेवाले वलेश आदि से प्रभावित होता रहता है,

परन्तु ईश्वर इससे मुक्त है। यद्यपि जीव भी निर्ण्य, असङ्ग और निलेंप माना गया है, तथापि चिरानुकारी होने से उसमें श्रीपाठिक कलेश का मान होता है और ईश्वर में श्रीपाठिक कलेश की सम्भावना नहीं रहती। यही ईश्वर में विशेषता है।

ईश्वर अपनी इच्छामात्र से श्रनेक शरीर धारण करता है। इसी इच्छा-शरीर को निर्माण-काय कहते हैं। निर्माण-काय में स्थिर होकर ही परमात्मा संसार-रूप अभिसंस्थान मनुष्यों के ऊपर अनुग्रह करके लौकिक और वैदिक सम्प्रदायों का प्रबन्धन करता रहता है, जिसके आधारण से विवेकी पुरुष त्रिविध ताणों से विमुक्ति पाते हैं। यहीं शङ्खा होती है कि पुरुष पञ्च-पत्र की तरह निलेंप और विशुद्ध है, उसमें किसी प्रकार दुःख की सम्भावना नहीं है, किर अनुग्रह किसके लिए?

इसका उत्तर यह है कि पुरुष यद्यपि निलेंप है, तथापि त्रिगुणात्मक बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से उसमें भी बुद्धिगत सुख, दुःख और अविवेक भासित होते हैं, उस समय बुद्धिगत सुख-दुःख को बुद्धितादात्म्यपन पुरुष अपना ही समझने लगता है। इसी दुःख के नाश के लिए ईश्वरानुग्रह की आवश्यकता होती है।

यहीं पुरुष के स्वरूप-ज्ञान के लिए पञ्चशिखाचार्य की उक्ति का उद्दरण दिया जाता है—“अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिः अप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थं प्रतिसंकान्तेव तदवृत्तिमनुपतति। तस्याश्च प्राप्तैतन्योपग्रहलूपायाः बुद्धितेरुकारिमान्तया बुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते।” इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि पुरुष अपरिणामी भोक्तृशक्तिवाला है, विषय से असम्बद्ध होने के कारण निलेंप है, तथापि सतत परिणामशील बुद्धि में प्रतिविम्बित होता हुआ तदाकार भासित होने लगता है। उस समय बुद्धि वृत्ति का अनुसरण करनेवाली हो जाती है। चैतन्य-प्रतिविम्ब को ग्रहण करनेवाली बुद्धि वृत्ति के अनुसरण से उससे अभिन्न भासित होती है, और ज्ञानवृत्ति कहलाने लगती है। अर्थात्, आत्मा यद्यपि विकार के हेतुभूत संयोग से रहित होने के कारण निलेंप है, तथापि बुद्धि में प्रतिविम्बित होने से बुद्धिगुणों से संकान्त भासित होता है। अर्थात्, जिस प्रकार जलतरङ्ग की चञ्चलता से तदगत सूर्य-प्रतिविम्ब के चञ्चल होने पर भी वास्तविक सूर्य में चञ्चलता नहीं आती, कुछ भी विकार नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धि के सुख-दुःखादि आकार में परिणत होने पर उसमें प्रतिविम्बित चेतन आत्मा भी सुख-दुःखादि से युक्त भासित होता है; परन्तु वस्तुतः उसमें कुछ भी विकार नहीं होता—वह सदा निलेंप और असङ्ग ही रहता है।

विषय के आकार में जो बुद्धि का परिणाम है, वही ज्ञान है। यद्यपि ज्ञान बुद्धि का ही गुण है, तथापि बुद्धि से संयुक्त आत्मा में भी वह भासित होता है, इसीलिए ‘आत्मा ज्ञानी है’, इस प्रकार का व्यवहार लोक में होता है। बुद्धि-तत्त्व भी आत्मा के सम्बन्ध से चेतन कहा जाता है। इस प्रकार, निलेंप आत्मा भी बुद्धिगत विषयाकार के ग्रहण-रूप प्रतीति का अनुसरण करता हुआ बुद्धि से अत्यन्त भिन्न होने पर भी बुद्धि-स्वरूप ही भासित होता है। इस अवस्था में बुद्धिगत सुख-दुःखादि को अपना ही समझता है, और अनुत्स द्वारा होता है। इसलिए, बुद्धिगत दुःखादि की निवृत्ति के लिए यम-नियमादि का अनुष्ठान और ईश्वर-प्रणिधान की आवश्यकता प्रतीत होती है।

श्रेष्ठ योग के अद्वापूर्वक नित्य-निरन्तर दीर्घकाल-पर्यन्त अनुष्ठान करने से बुद्धि-तत्त्व और पुरुष (आत्मा) में भेद का प्रत्यक्ष होने लगता है। इसी भेद-ज्ञान का नाम अन्यथाख्याति है। इस अन्यथाख्याति से अविद्या आदि क्लेश का समूल नाश हो जाता है। इस अवस्था में निलेप पुरुष को कैवल्य, अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार, योगशास्त्र के सामान्य विषयों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराकर कुछ खास धूतों के ऊपर पूर्वचार्यकृत शङ्का-समाधान प्रस्तुत किये जाते हैं।

विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारी—इन चारों को अनुबन्ध कहते हैं। इस अनुबन्धचतुष्टय के ज्ञान होने के अनन्तर ही शास्त्रावलोकन में प्रवृत्ति होती है। इनमें एक के अभाव में भी ग्रन्थ-अध्ययन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ग्रन्थ का विषय क्या है, उसका क्या प्रयोजन है, ग्रन्थ और प्रयोजन में क्या सम्बन्ध है, और इस ग्रन्थ के पढ़ने का अधिकारी कौन है? इत्यादि विषयों का ज्ञान अत्यावश्यक है। इसीके विश्लेषण के लिए योग-शास्त्र का पहला सूत्र है—

‘अथ योगानुशासनम्।’

इस सूत्र से आचार्य ने योग-शास्त्रारम्भ की प्रतिज्ञा की है। योग और योग के अङ्ग जो अभ्यास, वैराग्य, यम, नियमादि हैं, उनके लक्षण, भेद, साधन और फल का प्रतिपादन करनेवाला जो शास्त्र है, उसका मैं आरम्भ करता हूँ, यह सूत्र का अर्थ है। यहाँ अथ शब्द का प्रारम्भ अर्थ ही आचार्यों ने माना है।

## ‘अथ’ शब्द का विवेचन

यहाँ आशङ्का यह होती है कि कोश में अथ शब्द के अनेक अर्थ आचार्यों ने लिखे हैं—‘मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्त्वेष्वयो अथ।’ अर्थात् मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ, प्रश्न और कात्स्त्व अर्थ में ‘अथो’ और ‘अथ’ शब्द का प्रयोग होता है। तो, क्या कारण है कि प्रकृत में अथ का प्रारम्भ अर्थ ही लिया जाता है? इसका उत्तर यह होता है कि शब्द का वही अर्थ यहीं होता है, जिसका अन्वय वाक्यार्थ में होता है। प्रकृत में अथ शब्द के मङ्गल अर्थ का वाक्यार्थ में अन्वय नहीं होता। कारण, अनिन्दित अर्थ की प्राप्ति ही मङ्गल शब्द का अर्थ है। और, सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति का ही नाम अभीष्ट है। योगानुशासन न सुख है और न दुःख का परिहार ही, इस स्थिति में ‘योगानुशासन मङ्गल है’, ऐसा सूत्र का अर्थ करना सर्वथा असङ्गत हो जाता है। यस्तुतः, बात यह है कि अथ शब्द का वाच्य अर्थ मङ्गल होता ही नहीं, अपदार्थ होने से वाक्यार्थ में अन्वय नहीं होता; क्योंकि मङ्गल तो अथ शब्द के उच्चारण और श्वरण का कार्य है, न कि उसका वाच्य अर्थ। जिस प्रकार, पाकादि कार्य के लिए नीयमान सजल घट को देखने से ही यात्रिक का मङ्गल होता है, उसी प्रकार प्रारम्भ अर्थ में प्रयुज्यमान अथ शब्द के श्वरण से ही मङ्गल सम्भावित है, उसका वाच्य अर्थ होने से नहीं। अथ शब्द का लक्ष्य अर्थ भी मङ्गल नहीं है। कारण, वाच्य अर्थ से सम्बद्ध ही लक्ष्य अर्थ होता है, प्रकृत में किसी प्रकार भी अथ के वाच्य अर्थ से मङ्गल का सम्बन्ध नहीं है, इसलिए पदार्थ न होने से वाक्यार्थ में उसका

अन्यथ दोनों दुर्घट है। 'पदार्थः पदार्थं नान्वेति' यह सर्वतन्त्र-सिद्धान्त है। दूसरी बात यह है कि वाक्यार्थ में मङ्गल के अन्यथ दोने की योग्यता भी नहीं है। यथोकि, अथ शब्द क शब्दणमात्र से मङ्गल अर्थ मावतः सिद्ध हो जाता है, वह वस्तुतः पद का अर्थ नहीं है। और, किसी पद का जो अर्थ होता है, उसीकी वाक्यार्थ में अन्यथयोग्यता रहती है; जैसे, 'पोनोऽयं देवदत्तः दिवा न मुद्दत्ते' यहाँ दिन में भोजन के निषेध से और स्थूलत्व की अनुपर्याप्ति में जो रात्रि-भोजन का अनुमान या आकेश किया जाता है, उस ( रात्रि-भोजन अर्थ ) का कहीं भी वाक्यार्थ में अन्यथ नहीं होता; यथोकि वह पदार्थ नहीं है। इसलिए, वाक्यार्थ में अन्यथ दोने की उसमें योग्यता भी नहीं है। इसी प्रकार मङ्गल अर्थ भी रात्रि-भोजन की तरह, मावतः सिद्ध होने से वाक्यार्थ में अन्यथ के योग्य नहीं है। यदि श्राविक ( मावतः सिद्ध ) अर्थ का भी वाक्यार्थ में अन्यथ मान लें, तब तो 'शान्ती खाकाहा शब्देनैव प्रपूर्यते, यदि सिद्धान्त मङ्गल हो जायगा। इसलिए, यहाँ अथ शब्द का मङ्गल अर्थ मानना उचित नहीं।

यहाँ दो शब्दाएँ और भी उपस्थित होती हैं,—एक यह कि मङ्गल अर्थ अथ शब्द का वाच्य नहीं है, यह स्मृति में विशद हो जाता है। स्मृति कहती है—'ओहारश्चाप शब्दध द्वोवेती ब्रह्मणः पुरा, करठं मित्या विनियांती तस्मान्मङ्गलिकातुमी।' अर्थात्, ओम् और अथ—ये दोनों, शब्द साईं के शादि में दी ब्रह्म के कण्ठ से उत्पन्न हुए, इसलिए माझलिक अर्थात् मङ्गल के वाचक हैं। यदि यहाँ स्मृति से मङ्गल का वाचक अथ शब्द छिद्र होता है, तो यहा कारण है कि मङ्गल में इस अर्थ को न माना जाय।

दूसरी बात यह है कि—प्रारिष्ठित ग्रन्थ की निर्विप्त उमाति के लिए ग्रन्थ के शादि, मरण तथा अन्त में मङ्गल करना इमारे शिष्टाचार से छिद्र है। पतञ्जलि ने कहा है—'मङ्गलार्द्धनि मङ्गलसम्प्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते पौरपुरुष-काणि च भग्नत्यादुभ्यत्पुरुषाणि च शर्षेतारथ मङ्गलमुक्ताः यथा सुरिति मङ्गल-गाचरणीदम्, अर्थात् त्रिय ग्राम के आदिमस्यान्त में मङ्गल रहता है, यदि विन्यात होता है, उसके बनानेयाले और पदनेयाले भी मङ्गलमुक्त होते हैं। इसलिए, मङ्गल का आपरण करना चाहिए।

इस विषय में जब अथ शब्द का वाच्य मङ्गल इसी गिद हो जाता है, और पतञ्जलि की छाता में भी मङ्गल करना गिद होता है, तब तिर पदा कारण है कि प्रकृति में मङ्गल इस अथ शब्द का अर्थ न हो। पतञ्जलि एक दोर मङ्गल की शाश्वतवृत्तिमया बनाते हैं और उन्होंने राष्ट्रत प्रकृति प्रथ में मङ्गल अर्थ न माना जाय—यदि विन्यात दर्शित हो यहाँ है।

इसका उत्तर यह है कि दाता-कार्य के विषय कोई अस्ति पदा में पानी भर वह में आ रहा है। रात्रों याता दाता देवदत्त दातिष्ठ वा देवदत्त भी होता है; इस देवदत्त दाता के विषय प्रकृति अथ शब्द देवदत्त में मङ्गल होना माना जाता है; यह अथ वा वाच्य अर्थ नहीं है। "मात्रामात्रुर्भवात्" यहाँ 'मात्रामिती' का अर्थ 'मात्रामिती' नहीं है; विष्व—'मात्रामिती' में 'मात्रामिती' अर्थ 'मात्रामिती'

ध्युत्पत्ति में 'प्रयोजनम्' इस सूत्र से प्रयोजन अर्थ में उत्त प्रत्यय करने से 'मङ्गल-प्रयोजनवाला' ऐसा अर्थ होता है।

इसी प्रकार यहाँ आनन्दतर्थ अर्थ भी अथ शब्द का नहीं होता; यदोकि—आनन्दतर्थ अर्थ मानने में यह आकर्षा होती है कि किसके अनन्तर १ यदि कर्म के अनन्तर अर्थ मानें, तो यहाँ अथ शब्द का ग्रहण ही व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि, किसी काम के करने के अनन्तर ही किसी काम में कोई प्रवृत्त होता है, इस स्थिति में अनन्तर अर्थ के भावतः सिद्ध हो जाने से सूत्र में अथ शब्द का ग्रहण व्यर्थ ही हो जाता है, इसलिए अनन्तर अर्थ भी युक्त नहीं हो सकता। यदि शम-दमादि साधन-सम्पत्ति के अनन्तर अर्थ मानें, तो वह भी ठीक नहीं होता, कारण यह है कि सूत्रजन्य बोध में जो प्रधान अर्थ होता है, उसी में सूत्रघटक अथ शब्दार्थ का अन्वय करना सर्वसिद्धान्त और समुचित है। 'अथ योगानुशासनम्' इस सूत्रजन्य बोध में अनुशासन ही प्रधान है, योग नहीं। योग तो अनुशासन के विशेषण होने से गौण हो जाता है, इसलिए अप्रधान है। अतः, अप्रधान योग में अथ शब्दार्थ अनन्तर का अन्वय करना सिद्धान्त के विरुद्ध और अनुचित हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि अनुशासन का अर्थ शास्त्र होता है। शास्त्र बनाने में ही सूत्रकार का तात्पर्य है, योग बनाने में नहीं। योग तो स्वयंसिद्ध है। इस शास्त्र में प्रवृत्ति के लिए अनुनन्दचतुष्टय के अन्तर्गत विषय को अवश्य दिखाने के लिए ही योग शब्द का सूत्र में प्रयोग किया गया है, इससे यह अप्रधान है। और, इस योग की शिक्षा देनेवाला शास्त्र ही प्रधान है। इसलिए, उसी में अथ शब्दार्थ का अन्वय होना युक्त प्रतीत होता है।

दूसरे शब्दों में अनुशासन की अपेक्षा नियमेन जो पूर्ववृत्ति हो, उसीकी अपेक्षा आनन्दतर्थ मान लेना शास्त्रकारों का समुचित उद्देश्य है। यहाँ प्रकृत में अनुशासन के कर्ता सूत्रकार हैं। सूत्रकार के सूत्र बनाने में, प्रवृत्ति की अपेक्षा नियमेन पूर्वभावी तत्त्व-शान की प्रकाशनेच्छा ही है, न कि शम-दमादि साधन-सम्पत्ति। क्योंकि, इसके बिना भी तत्त्व-प्रकाशन की इच्छा-मात्र से ग्रन्थ बनाने में विद्वानों की प्रवृत्ति देखी और सुनी जाती है। अस्तु;

यदि यहाँ यह कहें कि शम-दमादि साधन-सम्पत्ति के बाद ही ग्रन्थ बनाने में प्रवृत्ति होती है, तो इसी के आनन्दतर्थ अर्थ अथ शब्द के मान लेने से क्या आपत्ति है! इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि शास्त्रकार जिसके बाद शास्त्र-रचना में प्रवृत्ति हुए हैं, उसका ज्ञान श्रोताश्वों के शास्त्र से जायमान योगविषयक ज्ञान में अथवा योगविषयक प्रवृत्ति में कारण नहीं है, इसलिए उसकी अपेक्षा भी अथ शब्द का आनन्दतर्थ अर्थ नहीं ले सकते। यस्तुतः, अनुशासन की अपेक्षा से तत्त्व-प्रकाशन की इच्छा नियमेन पूर्वभावी है भी नहीं, कारण यह है कि तत्त्व-शान के प्रकाशन की इच्छा के बिना भी शिष्य प्रश्न के बाद या गुरु की आशा से शास्त्र रचने में प्रवृत्ति देखा जाता है। एक बात और है कि अथ शब्द के आनन्दतर्थ अर्थ माननेवाले के सामने भी यह प्रश्न होता है कि योगानुशासन निःध्रेयसु का हेतु निश्चित है,

अथवा नहीं ? यदि आच पक्ष मानें, तो तत्त्व-ज्ञान-प्रकाशनेच्छा के अभाव में भी अनुशासन की कर्तव्यतापत्ति हो जायगी ।

यदि योगानुशासन को निश्चेयस् का निश्चित हेतु न माना जाय, तो तत्त्व-प्रकाशन की इच्छा रहने पर भी अनुशासन की अकर्तव्यता हो जायगी; क्योंकि योगानुशासन की, निःश्रेयस् के निश्चित हेतु न होने के कारण, आवश्यकता ही न रहेगी । और, योगानुशासन निःश्रेयस् का हेतु है, यह बात श्रुति स्मृति से सिद्ध है । श्रुति कहती है—‘अध्यात्मयोगाधिगमेन दर्व मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति’, अर्थात् शानी पुरुष आत्मा में चित् के निदिध्यासन-स्वरूप अध्यात्म-योग के लाभ होने से आत्मसाक्षात्कार कर हर्ष और शोक को त्याग देते हैं । इसी बात को गीता स्मृति में भगवान् ने अर्जुन से कहा है—‘समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि’, अर्थात् जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थिर हो जायगी, तब तुम योग का फल—आत्मसाक्षात्कार—पाओगे । श्रुति स्मृति के इन प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि योग मोक्ष का साधन अवश्य है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि तत्त्व-ज्ञान के प्रकाशन की इच्छा नहीं रहने पर भी उपर्युक्त कारणों से अनुशासन करने में प्रवृत्ति अवश्य होती है । इसलिए, तत्त्व-प्रकाशनेच्छा अनुशासन की अपेक्षा नियमेन पूर्वभावी नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है ।

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्र के भाष्य में भगवान् शङ्कराचार्य ने ‘अथ’ शब्द का आनन्दर्थ अर्थ ही माना है, अधिकार नहीं । अतः, ‘अथ योगानुशासनम्’ में भी ‘अथ’ शब्द का अधिकार अर्थ क्यों नहीं माना जाता ? इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म-जिज्ञासा में ‘अथ’ का अधिकार अर्थ नहीं हो सकता । कारण, जिज्ञासा का तात्पर्य है—ब्रह्म-ज्ञान की इच्छा और अधिकार का प्रारम्भ । इस स्थिति में सूत्र का अर्थ होगा—ब्रह्म-ज्ञान की इच्छा का प्रारम्भ किया जाता है । परन्तु यह अर्थ यहाँ ठीक नहीं होता; क्योंकि इच्छा का कहीं आरम्भ नहीं किया जाता । प्रत्येक अधिकरण में इच्छा का कहीं आरम्भ नहीं, किन्तु विचार किया गया है । यदि यहाँ यह कहें कि ‘स विजिज्ञासितव्यः’ (छा० दा७।१), ‘तद्विजिज्ञासत्व’ (तै० श।१।१) इत्यादि वाक्यों में प्रायः सब लोगों ने सन् प्रत्ययन्त ज्ञाधातु का विचार अर्थ माना है, ज्ञान और इच्छा अर्थ नहीं; क्योंकि ज्ञान और इच्छा विधेय नहीं हैं, किन्तु विचार का ही विधान किया जाता है । इसलिए, यहाँ भी जिज्ञासा का विचार अर्थ मानकर, अथ शब्द का अधिकार अर्थ मानने में क्या आपत्ति है ? क्योंकि, विचार तो प्रत्यधिकरण में किया ही जाता है ।

इसका उत्तर यह होता है कि यद्यपि ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है, तथापि अधिकारीविशेष के लाभ के लिए ही भाष्यकार ने अथ शब्द का आनन्दर्थ अर्थ माना है । कारण यह है कि ब्रह्म-विचार आरम्भ किया जाता है, ऐसा अर्थ मानने पर जो ब्रह्म-विचार का जिज्ञासु होगा, वही अधिकारी समझा जायगा; शम-दमादि साधनचतुष्य समझ नहीं । यदि आनन्दर्थ अर्थ मानते हैं, तो किस अनन्दर्थ ? इस आर्कांक्षा में जिस साधन के अनुष्ठान से ब्रह्म-विचार में सहायता मिले, उसीकी अपेक्षा अनन्दर भावना युक्त और समुचित है ।

शम-दमादि साधनचतुष्टय-सम्पत्ति के बाद ही ब्रह्म-विचार हो सकता है। इसलिए, उक्त साधन-चतुष्टय की प्राप्ति के अनन्तर, यही अर्थ अथ शब्द का होता है। साधनचतुष्टय-सम्पत्ति के अनन्तर ब्रह्म-विचार करना चाहिए, यह 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' का अर्थ है। उक्त साधनचतुष्टय से उम्मेद अधिकारी के लाभ के लिए ही अथ शब्द का आनन्दर्थ अर्थ जिज्ञासा सूत्र में भाष्यकार ने माना है। 'तस्माच्छान्तो दान्तः उपरतस्तिविज्ञुः समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्य' (बृ० आ० ४।४।३), यह श्रुति भी इसी अर्थ को पुष्ट करती है। इन प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि योग मोक्ष का साधन अवश्य है।

उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट सिद्ध हो गया कि प्रकृत 'अथ योगानुशासनम्' इस सूत्र में 'अथ' शब्द का अधिकार ही अर्थ है, आनन्दर्थ आदि नहीं। अन्यार्थ नीयमान सजल घट के समान श्वरणमात्र से महङ्गल भी भावतः सिद्ध हो जाता है।

पहले कहा जा चुका है कि विषय-प्रयोजन आदि अनुबन्धचतुष्टय को दिखाने के लिए आचार्य पतञ्जलि ने 'अथ शब्दानुशासनम्' सूत्र लिखा है। अब प्रकृत ग्रन्थ में विषय, प्रयोजन, विषय के साथ ग्रन्थ का सम्बन्ध इत्यादि वार्ताओं के ऊपर विचार किया जाता है।

प्रकृत शास्त्र का विषय अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग साधनों के साथ सफल योग ही है; क्योंकि जिसका प्रतिपादन किया जाता है, वही विषय है, और इसीका प्रतिपादन प्रकृत ग्रन्थ में है। शास्त्र से प्रतिपादित जो योग है, उसका मुख्य प्रयोजन कैवल्य है। शास्त्र और योग के साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादक सम्बन्ध है। योग प्रतिपाद्य और ग्रन्थ प्रतिपादक है। योग और कैवल्य के साथ साध्य-साधन सम्बन्ध है। कैवल्य साध्य और योग साधन है। जब पूर्वोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका कि योग का फल मोक्ष ही है, तब यह भी भावतः सिद्ध हो जाता है कि मोक्ष चाहनेवाला ही इस ग्रन्थ का अधिकारी है।

उपर्युक्त विचारों से यह सिद्ध होता है कि विषय प्रयोजनादि से युक्त होने के कारण ब्रह्म-विचार के सहश योगानुशासन-शास्त्र का भी आरम्भ करना चाहिए। यद्यपि यहाँ प्रस्तुत योग ही है, शास्त्र नहीं; इसलिए पतञ्जलि को योग का ही आरम्भ करना चाहिए था, शास्त्र का नहीं; तथापि मुख्यतया प्रतिपाद्य जो योग है, उसका प्रतिपादन योगविषयक शास्त्र से ही हो सकता है, इसलिए उस योग के प्रतिपादन में करण शास्त्र ही हो सकता है, और कर्त्ता का व्यापार करण में ही होता है, कर्म में नहीं। जैसे वृक्ष के काटनेवाले का व्यापार कुठार आदि करण में ही होता है, वृक्ष आदि कर्म में नहीं, वैसे पतञ्जलि का प्रवचन-रूप जो व्यापार है, वह करणभूत शास्त्र में ही होगा, कर्मभूत योग में नहीं। निष्कर्ष यह है कि अथ शब्द का जो अधिकार अर्थ सिद्ध हुआ, वह किसका अधिकार? इस प्रकार की आकांक्षा होती है। इसमें प्रवचन-व्यापार की अपेक्षा शास्त्र का अधिकार और अभिधान-व्यापार की अपेक्षा योग का अधिकार समझना चाहिए; दूसरे शब्दों में, शास्त्र के प्रवचन द्वारा योग का अभिधान ही शास्त्र का मुख्य प्रयोजन सिद्ध होता है।

## योग-विवेचन

अब प्रकृत शास्त्र में अनुशासनीय योग का क्या लक्षण है, इस आकांक्षा में महर्पि पतञ्जलि कहते हैं—

‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।’

अर्थात्, चित्त की जो अनेक प्रकार की बहिर्मुखी वृत्तियाँ हैं, उनका निरोध ही योग शब्द का वाच्यार्थ है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ‘युजियोगे’ इस संयोगार्थक युन्धातु से निष्पन्न जो योग शब्द है, उसका निरोध अर्थ मानना उचित नहीं हो सकता। इसी अभिप्राय से महर्पि याज्ञवल्क्य ने भी कहा है—जीवात्मा और परमात्मा का जो संयोग है, उसी को योग कहा जाता है—‘संयोगो योग इत्युक्तः जीवात्मपरमात्मनोः।’ इस स्थिति में, प्रकृत योग शब्द का निरोध अर्थ किस प्रकार होगा? इसका उत्तर यह है कि प्रकृत योग शब्द का संयोग अर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के संयोग में कोई भी कारण नहीं है। संयोग के तीन कारण हैं, अन्यतरकर्म, उभयकर्म और संयोग। इन्हीं तीन प्रकार के कारणों से उत्पन्न संयोग भी तीन प्रकार का होता है—अन्यतरकर्मज, उभयकर्मज और संयोगज। जहाँ दो में एक का कर्म से संयोग होता है, उसे अन्यतरकर्मज कहते हैं। जैसे—वृक्ष और पक्षी का संयोग। यहाँ केवल एक पक्षी का ही कर्म से संयोग होता है। दो पहलवानों का जो संयोग है, वह उभयकर्मज है, क्योंकि वहाँ दोनों के कर्म से संयोग होता है। संयोग से जो संयोग उत्पन्न होता है उसे संयोगज कहते हैं, जैसे—हस्त और पुस्तक के संयोग से शरीर और पुस्तक का जो संयोग है, वह संयोगज है। प्रकृत में जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों व्यापक हैं। व्यापक में चलनादि किया नहीं रहती, और विना किया के संयोग नहीं होता। इसलिए, इन दोनों का कोई संयोग हो ही नहीं सकता। यदि यह कहें कि जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संयोग ही मान लें, इसमें कारणान्तर की अपेक्षा नहीं है, तो इसपर यही कहा जाता है कि व्यापक द्रव्यों के साथ संयोग किसी प्रकार का होता ही नहीं। नैयायिक और वैशेषिक भी दो व्यापक पदार्थों के संयोग का खण्डन करते हैं। ये संयोग को नित्य मानते ही नहीं। घट का पट या आकाश के साथ जो संयोग है, उसको नित्य मानना सब शास्त्र और सुक्ति के विरुद्ध है। यदि संयोगी नित्य भी हो, परन्तु परिच्छिन्न हो, तो भी उसका संयोग अनित्य देखा जाता है। जैसे—दो परमाणुओं का जो संयोग है, वह अनित्य ही है। यदि दोनों संयोगी में एक विमु भी है, तो संयोग अनित्य ही होता है। क्योंकि, तत्त्व प्रदेश में नवीन-नवीन संयोग उत्पन्न होने से यह कार्य, अर्थात् अनित्य ही रहता है। जैसे—आत्मा और मन का संयोग। यह तत्त्व आत्म-प्रदेश में नवीन-नवीन उत्पन्न होता रहता है। यदि दोनों संयोगी को नित्य और व्यापक मानें, तो उन दोनों विमु-पदार्थों का संयोग भी नित्य ही सकता है, परन्तु यह संयोग भी सदातन नित्य ही होगा, इस स्थिति में यह विचार करना होगा कि प्रकृत अर्थ जो जीवात्मा और परमात्मा है, वह सदातन नित्य है; इसलिए, इनका संयोग भी सदातन नित्य ही होगा। इस स्थिति में जीवात्मा और परमात्मा के संयोग के उद्देश्य से जो योग-शास्त्र का अनुशासन किया जाता है, वह व्यर्थ ही हो जायगा;

क्योंकि संयोग तो दोनों का नित्य सिद्ध है और संयोग का फल जो मोक्ष है, वह भी सदातन होने से सिद्ध ही है।

यदि यह कहें कि संयोग के नित्य होने पर भी फल के उत्पादन में शास्त्रादि सद्कारी कारण की अपेक्षा रखते ही हैं, इसलिए शास्त्रादि व्यर्थ नहीं हो सकते। इच्छा उत्तर यह है कि यदि सद्कारी को अवश्य मानना है, तो सद्कारी से ही फल उत्पन्न हो जायगा, किंतु नित्य संयोग की कल्पना ही व्यर्थ है। इसी कारण, संयोग को प्रायः सब लोगों ने अनित्य माना है। काल और आकाश का संयोग नहीं माना जाता; क्योंकि युत (सिद्ध) के साथ जो सम्बन्ध है, वही संयोग कहा जाता है। इसको नैयायिक और वैशेषिक तो अपना परम सिद्धान्त मानते हैं। इससे प्रकृत में यह सिद्ध हुआ कि योग शब्द का संयोग अर्थ नहीं हो सकता, किन्तु पूर्वोक्त चित्त-वृत्ति का निरोध ही योग शब्द का वास्तविक अर्थ है, अथवा धातु के अनेकार्थ होने के कारण 'युजिर्' धातु का भी समाधि अर्थ होने में कोई आपत्ति नहीं है। धातुओं का अनेकार्थ होना प्रायः सब ने स्वीकार किया है। इसी अभिप्राय से आचार्यों ने लिखा है—

'निपाताश्चोपसर्गांश्च धातवश्चेति ते अपः।'

अनेकार्थाः स्तृताः सर्वे प्राट्स्त्रेणां निदर्शनम् ॥'

अर्थात्—निपात, उपसर्ग और धातु—ये तीनों अनेकार्थ होते हैं, इनका पाठ उदाहरणमात्र है। इसलिए, वैयाकरणों ने युज् धातु का समाधि अर्थ भी माना है—‘युज् समाधौ’। याश्वल्क्य का जो पूर्वोक्त ‘संयोगो योग इत्युक्तः’ वाक्य है, उसके साथ भी कोई विरोध नहीं होता; क्योंकि यहाँ भी योग शब्द का समाधि अर्थ मानना समुचित प्रतीत होता है। इसलिए, याश्वल्क्य ने स्वयं कहा है—

'समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः।'

यद्यप्येव स्थितिर्यां सा समाधिरभिधीयते ॥'

अर्थात्—जीवात्मा और परमात्मा की जो साम्यावस्था है, उसीको समाधि कहते हैं। जीवात्मा की ब्रह्म में जो स्थिति है, वही समाधि है। बुद्धि आदि उपाधि के सम्बन्ध से जीव में जो कलित्प धर्म प्रतीत होते हैं, उनका परित्याग के साथ स्वाभाविक असद्ग रूप से परमात्मा के समान जो स्थिति है, उसीको साम्यावस्था कहते हैं। अपने स्वरूप से स्थिति का ही नाम समाधि है, और यही मोक्ष है। इसी अवस्थाविशेष की प्राप्ति के लिए भगवान् पतञ्जलि ने योग-शास्त्र का उपदेश किया है।

### योग और समाधि-

अब यहाँ शङ्खा उठती है कि पूर्व सूत्र में चित्त-वृत्ति के निरोध को योग बताया गया है और इस समय समाधि को योग बताते हैं। यदि समाधि को चित्त-वृत्ति-निरोध से भिन्न माना जाय, तो स्पष्ट ही पूर्वापरिवर्तोध हो जाता है।

यदि चित्त-वृत्ति-निरोध को ही समाधि मानें, तो 'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-धारणाद्यानसमाधयोऽस्त्रावङ्गानि' इस पतञ्जलि-सूत्र से विरोध हो जाता है। कारण, इस सूत्र में समाधि को योग का अङ्ग कहा गया है। समाधि, योग का अङ्ग होने से,

योग की उपकारक होगी, और योग उपकार्य । उपकार्य और उपकारक—इन दोनों का आधय मिल होता है । इसलिए, यहाँ समाधि को योग क्यों कहा ।

इसका समाधान यह है कि यद्यपि योग का अङ्ग होने से समाधि योग से वस्तुतः भिन्न है, तथापि अङ्ग और अङ्गी में अमेद का आरोप कर योग और समाधि को भाष्यकार ने एक माना है । वस्तुतः, समाधि आठ योगाङ्गों में अन्तिम अव्ययव है । पतञ्जलि ने इसीका निस्पत्त 'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः' इस सूत्र से किया है । सूत्रगत तत् पद से, 'प्रत्यैकतानता ध्यानम्' इस शब्द से, उक्त ध्यान का ही ग्रहण किया है । मात्र पद का अर्थ स्वयं सूत्रकार ने ही 'स्वरूपशून्यमिव' शब्द से कर दिया है । भावार्थ यह है कि जब ध्यान ही ध्येय के आवेश में हो जाता है, उस समय ध्यातृ-ध्यानभाव अत्यन्त शुन्य हो जाता है और वह केवल ध्येयमात्र का ही ग्राही होता है । उस समय ध्यान वर्तमान रहता हुआ भी, ध्यातृ-ध्यान-ध्येय विभाग के ग्रहण न करने से, स्वरूप-शून्य के सदृश हो जाता है । इसी का नात समाधि है । यही सूत्र-खक्षित अन्तिम योगाङ्ग है ।

वस्तुतः, विचार करने पर 'योगः समाधिः' इसमें कोई विरोध प्रतीत नहीं होता; क्योंकि समाधि शब्द का अनेक अर्थ भाष्यकारों ने माना है । 'समाधानं समाधिः' इस भावसाधन व्युत्पत्ति से अङ्गीभूत योग-रूप समाधि का ग्रहण होता है । और 'समाधीयते अनेन' इस करण-साधन-व्युत्पत्ति से योगाङ्ग-रूप समाधि का ग्रहण है । इन दोनों अर्थों में समाधि शब्द का प्रयोग सूत्रकार ने स्वयं किया है । करण, साधन-समाधि शब्द का प्रयोग 'यमनियमासन' इत्यादि सूत्रों में किया है । और 'ता एव सबीजः समाधिः' ( यो० स० १४६ ), 'तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बाजः समाधिः' इन दोनों सूत्रों में, अङ्गीभूत योग अर्थ में ही समाधि शब्द का प्रयोग किया गया है । व्यास-भाष्य में भी दोनों अर्थ में समाधि शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया गया है । इसलिए, 'योगः समाधिः' यह भाष्य भी सङ्गत हो जाता है । समाधि शब्द के, भाव-साधन और करण-साधन-व्युत्पत्ति से, दोनों अर्थ मानने से स्कन्दपुराण का वचन भी सङ्गत होता है । जैसे—

'यस्मव्यं द्वयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः ।

सनएसवैसंकल्पः समाधिरभिधीयते ॥

परमात्मनोर्योऽयमविभागः परम्पर ।

स एव तु परो योगः समाधाक्षितस्तत्र ॥'

इसका भावार्थ यह है कि जिस अवस्था में चित्त के विकारभूत समस्त संकल्प के नष्ट हो जाने से जीवात्मा और परमात्मा में समता आ जाती है, उसे समाधि कहते हैं । यहाँ करण-साधन अङ्गवाचक समाधि शब्द का प्रयोग है । द्वितीय लोक में योग शब्द के वाच्य अर्थ में समाधि शब्द का प्रयोग है । परमात्मा और जीवात्मा का जो अविभाग, अर्थात् एकता है, वही योग है । इससे दोनों अर्थों में समाधि शब्द का प्रयोग सिद्ध होता है ।

## आत्मा को अपरिणामिता

अब यहाँ यह आशङ्का होती है कि यदि चित्त-वृत्ति के निरोध को योग शब्द का अर्थ मानते हैं, तो आत्मा का कूटस्थ होना, जो शास्त्रों से सिद्ध है, व्याहृत हो जाता है; क्योंकि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति—ये पाँच प्रकार की वृत्तियाँ वर्ताई गई हैं। उनमें अशात् अर्थ का निष्क्रिय करानेवाली जो वृत्ति है, वह प्रमाण है। मिथ्या शान का नाम विपर्यय है। बाह्यार्थ-रहित केवल कल्पनामय आहार्य शान-रूप जो प्रतीति है, वही विकल्प है। निद्रा और स्मृति प्रसिद्ध हैं। इन्हीं वृत्तियों का निरोध योग कहा गया है। निरोध शब्द का अर्थ नाश ही होता है। और यह भी निश्चित है कि जो वृत्ति का आश्रय है, वही नाश का भी आश्रय होता है। और, वृत्ति के शान-स्वरूप होने से उसका तथा वृत्ति के निरोधरूप विनाश का भी आश्रय आत्मा ही होगा। इस प्रकार, आत्मा में जायमान जो वृत्ति-निरोधरूप विनाश है, वह अपने आश्रयभूत आत्मा में भी किसी प्रकार विकार को उत्पन्न अवश्य ही करेगा; क्योंकि धर्म में विकार होने से धर्मी में भी अवश्य विकार होता है, यह सर्वतन्त्र-सिद्धान्त है। इसी तात्पर्य से आचार्यों ने लिखा है—‘उपयन्नपत्यन् धर्मो विकरोति हि धर्मिणम्’ ( न्या० रक्षा० सि० वि० )। अर्थात्, धर्म का विकार धर्मी में भी अवश्य विकार पैदा करता है।

इस स्थिति में, वृत्ति के निरोध-रूप विनाश-काल में आत्मा में भी विनाशत्व होने के कारण सर्वसिद्धान्त-सिद्ध आत्मा का कूटस्थ होना भङ्ग हो जायगा। कूटस्थ शब्द का सीधा-सादा अर्थ है,—‘कूटेन मूलस्वरूपेण सदा तिष्ठति इति कूटस्थः’, अर्थात् एदा मूलस्वरूप से जो निर्विकार रहता है, वही कूटस्थ कहा जाता है। इसका समाधान यह है कि यह आशङ्का तभी हो सकती है, जब प्रमाण आदि वृत्तियाँ आत्मा के धर्म हैं; परन्तु वास्तव में यह नहीं है; क्योंकि प्रमाणादि वृत्तियाँ चित्त के ही धर्म हैं, जिन्हें अन्तःकरण और बुद्धि का पर्याय कहते हैं। शान तो अन्तःकरण का ही परिणामविशेष है। बुद्धि-वृत्ति में विषयाकार का जो समर्पण है, वही विषय-शान है। और विषयों के आकार से उपरक जो बुद्धि-वृत्ति है, वही चिच्छकि, अर्थात् आत्मा में प्रतिविम्बित होती है। आत्मा में जो प्रतिविम्ब पड़ता है, वह प्रतिविम्बन सामर्थ्य-वृत्ति-विशिष्ट चित्त का ही है। जिस प्रकार, जल या दर्पणादि में प्रतिविम्बन रूपवान् स्थूल द्रव्य का ही सामर्थ्य होता है। उस समय बुद्धि-वृत्ति और चित्-शक्ति ( आत्मा ) में भेद की प्रतीति नहीं होने के कारण बुद्धि-वृत्ति से अभिन्न आत्मा अर्थ का अनुभव करता है, ऐसा लोक में व्यवहार होता है।

इससे प्रकृत में यह सिद्ध होता है कि शान वस्तुतः आत्मा का धर्म नहीं है, किन्तु बुद्धि का ही धर्म है। इस स्थिति में, शानविशेष रूप जो प्रमाणादि वृत्तियाँ हैं, वे भी बुद्धि के ही परिणामविशेष धर्म हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए, आत्मा के कूटस्थत्व का व्याघात नहीं होता।

यहाँ पुनः आशङ्का होती है कि नैयायिक शान को आत्मा का ही गुण मानते हैं। इस अवस्था में, कूटस्थत्व-भंग की भाव धूर्ववत् चनी ही रहती है।

योग की उपकारक होगी, और योग उपकार्य । उपकार्य और उपकारक—इन दोनों का आधय मिज्ज होता है । इसलिए, यहाँ समाधि को योग क्यों कहा ?

इसका समाधान यह है कि यद्यपि योग का अङ्ग होने से समाधि योग से वस्तुतः मिज्ज है, तथापि अङ्ग और अङ्गों में अभेद का आरोप कर योग और समाधि को भाष्यकार ने एक माना है । वस्तुतः, समाधि श्राठ योगाङ्गों में अन्तिम अवयव है । पतञ्जलि ने इसीका निरूपण ‘तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः’ इस सूत्र से किया है । सूत्रगत तत् पद से, ‘प्रत्यैकतानताऽध्यानम्’ इस सूत्र से, उक्त ध्यान का ही ग्रहण किया है । मात्र पद का अर्थ स्वयं सूत्रकार ने ही ‘स्वरूपशून्यमिव’ शब्द से कर दिया है । भावार्थ यह है कि जब ध्यान ही ध्येय के आवेश में हो जाता है, उस समय ध्यातु-ध्यानभाव अत्यन्त शून्य हो जाता है और वह केवल ध्येयमात्र का ही ग्राही होता है । उस समय ध्यान वर्तमान रहता हुआ भी, ध्यातु-ध्यान-ध्येय विभाग के ग्रहण न करने से, स्वरूप-शून्य के सदृश हो जाता है । इसी का नाम समाधि है । यही सूत्र-लिङ्गित अन्तिम योगाङ्ग है ।

वस्तुतः, विचार करने पर ‘योगः समाधिः’ इसमें कोई विरोध प्रतीत नहीं होता; क्योंकि समाधि शब्द का अनेक अर्थ भाष्यकारों ने माना है । ‘समाधानं समाधिः’ इस भावसाधन व्युत्पत्ति से अङ्गीभूत योग-रूप समाधि का ग्रहण होता है । और ‘समाधीयते अनेन’ इस करण-साधन-व्युत्पत्ति से योगाङ्ग-रूप समाधि का ग्रहण है । इन दोनों अर्थों में समाधि शब्द का प्रयोग सूत्रकार ने स्वयं किया है । करण, साधन-समाधि शब्द का प्रयोग ‘यमनियमासन’ इत्यादि सूत्रों में किया है । और ‘ता एव सबीजः समाधिः’ ( यो० रु० १४६ ), ‘तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बाजः समाधिः’ इन दोनों सूत्रों में, अङ्गीभूत योग अर्थ में ही समाधि शब्द का प्रयोग किया गया है । व्यास-भाष्य में भी दोनों अर्थ में समाधि शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया गया है । इसलिए, ‘योगः समाधिः’ यह भाष्य भी सङ्गत हो जाता है । समाधि शब्द के, भाव-साधन और करण-साधन-व्युत्पत्ति से, दोनों अर्थ मानने से स्कन्दपुराण का वचन भी सङ्गत होता है । जैसे—

‘यत्समर्थं द्वयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः ।

सनष्टसर्वांसंकल्पः समाधिरभिधीयते ॥

परमात्मात्मनोर्योऽयमविभागः परम्पर ।

स पूरुषो योगः समाप्ताल्पथितस्तव ॥’

इसका भावार्थ यह है कि जिस अवस्था में चित्त के विकारभूत समस्त संकल्प के नष्ट हो जाने से जीवात्मा और परमात्मा में समता आ जाती है, उसे समाधि कहते हैं । यहाँ करण-साधन अङ्गवाचक समाधि शब्द का प्रयोग है । द्वितीय लोक में योग शब्द के बाव्य अर्थ में समाधि शब्द का प्रयोग है । परमात्मा और जीवात्मा का जो अविभाग, अर्थात् एकता है, वही योग है । इससे दोनों अर्थों में समाधि शब्द का प्रयोग सिद्ध होता है ।

## आत्मा की अपरिणामिता

अब यहाँ यह आशङ्का होती है कि यदि चित्त-नृत्ति के निरोध को योग शब्द का अर्थ मानते हैं, तो आत्मा का कृत्स्य होना, जो शास्त्रों से एहिं है, व्याहृत हो जाता है; क्योंकि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति—ये पाँच प्रकार की वृत्तियाँ बताई गई हैं। उनमें अशात् अर्थ का निश्चय करानेवाली जो वृत्ति है, वह प्रमाण है। मिथ्या ज्ञान का नाम विपर्यय है। बाध्यार्थ-रहित केवल कल्पनामय आहार्य ज्ञान-रूप जो प्रतीति है, वही विकल्प है। निद्रा और स्मृति प्रसिद्ध हैं। इन्हीं वृत्तियों का निरोध योग कहा गया है। निरोध शब्द का अर्थ नाश ही होता है। और यह भी निश्चित है कि जो वृत्ति का आश्रय है, वही नाश का भी आधय होता है। और वृत्ति के ज्ञान-स्वरूप होने से उसका तथा वृत्ति के निरोधरूप विनाश का भी आधय आत्मा ही होगा। इस प्रकार, आत्मा में जायमान जो वृत्ति-निरोधरूप विनाश है, वह अपने आधयभूत आत्मा में भी किसी प्रकार विकार को उत्पन्न अवश्य ही करेगा; क्योंकि धर्म में विकार होने से धर्मों में भी अवश्य विकार होता है, यह सर्वतन्त्र-सिद्धान्त है। इसी तात्पर्य से आचार्यों ने लिखा है—‘उपयन्नपर्यन् धर्मो विकरोति हि धर्मिणम्’ (न्या० रत्ना० सिं० वि०)। अर्थात्, धर्म का विकार धर्मों में भी अवश्य विकार पैदा करता है।

इस स्थिति में, वृत्ति के निरोध-रूप विनाश-काल में आत्मा में भी विनाशल्य होने के कारण सर्वसिद्धान्त-सिद्ध आत्मा का कृत्स्य होना भङ्ग हो जायगा। कृत्स्य शब्द का सीधा-सादा अर्थ है,—‘कृटेन मूलस्वरूपेण सदा तिष्ठति इति कृत्स्यः’, अर्थात् सदा मूलस्वरूप से जो निर्विकार रहता है, वही कृत्स्य कहा जाता है। इसका समाधान यह है कि यह आशङ्का तभी हो सकती है, जब प्रमाण आदि वृत्तियाँ आत्मा के धर्म हों; परन्तु वास्तव में यह नहीं है; क्योंकि प्रमाणादि वृत्तियाँ चित्त के ही धर्म हैं, जिन्हें अन्तःकरण और बुद्धि का पर्याय कहते हैं। ज्ञान वा अन्तःकरण का ही परिणामविशेष है। बुद्धि-वृत्ति में विषयाकार का लों समर्पण है, वही विषय-ज्ञान है। और विषयों के आकार से उपरक जो बुद्धि-वृत्ति है, वही चिन्द्रिका, अर्थात् आत्मा में प्रतिविम्बित होती है। आत्मा में जो प्रतिविम्ब फड़ता है, वह प्रतिविम्बन सामर्थ्य-वृत्ति-विशिष्ट चित्त का ही है। जिस प्रकार, वह या दर्शनादि में प्रतिविम्बन रूपवान् धूल द्रव्य का ही सामर्थ्य होता है। उस समय बुद्धि-वृत्ति और चित्-गुणि (आत्मा) में भेद की प्रतीति नहीं होने के कारण हुंद्रूर्ति में अमित्र आत्मा अर्थ का अनुभव करता है, ऐसा लोक में व्यवहार होता है।

इससे प्रकृत में यह सिद्ध होता है कि ज्ञान वस्तुनः आत्मा का धर्म नहीं है, किन्तु बुद्धि का ही धर्म है। इस स्थिति में, ज्ञानविशेष क्षय जो प्रमाणादि वृत्तियाँ हैं, वे भी बुद्धि के ही परिणामविशेष नहीं हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए, आत्मा के कृत्स्यत्व का व्यापार नहीं होता।

यहाँ पुनः आशङ्का होती है कि नैदर्शयिक ज्ञान की आत्मा का ही दृढ़ अवस्था में, कृत्स्यत्व-मेंग की जात् पूर्ववत् इनी ही रहती है।

इसके उत्तर में योगाचार्यों का कहना है कि यदि आत्मा को अपरिणामी—निर्विकार—कूटस्थ मानना है, तो किसी प्रकार भी ज्ञान आत्मा का गुण नहीं हो सकता; क्योंकि विषयों का जो आकार है, उस आकार के सदृश आकार से परिणाम का नाम ही ज्ञान है और इस प्रकार का, आत्मा का परिणाम नैशायिक भी नहीं मानते, चूंकि आत्मा को परिणामी मानने से आत्मा अनित्य हो जाता है, जो आस्तिक-दर्शनों का सम्मत नहीं है।

यदि कोई कहे कि आत्मा का अपरिणामी होना किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, तो इसका उत्तर यह होता है कि आत्मा का विषय चृत्तिविशिष्ट बुद्धि ही है, जिसको चित्त भी कहते हैं। और, चित्त का विषय घटादि सकल पदार्थ होते हैं। घटादि पदार्थ आत्मा के साक्षात् विषय नहीं होते; क्योंकि विषयों के प्रत्यक्ष होने में इन्द्रिय-संयोग और प्रकाशादि भी कारण होते हैं। इन्द्रिय-संयोग और प्रकाश के न रहने पर विद्यमान भी घट-पटादि पदार्थ अशात् ही रहते हैं। परन्तु, चित्तचृत्ति में यह बात नहीं है, चित्तचृत्ति विद्यमान रहती हुई कदापि अशात् नहीं रह सकती। दूसरे शब्दों में, अशात् सत्ता का चृत्ति में सदा अभाव ही रहता है। यदि अशात् चित्तचृत्ति की भी सत्ता मानी जाय, तो विद्यमान चित्तचृत्ति का भी कदाचित् ज्ञान न होने से, ‘मैं सुखी हूँ अथवा नहीं, मैं दुःखी हूँ अथवा नहीं, मैं इच्छा करता हूँ या नहीं’, इत्यादि अनेक प्रकार के संशय होते रहेंगे, जो स्वभावतः किसी को नहीं होते। इससे सिद्ध होता है कि चित्तचृत्ति का ज्ञान सदैष बना रहता है। इसीलिए, पूर्वोक्त संशय नहीं होते; क्योंकि वस्तु में ही संशय होता है, यह सर्वशास्त्र-सिद्ध और लोकानुभूत है।

अब यहाँ यह विचारना है कि जब चित्तचृत्ति सदा ज्ञात है, यह मान लिया, तब तो उसके सदा ज्ञातत्व की उपपत्ति के लिए वृत्ति के साक्षित्व-काल में आत्मा को अपरिणामी मानना अत्यावश्यक हो जाता है। क्योंकि, चित्त के सदृश आत्मा को भी यदि परिणामी मान लें, तो उस अवस्था में चित्तचृत्ति का सदा ज्ञातत्व सिद्ध नहीं होता। कारण यह है कि परिणामी होने से आत्मा कादाचित्क हो जायगा, सनातन नहीं रहेगा। अर्थात्, इस अवस्था में वह कभी रहेगा और कभी नहीं भी।

यहाँ ज्ञातता का तात्पर्य है ज्ञानविषयता। जिसका ज्ञान होता है, वही ज्ञान का विषय या ज्ञात कहा जाता है। विषय में रहनेवाला धर्मविशेष का नाम विषयता या ज्ञातता है। जहाँ घट का ज्ञान होता है, वहाँ घट ही ज्ञान का विषय और वही ज्ञात कहा जाता है। जिस समय घट का ज्ञान होता है, उसी समय घट में ज्ञातता आती है। अशात् घट में ज्ञातता नहीं रहती। ज्ञातता का तात्पर्य है—अपने आकार के सदृश आकार का बुद्धिवृत्ति में समर्पण। तात्पर्य यह हुआ कि जिस समय विषय अपने आकार के सदृश आकार का बुद्धिवृत्ति में समर्पण करता है, उस समय उसमें ज्ञातता आती है। वही विषय की ज्ञातता है, और बुद्धिवृत्ति की ज्ञातता आत्मा में बुद्धिवृत्ति का प्रतिविम्बन-मात्र है। इसका तात्पर्य यह है कि विषयों का ज्ञान अपने आकार के सदृश आकार का बुद्धिवृत्ति में समर्पण के बिना नहीं हो सकता, और बुद्धिवृत्ति में ऐसी बात नहीं है। केवल बुद्धिवृत्ति की सत्ता से ही उसका ज्ञान सदा वर्चमान रहता है। अशात्

बुद्धिवृत्ति की सत्ता ही नहीं होती है। कारण यह है कि चिच्छक्ति-रूप जो आत्मा है, वह साक्षी अर्थात् अधिष्ठाता के स्वप्न में सदा वर्तमान रहता है, और उस आत्मा का अपना अन्तरङ्ग जो स्वाभाविक निर्मल सत्त्व, अर्थात् प्रतिविम्ब के ग्रहण करने की शक्ति है, वह भी सदा वर्तमान ही रहता है। इसलिए, बुद्धिवृत्ति के सत्ताकाल में उसका चिच्छक्ति में सदा प्रतिविम्बित होना भी स्वाभाविक ही हो जाता है। इस अवस्था में, बुद्धिवृत्ति का सदा ज्ञातत्व और चिच्छक्ति का सदा ज्ञातृत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। चिच्छक्ति के सदा ज्ञातृत्व होने के कारण ही उसका अपरिणामी होना भी सिद्ध हो जाता है; क्योंकि परिणामी का सदा ज्ञाता होना असम्भव है।

यहाँ एक शङ्खा और होती है कि पुरुष यदि ज्ञाता है, तो विषय के साथ उसका सम्बन्ध होना अनिवार्य हो जाता है। इस स्थिति में आत्मा असंग कैसे रह सकता है? इसका उत्तर यही होता है कि आत्मा का अन्तरङ्ग जो निर्मल स्वाभाविक सत्त्व अर्थात् प्रतिविम्ब-ग्राहकत्व-शक्ति है, वह भी सदा वर्तमान रहता है। इस कारण, उस निर्मल सत्त्व में जिस विषय का प्रतिविम्ब पड़ता है, उसी विषय का भान होता है। इसलिए, छायामात्र से विषय के भान होने पर भी आत्मा निःसंग ही रहता है। जिस प्रकार, दर्पण में विम्ब की छाया पड़ने पर भी दर्पण निर्मल और असंग ही रहता है, उसमें विषय का विकार कुछ भी नहीं आता, उसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप और असंग ही रहता है।

जिस प्रकार, चित्तवृत्ति परिणामशील है, उसी प्रकार चित्त भी परिणामी होता है; क्योंकि जिस वस्तु का चित्त में उपराग (छाया) होता है, वही ज्ञात कहा जाता है। जिसका चित्त में उपराग नहीं होता, वह अज्ञात रहता है। जिस प्रकार चुम्बक अक्रिय होने पर भी लोहे का आकर्षक है, उसी प्रकार विषय अक्रिय होने पर भी क्रियाशील चित्त का आकर्षक है। अर्थात्, यद्यपि विषय अक्रिय है, तथापि अपने में वर्तमान आकर्षकत्व-शक्ति से इन्द्रियों के द्वारा चुम्बक के समान चित्त को खींचकर उसमें अपनी छाया को समर्पित कर देता है। इसीका नाम उपरङ्गन या उपराग है।

उपराग होने पर ही विषय ज्ञात कहा जाता है और चित्त के परिणामी होने पर ही उपराग सिद्ध होता है। इसलिए, चित्त को परिणामी मानना आवश्यक है।

योगचार्यों के मत में चित्त व्यापक माना जाता है। इनका कहना है कि यदि चित्त को अगु मान लिया जाय, तो एक काल में अनेक विषयों के साथ सम्बन्ध न होने के कारण चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है, पुनः उसके लिए योग-शास्त्र की रचना का प्रयोगन ही क्या हो सकता है! और, चन्दनादि सुगम्बिद्ध द्रव्यों से वासित शर्वत आदि के पीने में जो एक काल में अनेक इन्द्रियों के विषय का शान होता है, वह भी नहीं बनता। और, योगियों को एक काल में अनेक वस्तुओं का जो शान होता है, वह भी अगु मानने से नहीं बनता।

यदि यह कहें कि योगियों का जो प्रत्यक्ष होता है, वह तो लौकिक सत्त्विकर्ष से नहीं, बल्कि अलौकिक योग-सत्त्विकर्ष से ही होता है, इसके लिए व्यापक

मानना युक्त नहीं है। इसका उत्तर यह होता है कि मन के व्यापक मान लेने पर लौकिक सत्त्विकर्प से ही सब सिद्ध हो जाता है, तो इसके लिए दूसरे सत्त्विकर्प की कल्पना व्यर्थ ही है। और, दूसरे सत्त्विकर्प की कल्पना करने में गौरव भी है, इसलिए, योगजन्य साक्षात्कार में भी लौकिक सत्त्विकर्प को ही कारण मानना समुचित है। तास्यर्थ यह है कि सब पदार्थों के ग्रहण करने में केवल एक चित्त ही समर्थ है, और तम नाम का जो एक आवश्यक है, उसके निवारण करने में ही योग कारण होता है। विषय का साक्षात्कार सर्वार्थग्रहण-समर्थ चित्त का ही कार्य है। इसी प्रकार, उपलब्धि के प्रतिबन्धक जो अतिदूर, सामीक्ष्य, इन्द्रियधातु, मनोजनवस्थान आदि बताये गये हैं, उनका निराकरण करना भी योग का कार्य होता है। अर्थात् चित्त में सब पदार्थों के ग्रहण करने का सामर्थ्य स्वाभाविक है, परन्तु तमोगुण से चित्त के आवृत्त होने के कारण या दूरादि प्रतिबन्ध होने से सबको सब वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता। जब योग-बल से तमोगुण नष्ट हो जाता है, और प्रतिबन्धक भी दूर हो जाते हैं, तब योगियों को एक काल में सकल पदार्थों का ज्ञान मुलभ हो जाता है। चित्त को सर्वार्थ ग्रहण करने का जो सामर्थ्य प्राप्त है, वह उसके व्यापक होने के ही कारण। इसलिए, चित्त व्यापक माना जाता है। इनके मत में इन्द्रियाँ भी व्यापक मानी जाती हैं। योगियों को देशान्तरस्थ और कालान्तरस्थ वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष होता है, वह इन्द्रियों के व्यापक मानने में ही युक्त होता है, अग्रणी मानने में नहीं। इन्द्रियों का ज्ञान तत्त्व स्थान में ही होता है, इसका कारण शरीरादि का सम्बन्ध ही है। इन्द्रियों का अग्रुत्व-व्यवहार भी, शरीरादि-स्थानकृत होने से, औपाधिक ही माना जाता है।

यदि यह कहें कि इन्द्रियों का व्यापक होना यथापि आवश्यक है, तथापि उनके भौतिक होने के कारण व्यापक होना युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होता। इसका उत्तर यही होता है कि इन्द्रियों को यदि भौतिक मानें, तो यह शङ्खा युक्त हो सकती थी, परन्तु इनके मत में इन्द्रियों की उत्पत्ति सात्त्विक अद्विकार से मानी गई है। अद्विकार के व्यापक होने से इन्द्रियों का व्यापक होना भी युक्तिसङ्गत है। यदि यह कहें कि मन की गमन क्रिया श्रुति-स्मृति से अनुमोदित और लोकप्रसिद्ध है, तो इस स्थिति में, उसका व्यापक होना नहीं बनता। कारण यह है कि क्रिया व्यापक पदार्थ में नहीं रहती और मन में रहती है, इसलिए मन को व्यापक नहीं मान सकते। इसका उत्तर यह होता है कि यथापि मन व्यापक है, तथापि उपाधि के वश से प्राण का गमनागमन भी अयुक्त नहीं होता। व्यापक आत्मा का भी गमनागमन-क्रिया 'तदेजति तन्नैजति' इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध है, और वह औपाधिक माना भी गया है।

मन को मध्यम-परिमाण भी नहीं मान सकते। कारण यह है कि मन के मध्यम-परिमाण होने से प्रलय-काल में उसका विनाश अवश्यम्भावी है, फलतः शुभाशुभ कर्म-जन्य जो अद्यूष संस्कार है, उसका आधार ही नष्ट हो जायगा। इस स्थिति में, पूर्वार्जित कर्मफल का भोग जन्मान्तर में नहीं हो सकता। इसलिए, मन को व्यापक मानना आवश्यक है।

मन को व्यापक मानने में एक दूसरा दोष यह दिया जाता है कि मन और इन्द्रियों को यदि व्यापक मानते हैं, तब तो सब विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध सदा रहने से योगी या अयोगी सब को सब काल में सब विषयों का शान होना चाहिए।

इसका उत्तर यह होता है कि यद्यपि चित्त (मन) व्यापक है, तथापि जिस शरीर में चित्त विषयाकार से परिणत होता है, उसी शरीर के साथ जिस विषय का सम्बन्ध है, उसी शरीर में उसी विषय का शान होता है, दूसरे शरीर में नहीं। इसलिए, यह दोष भी यहाँ नहीं हो सकता। पहले भी कह चुके हैं कि विषय चुम्बक के समान है और चित्त लोहा के समान। इन्द्रियों के द्वारा चित्त को आकृष्ट कर विषय उसे अपने आकार का समर्पण करता है। दूसरे शब्दों में, विषय इन्द्रिय के द्वारा चित्त से सम्बद्ध होकर उसे उपरक्त करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परिणाम चित्त का ही धर्म है, आत्मा का नहीं। ‘कामसङ्कल्पविचिकित्साश्रद्धाश्रद्धाधृतिस्मृतिर्हृधौर्मीरित्येतत्सर्वं मन एव’ (४०.३०.१५।३), यह श्रुति भी काम आदि को मन का ही धर्म बताती है। विषय की अभिलापा का नाम काम है। ‘यह नीला है, यह पीला है’, इस आकार की कल्पना का नाम संकल्प है। विचिकित्सा संशय को कहते हैं। आस्तिक्य-बुद्धि को अद्वा और इससे विपरीत को अअद्वा कहते हैं। धृति को धैर्य और इससे इतर को अधृति कहते हैं। ‘ही’ लज्जा, ‘धी’ शान और ‘भी’ भय को कहते हैं। ये सब मन के ही परिणामविशेष हैं। श्रुति में ‘मन एव’ इस प्रकार एव शब्द का जो प्रयोग किया है, इससे सूचित होता है कि मन से भिन्न आत्मा के ये परिणाम या धर्म नहीं है। इसलिए, आत्मा परिणामी नहीं होता, यह बात सिद्ध हो जाती है। पुरुष का परिणामी न होना पञ्चशिखाचार्य ने भी लिखा है—‘श्रापरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिः’, इसका विवेचन पुरुषस्वरूप-निर्णय में आ चुका है।

भगवान् पतञ्जलि ने भी ‘सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्यपरिणामित्वात्’ सूत्र से आत्मा को अनुमान द्वारा अपरिणामी सिद्ध किया है। सूत्र का भावार्थ यह है कि आत्मा की विषयभूत जो चित्तवृत्तियाँ हैं, वे सदा विद्यमानवस्था में शात ही रहती है, चित्त के विषय घटादि के समान शात और अशात दोनों प्रकार की नहीं होती है। इसका कारण यह है कि उन वृत्तियों का भोक्ता जो पुरुष है, वह विषयाकारादि-ग्रहणरूप अशेष परिणामों से शून्य है, इसीलिए अपरिणामी भी है।

### परिणाम-विवेचन

अब परिणाम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कुछ लिखा जाता है। परिणाम तीन प्रकार के होते हैं—धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था परिणाम। धर्मों में पूर्वधर्म के तिरोभाव से धर्मान्तर का प्रादुर्भाव होना धर्म-परिणाम है। चित् के तत्त्व विषयों के आकारवाली जो अनेक प्रकार की वृत्तियाँ हैं, उनको धर्म कहते हैं। उनमें एक नील के आलोचन-रूप जो नीलाकार चित्तवृत्ति है, उसके तिरोभाव में विषयान्तर के आलोचनरूप वृत्ति का प्रादुर्भाव होता है। सुवर्ण के कटक-धर्म के तिरोभाव से मुकुट-धर्म का प्रादुर्भाव होता है।

मृत्तिका के पिण्ड-धर्म के तिरोभाव से घट-धर्म का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ द्रव्य का भी धर्म शब्द से व्यवहार किया गया है।

एक बात और भी जानना चाहिए कि नाश और उत्पत्ति शब्द के स्थान में तिरोभाव और आविर्भाव शब्द का ही प्रयोग किया गया है। योगकारों के मत में सत्कार्यवाद सिद्धान्त होने से किसी वस्तु की उत्पत्ति या नाश नहीं माना जाता। इसलिए, आविर्भाव-तिरोभाव ही इनके मत में अभीष्ट है। असत् की उत्पत्ति और सत् का विनाश इनके यहाँ नहीं होता। इस स्थिति में जिस प्रकार धर्म स्वरूप में विद्यमान रहता हुआ ही उब धर्मों का, जो अपने में होते रहते हैं, ग्रहण करता रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक धर्म भी सदा विद्यमान रहता हुआ ही भूत, भविष्यत्, वर्त्तमानरूप भिन्न-भिन्न लक्षणों से सुक्ष्म होता रहता है। यही धर्म का लक्षण-परिणाम कहा जाता है।

विद्यमान धर्मों के एक लक्षण को छोड़कर लक्षणान्तर से होनेवाले परिणाम को ही लक्षण-परिणाम कहते हैं। यहाँ लक्षण शब्द से भविष्यत्, वर्त्तमानत्व और भूतत्व—इन्हीं तीन का ग्रहण किया जाता है। यहाँ धर्मों के समान विद्यमान लक्षणों का ही आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। इसलिए, सत्कार्यवाद सिद्धान्त उत्पत्ति होता है। तीनों लक्षणों का प्रतिक्षण तारतम्य होता रहता है। लक्षणों का तारतम्य लक्षणों से युक्त धर्म में ही देखना चाहिए; क्योंकि लक्षणों का तारतम्य वहीं होता है। जैसे—नीलाकार-रूप चित्त-धर्म के विद्यमान रहने पर भी कभी अस्फुट, कभी अस्फुट्टर, कभी स्फुट और स्फुट्टर आदि अनेक अवस्थाओं से तारतम्य का अनुभव होता रहता है। इसी प्रकार, सुवर्ण का धर्म कट्टकादि और मृत्तिका का धर्म जो घटादि है, उनके नवीनत्व, पुराणत्व आदि अनेक अवस्थाओं का भेद प्रतिक्षण अनुभूत होता रहता है। सत्यादि गुणों के अतिच्छल स्वभाव होने के कारण उनका प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है, यह अनुमान से सिद्ध होता है। यही लक्षण का अवस्था-परिणाम है।

वर्त्तमान जो लक्षण है, उसे एक अवस्था को छोड़कर अवस्थान्तर में परिणत होते रहने का नाम अवस्था-परिणाम है। यह अवस्था-परिणाम वर्त्तमान काल में ही स्फुट्टर प्रतीत होता है। इसी दृष्टान्त से भविष्य और भूतकाल का भी अनुमान किया जाता है। यह सब विचार धर्मों और धर्म के लक्षण की अवस्था में जो काल्पनिक भेद है, उसी के आधार पर किया गया है। वास्तव में तो सब परिणाम धर्मों में ही होते हैं।

धर्म, लक्षण और अवस्था—ये सब धर्मिमात्र-स्वरूप हैं। दूसरे शब्दों में, धर्मों से अतिरिक्त धर्म की सच्चा ही नहीं है। धर्म के लक्षण या अवस्था के परिणाम से धर्मों के ही लक्षण या परिणाम का विस्तार होता है।

धर्मों के तीनों प्रकार के केवल संस्थान का ही अन्यथाभाव होता है, द्रव्य का नहीं। सुवर्ण के संस्थान अर्थात् आकार के भिन्न-भिन्न होते रहने पर भी सुवर्ण में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। आकृति के नाश होने पर भी द्रव्य ही शेष रहता है, इसी बात को पतझलि ने महामाप्य में कहा है—‘आकृतिरन्या चान्या च भवति, द्रव्यं पुनः तदेव’, ‘आकृत्यपमदेन द्रव्यमेवायशिष्यते’ इति। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म और धर्मों में न अत्यन्त भेद ही है, न अत्यन्त अभेद।

उक्त सन्दर्भ से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रमाण, विपर्यय आदि जितनी वृत्तियाँ हैं, वे सब चित्त की ही हैं। और, इनका निरोध भी चित्त में ही होता है, आत्मा में नहीं। योगिक, वृत्ति और निरोध इन दोनों का आधय एक ही होता है, आत्मा वृत्ति या निरोध किसी का भी आधय नहीं होता।

## सुषुप्ति और योग

वृत्ति का आधय न होने से आत्मा में परिणामित्व होने की भी शङ्का नहीं रहती। वृत्ति-निरोध को जो योग माना गया है, उसमें एक और शङ्का होती है कि सुषुप्ति-काल में भी वृत्तियों का निरोध होता है, इसलिए सुषुप्ति को भी योग क्यों नहीं कहा जाता? यदि यह कहें कि सुषुप्ति में सकल वृत्तियों का निरोध नहीं होता; इसलिए वह योग नहीं है। यह भी उत्तर युक्त नहीं होता; क्योंकि सम्प्रशात् योग में सकल वृत्तियों के निरोध न होने पर भी उसको योग माना गया है। सम्प्रशात् में विशुद्ध सत्त्विक आत्मविषयक वृत्ति को सभी दार्शनिकों ने माना है, इस वृत्ति का वहाँ निरोध नहीं होता, तो भी उसको योग माना गया है; इसी प्रकार सुषुप्ति को भी योग मानना चाहिए।

तात्पर्य यह है कि चित्त की वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं—ज्ञित, मूढ़, विज्ञित, एकाग्र और निरुद्ध। विवृद्ध रजोगुण के बहिर्मुख होने के कारण विषय की ओर प्रेरित जो चित्त है, वही ज्ञित कहा जाता है। इस प्रकार का चित्त प्रायः दैत्य-दानवों में होता है। तमोगुण के बढ़ने से कृत्याकृत्य-विवेक-शून्य, कोधादि से अभिभूत अथवा निद्रादि से युक्त जो चित्त है, उसको मूढ़ कहते हैं। इस प्रकार का चित्त प्रायः राज्य-पिण्डाचों का होता है। ज्ञित से विज्ञित में कुछ विशेषता है। सत्त्वगुण के बढ़ने से दुःख से भागकर केवल सुख-घाघनों में ही रत रहना विज्ञित है। विज्ञित चित्त प्रायः देवताओं में ही रहता है। यह चित्त विषय-विशेष के अनुसार कभी-कभी कुछ काल-पर्यन्त स्थायी भी रहता है। ज्ञित की अपेक्षा इसमें यही विशेषता है। सुषुप्ति-काल में ज्ञित और विज्ञित वृत्ति का अभाव रहता है, और जाग्रत् में मूढ़-वृत्ति का। एकाग्र और निरोध-वृत्ति का अभाव तो प्रायः सब बद्ध मनुष्यों में होता है। इस प्रकार, कुछ वृत्तियों के निरोध सुषुप्ति में होने से योग-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है, यही शङ्का का तात्पर्य है।

इसका समाधान इस प्रकार होता है कि ज्ञित, मूढ़ आदि जो चित्त की पाँच अवस्थाएँ बताईं गई हैं, उनमें ज्ञित, मूढ़ श्वीर विज्ञित—इन तीन अवस्थाओं को, योग में त्याज्य होने के कारण, योग शब्द का बाच्य नहीं माना गया है, तथापि योग में उपादेय जो एकाग्र और निरुद्धावस्था है, उसमें वृत्ति-निरोध को योग कहने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि, जो चित्त, रजोगुण-तमोगुण-रूप मल के सम्पर्क से रहित होने से, विशुद्ध सत्त्वप्रधान होकर किसी सूक्ष्म तत्त्व के आलम्बन करने से, निर्वात देश में रहनेवाली स्थिर दीप-शिखा की तरह निश्चल रहता है, वही एकाग्र कहा जाता है। विज्ञित से एकाग्र में यही विशेषता है कि विज्ञित चित्त में रजोगुण के लेश से युक्त सत्त्वगुण प्रधान रहता है, और एकाग्र चित्त में रजोगुण का लेश भी नहीं रहता, केवल विशुद्ध सत्त्व ही प्रधान रहता है। इसी एकाग्र को एकतान भी कहते हैं। एकाग्र चित्त उन्हीं का होता है, जो यम-नियमादि के अन्याय से सम्प्रशात् समाधि में

आरु द हो चुके हैं। और, जिस चित्त में समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, केवल संस्कारभाव शेष रहता है, वही निरुद्ध कहा जाता है। ये दोनों अवस्थाएँ स्वरूपावस्थिति का हेतु और क्लेशकर्मादि का परिपन्थि होने के कारण समाधि की साधिका होती हैं। इसलिए, एकाग्र और निरोध दोनों योग शब्द के बाब्य होते हैं। इस प्रकार 'चित्तवृत्तिनिरोधः' यह योग का जो लक्षण आचार्य ने किया है, वह सम्यक् उपपन्न हो जाता है। सुषुप्ति आदि में जो योग-लक्षण का अतिव्यासिदोष दिया गया है, वह भी ठीक नहीं है, कारण यह है कि किसी प्रकार के निरोध में ही आचार्य का अभिप्राय नहीं है, किन्तु जिस वृत्ति-निरोध से द्रष्टा के स्वरूप में आत्मनितक अवस्थिति हो, और जो क्लेशकर्मादि का परिपन्थि होते हैं, उसीकी योग कहते हैं। जिसादि अवस्था में जो वृत्ति का निरोध है, वह द्रष्टा के स्वरूप में अवस्थिति का हेतु और क्लेशकर्मादि का परिपन्थि होते हुए भी उसके विपरीत है। और, सुषुप्ति या प्रलय आदि में जो निरोध है, वह स्वरूपावस्थिति का हेतु होने पर भी आत्मनितक स्वरूपावस्थिति का हेतु नहीं होता, इसलिए सुषुप्ति, प्रलय आदि शब्द से योग का ग्रहण नहीं होता। सुषुप्ति में जो निरोध है, वह आत्मनितक नहीं है। सुषुप्ति से उठने पर सब वृत्ति पूर्ववत् जागरित हो जाती है। अतः, सुषुप्ति को योग नहीं कह सकते हैं। यद्यपि असम्प्रज्ञात भी द्रष्टा के स्वरूपावस्थान में साक्षात् हेतु नहीं होता, तथापि असम्प्रज्ञात के द्वारा वह होता ही है, इसलिए योग शब्द का बाब्य होता है।

एकाग्र चित्त में बाध्यविषयक चित्तवृत्तियों का निरोध जिस अवस्था-विशेष में हो, वही सम्प्रज्ञात है। सम्प्रज्ञात समाधि में केवल बाध्यविषयक चित्तवृत्तियों का ही निरोध होता है, आत्मविषयक सात्त्विकी चित्तवृत्ति वही ही रहती है। 'सम्यक् शायते प्रकृतेः भेदेन ध्येयस्वरूपं यस्मिन्', इस व्युत्पत्ति से यही सिद्ध होता है कि जिस अवस्था में ध्येय ( आत्मा ) का ज्ञान सम्यक् प्रकार से होता हो, वही सम्प्रज्ञात है, इसी व्युत्पत्ति के आधार पर सम्प्रज्ञात से आत्मविषयक सात्त्विक वृत्ति होना सिद्ध होता है।

## सम्प्रज्ञात समाधि

सम्प्रज्ञात समाधि भी चार प्रकार की होती है—सवितर्क, सविचार, सानन्द और सास्मित। यहाँ समाधि शब्द का अर्थ भावना है। यिह वस्तु की भावना की जाती है, वह भाव्य, भावनीय या ध्येय कहा जाता है। उसी ध्येय को विषयान्तर के परिहारपूर्वक चारम्बार चित्त में निषिद्ध करने का नाम भावना है। दूसरे शब्दों में, विषयान्तर में आसक्त चित्त को उस विषय से इटाकर ध्येय में चारम्बार लगाने का नाम है भावना।

भाव्य भी दो प्रकार का होता है—एक ईश्वर दूसरा तत्त्व। तत्त्व भी दो प्रकार का है—जड़ और अजड़। अजड़ से जीवात्मा को समझना चाहिए।

ईश्वर की तत्त्व से पृथक् गणना की गई है। प्रकृति आदि चौबीस जड़ तत्त्व होते हैं—प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्राएँ, पञ्चशानेन्द्रियाँ, पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, पञ्चभूत और मन। पुरुष को सम्मिलित कर लेने पर योगकारों के मत में पचास तत्त्व होते हैं। ईश्वर तो तत्त्वातीत, अर्थात् तत्त्वों से परे है।

ईश्वर-सहित ये ही सब तत्त्व भाव्य कहे जाते हैं, इन्हीं की भावना से परम लक्ष्य समाधि की सिद्धि होती है। इनकी भावना के प्रकार-मेद होने के कारण सम्प्रशान्त समाधि के भी सवितर्कादि भेद से चार प्रकार बताये गये हैं।

स्थूलविषयक साक्षात्कार का नाम वितर्क है। 'विशेषण तर्कणम्, शब्दार्थशानविकल्परूपं यत्र', अर्थात् जिस अवस्था में शब्द-अर्थ-शान के विकल्प-रूप तर्क (भावनाविशेष) हो, उसे वितर्क कहते हैं। इस व्युत्पत्तिगम्य अर्थ से स्थूलविषयक भावना ही वितर्क है, यह चिद्ध होता है; क्योंकि स्थूल विषय में ही शब्द, अर्थ और शान का अभेदन भान होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भावना का विषयभूत जो भाव्य है, वह ग्राह्य, ग्रहण और एहता के भेद से तीन प्रकार का होता है। इन तीनों में ग्राह्य, स्थूल-सूक्ष्म भेद से दो प्रकार का है। पहले स्थूल विषयवित्तक भावना को ही दृढ़कर पीछे सूक्ष्म विषय की भावना की जाती है। जिस प्रकार, धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करने के लिए पहले स्थूल लक्ष्य के वेधन करने का ही अभ्यास किया जाता है, इसके बाद सूक्ष्म लक्ष्य के। उसी प्रकार, योग की इच्छा करनेवाला पहले स्थूल व्येय की भावना को दृढ़कर बाद में सूक्ष्म व्येय की भावना का शनैःशनैः अभ्यास करता है। इसके बाद सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम और किरपरमलक्ष्य-पर्यन्त पहुँचने की चेष्टा करता है। इस स्थिति में, स्थूल पञ्चभूत या पाञ्चमीतिक चतुर्भुजादि स्थूल रूप की भावना, इसी प्रकार स्थूल भूतों के कारण सूक्ष्मभूत, जिनको तन्मात्र भी कहते हैं, की भावना एवं उसीमें पूर्वापर-अनुसन्धानपूर्वक पहले सामान्य वादविशेष, तब धर्मों, तब धर्म की जो भावना है, उसी को सवितर्क या वितर्कानुगत कहते हैं।

इस प्रकार, जब स्थूल विषयों का यथार्थ अनुभव हो जाता है, तब उनमें अनित्यत्व आदि दोष देखनेवाली स्थूलाकार दृष्टि को छोड़कर, उन स्थूल पदार्थों के कारण, जो अद्वार, मदतत्त्व, प्रकृतिरूप सूक्ष्म तत्त्व उन स्थूल भूतेन्द्रियों में अनुगत रहते हैं, की भावना करने से और उनमें रहनेवाले अश्रुतपूर्व विशेष धर्म की देश-काल-धर्मानुसार भावना करने से जो साक्षात्कार होता है, उसीको विचार कहते हैं। 'विशेषण चारः सूक्ष्मवस्तुपर्यन्तः सञ्चारो यत्र', इस व्युत्पत्ति से जिस समाधि में सूक्ष्मवस्तु-पर्यन्त चित्त का सञ्चार हो, उसीको विचार कहा गया है। विचार के सहित सविचार है।

सविचार में, स्थूल विषयों में भी यथार्थ सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न होती है; क्योंकि सूक्ष्म तत्त्व कारणरूप से वहाँ भी वर्तमान रहता है, और कार्य कारण में अभेद भी है। इसके बाद उस सूक्ष्मविषयक दृष्टि को भी, उसमें अनित्यत्वादि दोष देखने के कारण, छोड़कर, चौबीष तत्त्वों में अनुगत सत्त्व-गुण का कार्य जो मुख है, उसके रजोगुण-तमोगुण के लेश से अभिभूत होने के कारण चित्त-शक्ति के तिरीभाव होने और उसमें प्रवर्तमान भावना से मग्नोराज्य के सदृश काल्पनिक वैषयिक मुख के साक्षात्कार होने का नाम ही आनन्द है। आनन्द के सहित को सानन्द समाधि कहते हैं। यद्यपि मुख के सदृश ही दुख और मोह भी सर्वत्र अनुगत रहता है, तथापि उनके स्वभावतः हेय होने के कारण उनकी भावना की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अनन्तर, इस मुख में भी ज्ञाणित्व-

अनित्यत्वादि दोष देखकर, उससे भी विराग होने के कारण, जीव और ईश्वर-स्वरूप का जड़ से भिन्न आत्माकार-रूप जो साक्षात्कार होता है, वही अस्मिता है।

इस अवस्था में, रजोगुण-तमोगुण के लेश से अनभिभूत जो शुद्ध सत्त्व है, उसका भी तिरोभाव और चित्त-शक्ति का आविर्भाव होता है। 'अस्मि', यही इसका आकार होता है, इसीलिए इसको अस्मिता कहते हैं। इसमें भी पहले जीवात्म-विषयक अस्मिता होती है, इसके अनन्तर उससे भी सूक्ष्मतमविषयक अस्मिता होती है। अर्थात्, पहले अस्मिता का विषय जीवात्मा ही रहता है, इसके बाद कुछ विशेष भावना के दृढ़ होने पर केवल परमात्मा ही अस्मिता का विषय रह जाता है, यही चित्त की अन्तिम अवस्था है। इसके बाद कुछ भी शास्त्र अवशेष नहीं रह जाता। इसीसे अनुगत समाधि का नाम सास्मित समाधि है। इस समाधि में संस्कारमात्र शेष रहता है।

सम्प्रज्ञात में जो चार प्रकार के निरोध बताये गये हैं, उनमें चार प्रकार की चित्तभूमि होती है—मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका और संस्कारशेष। इन सबितर्कादि अवस्थाओं का वर्णन सूत्ररूप में पतञ्जलि ने किया है—

‘वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः।’

### असम्प्रज्ञात समाधि

जिस अवस्था में सकल वृच्छियों का निरोध होता है, उसको असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस अवस्था में किसी वृत्ति का भी अवशेष नहीं रहता है। सम्प्रज्ञात से इसमें यही विशेषता है कि सम्प्रज्ञात में प्रकृति-पुरुष की भिन्नताख्याति लक्षणात्मिका जो वृत्ति (जिसमें विशुद्ध सत्त्व ही प्रधान रहता है) है, उसका निरोध नहीं होता, और असम्प्रज्ञात में उस वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। इस अवस्था में जो संस्कार शेष रहता है, उसका भी निरोध हो जाता है। पूर्व में सुषुप्ति और प्रलय में योग-लक्षण की अतिव्याप्ति और सम्प्रज्ञात में अव्याप्ति के वारण के लिए क्लेशादि परिपन्थी, यह निरोध का विशेषण दिया गया है।

अब क्लेशादि के स्वरूप का विचार किया जाता है। क्लेश पाँच प्रकार का होता है—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसीको पतञ्जलि ने सूत्ररूप में कहा है—‘अविद्याऽस्मितारागद्वेषाऽभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः।’

### अविद्या-विचार

अविद्या में पहला प्रश्न होता है कि अविद्या शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? इसमें कौन समाप्त है? इसका तात्पर्य क्या है? यदि 'विद्यायाः अभावः' इस व्युत्पत्ति में 'निर्मित्तिकम्' के समान अव्ययीभाव समाप्त, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, करें, तो अविद्या पद का अर्थ विद्या का अभाव होगा, जैसे 'निर्मित्तिकम्' का अर्थ मन्त्रिकाद्वारा का अभाव होता है। इसमें पूर्व पदार्थ प्रधान है। यदि 'न विद्या अविद्या' इस विग्रह में नवृत्तपुरुष करें, तो इसका अर्थ होगा विद्या से भिन्न या विद्याविरोधी कोई अन्य पदार्थ। जैसे अन्नाहारणः, अराजपुरुषः; यहाँ ब्राह्मण से भिन्न ज्ञात्रियादि, राजपुरुष से भिन्न साधारण पुरुष, अर्थ होता है। इसमें उत्तर पदार्थ प्रधान है।

अथवा 'अविद्यमाना विद्या यस्याः यस्यां वा' इस विग्रह में बहुतीहि समाप्त करें, जो अन्य पदार्थ प्रधान होता है, तो इस अविद्या का अर्थ होगा—अविद्यमान है विद्या जिसमें, ऐसी बुद्धि। अर्थात्, जिसमें विद्या का अभाव रहे, ऐसी बुद्धि ही अविद्या शब्द का वाच्य अर्थ होगा। इन तीन प्रकार के समाप्तों में अविद्या शब्द में कौन समाप्त होगा, यही प्रश्न का तात्पर्य है।

अव्ययीभाव तो ठीक नहीं होता; क्योंकि पूर्वपदार्थ प्रधान होने से अविद्या में नभ् का प्रसन्न-प्रतिषेध अर्थ होगा, प्राप्तिपूर्वक निषेध का नाम प्रसन्न-प्रतिषेध है। अविद्या शब्द से विद्या का प्राप्तिपूर्वक अभावमात्र ही अर्थ होगा, भाव-रूप कोई अन्य अर्थ नहीं होगा, इस अवस्था में विद्या के अभाव-रूप अविद्या क्लेशादि के उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकती; क्योंकि अभाव से किसीकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, यह पहले भी बता चुके हैं। विद्याविपरीत जो शान है, वही क्लेशादि को उत्पन्न कर सकता है, और जो क्लेशादि को उत्पन्न कर सके, वही अविद्या है; और अव्ययीभाव करने से यह अर्थ नहीं होता, इसलिए अव्ययीभाव नहीं कर सकते। अव्ययीभाव समाप्त करने में एक दोष और ही जाता है कि स्त्रीलङ्घ अविद्याशब्द की सिद्धि नहीं होती। कारण यह है कि अव्ययीभाव करने पर 'अव्ययीभावश्च' इस पश्चिनि सूत्र से नपुंसक हो जायगा, जैसे 'निर्मच्छिकम्' में होता है।

इसी प्रकार, तत्पुरुष समाप्त करने पर भी अविद्या क्लेश का कारण चिह्न नहीं होती। क्योंकि, तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ विद्या शब्द ही प्रधान होगा और नभ् का अर्थ अभाव है। इस स्थिति में, अभावयुक्त विद्या, यही अविद्या का अर्थ होगा। इस प्रकार, राग, द्वेष आदि किसी के अभाव से युक्त विद्या क्लेशादि की नाशिका ही होगी, उत्पादिका नहीं; क्योंकि रागादि अन्यतम के अभाव से युक्त विद्या क्लेश की नाशिका होती है, यह सर्वसिद्धान्त-सिद्ध है।

अविद्या शब्द में बहुतीहि करने पर भी, महीं है विद्या जिसमें, ऐसी विद्यारहित बुद्धि ही समाप्त का अर्थ होगा। यह बुद्धि भी विद्या के अभावमात्र से क्लेशादि की उत्पादिका नहीं हो सकती; क्योंकि विद्या के अभाव में भी जड़तक विपरीत बुद्धि नहीं होगी, तज्ज्ञतक किसी प्रकार भी क्लेशादि की सम्भावना नहीं हो सकती। महर्षि पतञ्जलि ने भी अस्मितादि क्लेशों का मूल कारण अविद्या को ही माना है—

'अविद्याचेत्रमुत्तरेण प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ।' ( यो० स० २४ ) ।

इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व सूत्र में उक्त जो अविद्या आदि पाँच क्लेश हैं, उनमें अविद्या से उत्तर जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये चार क्लेश ( जो प्रत्येकशः प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार के मेद से चारन्चार प्रकार के हैं ) हैं, उनका स्त्री, अर्थात् मूल कारण अविद्या ही है।

चित्तभूमि पर संस्कार अर्थात् बीज रूप से जो विद्यमान है, और उद्दोघक के अभाव से अपने कार्य का आरम्भ नहीं करता, वही प्रसुप्त है। जैसे, बालक और प्रकृतिलयसंशक योगी के चित्त में बीज-रूप से क्लेश विद्यमान रहते हुए भी उद्दोघक के अभाव में वे अपना कार्य करने से असमर्थ रहते हैं। तनु उस क्लेश को कहते हैं,

जो प्रतिपक्ष-मायना से शिथिल हो गया है। जैसे, योगियों के हृदय में वासना-रूप से विद्यमान क्लेश। चलवान् क्लेश से जो अभिभूत हो गया है, वह विच्छिन्न क्लेश है। जैसे, रागावस्था में द्वेष और द्रेषावस्था में राग। उदार उसको कहते हैं, जो सहकारी के विद्यमान रहने से कार्यकारी, अर्थात् कार्य करने में समर्थ है। जैसे, सकल बद जीवों का क्लेश। विद्वत्-शिरोमणि वाचस्पतिमिश्र ने भी योगभाष्य की टीका में लिखा है—

‘प्रसुसास्तत्त्वक्षीनाम् तन्यवस्थाश्च योगिनाम् ।

विच्छिन्नोदाररूपाश्च क्लेशः विषयसङ्गिनाम् ॥’

इस प्रकार, उक्त तीनों समाचों में किसी समाप्त से भी अविद्या शब्द का क्लेशोत्पादिका अर्थ नहीं होता, जो महर्षि पतञ्जलि का अभीष्ट है, यही शङ्क का तात्पर्य है।

इसका उत्तर यह होता है कि यहीं अविद्या पद में नन् का पर्युदास अर्थ है, उसके साथ विद्या का नन् समाप्त करने पर विद्याविरोधी, विपरीत ज्ञान अर्थ होता है। इसीको विपर्यय ज्ञान भी कहते हैं, जैसे अधर्म शब्द का धर्मविरोधी पाप अर्थ होता है। आचार्यों ने भी कहा—

‘नमधात्वर्थयोगे तु नैव नन् प्रतिपेषकः ।

वद्यत्वावाहणाधर्मां वन्यमात्रविरोधिनौ ॥

वृद्धप्रयोगगम्यो हि शब्दार्थः सर्व एव नः ।

तेन यत्र प्रयुक्तो यो न तस्मादपनीयते ॥’

अर्थात्, विधि अर्थ में जो लिङ् आदि प्रत्यय होते हैं, तदर्थ के योग में ही नन् का प्रतिपेष अर्थ युक्त होता है, जैसे ‘न ब्राह्मणं हन्यात्, न सुरां पिबेत्’, इत्यादि स्थलों में ब्राह्मण-हनन और सुरा-पान का प्रतिपेष-मात्र अर्थ होता है, परन्तु नामार्थ और धात्वर्थ के योग में नन् का निषेष अर्थ नहीं होता, किन्तु पर्युदास ही होता है। जैसे, अब्राह्मण शब्द में जो नन् है, वह ब्राह्मण से भिन्न सकल अर्थ को इंगित करता है, और अर्धर्म शब्द में नन् धर्मविरोधी पाप का ही संकेत करता है। इसलिए, हमारे आचार्यों के मत में शब्द का अर्थ वृद्धप्रयोगगम्य ही होता है, इसलिए जिस अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त है, उससे उसको विलग नहीं करना चाहिए।

वाचस्पतिमिश्र ने भी ‘अनित्याशुचि’ इत्यादि सूत्र के भाष्य के व्याख्यान में लिखा है—‘लोकधीनावधारणो हि शब्दार्थयोः सम्बन्धः लोके चोत्तरपदार्थप्रधानस्यापि ननः उत्तरपदाभिधापमर्दकस्य तद्विद्वत्या तत्रत्रोपलब्धेतिरिहापि तद्विरुद्धे प्रवृत्तिः इति ।’ अर्थात्, शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का निश्चय लोक के अधीन है। लोक में उत्तर पदार्थप्रधान भी जो नन् है, और जो उत्तरपद के अभिधेय का नाशक है, उसका उत्तरपदार्थ के विरुद्ध अर्थ में प्रयोग जहाँ-तहाँ देखा जाता है, इसलिए अविद्या शब्द में भी नन् का प्रयोग समझना चाहिए। इसी अभिप्राय से महर्षि पतञ्जलि ने कहा है—

‘अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिः सुखात्मस्यातिरिविद्या ।’ ( पृ० १० स० २५ ) .

अर्थात्, अनित्य में नित्यत्व, अशुचि में शुचित्व, दुःख में सुख और अनात्मा में आत्मा की प्रतीति अविद्या का लक्षण है। यह लक्षण उदाहरणमात्र है, इससे नित्य शुचि आदि में अनित्य अशुचि आदि की प्रतीति भी अविद्या है, यह चिद्र होता है। अविद्या का जो सामान्य लक्षण आगे किया जायगा, उसीका अवान्तर भेद चार प्रकार का सूक्षकार ने बताया है। उदाहरणार्थ—अनित्य घटादि सकले प्रपञ्च में नित्यत्व का अभिमान अविद्या है, अपवित्र शरीर में पवित्रता का शान भी अविद्या है। शरीर के अशुचि होने का कारण आचार्यों ने बताया है—

‘स्थानाद्यौजादुपष्टमाज्जिप्यन्दाज्जिधनादपि ।

कायमाधेयशौचत्वात् परिडत्ता द्यशुचि विदुः ॥’

इसका तात्पर्य यह है कि शरीर का उत्पत्ति-स्थान जो माता का उदर है, वह मल-मूत्र से व्याप्त अन्य नाम अपवित्र है। इसका मूल कारण शुक्ख-शोणित भी अपवित्र ही है, और इसके पोषक भुक्त-पीत अन्नादि पदार्थों का रस भी अपवित्र ही है, स्वेद-मूत्रादि का साव भी अपवित्र ही है, मरण तो सबमें बढ़कर अपवित्र है, जो ओत्रियों के शरीर को भी अपवित्र बना देता है, इसलिए इस शरीर को परिडत्त लोग अशुचि कहते हैं। इसी प्रकार चन्दन, माला, छो आदि में जो सुख का आरोप होता है, वह भी अविद्या ही है। विवेकियों को समस्त विषय-सुख में दुःख ही प्रतीत होता है। महर्षि पतञ्जलि ने भी कहा है—“परिणामतापसंस्कारदुःखेगुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वे विवेकिनः”; इसका तात्पर्य यह है कि माला, चन्दन, बनिता आदि जितने सुख-साधन लोक में देखे जाते हैं, उनसे उत्पन्न होनेवाले जो सुख है, वे सब विवेकियों की दृष्टि में दुःख ही हैं। जिस प्रकार, विष मिला हुआ स्वादु अन्न परिणाम में दुःखद होता है। विषय-जन्य सुख ही परिणाम-दुःख, ताप-दुःख, संस्कार-दुःख का मूल कारण होता है। लौकिक सुख-साधनों की प्राप्ति अथवा सुख के उपयोग-काल में अनेक प्रकार के ज्ञात या अश्वात हिंसा आदि पापों का होना स्वाभाविक होता है, उन पापों का अवश्यम्भावी जो दुःख है, वही परिणाम-दुःख कहा जाता है। सुख के उपयोग-काल या सुखसाधनों के प्राप्ति-काल में दूसरों के सुख-साधन या उपयोग को अधिक देखकर मन में जो एक प्रकार का ज्ञोभ उत्पन्न होता है, उसके नहीं सहने के कारण जो संताप होता है, वह ताप-दुःख है। इसी प्रकार, सुखयोग-काल में सुख के अनुभव-जन्य संस्कार के स्मरण के द्वारा जो अधिक-से-अधिक सुख-साधनों की अभिलाप्या उत्पन्न होती है, और उसकी पूर्ति नहीं होने से संस्कार-दुःख उत्पन्न होता है।

एक बात और है कि सत्त्व आदि गुणत्रय की जो प्रवृत्ति है, उसमें सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुणसंयुक्त रहते हैं, इस अवस्था में जिस वस्तु को हम सुख समझते हैं, उसमें भी दुःख का कारण रजोगुण वर्तमान ही रहता है, इसलिए रजोगुण का कार्य दुःख होना अनिवार्य है और परिणाम में दुःख होना अवर्जनीय हो जाता है। अतः, जिसको सूक्ष्म व्यक्तिशों का ज्ञान हो गया है और उसके सुख-साधन-सामग्रियों के दुःखजनक रजोगुण से युक्त होने का निश्चय हो चुका है, ऐसे विवेकियों के लिए

सभी सुख-साधन दुःख ही प्रतीत होते हैं। प्रकृत में, इस प्रकार के दुःख-साधनों में सुख-साधन का या दुःख में सुख का ज्ञान होना अविद्या ही है।

इसी प्रकार, आत्मा से मित्र जो शरीरादि है, उसमें आत्मा का ज्ञान होना भी अविद्या है। इसी कारण, यह संसार बन्ध है। और, मूल कारण अविद्या से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। आचार्यों ने भी लिखा है—

‘अनास्तमनि हि देहादावामबुद्धिस्तु देहिनाम् ।

अविद्या तस्कृतो बन्धस्तसाशो मोक्ष उच्यते ॥’

इस अविद्या के चार पाद हैं—अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अस्मिता की परिभाषा स्वयं पतञ्जलि ने की है—‘दृष्टर्शनशक्त्योरेकात्मतैवास्मिता’, अर्थात् दृक्-शक्ति (आत्मा) और दर्शन-शक्ति (बुद्धि) इन दोनों आत्म और अनात्म पदार्थों में एकात्मता के सहश जो एकाकारता की आपत्ति है, वही अस्मिता है। जब अनात्मभूत बुद्धि में आत्म-बुद्धि-रूप अविद्या होती है, तभी अस्मिता की उत्पत्ति होती है। वहाँ अविद्यावृष्ट्या में भी यद्यपि बुद्धि में सामान्यतः अहंबुद्धि रहती ही है, तथापि उस बुद्धि का विषय, भेद और अभेद दोनों, रहता है; क्योंकि उस काल में अत्यन्त अभेद का ज्ञान नहीं होता। इसके बाद बुद्धि में रहनेवाले गुणों का पुरुष में आधार करते से ‘मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ’, इस प्रकार का जो अत्यन्त एकता का भ्रम है, वही अस्मिता नाम का क्लेश है। जबतक एकता का भ्रम नहीं होता, तबतक परस्पर अस्थास-मात्र से भोग की सिद्धि नहीं होती। कारण यह है कि बुद्धि परिणामशील है, और आत्मा अपरिणामी है, इसलिए दोनों अत्यन्त भिन्न हैं। इस स्थिति में, दोनों में एकता की प्रतीति के बिना भोग असम्भव है। इसलिए, दोनों में भोगसिद्धि के हेतु अभेद का भ्रम होना अनिवार्य है।

अस्मितामूलक तीसरा क्लेश ही राग है और चौथा द्वेष। जो पुरुष सुख का अनुभव कर चुका है, उसके चित्त में सुखानुभव-जन्य एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है, उस संस्कार से सुख की अनुसृति होती है, जिससे सुख के साधनों के विषय में तृष्णा होती है, उसीका नाम राग है। इसी प्रकार, दुःख के साधनों में जो जिहारा<sup>१</sup> उत्पन्न होती है, उसीका नाम द्वेष है। इसीको पतञ्जलि ने सूत्ररूप में कहा है—‘सुखानुशयी रागः’ दुःखानुशयी द्वेषः।<sup>२</sup>

अब क्रमप्राप्त पञ्चम क्लेश जो अभिनिवेश है, उसका निरूपण किया जाता है। पूर्वजन्म में अनुभूत मरणजन्य जो दुःख है, तदनुभवजन्य जो वासना है, उससे (कृमि-कीट से लेकर बड़े-बड़े विद्वान्, महर्षियों तक) बिना कारण स्वमावतः ही उत्पन्न होनेवाला जो मरण का भय है, उसीको अभिनिवेश कहते हैं। एककार ने भी लिखा है—‘स्वरसवाही विदुपोऽपि तथारूढोऽमिनिवेशः।’ ये ही अविद्या आदि पांच अनेक प्रकार के सांसारिक दुःखों के कारण होकर मनुष्यों को क्लेशित करते रहते हैं, इसीलिए इनका नाम क्लेश है।

१. स्वासने की इच्छा।

ऊपर कहा जा सका है कि यत्तेश, कर्म, विपाक और आशय के परिपन्थी चित्त-वृत्ति का निरोध ही योग है। यत्तेश और उसके भेद और अवान्तर भेद की चर्चा ऊपर हो चुकी है। अब संचेत्र में कर्म, विपाक और आशय के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

कर्म दो प्रकार का होता है—शास्त्रविद्वित और शास्त्रप्रतिपिद। यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रविद्वित कर्म हैं और व्रह्महत्या, अगम्यागमन, मथसेवन आदि निपिद कर्म। जाति, आयु और भोग को विपाक कहते हैं। 'विषच्यन्ते कर्मभिः निषाद्यन्ते ये ते', इस व्युत्पत्ति से यही चिद् होता है कि जो कर्म से उत्पन्न किया जाय, वही विपाक है। कर्म का फल, जाति, आयु और भोग ये ही तीन हैं, इसीलिए इनको विपाक कहा गया है। जाति का अर्थ है—जन्म। जीवन-काल का नाम है—आयु। शब्दस्पर्शादि विपयों में रहनेवाला जो सुख, दुःख और मोहात्मकत्व है, वही भोग है। उनमें भोग ही कर्म का मुख्य फल है। आशय का अर्थ है—संस्कार। 'आ—फलविपाकपर्यन्तं चित्तभूमौ शेरते इत्याशयाः', अर्थात् फलनिष्ठत्ति-पर्यन्त जो चित्तभूमि में सुस रहता है, वही आशय है। धर्म-अर्थर्म-सम्बन्धी जो कर्म हैं, उनका एक प्रकार का संस्कार सोये हुए की तरह चित्तभूमि में रहता है। वही काल पाकर सहकारी कारण की सहायता से फल के रूप में परिणत होता है, जो आशय कहलाता है। इसीका नाम वासना भी है। फल और फलभोग का बीज यही है। इसी आशय-रूप बीज से प्रमाणादि चित्त की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों में, कर्मवासना ही प्रमाणादि वृत्ति के रूप में परिणत होती है। इन्हीं यत्तेश, कर्म, विपाक और आशय-रूप भलों के परिपन्थीभूत चित्तवृत्ति-निरोध को योग कहते हैं।

## निरोधन्त्वात्मणः

अब निरोध का लक्षण बताया जाता है। निरोध शब्द यहाँ अमाव का सूचक नहीं है। निरोध का फल है—आत्मसाक्षात्कार। वृत्ति-निरोध का अर्थ वृत्ति का अमाव नहीं है। कारण यह है कि अमाव किसीका कारण नहीं होता है, और निरोध को आत्मसाक्षात्कार का कारण माना गया है, इसलिए यह अमाव-रूप नहीं हो सकता।

निरोध का वस्तुतः अर्थ चित्त का अवस्थाविशेष ही है, जिसको मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका और ज्योतिष्मती नाम में अभिहित किया गया है। सवितर्क समाधि में उत्पन्न होनेवाली जो चित्त की अवस्था है, उसीको मधुमती कहते हैं। सविचार समाधि में जायमान चित्त की अवस्था को मधुप्रतीका कहते हैं। सामन्द समाधि में होनेवाली अवस्था को विशोका और सास्मित समाधि में होनेवाली अवस्था को ज्योतिष्मती कहते हैं। इन्हीं अवस्थाओं का नाम निरोध है।

इन अवस्थाओं के मावस्वरूप होने से ध्येय का साक्षात्कार होना संगत होता है। 'निरुद्धन्ते प्रमाणादाः चित्तवृत्तयः यस्मिन् अवस्थाविशेषे', इस व्युत्पत्तिपूर्वक नि उपसर्ग रूप धातु से अधिकरण में धन् प्रत्यय करने पर उक्त अवस्था ही निरोध शब्द का वाच्य अर्थ होता है।

## निरोध का उपाय

अब निरोध का उपाय बताते हैं। अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति का निरोध होता है। पतञ्जलि ने कहा है—‘अभ्यासवैराग्याभ्यां तज्ज्ञिरोधः’। चित्त-नदी का प्रवाह निश्चगा होने के कारण विषयों का ही अनुगमन करता है। वह प्रवाह विषयों की ओर जाने से तबतक नहीं रुकता, जबतक विषयों में गुप्त दोषों का अनुसन्धान नहीं करता। विषयों के दोष देखने पर ही उससे वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे शनैः-शनैः प्रवाह रुकने लगता है, और वह रुकता हुआ प्रवाह विवेक-दर्शन के अभ्यास से विवेक-मार्ग का अनुगमी होता है। विवेक-दर्शन के दृढ़ अभ्यास से ही ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह बलवान् और दृढ़ होता है।

अभ्यास की व्याख्या स्वयं पतञ्जलि ने की है—‘तत्र स्थितौ यन्मोऽभ्यासः’। राजस-तामस-वृत्ति से रहित चित्त का प्रशान्तवाहिता-रूप जो परिणामविशेष है, वही स्थिति है, उसीके लिए बारम्बार यन्त्र करने का नाम अभ्यास है। जबतक चित्त में राजस और तामस वृत्ति रहती है, तभीतक चित्त का प्रवाह बहिर्मुख विषय की ओर जारी रहता है। यम-नियमादि बहिरङ्ग साधनों के अनुष्ठान से राजस-तामस-वृत्ति का विलय और शुद्ध सात्त्विक वृत्ति का उद्ग्रेक (उदय) होता है, उस समय बहिर्मुख वृत्ति का प्रवाह स्वयं रुक जाता है। उस समय स्वरूपनिष्ठ चित्त की स्थिति प्रशान्त धारा की तरह हो जाती है। इसीके लिए (निमित्त) निरन्तर यन्त्र करने का नाम है अभ्यास। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि ‘तत्र स्थितौ’ यहाँ ‘स्थितौ’ पद में जो सप्तमी विमत्ति है, वह अधिकरण में नहीं है, जिसका में या पर अर्थ होता है। किन्तु, ‘चर्मणि द्विपिनं हन्ति’ की तरह ‘निमित्तात् कर्मयोगे’ से निमित्त अर्थ में सप्तमी है, इसलिए स्थिति के निमित्त, यह अर्थ होता है। अब वैराग्य का भी लक्षण लिखा जाता है।

## वैराग्य-लक्षण

महर्षि पतञ्जलि ने वैराग्य का लक्षण करते हुए लिखा है—‘दृष्टाऽनुश्वविकविषय-वितुष्पस्य वशीकारसंशा वैराग्यम्।’ इस संसार में तमाम भोग के लिए जो पदार्थ हैं, वे ही दृष्टि के विषय होने से दृष्ट कहे जाते हैं। गुरु-मुख से सुना हुआ वेद ही अनुश्वव है, इससे प्रतिपादित जो स्वर्गादि पारलौकिक सुख है, उनके साधन का नाम आनुश्वविक कहलाता है। दृष्ट और आनुश्वविक इन दोनों की जो वशीकार-संशा है, उसीका नाम है वैराग्य। ‘ये सब विषय मेरे बश में हैं, मैं इनके बश में नहीं हूँ’, इस प्रकार के विचार का नाम है वशीकार।

जब दोनों प्रकार के विषयों में यह शात होता है कि ये सब विषय परिणाम में दुःख देनेवाले सुस्वादु मोदक की तरह मनोमोहक हैं, इनसे कभी परिणाम (परमार्थ) में साध नहीं हो सकता, तब विषयों से धीरें-धीरे चित्त हटने लगता है, और उसीके साथ वैराग्य का उदय होने लगता है।

## क्रियायोग-विचार

अब क्रिया-योग के विषय में विचार किया जायगा। विना क्रिया-योग के क्लेश का तनूकरण और समाधि का लाभ नहीं होता है। क्रिया-योग में ही अभ्यास और वैराग्य सम्मिलित है। अर्जुन के प्रति स्वयं भगवान् ने कहा है—

‘आरुह्योमुनेयोर्गं कर्म कारणमुच्यते ।

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥’

तात्पर्य यह है कि योग-सोपान-पर आरोहण करने की इच्छा करनेवाले मुनि के लिए योगारोहण का साधन-कर्म अर्थात् क्रिया-योग ही है। जब निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाती है, तभी वैराग्य का उदय होता है। वैराग्य के उदय होने पर वृत्ति का निरोध होता है। जिस अवस्था में मानव योग-प्राप्ताद पर आरूढ हो जाता है, उस अवस्था में उसीके लिए ‘शम’, अर्थात् सब कर्मों का संन्यास, शान-परिपाक का साधन बताया गया है। उपर्युक्त गीता के श्लोक में मुनिपद भावी अवस्था के अभिप्राय से दिया गया है। कारण यह है कि योगारूढ होने के बाद ही ‘मुनि’ संज्ञा होती है योगारूढ का लक्षण गीता में ही बताया गया है—

‘यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वतुपज्ञते ।

सदंसङ्गलपतंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥’—गीता, ६।४

अर्थात्, जब योगी इन्द्रियों के विषय और कर्म में आवक्त नहीं होता, तब सब कर्मों के संन्यास के कारण वह योगारूढ कहा जाता है।

तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ये ही तीन क्रिया-योग हैं। भगवान् पतञ्जलि ने कहा है—‘तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः।’ तप का स्वरूप यान्त्रवल्क्य ने लिखा है—

‘विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः ।

शरीरशोपयं प्राहुः तपसां तप उत्तमम् ॥’

अर्थात्, शास्त्रों में बताये गये मार्ग से विधिपूर्वक कृच्छ्र और चान्द्रायण के द्वारा शरीर का जो शोपण है, वही उत्तम तप है। कृच्छ्रादि व्रतों का निर्णय धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में बताया गया है।

प्रणव, गायत्री अथवा शक्ति, रुद्रादि देव-मन्त्रों का अध्ययन, मनन और उपासना का नाम स्वाध्याय है। प्रणव उँकार को कहते हैं। मन्त्र का अर्थ ही है, ‘मननात्वायते यस्तु तस्मान्मन्त्रः प्रकोचितः’, अर्थात् मनन करने से जो रक्षा करता है, वह मन्त्र है। ‘मन्त्राणामचिन्त्यशक्तिः’ यह कल्पसूत्र है। अर्थात्, मन्त्रों की शक्ति अचिन्त्य है। मन्त्र दो प्रकार के हैं, एक वैदिक दूसरा तान्त्रिक। वैदिक भी दो प्रकार का है—प्रगीत और अप्रगीत। प्रगीत साम को कहते हैं। अप्रगीत भी दो प्रकार का है—एक छन्दोबद्ध, दूसरा उससे विलक्षण। छन्दोबद्ध श्रुक् है; दूसरा यजुः। महर्षि जैमिनि ने कहा है—‘तेपामृग् यत्रार्थ्यशेन पादव्यवस्था’, ‘गीतिषु सामाल्या’, ‘शेषे यजुः शब्दः’ (जै० सू० २-१।३३, ३५)। तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य में अर्थवश

अथवा छन्दोविशेष-नवा पाद की व्यवस्था हो, वह भ्रक् है। गान-प्रक्रिया में उक्त प्रकार से जो मन्त्र पढ़े गये हैं, वे साम हैं, और शेष मन्त्रों में यजुः का व्यवहार होता है।

तान्त्रिक मन्त्र उसको कहते हैं, जिसका वर्णन कामिक, कारण-प्रपञ्च आदि आगमों में किया गया है।

आगम में तीन अङ्ग हैं—आ, ग, म। इन तीनों की सार्थकता आचार्यों ने बताई है—‘आगतं पञ्चवक्त्रात् गतञ्च गिरिजानने, मतञ्च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते’। अर्थात्, जो भगवान् कृष्ण का अभिमत है, और शङ्कर ने पार्वती से कहा है, वही आगम है। इसीका नाम तन्त्रशास्त्र भी है। यह कामिक आदि अनेक भागों में विभक्त है। अन्य शास्त्रों में आगम का लक्षण इस प्रकार लिखा है—

‘सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां तथाचनम् ।  
साधनन्वैव सर्वपां पुरश्चरणमेव च ॥  
पट् कर्म साधनन्वैव ध्यानयोगशतुर्विधिः ।  
सप्तभिलंचण्युक्तमागमं तद्विदुः शुधाः ॥’

इसका मावार्थ यह है—सृष्टि, प्रलय, देवताओं का अर्चन, उड़का साधन, पुरश्चरण, पट्कर्मों का साधन और चार प्रकार का ध्यान-योग इन सात लक्षणों से युक्त जो ग्रन्थविशेष है, वही आगम कहलाता है। शान्तीकरण, वशीकरण, स्तम्भन, विद्रोपण, उच्चाटन और मारण यही पट्कर्म हैं। शारदातिलक में लिखा है—

‘शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्रोपोचाटने ततः ।

मरणान्तानि शंसनित पट् कर्माणि मनोपिणः ॥’

मन्त्रों के दस संस्कार भी कहे गये हैं—जनन, जीवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, विमलीकरण, आप्यायन, तर्पण, दीपन और गुस्ति (गोपन)। इनका पूर्ण विवेचन और प्रयोगविधि तन्त्र-शास्त्रों में देखना चाहिए। क्रिया-योग के सम्बन्ध में इतनी बातें कहकर ईश्वर-प्रणिधान के सम्बन्ध में विचार किया जाता है—

निखिल कर्मों का परम गुह परमात्मा में समर्पण का नाम ईश्वर-प्रणिधान है। महर्षियों ने कहा है—

‘कामतोऽकामतो वाऽपि यस्करोमि शुभाशुभम् ।

तत्सर्वं त्वयि विन्यस्त्वं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम् ॥’

अर्थात्, हे भगवन्! फल की कामना या निष्काम भाव से जो भी मैं शुभ या अशुभ कार्य करता हूँ, वह सब-का-सब तुम्हें ही अर्पित करता हूँ। क्योंकि, सर्वान्तर्यामी रूप से जिस कर्म में आप नियुक्त करते हैं, वही मैं करता हूँ। इसी सम्बन्ध में दूसरा श्लोक है—

‘कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा निस्तत्त्वभावः ।

करोमि यद्यस्कलं परस्मै नारायणायैव समर्पये तत् ॥’

अथवा कर्तृत्वाभिमान का परिहार ही वस्तुतः ईश्वर-प्रणिधान का तात्पर्य है—

‘नाहे कर्ता सर्वमेनत् प्रस्त्रैव कुरुते तथा ।

प्रशंद ग्रहापर्यं प्रोक्तमृषिभिस्तत्त्वदिग्दिभिः ॥

अर्थात्, यह सब काम ब्रह्म ही करता है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, इस प्रकार के शान को ही तत्त्वदर्शी महात्माओं ने ब्रह्मार्पण कहा है।

अथवा कर्म-फल का परित्याग ही ईश्वर-प्रणिधान का मुख्य तात्पर्य है। इसीलिए, मगवान् ने कर्म-फल के त्यागपूर्वक कर्मयोग में ही अर्जुन को प्रेरित किया है—

‘कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मण्कलहेतुभूः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥’

अर्थात्, हे अर्जुन ! तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में ही है, फल-भोग में नहीं। कर्म-फल में अधिकार का तात्पर्य है, ‘मया इदं कर्मफलं भोक्तव्यम् इत्याकारकोऽभिलापः’, अर्थात्, मैं इस कर्म-फल को भोगेंगा, इस प्रकार को अभिलापा से काम करना। फल की कामना से कर्म करनेवाला फलहेतु कहा जाता है, इसलिए ऐसा तुम न हो, और कर्म के नहीं करने में भी तुम्हारी प्रीति न हो। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म-फल की अभिलापा का त्यागकर कर्म करते रहना चाहिए। यही तीन प्रकार का ईश्वर-प्रणिधान शास्त्रों में बताया गया है। फल की अभिलापा से कर्म करना अनिष्ट का कारण है, ऐसा आचार्यों ने बताया है—

‘अपि प्रयत्नसम्पन्नं कामेनोपहर्तं तपः ।

न तुष्ट्ये महेयस्य श्वलीढभिव पायसम् ॥’

अर्थात्, बहुत प्रयत्नों से किया गया भी तप यदि कामना से युक्त हो, तो वह कुचे से जूठा किया गया पायस की तरह भगवान् की प्रीति के लिए नहीं होता है।

इस प्रकार, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान-रूप जो किया है, वही क्रिया-योग कहा जाता है, यह बात सिद्ध होती है। क्रिया-योग से तात्पर्य है—क्रियात्मक योग। अर्थात्, यह करने की चीज है, केवल इसके शान से कुछ नहीं होता।

एक शङ्खा यहाँ होती है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान इन तीनों में चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होता, तो इसका योग शब्द से व्यवहार क्यों किया जाता है ?

इसका उत्तर यह है कि ये तीनों योग शब्द का वस्तुतः अभियेय नहीं हैं, तो भी योग के साधन होने के कारण शुद्ध सारोप लक्षणावृत्ति से इनमें भी योग शब्द का व्यवहार किया गया है। जिस प्रकार, ‘आयुर्वै धृतम्’ में आयु के साधन होने के कारण ही धृत को आयु कहा जाता है। यहाँ शुद्ध सारोप लक्षणावृत्ति से ही ऐसा बोध होता है। लक्षण का विवेचन काव्य-प्रकाश, साहित्य-दर्पण आदि ग्रन्थों में किया गया है। विशेष जिज्ञासुओं को वहाँ ही देखना चाहिए।

## अष्टाङ्ग-योग-विवेचन

उपर्युक्त योग के आठ अङ्ग हैं—यम, नियम, आचन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम पतञ्जलि के मत में पाँच ही हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी इनके मत में पाँच ही है—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान। इन दोनों का स्वरूप-निर्देश पहले कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त विष्णुपुराण में भी पाँच ही यम और नियम बताये गये हैं—

‘प्रद्वचर्यमहिसाक्ष सत्याऽस्तेयाऽपरिप्रहान् ।  
सेवेत योगो निष्कामो योग्यता स्वं मनो नयन् ॥  
स्वाध्यायशौचसन्तोषतपांसि नियतारमवान् ।  
कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन् प्रवर्णं मनः ॥’

—विं पु. ६।७।३६-३८

इसका तात्पर्य यह है कि अपने मन को आत्म-विचार के योग्य बनाता हुआ योगी, अर्थात् योगाभिलाषी, निष्काम भाव से ब्रह्मचर्य आदि यमों का अनुष्ठान करे। यमों के अनुष्ठान करने से ही मन आत्म-विचार के योग्य बनता है। मन को नियन्त्रित कर स्वाध्याय, तप आदि नियमों का अनुष्ठान करता हुआ परब्रह्म में अपने मन को लगावे, इससे ईश्वर-प्रणिधान-रूप पञ्चम नियम सिद्ध होता है।

विभिन्न पुराणों में दस प्रकार के यम और नियम बताये गये हैं—

‘अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं क्षमा धृतिः ।  
दयार्जनं भिताहारः शीचं वैव यमाः दश ॥  
तपः सन्तोष आस्तिकर्यं दानमीश्वरपूजनम् ।  
सिद्धान्तवाक्यश्रवणं हीमरी च तपो हुतम् ॥  
नियमा दश संप्रोक्ता योगशास्त्रविशारदैः ॥’ —ह० यो० प्र०

अर्थात्, योगशास्त्र के विद्वानों ने दस प्रकार के यम बताये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृत्य, दया, आर्जन, भिताहार और शीच। तप, सन्तोष, आस्तिकर्य, दान, ईश्वर-पूजन, उद्धान्तवाक्यों का श्रवण, ही (लज्जा), मति, तपस्या और हवन ये दस नियम हैं। ये जो दस यम और दस नियम बताये गये हैं, उन सबका अन्तर्भवि पतञ्जलि के बताये हुए पाँच में ही हो जाता है, अर्थात् इन पाँच ही यम नियम के अनुष्ठान से वे सब गुण स्वर्णं सिद्ध हो जाते हैं, जो दस में विशेष बताये गये हैं। इन यम-नियमों के सकाम अनुष्ठान करने से विशिष्ट फल की सिद्धि होती है, और उनकी निष्काम उपासना से मुक्ति की प्राप्ति होती है—

‘पृते यमाः सनियमाः पञ्च पञ्च प्रकीर्तिः ।

विशिष्टफलदाः कामे निष्कामाणां विमुक्तिदाः ॥’ —विं पु. ६।७।३८

यम-नियम के बाद क्रम-प्राप्त आपनों का भी निर्देश किया जाता है। शास्त्रों में अनेक प्रकार के आपन बताये गये हैं, उनमें ८४ मुख्य हैं। उनमें, भी दस मुख्य माने जाते हैं। उनमें भी उद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन को मुख्य माना गया है। इनमें उद्धासन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मिताहारपूर्वक आत्मध्यायी होकर लगातार चारह वर्ष यदि केवल सिद्धासन का अभ्यास किया जाय, तो सिद्धिर्यां प्राप्त होने लगती है। और, इसके अभ्यास से बहतर हजार नाड़ियों का मल शुद्ध हो जाता है—

‘सिद्धं पद्मं तथा सिंह भद्रव्येति चतुष्पथम् ।

श्रेष्ठं तत्रापि च सुखं तिष्ठेत् सिद्धासने सदा ॥’

इन चार आसनों के स्वरूप का भी परिचय कराया जाता है—

‘योनिस्थानकमङ् ग्रिमुलवटिं कृत्वा इदं विन्यसेत्  
मेदौ पादमथैकमेव हृदये कृत्वा हनुं सुस्थिरम् ।  
स्थाणुः संयमितेन्द्रियोऽचलश्चाः पश्येद् अऽवोरन्तरं  
द्वैतन्मोक्षकपाटभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥’

—ह० यो० प्र०, ३५

अर्थात्, मेदौ (लिङ्ग) और गुदा के मध्यभाग को योनिस्थान कहते हैं, उसमें बायें पैर की एड़ी को लगाकर और दायें पैर की एड़ी को मेदौ के ऊपर भली भाँति सटाकर रखे, हृदय के समीप चितुक (दाढ़ी) को सटाकर रखे, निश्चल होकर बाय विषयों से इन्द्रियों को रोककर अचल हृषि से दोनों भौंहों के मध्यभाग को देखता रहे, यही मोहू के कपाट को भेदन करनेवाला सिद्धासन है। मत्स्येन्द्रनाथ के मतानुसार यह लक्षण है। अन्य योगियों के मत से निम्नोद्धृत लक्षण द्रष्टव्य है—

‘मेदादुपरि विन्यस्य सब्यं गुदकं तथोपरि ।

गुफान्तरश्च निचिप्य सिद्धासनमिदं विदुः ॥’

अर्थात्, मेदौ के मूल भाग के ऊपर बायें पैर की एड़ी को रखकर, उसके ऊपर दायें पैर की एड़ी को रखे और सीधा होकर बैठे, यही सिद्धासन है। इसीको ब्राह्मासन, मुक्तासन, गुप्तासन आदि भी कहा जाता है। इससे उत्तम कोई आसन नहीं है, इस सम्बन्ध में आचार्यों का कहना है—

‘नासनं सिद्धसद्यं न कुम्भः केवलोपमः ।

न खेचरीसमा गुदा न नादसद्यो लयः ॥’

### पद्मासन-स्वरूप—

‘वामोरुपरि दक्षिणश्च चरणे संस्थाप्य वामं तथा  
दक्षोरुपरि पश्येन विधिना एत्वा कराभ्यां इदम् ।  
अग्रुष्टे हृदये निधाय चितुकंनासाप्रसातोऽयेत्  
एतदूर्ध्याधिविनाशकारि षमिनां पद्मासनं प्रोच्यते ॥’

वाम जह्ना के ऊपर दक्षिण पैर को रखकर और दक्षिण जह्ना के ऊपर वाम पैर को रखे, बाद में पश्येन विधि से अर्थात् पृष्ठ की ओर दक्षिण हाथ फैलाकर वाम पैर पर रखे हुए दक्षिण पैर के श्रृंगूठे को भली-भाँति पकड़कर पुनः पृष्ठ भाग से वाम हाथ फैलाकर दक्षिण पैर पर रखे हुए वाम पाद के श्रृंगूठे को अच्छी तरह पकड़कर चितुक (दाढ़ी) को हृदय में सटाकर नासिका के अग्र भाग को देखे। यह नियमी के सकल रोगों का नाश करनेवाला पद्मासन है। इसका नियम से अम्बास करने पर सकल रोगों का नाश होता है। इसीकी बद्धपद्मासन भी कहते हैं। जिसमें पीछे श्रृंगूठे को न पकड़ा जाय, वह मुक्त पद्मासन है।

### सिंहासन-स्वरूप—

‘गुदकौ तु षूपणरथापः सीवन्याः पारवंयोः विषेद् ।

ददिष्ये सम्यगुलकं तु दण्डगुलकं तु सम्यके ॥

हस्ती तु जान्वोः संस्थाप्य स्वाङ्गुल्मीः सम्प्रसार्य च ।  
 अयात्तदक्त्रो निरीषेत नासाग्रं सुसमाहितः ॥  
 सिंहासनं भवेदेतत् पूजितं योगिपुङ्गवैः ।  
 अन्धनितयसन्धानं कुरुते चासनोत्तमम् ॥'

वृषण के नीचे सीवनी के दोनों पाश्वमांगों में बाम गुल्क को दक्षिण में और दक्षिण गुल्क को बाम में लगावे, बाद में जाँघों के ऊपर हाथ रखके श्रृंगुलियों को पसारकर मुँह खोलकर सावधानी से नासिका के अग्रभाग को देखे । यह योगियों से पूजित सिंहासन है । इसके अभ्यास से मूल, उड़ीयान और जालन्धर इन तीन बन्धों का सन्धान होता है ।

#### मद्रासन-स्वरूप—

‘गुल्फौ तु वृषणस्याधः सीवन्याः पाश्वयोः त्रिपेत् ।  
 सध्यं गुल्फं तथा सध्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिणे ॥  
 पाश्वं पादौ तु पाणिभ्यां हठं वज्चा सुनिश्चितम् ।  
 भद्रासनं भवेदेतत् सर्वाद्याधिविनाशनम् ॥

वृषण के नीचे सीवनी के पाश्वमांगों में बाईं और बामगुल्क और दाईं और दक्षिण गुल्क को सटाकर सीवनी के पाश्ववर्चों पैरों को हठ बांधकर निश्चल रूप से स्थित रहे, यह सब व्याधियों का नाश करनेवाला मद्रासन कहलाता है ।

यहाँ तक चार प्रसिद्ध आसनों के स्वरूप दिखाकर क्रम-प्रात प्राणायाम के विषय में विचार किया जायगा ।

प्राणायाम का वास्तविक फल चित्त की एकाग्रता ही है । प्राणवायु के चक्षु होने के कारण ही चित्त में चक्षुलसा थाती है । चक्षुल चित्त धारणा, ध्यान और समाधि का उपयोगी नहीं होता । प्राणायाम के अभ्यास से ही शनैःशनैः चित्त में एकाग्रता आने लगती है । व्यापि चित्त के एकाग्र होने के लिए महर्वि पतञ्जलि ने बहुत-से साधन बताये हैं, तथापि सबसे उत्तम, सफल और सुलभ होने के कारण ही धारणा-ध्यान के पद्धते प्राणायाम को ही अस्तित्वीय बताया है ।

चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत् ।

योगी स्थाणुत्वमासीति तसी वायुं निरोधयेत् ॥

—इत्यादि अनेक प्रमाणों से प्राणायाम को ही सबसे उत्तम स्थैर्य का साधन बताया गया है । एक घात और भी है कि व्याधिन्स्त्यान-संशय आदि जो योग के अन्तराय बताये गये हैं, उनमें सुख्य व्याधि ही है । व्याधि होने पर कोई भी योग नहीं बन सकता । और आसन-स्थैर्य के अनन्तर विधिवत् प्राणायाम के अभ्यास करने पर व्याधि की उत्पत्ति ही नहीं होती, इसलिए प्राणायाम से योग का मार्ग निर्विघ्न रहता है । अतः प्राणायाम आवश्यक है । एक घात और है कि सुपुण्णा नाड़ी में प्राणवायु का सञ्चार तबतक नहीं होता, जबतक नाड़ियों में व्यास मल की विशुद्धि नहीं होती । इसलिए, नील, नेत्री, धौती आदि पट्टकमों का विधान, इठेयोग में किया गया है । पतञ्जलि ने इन पट्टकमों के बारे में कुछ नहीं कहा । उन्होंने यमनियम के अनन्तर आसन और प्राणायाम को ही महत्व दिया है ।

इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि जो कार्य पट्टकर्म से होता है, वह केवल श्राद्धन और प्राणायाम के अभ्यास से ही हो जाता है। इधर्योगियों को भी यह मान्य है, इसीलिए हठ-योग में भी नाड़ी-शोधक प्राणायाम का ही पहले उपदेश किया गया है। प्राणायाम की परिमापा करते हुए पतञ्जलि ने लिखा है—‘श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ।’ अर्थात्, श्वास-प्रश्वास की स्वाभाविक निरन्तर प्रबद्धशील जो गति है, उसका विच्छेद हो जाना या रुक जाना ही प्राणायाम कहा गया है। वायु वायु का अन्तःप्रवेश श्वास है। भीतरी वायु का बाहर निकलना प्रश्वास कहा जाता है। इन दोनों की जो निरन्तर वहनशील स्वाभाविक गति है, उसका विच्छेद प्राणायाम शब्द का मुख्य अर्थ है। रेचक और पूरक में यद्यपि गति रहती है, तथापि स्वाभाविक गति का विच्छेद वहाँ भी होता ही है, यह अनुभव-सिद्ध है। इसीलिए, रेचक-पूरक को भी प्राणायाम कहा जाता है।

**वस्तुतः**, यह बात है कि श्वासपूर्वक गति का जो श्रमाव होता है, वह पूरक प्राणायाम है और प्रश्वासपूर्वक गति का जो श्रमाव होता है, वह रेचक प्राणायाम कहा जाता है। कुम्मक में वाय्ष और आम्यन्तर दोनों वायुओं का सङ्कोच हो जाता है। जैसे, तस लोहे के ऊपर जल देने से चारों तरफ से जल संकुचित हो जाता है। यही इसमें विशेषता है। अब प्राणवायु के बहने का स्थान दिखाया जाता है—मनुष्यों की वाम नाड़ी का नाम इवा है, और दक्षिण नाड़ी का नाम पिङ्गला। दोनों के बीच मध्यस्थ रूप से सुपुम्ना का निवास है। इन दोनों नाड़ियों से सूर्योदय से आगामी सूर्योदय-र्घ्यन्त निरन्तर वायु का सज्जार होता रहता है। शुक्र पक्ष में चन्द्र-नाड़ी से सूर्योदय-काल में वायु का सज्जार शुरू होता है, और कृष्णपक्ष में सूर्य-नाड़ी से। इस प्रकार, रात-दिन में २१६०० श्वास-प्रश्वास चलते हैं।

इन संख्याओं का स्पष्टीकरण अजपा-मन्त्र के रहस्यों को जाननेवाले योगियों ने मन्त्र-समर्पण के विषय में किया है—

‘पद्मशतानि गणेशाय पद्मसहस्रं स्वयमभुवे ।

विष्णवे पद्मसहस्रं पद्मसहस्रं पिनाकिने ॥

सहस्रमेकं गुरुवे सहस्रं परमात्मने ।

सहस्रमात्मने चैवमर्पयामि छृतं जपम् ॥’

तात्पर्य यह है कि जीवात्मा अजपा-मन्त्र का ६० घटी में २१६०० चार जो जप करता है, उसीका समर्पण उक्त श्लोकों में बताया गया है। पहले विष्णहर्चा गणेश को ६००, ब्रह्मा को ६०००, विष्णु को ६०००, महेश को ६०००, गुरु को १०००, परमात्मा को १००० और आत्मा को १०००।

इस प्रकार, दिन-रात के २४ घण्टे में जो २१६०० चार स्वास और प्रश्वास चलता है, उसीमें ‘हंसः’ की मावना की जाती है। भीतर से बाहर वायु जाने के समय ‘हं’ की मावना और बाहर से भीतर आने में ‘सः’ की मावना की जाती है। यही अजपा-जप कहलाता है। इसके स्वाभाविक होने के कारण और मन्त्रों के समान जप नहीं किया जाता, इसीलिए इसको अजपा कहते हैं। एक बात और भी

शातव्य है कि दोनों नाडियों से वायु के सञ्चरण-काल में पृथिवी, जल आदि तत्त्वों का भी सूक्ष्मरूप से उच्चार होता है। उनका शान उनके पीत, नील आदि वर्ण-विशेष के द्वारा होता है। उन तत्त्वों के वर्ण का शान यूक्तम् आभ्यन्तर दृष्टि से किया जाता है। तत्त्वों के बहने का स्थान इस प्रकार है—अग्नि-तत्त्व क्षण की ओर यहता है और जल-तत्त्व नीचे की ओर। वायु तिर्यग् बहता है और पृथिवी अर्द्ध-पुट में तथा आकाश-तत्त्व संबंध बहता है। इसका क्रम इस प्रकार है कि जब नाड़ी बहने को प्रवृत्त होती है, उस समय पहले वायु-तत्त्व २० पल तक चलता है। उसके बाद ३० पल तक अग्नि-तत्त्व, ४० पल तक जल-तत्त्व, ५० पल तक पृथिवी तत्त्व, उसके बाद १० पल तक आकाश-तत्त्व बहता है। इस प्रकार, एक नाड़ी में सब तत्त्वों के बहने में १५० पल लगते हैं, जिसका समय-मान ढाई घण्टी अर्थात् प्रचलित एक परणा होता है।

तत्त्वों के बहने में जो न्यूनाधिक समय लगता है, उसका कारण यह है कि पृथिवी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण रहते हैं। प्रत्येक गुण पर १० पल के दिसाव से ५० पल होते हैं। जल श्रादि में एक एक गुण घट जाने से १००-१० पल कम होते जाते हैं, आकाश में केवल एक शब्द ही गुण रहता है, जिससे उसमें १० ही पल लगते हैं। सब तत्त्वों का पृथक्-पृथक् फल भी कहा गया है। पृथिवी-तत्त्व के बहने में चित्त की स्थिरता रहती है। जल-तत्त्व में कार्य आरम्भ करने पर कल अधिक मिलता है। अग्नि-तत्त्व में चित्त-बृत्ति दोस्र रहती है। वायु-तत्त्व में चित्तवृत्ति चञ्चल और आकाश-तत्त्व में गम्भीर रहती है। इसी प्रकार, प्रत्येक में ग्रन्थः स्थैर्य, काम-वासना, ताप-कोप, चञ्चलता और गम्भीरता का भी अनुभव होता है। तत्त्वों के जानने का उपाय भी योग-शास्त्र में बताया गया है—पद्मासन या सिद्धारम पर बैठकर दोनों हाथों के झँगूठों से दोनों कान बन्द करे, दोनों मध्यमा से दोनों नासिका, और दोनों तर्जनी से दोनों आँख, अनामिका और कनिष्ठिका से दोनों ओठ दबाकर मँह बन्द करे। बाद में ध्यान देने पर छोटे-छोटे बिन्दु मालूम पड़ेंगे, उन बिन्दुओं के वर्ण से तत्त्वों का ज्ञान करना होता है। पीतवर्ण होने से पृथिवी और श्वेतवर्ण से जल, रक्तवर्ण से तेज, हरा होने से वायु और वर्णरहित होने से आकाश-तत्त्व समझना चाहिए।

‘पीता पृथ्वी जलं श्वेतं रक्तं तेज उदाहतम् ।

श्वामो वायुरथाकाशः निरुपाधिरुदाहतः ॥’

इस प्रकार, उक्त रीति से तत्त्वों को समझकर प्राणायाम के द्वारा वायु का निरोध करने पर विवेक-ज्ञान को आवृत करनेवाला जो पाप-कर्म और उसका मूलभूत अविद्यादि क्लेश है, उनका नाश हो जाता है। पाप और उसका मूल कारण अविद्यादि क्लेश ही महामोहक शब्द-स्पर्शादि विषयों की सहायता से विवेकज्ञानशील बुद्धि-सत्त्व को आवृत किये रहते हैं। ये अविद्यादि क्लेश बुद्धि-सत्त्व का आच्छादन ही नहीं करते, किन्तु अकर्तव्य कराने में भी नियोजित करते रहते हैं। प्राणायामों के नियमपूर्वक अभ्यास करने पर क्लेश दुर्बल होते-होते अपना कार्य करने से थर्लमर्य हो जाते हैं, और प्रतिकृत्य क्षीण होने लगते हैं। कर्म का नाशक होने के कारण ही

प्राणायाम को तप भी कहा जाता है। तस कुच्छु, चान्द्रायण आदि जो तप हैं, वे केवल पाप-कर्म का ही नाश करते हैं, और प्राणायाम-रूप जो तप है, उससे कर्म के मूलभूत अविद्या आदि व्येशों का भी नाश होता है। इसीलिए, शास्त्रों में कहा है—‘न तपः प्राणायामात्परम्’, अर्थात् प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। महात्माओं ने कहा है—

‘दद्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मत्वाः।

प्राणायामैस्तु दद्यन्ते तद्विन्द्रियजाः मत्वाः॥’

अर्थात्, जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातुओं को अग्नि में तपाने से उसके मल जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम से इन्द्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं और प्रकाश के आवरण मी छीण हो जाते हैं। पतञ्जलि ने लिखा है—‘ततः ज्ञीयते प्रकाशावरणम्’। यह प्राणायाम का अवान्तर फल है। मुख्य फल तो धारणा के लिए योग्यता प्राप्त करना है। जब यम, नियम, आसन और प्राणायाम के नियमपूर्वक अनुष्ठान से योगी का मन संस्कृत हो जाता है, तभी वह धारणा का अधिकारी होता है। प्राणायाम के विना मन संस्कृत नहीं होता और मन के संस्कार के विना धारणा दृढ़ नहीं होती। प्राणायाम के विना धारणा करने की योग्यता ही नहीं आती। धारणा के लिए योग्यता की प्राप्ति ही प्राणायाम का मुख्य प्रयोजन है।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-योग के इन आठ अङ्गों में धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों योग के अन्तर्ज्ञ अङ्ग हैं। इन्हीं की संज्ञा संयम है। संयम से ही योग की सिद्धि होती है। प्रत्याहार के विना संयम हो नहीं सकता। इसलिए, प्रत्याहार की साधना अत्यन्त आवश्यक है। शब्द, स्पर्श, रूप और रसादि जो विषय हैं, उनमें कुछ तो रक्षणीय होने के कारण राग के प्रयोजक हैं। कुछ कोपनीय होने से द्वेष के प्रयोजक हैं और कुछ मोहनीय होने से वैचित्र्य अथवा मोह के प्रयोजक। तत्त्व विषयों में इन्द्रियों की जो प्रवणता (अनुगमिता) है, वही विषयासक्ति है। इन्द्रियों का प्रवाह विषयों की ओर ही नियमेन होता रहता है, यही इन्द्रियों की विषय-प्रवणता है।

विषयों की ओर से, इन्द्रियों को निर्विकार आत्मा में आसक्त चित्त के अनुकारी कर देना ही प्रत्याहार है। प्रश्न यहाँ यह उपरिथित होता है कि इन्द्रियों का प्रवाह वाहा शब्दादि विषयों में होना यदि स्वामाविक है, तो वे अन्तर चित्त की अनुकारिणी कैसे हो सकती हैं? इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियों का वस्तुतः चित्त-स्वरूपानुकार नहीं होता, किन्तु चित्तानुकार के सदृश होने में ही तात्पर्य है। जब चित्त निरोध के अभिमुख हो जाता है, तब इन्द्रियों का भी, प्रयत्न के विना ही, निरोध हो जाता है। यही इन्द्रियों का चित्तानुकार है। इसीलिए, प्रत्याहार के लक्षण में सादृश्यार्थक इव शब्द का प्रयोग पतञ्जलि ने किया है—

‘स्वविषयासम्योगे सति चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः।’

—३०० सू० ३५४

यहाँ सादृश्य यह है कि जब चित्त का निरोध हो जाता है, तब इन्द्रियों का भी विषय से सम्बन्ध छूट जाता है। विषयों से सम्बन्ध छूटना ही इन्द्रियों का

चित्तानुकार है और यही प्रत्याहार है। अर्थात्, चित्त के निरोध में इन्द्रियों को विषय से विमुख करने के लिए प्रयत्नान्तर की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार, मधुमखियों की रानी के उड़ जाने पर सब मधुमखियाँ स्वयं उड़ने लगती हैं, उसी प्रकार चित्त के निरोध होने पर इन्द्रियों का भी निरोध स्वयं हो जाता है। विष्णु-पुराण में भी लिखा है—

‘शब्ददिव्यनुरक्तानि निश्चृणाक्षाणि योगवित् ।  
कुर्याच्चित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥  
वश्यता परमा तेन जायतेर्ति चलात्मनम् ।  
इन्द्रियाणामवश्यस्तैनं योगी योगसाधकः ॥’

अब बहिरङ्ग साधनों के बाद अन्तरङ्ग साधनों में क्रम-प्राप्त धारणा का विवेचन किया जायगा। आम्बन्तर या चाष्ट किसी एक देश में चित्त का स्थिरीकरण धारणा का अर्थ है। मूलाधार, नाभिचक्र, हृदय, पुराणीक, नालिका का अग्रमाण और ललाट आदि आम्बन्तर विषय कहे जाते हैं और हिरण्यगर्भ, इन्द्र आदि देवगण या उनकी प्रतिमा चाष्ट विषय कहे जाते हैं। जिस देशविशेष में धारणा की जाती है, वही ध्यान का आधार होता है। पतञ्जलि ने कहा है—‘देशवन्धश्चित्तस्य धारणा’, अर्थात् देशविशेष में चित्त का हृद सम्बन्ध ही धारणा है। अन्यत्र भी कहा है—

‘हृष्पुण्डरीके नाम्यां वा मूर्जिं पचंतमस्तके ।  
पूर्वमादिपदेशेषु धारणा चित्तवन्धनम् ॥’

पुराणों में लिखा है—

‘प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम् ।  
वशीकृत्य ततः कुर्याच्चित्तस्थानं शुभाश्रये ॥’

—वि० पु० ६।७।४५

तात्पर्य यह है कि प्राणायाम से वायु को और प्रत्याहार से इन्द्रियों को वश में करके शुभ आश्रय में चित्त को स्थिर करे।

धारणा के बाद ध्यान की स्थिति आती है। महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है—‘तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्।’ अर्थात्, ध्येयाकार चित्तवृत्ति की एकाग्रता ही ध्यान है। चित्तवृत्ति का निरन्तर प्रवाह एक ही दिशा में हो, और किसी अन्य विषय की ओर न हो, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। ध्येयाकार वृत्ति की एकाग्रता को ही ध्यान की संज्ञा दी जाती है। विष्णुपुराण में आया है—

‘तद्बूप्रत्ययैकाग्र्या सन्ततिशान्वनिःसृष्टा ।  
तद्ध्यानं प्रथमैरहौः पद्मभिर्निष्पादते तृप् ॥’

तात्पर्य यह है कि विषयान्तर की ओर से ध्यान-शून्य जो अखण्ड वृत्ति-प्रवाह है, उसीका नाम ध्यान है। दीर्घकाल-पर्यन्त निरन्तर वृद्धापूर्वक योगाङ्गों के अनुष्ठान करने से समाधि के प्रतिपक्षी अविद्या आदि क्लेशों का नाश हो जाता है। अस्याच-वैराग्य के हृद होने से मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका और ज्योतिष्मती इन चार सिद्धियों की क्रमशः प्राप्ति होती है।

## सिद्धिचतुष्टय और प्रकृति-कैवल्य

श्रूतम्भरा नाम की जो समाधि सिद्धि है, उसीको मधुमती भी कहते हैं। जहाँ रजोगुण और तमोगुण का लेश भी नहीं है, जहाँ बुद्धिसत्त्व केवल सुखप्रकाशमय है और जहाँ सत्त्व का स्वच्छ प्रकाश है और प्रवाह है, वहाँ श्रूतम्भरा नाम की प्रश्ना-समाधि से उत्पन्न सिद्धि 'मधुमती' कही जाती है। भगवान् पतञ्जलि ने लिखा है—‘श्रूतम्भरा तत्र प्रश्ना’ (यो० स० १४८)। अर्थात्, अध्यात्म-प्रसाद होने पर समाहितचित्त योगी की जो एक प्रकार की चिच्चवृत्ति उत्पन्न होती है, उसीका नाम श्रूतम्भरा है। ‘श्रूतं सत्यं विभर्ति=धारयति इति श्रूतम्भरा’, अर्थात् सत्य का धारण करनेवाली जो प्रश्ना है, उसीको श्रूतम्भरा कहते हैं। श्रूतम्भरा को ही मधुमती कहते हैं। द्वितीय कक्षा के योगियों को यह प्रश्ना होती है। योगी चार प्रकार के होते हैं—(१) प्राथमकल्पिक, (२) मधुभूमिक, (३) प्रशाज्योति और (४) अतिक्रान्तभावनीय। जिसका ज्ञान पूर्णतः परिपक्व नहीं है, वह प्राथमकल्पिक है। जिसकी प्रश्ना श्रूतम्भरा हो गई, वह द्वितीय अर्थात्, मधुभूमिक है। तीसरा प्रशाज्योति, जो पर-वैराग्य से सम्पन्न है। चौथा है अतिक्रान्तभावनीय, जिसका कोई भी सङ्कल्प शेष नहीं रहता। जिसमें मनोजवित्त्वादि की प्राप्ति हो, वह मधुप्रतीका है। पतञ्जलि ने कहा है—‘मनोजवित्त्वं विकरणभावः प्रधान-जयश्च।’ मन के सदृश शरीर का भी उत्तम गति प्राप्त होना। मनोजवित्त्व कहलाता है। इस अवस्था को प्राप्त योगी जहाँ चाहे, मन की तरह, जा सकता है।

शरीर की अपेक्षा के बिना ही इन्द्रियों का अभिमत देशों में जाना विकरण-माय है। इस अवस्था में बैठा हुआ योगी दूर या व्यवहित वस्तुओं को भी देख-मुन लेता है। कार्य-कारण, अर्थात् प्रकृति-महत्त्वादि के ऊपर विशित्व प्राप्त करना प्रधान जय कहलाता है। इस अवस्था को प्राप्त योगी सकल भूत और भौतिक पदार्थों को अपनी इच्छाशक्ति से ही उत्पन्न करता है। ऐसे योगी को प्रशाज्योति कहते हैं। इन्द्रियों के स्वरूप के जय से ही इन्द्रियों के कारण का जय होता है। कारणपञ्चक पाँच शानेन्द्रियाँ हैं। ग्रहण, स्वरूप, अस्तित्वा, अन्वय और अर्थवत्त्व—ये ही पाँच ग्रहणादि पञ्चस्वरूप कहे जाते हैं। निश्चय, अभिमान, सङ्कल्प, दर्शन और भवण—ये पाँच वृत्तियाँ हैं, इन्हीं का नाम ग्रहण है।

एकादश इन्द्रियों को स्वरूप कहते हैं। अस्तित्वा बुद्धि और अहङ्कार को कहते हैं। कारण के अनुसन्धान का नाम अन्वय है। जैसे, पट में मृतिका। मनोजवित्त्वादि जो सिद्धियाँ हैं, उनकी मधुप्रतीका संज्ञा भ्यो है, इसके ऊपर विचार करते हुए महर्षि ने कहा है कि जिस प्रकार मधु के प्रत्येक कण में माधुर्य होता है उसी प्रकार, प्रत्येक मनोजवित्त्वादि में मधुर स्वाद प्रतीत होता है।

विशेषका सिद्धि उसको कहते हैं, जिसमें साधक प्रकृति और पुरुष का भेद समझ लेता है, और सर्वशत्त्व प्राप्त कर लेता है। प्रकाशात्मक और अप्रकाशात्मक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। प्रकाशात्मक इन्द्रियाँ हैं। इन्द्रियों के विषय जो शब्द-स्पर्शादि और उनके आधय जो पृथिवी आदि पदार्थ हैं, उनको अप्रकाशात्मक कहते हैं।



अभिप्राय यह है कि महत्त्व से सद्ममूत-पर्यन्त जो कुछ भी लिङ्गशरीर आदि गुण हैं, वे पुरुष के भोगेपकरण हैं। वे जब कृतकार्य हो जाते हैं, तब पुरुषार्थशून्य हो जाते हैं। उसी समय वे अपने कारण में लीन होकर प्रतिप्रसव की संज्ञा प्राप्त करते हैं। बुद्धि-तत्त्व के साथ आत्मा का सम्बन्ध छूट जाने के कारण आत्मा अपने मूल, असङ्ग, निलेप-स्वरूप में जब अवस्थित हो जाता है, तब उसीको पुरुष का कैवल्य कहा जाता है।

इस प्रकार के कैवल्य के बाद पुमर्जन्म नहीं होता; क्योंकि कारण के अभाव में कार्य का होना असम्भव है। 'कारणाभावात् कार्याभावः ।'

### योग-शास्त्र के चार व्यूह

जिस प्रकार, चिकित्सा-शास्त्र में रोग, रोगहेतु, आरोग्य और भेयज (आौपथ) ये चार व्यूह हैं, उसी प्रकार योग-शास्त्र के भी चार व्यूह माने जाते हैं—संसार, संसारहेतु, मोक्ष और मोक्षोपाय। दुःखमय संसार हेतु है। प्रधान पुरुष का संयोग दुःखमय संसार का हेतु है। प्रधान पुरुष के संयोग की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। और उसका उपाय है—सम्यग् दर्शन। प्रकृति और पुरुष के स्वाभाविक भेद का साक्षात्कार ही सम्यग्दर्शन है।

प्रकाशात्मक और अप्रकाशात्मक इन दोनों पदार्थों के ऊपर पूर्ण आधिपत्य होना और सभी पदार्थों में अपनी इच्छा के अनुकूल व्यवहार करने का सामर्थ्य प्राप्त होना विशेषका सिद्धि है।

विशेषका में निखिल पदार्थों का साज्जात्कार एक ही काल में हो जाता है। यही सर्वज्ञातृत्व है। पतञ्जलि ने भी कहा है—‘विशेषका वा ज्योतिष्मती।’ अर्थात्, योग से उत्पन्न जो साज्जात्कार है, उसके तद्रूप अन्तःकरण की वृत्ति को ज्योतिष्मती कहते हैं। शोक की नाशिका होने के कारण इसे ही विशेषका कहते हैं।

जिस वृत्ति में संस्कार-मात्र ही शेष है, वह संस्कारशेषा सिद्धि है। विशेषका और संस्कारशेषा ये दोनों सिद्धियाँ चतुर्थ कहा के योगियों को प्राप्त होती हैं। सभी वृत्तियों के प्रत्यस्तमय निरोध में पर-वैराग्य के आश्रयण से जब जाति, आमु और भोग के बीज समाप्त हो जाते हैं, अविद्या आदि क्लेश निश्चेष हो जाते हैं, असम्प्रशात् समाधि को उपलब्धि हो जाती है और जिसमें संस्कार-मात्र ही शेष रह जाता है, तब इस प्रकार की जो चित्त की विशेषावस्था है, उसीको संस्कारशेषा सिद्धि कहते हैं। भगवान् पतञ्जलि ने भी कहा है—‘विराम प्रत्ययाऽन्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः’ (यो० स० ११८)। अर्थात्, तत्त्वज्ञानरूपा जो सात्त्विकी चित्तवृत्ति है, उसका भी विराम हो, तथा ऐसी वृत्ति-निरोधावस्था, जिसमें संस्कारमात्र शेष रहता हो और जो सम्प्रशात् से भिन्न हो; वह असम्प्रशात् है। ‘संस्कारशेषः’ कहने से मोज्जावस्था से इसमें भेद सूचित होता है। असम्प्रशात् समाधि में पुनर्ज्वरान के लिए वृत्ति के न रहने पर भी वृत्ति का संदर्कार रहता है, और मोह में चित्त के अत्यन्त विलय होने के कारण संस्कार भी नहीं रहता। यही असम्प्रशात् से मोह में विशेषता है। इस प्रकार सर्वतः विराग उत्पन्न करनेवाले साधकों के जो क्लेश-बीज हैं, वे भूने गये धान के बीज की तरह कायोत्पादन में असमर्थ होकर मन के साथ ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार, क्लेश-बीज-रूप कर्मशायों के अपने कारण में विलीन हो जानेपर प्रकृति और पुरुष का भेद-साज्जात्कार-रूप जो विवेक-ख्याति है, उसका आविर्भाव होता है। बाद में, जैसे-जैसे विवेक-ख्याति का परिपाक होता है, वैसे-वैसे शरीर और इन्द्रियों का, अपने कारणप्रधान में, लय हो जाता है। यही प्रकृति का कैवल्य है।

### पुरुष-कैवल्य

एकाकित्व का ही नाम कैवल्य है। प्रकृति के कार्यभूत महत्त्वादि के विलय होने से और पुरुष के साथ प्रकृति का आत्यन्तिक वियोग होने से ही प्रकृति का एकाकित्व सिद्ध होता है। पुरुष का कैवल्य यह है कि आत्मा अपने समस्त श्रौपाधिक स्वरूप को छोड़कर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाय। इस कैवल्य के अनन्तर आत्मा का द्विदिव्य में कभी गम्भीर नहीं होता। पतञ्जलि ने दो प्रकार की मुक्ति घटाई है—

पुरुषाभ्यन्वानो गुणानो व्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपतिष्ठा या चितिशक्तिः ।

—यो० स० ५१४

अभिप्राय यह है कि महत्त्व से सक्षमभूत-पर्यन्त जो कुछ भी लिङ्गशरीर आदि गुण हैं, वे पुरुष के भोगोपकरण हैं। वे जब कृतकार्य हो जाते हैं, तब पुरुषार्थशून्य हो जाते हैं। उसी समय वे अपने कारण में लीन होकर प्रतिप्रसव की रुंजा प्राप्त करते हैं। बुद्धि-तत्त्व के साथ आत्मा का सम्बन्ध छूट जाने के कारण आत्मा अपने मूल, असङ्ग, निलोप-स्वरूप में जब अवस्थित हो जाता है, तब उसीको पुरुष का कैवल्य कहा जाता है।

इस प्रकार के कैवल्य के बाद पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि कारण के अभाव में कार्य का होना असम्भव है। ‘कारणाभावात् कार्याभावः।’

### योग-शास्त्र के चार व्यूह

जिस प्रकार, चिकित्सा-शास्त्र में रोग, रोगहेतु, आरोग्य और भेपज (आौपध) ये चार व्यूह हैं, उसी प्रकार योग-शास्त्र के भी चार व्यूह माने जाते हैं—संसार, संसारहेतु, मोक्ष और मोक्षोपाय। दुःखमय संसार हैय है। प्रधान पुरुष का संयोग दुःखमय संसार का हेतु है। प्रधान पुरुष के संयोग की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। और उसका उपाय है—सम्यग् दर्शन। प्रकृति और पुरुष के स्वाभाविक भेद का साहात्कार ही सम्यगदर्शन है।

## सांख्य-दर्शन

सांख्य-शास्त्र के जन्मदाता मणिकर्ण कपिल हैं। सांख्य-शास्त्र में संक्षेपतः तत्त्वों के चार प्रकार माने गये हैं—(१) प्रकृति, (२) प्रकृति-विकृति उभयात्मक, (३) केवल विकृति और (४) अनुभयात्मक<sup>१</sup>। केवल प्रकृति को ही मूल प्रकृति या प्रधान कहते हैं; क्योंकि यही सकल प्रपञ्च का मूल कारण है। प्रकृति शब्द की व्युत्पत्ति है—‘प्रकर्पेण करोति=कार्यमूलादयति इति प्रकृतिः’, जो अपने से भिन्न तत्त्वान्तरों को उत्पन्न करे, वही प्रकृति है। यहाँ प्र शब्द से जो प्रकर्पं प्रतीत होता है, वह तत्त्वान्तरारम्भक<sup>२</sup> ही है। यहाँ शङ्का होती है कि मृत्तिका घट की प्रकृति है, इस प्रकार का व्यवहार लोक में देखा जाता है, परन्तु मृत्तिका से भिन्न घट कोई तत्त्वान्तर नहीं है, फिर भी मृत्तिका को घट की प्रकृति क्यों कहने हैं? इसका समाधान यह होता है कि यद्यपि मृत्तिका घट की प्रकृति वस्तुतः नहीं है, तथापि प्रकृति शब्द में प्रकर्पं की अविवक्षा से केवल उपादान-कारण को ही प्रकृति मानकर उक्त व्यवहार किया जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अपने से भिन्न तत्त्वान्तर को जो उत्पन्न करे, वही प्रकृति का सामान्य लक्षण है।

उक्त प्रकृति का लक्षण आठ तत्त्वों में ही घटता है। प्रधान, महत्त्व, अद्वक्षार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये ही आठ तत्त्व हैं। इनमें शब्द, स्पर्श आदि पञ्चतन्मात्र कहे जाते हैं। प्रधान से महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व प्रधान से भिन्न तत्त्व माना जाता है, इसलिए तत्त्वान्तर का उत्पादक होने के कारण प्रधान महत्त्व की प्रकृति है और महत्त्व प्रधान की विकृति<sup>३</sup>। प्रधान किसीसे उत्पन्न नहीं होता, और प्रधान से ही सकल प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रधान को मूल प्रकृति कहते हैं। महत्त्व से अद्वक्षार और अद्वक्षार से पञ्चतन्मात्र उत्पन्न होते हैं। इसलिए, महत्त्व अद्वक्षार की प्रकृति और प्रधान की विकृति सिद्ध होता है। अद्वक्षार महत्त्व की विकृति और पञ्चतन्मात्र की प्रकृति है। पञ्चतन्मात्र से पञ्चभूतों की उत्पत्ति है। पञ्चभूत पञ्चतन्मात्र से भिन्न तत्त्वान्तर है, इसलिए पञ्चतन्मात्र पञ्चभूतों की प्रकृति और अद्वक्षार की विकृति सिद्ध होते हैं। महत्त्व, अद्वक्षार और पञ्चतन्मात्र ये सात तत्त्व प्रकृति-विकृति उभयात्मक कहे जाते हैं। पञ्चभूत, पञ्चशानेन्द्रिय पञ्चकर्मेन्द्रिय और मन ये सोलह तत्त्व केवल विकृति-मात्र हैं; क्योंकि इनसे किसी तत्त्वान्तर की उत्पत्ति नहीं होती।

### प्रकृति के स्वरूप का विवेचन

मूल प्रकृति का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। सत्त्व, रज, तम—इन तीनों गुणों की जो साम्य-वस्था है, उसीका नाम प्रधान, मूलप्रकृति और अव्यक्त है। साम्यावस्था

१. प्रकृति और विकृति दोनों से भिन्न। २. जो अपने से भिन्न दूसरे तत्त्व को उत्पन्न करे। ३. उत्पन्न होनेवाले कार्य की विकृति कहते हैं।

होने के कारण ही यह सत्त्व है, यह रज है, यह तम है, इस प्रकार का व्यवहार इसमें नहीं होता और इसमें किया भी नहीं होती। इसलिए, ये तीन तत्त्व नहीं माने जाते। यह त्रिगुणात्मक एक ही तत्त्व माना जाता है।

सत्त्व, रज और तम ये तीनों वस्तुतः द्रव्यरूप ही हैं, गुणरूप नहीं। यहाँ शङ्का यह होती है कि यदि सत्त्व, रज और तम ये द्रव्यरूप हैं, तो लोक और शास्त्र में इनका गुण-शब्द से व्यवहार क्यों किया जाता है! इसका समाधान यह है कि ये तीनों पुरुष के भोग-साधन-मात्र हैं। इसलिए, गुणीभूत होने के कारण गुण-शब्द से इनका व्यवहार किया जाता है। वस्तुतः, गुण नहीं हैं। क्योंकि ये गुण से भिन्न ही गुणी का स्वरूप होता है। गन्ध से भिन्न पृथिवी का गुण गन्ध होता है। परन्तु, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो सत्त्व, रज, तम इनसे भिन्न प्रकृति का कोई स्वरूप है ही नहीं। ये तीनों प्रकृति के स्वरूप ही हैं, धर्म नहीं। इसलिए, सूत्रकार ने सांख्य-प्रवचन में लिखा है—‘सत्त्वादीनामतदर्थं तद्रूपत्वात्’, अर्थात् सत्त्वादि तद्रूप होने के कारण प्रकृति के धर्म नहीं हैं।

अब यहाँ दूसरी शङ्का यह होती है कि यदि सत्त्वादि प्रकृति के गुण नहीं हैं, तो ‘प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः’, इस प्रकार गीता आदि स्थलों में सत्त्व, रज, तम का ‘प्रकृति के गुण’ शब्द से जो व्यवहार किया गया है, उसकी सङ्कृति किस प्रकार होगी? इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि जिस प्रकार वृक्षों के समुदाय से भिन्न कोई वन नहीं है, किन्तु चक्र-समुदाय को ही वन कहा जाता है, उसी प्रकार वन के ये वृक्ष हैं, इस प्रकार का व्यवहार लोक में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार, सत्त्वादि के अतिरिक्त प्रकृति के न होने पर भी प्रकृति के सत्त्वादि गुण हैं, इस प्रकार का व्यवहार भी शास्त्रकारों ने किया है।

अब यहाँ तीसरी शङ्का यह होती है कि यदि सत्त्वादि प्रकृति के स्वरूप हैं, तो ‘सत्त्वं रजस्तम हति गुणाः प्रकृतिसम्मवाः’, इस गीता-वाक्य में प्रकृतिसम्मवाः। यह जो सत्त्वादि का विशेषण दिया गया, वह किस प्रकार सङ्कृत होगा? क्योंकि, सत्त्वादि के अतिरिक्त तो प्रकृति कोई है नहीं, जिससे इनकी उत्पत्ति चिद हो।

इसका समाधान यह होता है कि प्रकृति के स्वरूपभूत जो सत्त्व, रज, तम हैं, उनका यहाँ ग्रहण नहीं है, किन्तु सत्त्वादि की साम्यावस्था को प्राप्त जो मूल प्रकृति है, उससे उत्पन्न जो वैषम्यावस्था को प्राप्त सत्त्व आदि गुण है, उन्हीं का यहाँ ग्रहण है। ये ही वैषम्यावस्थापन्न<sup>१</sup> सत्त्व, रज, तम महत्त्व के कारण होते हैं। इन्हीं की उत्पत्ति उपर्युक्त गीता-वाक्य में बताई गई है। मूलप्रकृति के स्वरूपभूत साम्यावस्थापन्न जो सत्त्व, रज तम हैं, वे तो नित्य हैं, उनकी उत्पत्ति मानने से प्रकृति के नित्यत्वरूप की असिद्धि

१. प्रकृति से उत्पन्न। २. सत्त्व, रज और तम इन तीनों में प्रत्येक के साथ अनेक व्यक्ति का पररपर सम्मिश्रण होने से जो परिणामविशेष उत्पन्न होता है, जिसमें लक्ष्य आदि गुण आ जाते हैं और जिसमें यह रज है, यह तम है इत्यादि व्यवहार की योग्यता हो जाती है, उसीको वैषम्यावस्थापन्न कहते हैं।

हो जायगी। ये तीनों गुण न्यूनार्थक मात्रा में होकर जब मूल प्रकृति में ज्ञान का सञ्चार करते हैं, तब इसी से महत्त्व की उत्पत्ति होती है। बहुत से लोग इसको तत्त्वान्तर मीमानते हैं, जिसको मिलाकर २८ तत्त्व होते हैं।

## गुणों के स्वभावों का विचार

सत्त्वं लघुं प्रकाशकमिष्टमुपश्चर्द्धं चक्षुश्च रजः ।  
गुरुरवरणकमेव तमः प्रदीपवचार्थतो वृत्तिः ॥

—सांख्यकारिका

सत्त्व का स्वभाव लघु और प्रकाशक होता है। रज का स्वभाव चक्षुल होता है। तम गुरु और आवरण करनेवाला होता है। सत्त्वगुण और तमेगुण में स्वाभाविक क्रियाशीलता नहीं होती। जब रजोगुण का अंश उसमें मिलता है, तभी वह सक्रिय होता है। अर्थात्, सत्त्व लघु होने से ही प्रकाशक होता है, रज सक्रिय होने के कारण ही अपने-अपने कार्य में प्रवर्तक होता है, और तम गुरु होने से ही आन्वेषक होता है।

प्रकृति के स्वरूपभूत जो सत्त्व, रज और तम हैं, वे प्रत्येकसः अनेक प्रकार के होते हैं। कोई अणु परिमाणवाले और कोई विभु परिमाणवाले होते हैं। केवल मध्यम परिमाणवाले नहीं होते; क्योंकि मध्यम परिमाण मानने से घटादि के समान साधयव होने से अनित्य होने लगेंगे, जो इनके सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं। मूल प्रकृति से उत्पन्न जो वैषम्यावस्थापन सत्त्वादि हैं, वे मध्यम परिमाणवाले भी माने जाते हैं। अतः, सत्त्वादि अनेक प्रकार के सिद्ध होते हैं। \*

यहाँ एक शङ्खा होती है कि यदि सत्त्वादि अनेक प्रकार के हैं, तो तीन ही क्यों कहे जाते? इसका समाधान यह होता है कि जिस प्रकार वैशेषिकों के मत में पृथिवी, जल आदि द्रव्यों में प्रत्येक के—नित्य, अनित्य, शरीर, इन्द्रिय और विषय के भेद से—अनेक प्रकार के होने पर मी, पृथिवीत आदि द्रव्य-विभाजक उपाधि के नव होने से, नव ही द्रव्य माने जाते हैं, उसी प्रकार गुणत्व-विभाजक सत्त्वत्व, रजसत्त्वादि उपाधि के तीन ही होने से गुण तीन ही हैं, इस प्रकार का व्यवहार लोक में होता है।

सांख्यतत्त्वविवेक में ‘अद्यौ प्रकृतयः’ शब्द के ऊपर सत्त्व, रज और तम के अनेक प्रकार के धर्म बताये गये हैं। जैसे—सत्त्व का सुख प्रसन्नता और प्रकाश; रज का दुःख कालुष्य-प्रदूषिति और तम का मोह, आवरण तथा स्तम्भ। इस प्रकार, सत्त्व सुखात्मक, रज दुःखात्मक और तम मोहात्मक कहा जाता है।

मूल प्रकृति का स्वरूप यद्यपि प्रत्यक्ष-प्रमाण का विषय नहीं है, तथापि अनुमान-प्रमाण से इसकी सिद्ध की जाती है। अनुमान का प्रकार इस प्रकार होता है—महत्त्व से लेकर भौतिक प्रपञ्च-पर्यन्त जितने दश्यमान कार्य हैं, वे सब सुख-दुःख-मोहात्मक और उत्पन्न होनेवाले कार्य हैं। इसलिए, इनका कारण कोई अवश्य होगा और वह सुख, दुःख और मोहात्मक ही होगा, यह सिद्ध होता है। क्योंकि, विना कारण के कार्य होता नहीं, और कारण में जो गुण रहते हैं, वे ही कार्य में उत्पन्न होते हैं;

सर्वमान्य सिद्धान्त भी है कि 'कारणगुणः कार्यगुणानारभन्ते' १ महादादि सकल प्रपञ्च सुख-दुःख-मोहात्मक देखे जाते हैं, इसलिए इनका कारण भी सुख-दुःख-मोहात्मक द्रव्य ही सिद्ध होता है। जो-जो सुख-दुःख-मोहात्मक कार्य है, वे सब सुख-दुःख-मोहात्मक कार्य के परिणाम हैं। जैसे—वस्त्रादि कारण के परिणामभूत शर्या और आसनादि ।

यहाँ यह आशङ्का होती है कि शर्या और आसन का जो दृष्टान्त दिया जाता है, वह सुक्ष नहीं होता। कारण यह है कि शर्या, आसनादि सुखादि के साधनमात्र हैं, सुखादिस्वरूप नहीं हैं। क्योंकि, सुख, दुःख और मोह ये सब अन्तःकरणविशेष-रूप मन के धर्म होते हैं, विषय के धर्म नहीं हो सकते ।

इसका उत्तर यह होता है कि मन में जो सुख, दुःख और मोहादि धर्म हैं, वे कारणगुणपूर्वक ही होते हैं। इसलिए, मन की परम्परया कारणीभूत जो मूलप्रकृति है, उसमें सुख, दुःख, मोहादि धर्म को अवश्य मानना होगा। क्योंकि, जो गुण कारण में नहीं रहते, वे कार्य में आते ही नहीं। इसी सिद्धान्त से मूलप्रकृति में रहनेवाले सुख, दुःख और मोहादि जो धर्म हैं, वे ही उक्त न्याय<sup>१</sup> से अपने कार्यभूत मन में जिस प्रकार सुख, दुःख मोहादि के आरम्भक<sup>२</sup> होते हैं, उसी प्रकार अपने कार्यभूत पञ्चमधार्भूतों में भी सुख, दुःख और मोह के आरम्भक होते हैं। इस प्रकार, भौतिक विषयों में भी सुख-दुःख-मोहादि सिद्ध होते हैं। इसलिए, धर्म और धर्मों में अमेद-विवक्षा से शर्या और आसनादि का जो दृष्टान्त दिया गया है, वह असुक्ष नहीं होता ।

एक बात श्वीकृत है कि जिस प्रकार धट-रूप, पट-रूप, इस प्रकार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार चन्दन-सुख, खी-सुख, इस प्रकार की भी प्रतीति होती ही है, इससे भी विषयों में सुख-दुःखादि की सिद्धि अवश्य हो जाती है। जिस प्रकार, 'आयुर्वै धृतम्' में आयु के साधन होने से धृत को आयु माना गया है, उसी प्रकार सुखादि के साधन होने से विषयों को सुख, दुःख और मोहात्मक मानना समुचित ही है ।

## महत्तत्त्व-विवेचन

जिन आठ तत्त्वों को प्रकृति शब्द का वाच्य मानते हैं, उनमें द्वितीय का नाम बुद्धि-तत्त्व है; इसीको महत्तत्व भी कहते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि उत्कृष्ट गुण इसीमें पाये जाते हैं। इसलिए, यह महत्तत्व है। यद्यपि इसमें सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण रहते हैं, तथापि सत्त्व की प्रधानता रहती है, रज और तम तिरोहित रहते हैं। महत्तत्व के परिणामविशेष ही बुद्धि, मन और अहङ्कार हैं। इन तीनों को ही अन्तःकरण कहा जाता है। अन्तःकरण जिस समय निश्चयात्मक वृत्ति के रूप में परिणत होता है, उस समय उसे बुद्धि कहते हैं। अभिमानात्मक वृत्ति के रूप में परिणत अन्तःकरण को अहङ्कार कहते हैं और सङ्कल्प, विकल्प तथा संशयात्मक वृत्ति में परिणत अन्तःकरण को मन कहा जाता है। मन, बुद्धि और अहङ्कारात्मक जो अन्तःकरण-रूप वृक्ष है, उसीकी अङ्गुरावस्था महत्तत्व है ।

१. 'कारणगुणः कार्यगुणानारभन्ते ।' २. उत्पादक ।

जिस प्रकार प्रधान में सत्त्वादि गुणों के न्यूनाधिक्य से अनेक प्रकार के भेद भवाये गये हैं, उसी प्रकार महत्त्व में भी अनेक प्रकार के भेद दिव होते हैं। ब्रह्मा से स्पावर-पर्यन्त जितने जीव माने गये हैं, उनमें प्रत्येक का एक-एक उपाधिभूत महत्त्व माना गया है। यद्यपि सब बुद्धितत्त्वों में सत्त्व-अंश प्रधान रहता है, तथापि कहीं रजोगुण अधिक उन्होंने रहता है, और सत्त्व तथा तम तिरोहित रहते हैं। कहीं सत्त्व और तम ही उन्होंने रहते हैं, और रज तिरोहित।

ब्रह्मा की उपाधिभूत बुद्धि में रजोगुण ही अधिक प्रकट रहता है, और सत्त्व-तम तिरोहित रहते हैं। विष्णु और महेश में क्रमशः सत्त्व और तम अधिक रहते हैं, और अन्य तिरोहित रहते हैं। किसी-किसी बुद्धितत्त्व में तो तमोगुण और रजोगुण इन्हें अधिक होते हैं कि वहाँ सत्त्व अंशतः रहता हुआ भी नहीं के बराबर प्रतीत होता है। इसलिए, वह महत् शब्द का बाल्य होता हुआ भी अधम, अशान, अवैराग्य, अनैश्वर्य आदि अनेक दुर्गुणों से युक्त होता है। इस प्रकार की बुद्धिवाले मनुष्य धर्माचरण से विलक्षुल विमुख रहते हैं।

## अहङ्कार-विचार

अब अहङ्कार के विषय में विचार करते हैं। महत्त्व से अहङ्कार की उत्पत्ति होती है। बुद्धि-विशेष का ही नाम अहङ्कार है। अहन्ता (अहमाकार), इहन्ता (इहमाकार) बुद्धि को ही बुद्धि-विशेष कहते हैं। अहन्ता के बिना इहन्ता का उदय नहीं होता। इसलिए, अहन्ता बुद्धि-विशेषभूत अहङ्कार की उत्पत्ति हुई। यह तृतीय तत्त्व है। महत्त्व के समान अहङ्कार के भी, सत्त्वादि गुणों के उत्कर्षापकर्ष से, तीन प्रकार के भेद होते हैं। सात्त्विक को वैकारिक, राजस को तैजस और तामस को भूतादि भी कहते हैं। जहाँ रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्त्वगुण ही उत्कृष्ट रहता है, वहाँ सात्त्विक अहङ्कार की स्थिति है। सात्त्विक अहङ्कार राजस की सहायता से प्रवृत्तिधर्मी एकादश इन्द्रियों को उत्पन्न करता है। पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय और मन ये ही एकादश इन्द्रियाँ हैं। पञ्चतन्मात्र में—शब्द, स्वर्ण, स्प, रस और गन्ध ये पाँच आते हैं। इनके दो भेद होते हैं—सविशेष और निर्विशेष। शब्द में उदाच, अनुदाच, निधाद और गन्धर्व आदि विशेष गुण रहते हैं। स्वर्ण में उष्णत्व, शीतत्व, मृदुत्व आदि; रस में शुक्रत्व, कृष्णत्व आदि; रस में मधुरत्व, अम्लत्व आदि और गन्ध में सुरभित्व, असुरभित्व आदि विशेष गुण रहते हैं। ये पञ्च तन्मात्राएँ क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी इन पञ्च महाभूतों को प्रकृति हैं। मूलप्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्र, पञ्चमहाभूत, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय तथा मन ये सब मिलकर चौबीस तत्त्व होते हैं। पञ्चसर्व तत्त्व पुरुष है। यहीं जीवात्मा है। इससे मिल सर्वशः ईश्वर सांख्य-मत में नहीं माना जाता। जीवात्मा प्रति शरीर में भिन्न-भिन्न है। यदि जीवात्मा को भिन्न-भिन्न न माना जाय, तो एक के बढ़ होने पर सबको बढ़, एक के मुक्त होने पर सबको मुक्त, एक को सुखी होने पर सबको सुखी, एक को दुःखी होने पर सबको दुःखी मानना होगा। इसलिए, सांख्य-प्रवचन में लिखा है—‘जन्मादि-व्यवस्थाः’

पुरुषवहृत्यम्'। यदी जीवात्मा अनादि, रूहम्, चेतन, सर्वगत, निर्गुण, कृतस्थ, नित्य, द्रष्टा, मोक्षा और स्वेच्छिद भी कहा जाता है।

वैशेषिकों के मत में द्रव्यगुणादि जो सात पदार्थ माने गये हैं, उन सबका इन्हींमें अन्तर्भाव हो जाता है। यथा—पृथिवी आदि नव पदार्थों में पृथिवी, जल, नेत्र, यायु, आकाश और मन इन छह पदार्थों का तत्त्व नाम से ही निर्देश किया गया है। आत्मा का पुरुष पद से निर्देश किया गया है। इनके मत में दिक् और काल का आकाश में ही अन्तर्भाव माना गया है। दूसरकार ने भी लिखा है—‘दिफालावाकाशादिस्यः’। अर्थात्, दिक् और काल आकाश से ही सिद्ध हो जाते हैं।

गुण, कर्म और यामान्य को द्रव्य से अतिरिक्त कोई पदार्थ सांख्यकार नहीं मानते। इसलिए, विशेष और समयाव मी इनके मत में अनुपयुक्त ही हैं। अभाव भी इनके मत में भावान्तर-स्वरूप ही है। जैसे, घट का प्रागभाव मूर्च्छिका-स्वरूप ही है। उसका प्रध्यंसामाद घट का खण्ड-स्वरूप है। घट का अत्यन्तामाव अधिकरण (भूतल)-स्वरूप है। घट का अन्योन्याभाव पटादि-रूप है। इसलिए, अभाव भी इनके मत में नहीं माना जाता।

## सांख्यीय सुष्ठिङ्कम

सुष्ठिङ्कम के सम्बन्ध में सांख्य का स्वतन्त्र विचार है। सुष्ठि के आदिकाल में स्वतन्त्र प्रवृच्छियाली केवल मूल प्रकृति ही थी। वह प्रवृच्छिस्वभाव होने के कारण स्वयं ज्ञान्य होकर पुरुष-विशेष-संशक जीव-विशेष, जो नारायण पदवाप्त्य है, के साथ रंयुक्त होती है। इसके पाद अन्य सजातीय प्रकृति के अंशों के साथ, न्यूनाधिकभाव से, मिलकर महत्त्व का आरम्भ करती है।

यहाँ यह शङ्खा होती है कि ‘असङ्गो द्यर्यं पुरुषः’, अर्थात् पुरुष असङ्ग है, तब वह प्रकृति के साथ संयोग कैसे करता है। इसका उत्तर यह है कि विकार का हेतु जी संयोग है, पुरुष में उसीका अभाव श्रुति बताती है। प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग होने पर भी पुरुष में विकार नहीं होता। वह ‘पद्यपत्रमिवाभ्यस्तु’ बना रहता है।

महत्त्व चेतन और अचेतन उभयात्मक माना जाता है। प्रकृति में अचेतन अंश की ही मुख्य उत्पत्ति मानी जाती है। चेतन-अंश की अभिव्यक्ति-मात्र होती है। चेतन (पुरुष) का प्रतिविम्ब ही महत्त्व में भासित होता है। इसलिए, इसकी उत्पत्ति गौण मानी गई है। इसी प्रकार, सुष्ठि के आरम्भ में महत्त्व के कारणीभूत विषम अवस्थावाले गुणवत्त के सम्बन्ध में जीवविशेषभूत आदिशक्ति भी अभिव्यक्त होती है। यही प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है। इसका नाम महालक्ष्मी, दुर्गा, भवानी, भगवती आदि पुराणों में प्रसिद्ध है; जीव में रहनेवाली जितनी विशेषताएँ हैं, वे प्रधानादि उपाधि के सम्बन्ध से ही भासित होती हैं। इसलिए, ये सब औपाधिक कहे जाते हैं। इसके पहले श्रीवाधिक विशेषताओं से रहित निर्विशेष जीवसमष्टिरूप है, उसीको ब्रह्म कहते हैं और उपाधिविशिष्ट विशेष जीवसमष्टि को स्वयम्भू कहते हैं।

विशेषता के बल उपाधि-प्रयुक्त ही है, जीव का धर्म नहीं। जीव की उपाधि लिङ्ग-शरीर ही है। बुद्धि, अद्विकार, मन, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय और पञ्चमहाभूतों के समुदाय को लिङ्ग-शरीर कहते हैं।

कहीं-कहीं सब्रह तत्त्वों के समुदाय को ही लिङ्ग-शरीर कहा गया है। उनके मत में अद्विकार का बुद्धि में ही अन्तर्भाव माना जाता है। बुद्धि का जो कृतिमेद है, उसीका नाम प्राण है। यह कोई भिन्न तत्त्व नहीं माना जाता। आत्मचैतन्य की अभिव्यक्ति उपाधि में ही होती है, अतः आत्मचैतन्याभिव्यक्ति का आधार उपाधि ही होती है। जिस प्रकार, अग्नि की अभिव्यक्ति का आधार ईन्धन ही होता है। सबसे पहले यह लिङ्ग-शरीर स्वयम्भू का उपाधिभूत एक ही होता है। बाद में उसके अंशभूत व्यष्टिलिङ्ग-शरीर व्यष्टि जीवों की उपाधि होकर अनेक प्रकार से विमक्त होते हैं। जैसे—पिता के लिङ्ग-शरीर से अनेक पुत्र के लिङ्ग-शरीर उत्पन्न होते हैं। यही स्वयम्भू अपने सूक्ष्म लिङ्ग-शरीरावयवों को अपने सूक्ष्म चैतन्यांशों से संयुक्तकर सब प्राणियों की सृष्टि करता है। जीव वस्तुतः परस्पर भिन्न ही है।

यहाँ शङ्खा यह होती है कि यदि व्यष्टिलिङ्ग-शरीर-रूप उपाधि के संयुक्त होने से ही जीवसंशा होती है, तो जीवों में भेद भी उपाधिकृत ही होना चाहिए, स्वाभाविक भेद मानना युक्त नहीं होता। इसका उत्तर यह होता है कि उपाधि से जीवों में श्रविद्यमान भेद उत्पन्न नहीं होता, किन्तु जैसे विद्यमान घटादि पदार्थ दीप के प्रकाश से अभिव्यक्त होता है, वैसे विद्यमान जीवगत स्वाभाविक भेद भी शरीर आदि उपाधि से ही अभिव्यक्त होता है; क्योंकि जीवगत परस्पर भेद स्वाभाविक ही होता है। पूर्वोक्त स्वयम्भू को स्थूलशरीरोपाधि से विशिष्ट होने के कारण नारायण कहते हैं। स्थूल शरीर क्या है? और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है? इस सम्बन्ध में सांख्य का अपना स्वतन्त्र विचार है, जिसको आगे दिखाया जा रहा है।

भहत्तत्व से अद्विकार की उत्पत्ति होती है, अद्विकार से तन्मात्राएँ। अद्विकार महत्तत्व का दशमांश होता है। अद्विकार से उत्पन्न तन्मात्राओं में शब्दतन्मात्रा से उत्पन्न जो आकाश है, वह अद्विकार का दशमांश होता है। आकाश का दशमांश चायु, चायु का दशमांश तेज, तेज का दशमांश जल और जल का दशमांश पृथिवी, यही स्थूल-शरीर का बीज है। यही बीज अरण्ड-रूप में परिणत होता है। उसी अरण्ड में चतुर्दशमुक्तनात्मक स्वयम्भू का शरीर रहता है। यही स्थूलशरीरोपाधिविशिष्ट होने से नारायण-पद का वाच्य होता है।

इन्द्रियों के पहले तन्मात्राएँ होती हैं, या तन्मात्राओं के पहले इन्द्रियाँ, अथवा कौन सी इन्द्रिय किसके पहले उत्पन्न हुई, इसमें कोई क्रम-नियम नहीं होता। केवल तन्मात्राओं की उत्पत्ति में क्रम-नियम रहता है। सबसे पहले तामस अद्विकार से शब्द-तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। उस अद्विकारसहित शब्दतन्मात्रा से शब्द और स्पर्श दोनों गुणोवाली स्पर्शतन्मात्रा उत्पन्न होती है, और अद्विकारसहित स्पर्शतन्मात्रा से शब्द, स्पर्श और रूप गुणोवाली रूपतन्मात्रा उत्पन्न होती है। अद्विकारसहित रूपतन्मात्रा से शब्द, स्पर्श और रूप गुणोवाली रसतन्मात्रा उत्पन्न होती है। अद्विकारसहित रसतन्मात्रा से शब्द, स्पर्श,

रूप, रस और गन्ध गुणोवाली गन्धतन्मात्रा उत्पन्न होती है। इन पञ्चतन्मात्राओं से ही क्रमशः उच्चरोचर एक अधिक गुणवाले आकाशादि पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार, मूलप्रकृति, महत्त्व, अद्वक्षार और पञ्चतन्मात्राएँ, पञ्चशानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय मन तथा पञ्चमहाभूत ये मिलकर चौबीस तत्त्व होते हैं। पुरुष प्रकृति-विकृति के अतिरिक्त असङ्ग और निलेप होता है। इसको मिलाकर सांख्य-मत में कुल पचीस तत्त्व होते हैं।

इस प्रकार मूलतः दो ही तत्त्व हैं—एक चित्, दूसरा अचित्; अर्थात् पुरुष और प्रकृति। इन दोनों के अभेद-ज्ञान से ही पुरुष बद्ध होता है। और, इन दोनों के भेदज्ञान के विवेक से ही पुरुष मुक्त होता है। सारांश यह कि पुरुष और प्रकृति के अविवेक-ज्ञान से ही बन्धन और विवेक-ज्ञान से ही मोक्ष होता है। इसी भेद-ज्ञान के लिए ही मूलप्रकृति के परिणामस्वरूप महदादि तत्त्वों की सङ्कलना की गई है। अन्यथा, आत्मा के उपाधिभूत जो बुद्धि, मन, प्राण, शरीर आदि हैं, उनसे आत्मा का विवेक-ज्ञान नहीं होता। इन सब तत्त्वों का परिगणन सांख्यकारिका के एक ही श्लोक में किया गया है—

‘मूलप्रकृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

पोद्यकस्तु विकारः न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥’

माव यह है कि मूल प्रकृति किसी की विकृति नहीं होती। महद् आदि सात तत्त्व प्रकृति और विकृति दोनों होते हैं। महत्त्व अद्वक्षार की प्रकृति और मूलप्रकृति की विकृति है। एवं अद्वक्षार भी महत्त्व की विकृति और तमोगुण के अधिक प्रकट होने से शब्द-स्पर्शादि पञ्चतन्मात्राओं की प्रकृति भी होता है। और, यही अद्वक्षार-तत्त्व सत्त्व-गुण के अधिक होने से शोषण, त्वक्, अक्षि, रसना और माण इन पाँच शानेन्द्रियों और वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थि इन पाँच कर्मेन्द्रियों और मन की प्रकृति होता है। रजोगुण ही सत्त्व और तम में किया का उत्पादन करता है। इसलिए, इसका भी कारणत्व माना जाता है। उक्त सात तत्त्व प्रकृति और विकृति दोनों हैं। इनके अतिरिक्त सोलह तत्त्व के बल विकृति होते हैं; क्योंकि इनसे किसी तत्त्वान्तर की उत्पत्ति नहीं होती। पुरुष प्रकृति और विकृति कुछ भी नहीं है। वह असङ्ग, निर्गुण और निलेप है। मूल प्रकृति किसी की विकृति नहीं होती, कारण यह है कि उसको विकृति मानने से उसका कोई अन्य कारण मानना होगा। पुनः उसके कारणान्तर मानने में अनवस्था दोष हो जाता है। इसीलिए सूत्रकार ने भी लिखा है—‘मूले मूलाभावादमूलं मूलम् । अर्थात्, मूलप्रकृति अमूल है। इसमें कोई कारण नहीं है। ऊपर लिख चुके हैं कि रजोगुण ही सत्त्व और तम में किया का सञ्चालन करता है। ईश्वरकृष्ण ने भी सांख्यकारिका में इस विषय में लिखा है—

‘अभिमानोऽद्वक्षारस्तमाद्विविधः प्रवत्तंते सगं ।

एकादश कारणगणस्तन्मात्रा पञ्चकर्मैव ॥

सार्विक एकादशकः प्रवत्तंते वैकृतादद्वक्षाराद् ।

भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम् ॥’

इन कारिकाओं का वाचस्पति मिश्र ने भावार्थ लिखा है कि अभिमान को ही अहङ्कार कहते हैं। अहङ्कार से दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक प्रकाशक दूर्योग जड़। प्रकाशक इन्द्रियाँ हैं, और शब्दादि पञ्चतन्मात्र जड़। यहाँ शंका होती है कि एक ही अहङ्कार से प्रकाशक और जड़ इन दो प्रकार की विलक्षण सृष्टि किस प्रकार होती है? इसके उत्तर में उपर्युक्त कारिकाकार कहते हैं कि 'सात्त्विक एकादशकः' तात्पर्य यह है कि एक ही अहङ्कार सत्त्व, रज और तम इन तीन के उत्कर्प और अपकर्प से तीन प्रकार का होता है। उनमें सत्त्व के आधिक्य से सत्त्वप्रधान वैकृत कहा जाता है। तमोगुण के आधिक्य से तमःप्रधान भूतादि कहा जाता है। और रजोगुण के आधिक्य से रजःप्रधान तैजस कहा जाता है। प्रकृत में वैकृतसंशक सत्त्वप्रधान अहङ्कार से एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए, इनको भी सात्त्विक कहा जाता है। भूतादि नाम का जो तामस अहङ्कार है, उससे पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। रजःप्रधान जो तैजस अहङ्कार है, उसका दूसरा कोई कार्य नहीं है। अर्थात्, तैजस अहङ्कार किसी तत्त्वान्तर का स्वतन्त्र कारण नहीं होता। किन्तु, वैकृत और भूतादिक सदायकमात्र होते हैं। तात्पर्य यह है कि सत्त्वगुण और तमोगुण समर्थ होने पर भी तबतक कुछ भी नहीं कर सकता, जबतक कि रजोगुण उसका सञ्चालन न करे। इसलिए, उक्त कारिका में 'तैजसादुभयम्' कहा गया है।

'बुद्धिन्द्रियाणि' में इन्द्र शब्द आत्मा का वाचक होता है। इन्द्रस्य (आत्मनः) लिङ्गम् (ज्ञापकम्), इस व्युत्पत्ति से इन्द्रिय शब्द का अर्थ आत्मा का ज्ञापक होता है; योकि इन्द्रिय-प्रवृत्ति के द्वारा ही आत्मा का अनुमान किया जाता है। इन्द्रिय शब्द सात्त्विक अहङ्कार के कार्य में ही योगरूढ माना गया है, इसलिए अहङ्कार में उसकी अतिव्याप्ति नहीं होती। मन के तीन विशेषण दिये गये हैं—उभयात्मक, संकल्प और इन्द्रिय।

मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों के प्रवर्चक होने से, उभयात्मक है। सङ्कल्प का तात्पर्य है—सम्यक् कल्पना करनेवाला, अर्थात् जहाँ विशेष्य-विशेषण भाव से अच्छी प्रकार कल्पना की जाय। मनःसंयुक्त इन्द्रिय के द्वारा पहले सामान्य रूप से ही वस्तु का ज्ञान होता है। बाद में यह इस प्रकार का है, इस प्रकार का नहीं है, इसमें यह विशेषता है, इस प्रकार सम्यग् विवेचन करना मन का कार्य है। जैसे, अन्य इन्द्रियों सात्त्विक अहङ्कार के कार्य हैं, वैसे मन भी सात्त्विक अहङ्कार का कार्य है, हस्तीलिए यह मन भी इन्द्रिय कहा जाता है। आकाश आदि पञ्चमहाभूत और एकादश इन्द्रियाँ—ये सोलह तत्त्व के बाल विहिति कहे जाते हैं। ये किसी की प्रकृति नहीं होते।

### भौतिक पदार्थ और तत्त्व

अब भौतिक पदार्थों का तत्त्व में परिगणन क्यों नहीं हिया गया, इस पात्र को दिखाया जाएगा है। छाँड़ा-धात्र के अनुसार विवेक-ज्ञान से ही मोक्ष-विदि मानी गई है। वियेक का अर्थ है चित् और अचित् में मेद का ज्ञान। मेद का ज्ञान प्रतियोगी और अनुयोगी

शान का समेत ही होता है। जिसका भेद होता है, वह प्रतियोगी कहा जाता है। और जिसमें भेद होता है, वह अनुयोगी कहा जाता है। जैसे—गो का भेद अश्व में है, यहाँ गो प्रतियोगी और अश्व अनुयोगी होता है। गो और अश्व के शान के बिना गो और अश्व में भेद का शान नहीं हो सकता। प्रकृत में, प्रकृति और पुरुष दो तत्त्व माने जाते हैं। क्योंकि, इन्हीं के विवेक-शान से मोक्ष होता है। अतः, 'तत्त्वशानान्मोक्षः' यह प्रवाद सज्जत होता है। इसीलिए, विवेक-शान में प्रतियोगितया अथवा अनुयोगितया जिसका सम्बन्ध रहे, वही तत्त्व का सामान्य लक्षण सिद्ध होता है। अतएव, प्रकृति-पुरुष का स्वरूप-शान आवश्यक होता है।

मूलप्रकृति के अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उसका शान होना असम्भव है। इतना ही नहीं, प्रकृति का साक्षात् कार्य महत्त्व, महत्त्व का कार्य अहङ्कार और उसका कार्य पञ्चतन्मात्र ये सात तत्त्व भी सूक्ष्म ही हैं। इसलिए, इनका भी विशद रूप से शान होना सम्भव नहीं। प्रकृति की परम्परा में इन्द्रियों या भूतों के समूह में इन सोलह विकारों को विशद रूप से जाना जा सकता है। सोलह विकारों का विशद रूप से ज्ञान होने पर उनसे भिन्न पुरुष में भेद-ज्ञान होना सुकर हो जाता है। तात्पर्य यह है कि पोटश विकारों से पुरुष में भेद सिद्ध होने पर, उनका मूल कारण जो मूलप्रकृति है, उससे भी पुरुष में भेद-ज्ञान आवश्यक सिद्ध हो जाता है।

अश्व, घट आदि जो भौतिक पदार्थ हैं, उनके अनन्त होने के कारण उनका विशद रूप से ज्ञान होना सम्भव नहीं है। और भी, मोक्ष के साधनभूत भेद-ज्ञान में भौतिक गो-घटादि का ज्ञान आवश्यक भी नहीं है। कारण यह है कि पृथिवी आदि भूतों के साथ आत्मा के भेद-ज्ञान होने पर भौतिक घटादि के साथ भेद-ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं रहती। क्योंकि, पुरुष निर्विशेष है, उसका विधि-मुख से ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात् यह स्थूल है, नील है, पीत है, इस प्रकार विधि-मुख से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। किन्तु, यह (आत्मा) नील नहीं है, पीत नहीं है, इत्यादि निषेध-मुख से ही इसका ज्ञान होना सम्भव है।

अब यहाँ यह विचारना है कि जब यह (आत्मा) स्थूल नहीं है, नील नहीं है, पीत नहीं है, इत्यादि निषेध-ज्ञान से आत्मा में इन्द्रियग्राह्य समस्त गुणों का निषेध हो जाता है, तो किर कौन-सा विशेष गुण पुरुष में रह जाता है, जिसके निषेध के लिए भौतिक गोघटादि के ज्ञान की आवश्यकता हो ?

सिद्ध है कि मोक्षसाधनभूत विवेक-ज्ञान में भौतिक पदार्थों का प्रतियोगितया या अनुयोगितया किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। और, जिसका मोक्षसाधन-विवेक में प्रतियोगितया या अनुयोगितया सम्बन्ध रहता है, वही वास्तविक तत्त्व कहा जाता है, यह पहले भी लिख चुके हैं। इसीलिए, भौतिक पदार्थों की गणना तत्त्वान्तर में नहीं की गई।

अब यहाँ यह समझना चाहिए कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन पञ्चतन्मात्राओं से क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी इन पञ्च महाभूतों की

उत्पत्ति होती है। इसमें यह विशेषता है कि उत्तरोत्तर भूतों में एक-एक अधिक गुण हो जाता है। इसका कारण यह है कि पूर्व-पूर्व सूक्ष्मभूतसहित तन्मात्राओं से ही उत्तरोत्तर भूत उत्पन्न होते हैं। अतः, पूर्व सूक्ष्मभूत गुण भी उत्तरभूतों में आ जाते हैं। जैसे, केवल शब्दतन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हुई, इसलिए आकाश में एक शब्द ही गुण हुआ। सूक्ष्म आकाशसहित स्पर्शतन्मात्रा से वायु उत्पन्न हुआ, इसलिए वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण हुए। इसी प्रकार, सूक्ष्म आकाश और वायुसहित रूप-तन्मात्रा से तेज की उत्पत्ति हुई। इसीलिए, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप ये तीन गुण हुए। इसी प्रकार, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और गन्ध ये चार गुण, और पृथिवी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण। पूर्व-पूर्व सूक्ष्मभूतों के कारण ही उत्तरोत्तर भूतों में एक-एक अधिक गुण हो जाता है। वैकृत सात्त्विक अद्वार से इन्द्रियों की उत्पत्ति पहले ही बता चुके हैं।

इन सत्त्वों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सांख्यकारिका कहती है—

‘प्रकृतेमहान् महतोऽद्वारस्तस्माद् गणश्च पोडशकः ।

तस्मादपि पोडशकात् पञ्च भूतानि ॥’

भावार्थ यह है कि प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अद्वार और अद्वार से सोलह गण उत्पन्न होते हैं। पञ्चतन्मात्रा, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और मन ये सब मिलकर सोलह होते हैं। ये ही प्रकृति से भूत-पर्यन्त चौबीस तत्त्व हुए। इनसे भिन्न पचीसवाँ तत्त्व पुरुष हैं। इन पचीस तत्त्वों के साधक तीन प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्यकारिका में भी लिखा है—

‘दृष्टमनुमानमात्रवचनज्ञ सर्वप्रमाणसिद्धव्याप्त ।

त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्वि ॥’

भावार्थ यह है कि दृष्ट अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान और आसवचन (शब्द) ये ही तीन प्रमाण सर्वप्रमाण से सिद्ध हैं। और, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के ही अधीन है। इन तीने प्रमाणों में ही उपमानादि अन्य प्रमाणों का अन्तर्भूत हो जाता है। प्रत्यक्ष-प्रमाण का लक्षण यह है कि विषय-सन्निकृष्ट जो इन्द्रिय है, उसके साथ मन के विषय-देश में जायमान जो विषयाकार वृत्ति है, वही प्रत्यक्ष-प्रमाण है। जब मन विषय-देश में जाता है, तभी वह विषयाकार में परिणत हो जाता है, उसी परिणामविशेष का नाम वृत्ति है और इन्द्रियसन्निकृष्ट विषयाकार में परिणत मन को वही वृत्ति है प्रत्यक्ष-प्रमाण। आत्मा के व्यापक होने के कारण उसी विषय-देश में मन की वृत्ति का प्रतिविम्ब उठ (आत्मा) में पड़ता है। उसी वृत्ति-प्रतिविम्ब से युक्त चैतन्य का नाम प्रत्यक्ष-प्रमाण है। इसी प्रकार व्याप्ति-शान से उत्पन्न साध्यविशिष्ट पञ्च के आकार में परिणत जो मन की वृत्ति है, वही अनुमान-प्रमाण है। और, उसी वृत्ति-प्रतिविम्ब से युक्त आत्मचैतन्य का नाम अनुमिति है। इसी प्रकार, आसवाक्य से जन्य पदार्थ-संसर्गकार में परिणत जो मन की वृत्ति है, वही शब्द-प्रमाण है और उसी वृत्ति-प्रतिविम्ब से युक्त आत्मचैतन्य का नाम शान्दप्रमा या शान्दयोग है।

परोक्षत्व, अपरोक्षत्व, स्मृतित्व, संशयत्व और विपर्ययत्व आदि जो धर्म हैं, वे सब मनोवृत्ति के ही धर्म हैं और वे केवल वृत्ति के प्रतिक्रिया-रूप उपाधि के वश से आत्मचैतन्य में भासित होते हैं। आत्मचैतन्य तो असङ्ग और निलेंप है। उपर्युक्त जो तीन प्रमाण हैं, उन्हींके द्वारा पञ्चीस तत्त्वों को सिद्ध करना है। उनमें प्रथम जो प्रधान तत्त्व है, उसका साधक अनुमान-प्रमाण ही है। वह भी 'सतः सज्जायते' इस कार्यकारण-भाव के आधार पर ही होता है।

## सत् और असत् की उत्पत्ति का विवेचन

'सतः सज्जायते' इस कार्यकारण-भाव के व्यवस्थापनार्थ चार प्रकार की विप्रतिपत्ति आचार्यों ने दिखलाई है। अर्थात्, कार्यरूप समस्त जगत् और इसके मूल कारण के, इन दोनों के सत्त्व और असत्त्व के भेद से, चार पक्ष होते हैं—  
 (१) असतः असज्जायते। (२) असतः सज्जायते। (३) सतः असज्जायते। (४) सतः सज्जायते। इन चार पक्षों में प्रथम पक्ष तो अत्यन्त असङ्गत है; क्योंकि असत्यदार्थों के साथ कार्यकारण-भाव शश-विषय के समान असम्भव है। असत् से सत् उत्पन्न होता है, यह द्वितीय पक्ष बौद्धों का है। वे लोग समस्त भाव-पदार्थों को ज्ञानिक मानते हैं। और ज्ञानिक भाव-पदार्थों में कार्यकारण-भाव हो नहीं सकता। कारण यह है कि कार्य-ज्ञान में कारण नहीं रहता, और कारण-ज्ञान में कार्य नहीं रहता। इसलिए, पूर्व ज्ञानिक भाव का जो विनाश (अभाव) है, उसीको उत्तर ज्ञानिक भाव का कारण अगत्या स्वीकार करना ही होगा। बौद्धों के मत में कार्यों की सत्ता ज्ञानिक अवस्थिति-रूप ही है। इनके मत में ऐसी कोई सत्ता नहीं है, जिसका कभी बाध न हो।

सत्-कारण से असत्-कार्य की उत्पत्ति मायवादी वेदान्ती मानते हैं। परन्तु, सांख्यकारों के मत में सकल मिथ्यापञ्च का कारण एक सद्वृक्ष ही है। उसके कार्यभूत सकल प्रपञ्च उसीका विवर्त है। इनके मत में प्रपञ्च की व्यावहारिक सत्ता मानी जाती है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। इसलिए, प्रपञ्च की व्यावहारिक सत्ता होने पर भी पारमार्थिक सत्ता के न होने से प्रपञ्च-रूप कार्य असत् ही है। अतः, 'सतः असज्जायते' यह सिद्धान्त इनके मत से सिद्ध हो जाता है। इनके मत में पारमार्थिक सत्यत्व न न होने से ही प्रपञ्च असत् माना जाता है, शश-विषय के समान अत्यन्त तुच्छ होने से नहीं। इसलिए, कार्य की उत्पत्ति इनके मत से असङ्गत नहीं होता; क्योंकि प्रपञ्च की व्यावहारिक सत्ता तो ये मानते ही हैं।

'सतः सज्जायने' यह चतुर्थ पक्ष सांख्य का ही है। सत्-कारण से सत्-कार्य की उत्पत्ति ये मानते हैं। नैयायिकों का भी प्रायः यही मत है। भेद केवल इतना ही है कि नैयायिक, कार्य के विनाशी होने पर भी उसके कुछ काल-पर्यन्त अवस्थित रहने से ही, उसे पारमार्थिक सत्य मानते हैं। और, सांख्य लोग, जिसका तीनों काल में कभी बाध न हो, इस प्रकार कर कालत्रयाद्यत्वरूप सत्यत्व मानते हैं। यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि नैयायिक लोग भी कार्योत्पत्ति के पहले कार्य की सत्ता नहीं मानते।

इनका कहना है कि अविद्यमान (असत्) जो घटादि कार्य है, वे मृदादि कारण-कलाप से उत्पन्न होते हैं। वैशेषिकों का भी यही मत है। इसलिए, सत्-कारण से असत्-कार्य की उत्पत्ति नैयायिक और वैशेषिक दोनों का अभिमत है।

अब यहाँ यह विचारना है कि असत् तो शश-विधाण के समान तुच्छ है। इसलिए, वह किसी का उपादान नहीं हो सकता। और, पूर्व ज्ञानिक घट का अभाव ही उच्चर ज्ञानिक घट का कारण बौद्ध मानते हैं। अभाव के स्वरूपरहित (तुच्छ) होने के कारण भावरूप घटादि के साथ तादात्म्य भी नहीं बनता। और तादात्म्य ने होने से उपादानोपादेय भाव भी नहीं सिद्ध होता। एक बात और भी है कि अभाव को कारण मानने से हर जगह कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। क्योंकि, किसीका अभाव तो हर जगह रहता ही है। इसलिए, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं माननी चाहिए। इसी प्रकार, सत् से भी असत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असत् घटादि कार्य सत् मृदादि कारण से उत्पन्न होता है, यह नैयायिकों का विद्वान्त है। परन्तु, यह ठीक नहीं है। कारण यह है कि सत्ता के साथ सम्बन्ध का ही नाम उत्पत्ति है। और, सम्बन्ध दो विद्यमान पदार्थों के ही साथ होता है। सत् और असत् के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। असत् शश-विधाण के साथ अमुक व्यक्ति का सम्बन्ध हो गया, इस प्रकार कहना उन्मत्त-प्रलाप ही कहा जायगा। इसी प्रकार असत् घटादि पदार्थ कुलालादि कारण-व्यापार से कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका कारण अभी बता चुके हैं कि दो सत् पदार्थों के साथ ही सम्बन्ध होता है, और सत्ता के साथ सम्बन्ध का ही नाम उत्पत्ति है।

यदि यह कहें कि सत्त्व और असत्त्व ये दोनों घटादि के धर्म हैं, जिस प्रकार कटक्टव धर्मवाला सुवर्ण सुवर्णकार के व्यापार से कुण्डलत्व धर्मवाला हो जाता है, उसी प्रकार असत्त्व धर्मवाला घटादि (घटाभाव) भी कुलाल-व्यापार से सत्त्वधर्मविशिष्ट सत् घट हो जाता है। यह भी युक्त नहीं होता। कारण यह है कि यदि असत्त्व का कार्य घटादि का धर्म मानते हैं, तो धर्म धर्मा (आश्रय) के विना रह नहीं सकता, इसलिए असत्त्व धर्म का आश्रय उत्पत्ति से पहले मानना आवश्यक हो जाता है; क्योंकि धर्म निराश्रय कहीं नहीं रहता। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उत्पत्ति से पहले भी कार्य कारण-रूप में विद्यमान ही रहता है।

यहाँ एक दूसरी शङ्खा होती है कि घटादि कार्य उत्पत्ति से पहले यदि सिद्ध ही है, तो उसकी उत्पत्ति के लिए कुलालादि व्यापार की आवश्यकता ही क्या है। इसका उच्चर यह होता है कि कुलालादि व्यापार से केवल घट की अभिव्यक्ति होती है। कारक-व्यापार के पहले कारणरूप में अनभिव्यक्त घट बाद में कारक-व्यापार से अभिव्यक्त (प्रकट) हो जाता है। जिस प्रकार, तिल-समूह में अनभिव्यक्त जो तैल है, वही निर्पीड़न-व्यापार से अभिव्यक्त हो जाता है। और, गो-स्तन में वर्तमान दुग्ध ही दोहन-व्यापार से अभिव्यक्त हो जाता है। जिस प्रकार निर्पीड़न और दोहन केवल अभिव्यक्त होने से ही तैल और दुग्ध का कारण कहा जाता है, उसी प्रकार दरडादि भी घटादि के अभिव्यक्त होने से घटादि के कारण कहे जाते हैं।

असत् की उत्पत्ति में कोई दृष्टान्त भी नहीं मिलता। इसलिए, कार्य कभी असत् नहीं हो सकता। यदि यह कहें कि असत् घटादि ही कारण-व्यापार से उत्पन्न होता है, यही दृष्टान्त विद्यमान है, तो इसका उचर यह होता है कि यदि उभय पक्ष समस्त दृष्टान्त हो, तो वह मान्य होता है। उक्त दृष्टान्त सांख्यों का अभिमत नहीं है। ये किसी प्रकार भी असत् कार्य की उत्पत्ति नहीं मानते। केवल सत् घट की अभिव्यक्ति ही इनके मत में मान्य है।

दूसरी युक्ति यह है कि मृत्तिका आदि कारण घटादि कार्य से सम्बद्ध होकर घटादि कार्य का उत्पादक होता है, अथवा असम्बद्ध होकर ही। यदि कार्य से सम्बद्ध कारण को कार्य का उत्पादक मानें, तो तत्सम्बन्धी घट कारण-व्यापार से पहले उत्पन्न हो जाता है; क्योंकि 'सत्तोरेव सम्बन्धः' यह नियम सर्वमान्य है। यदि कार्य से असम्बद्ध कारण को उत्पादक मानें, तब तो मृदादि कारण से पटादि कार्य की भी उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि घट के समान पट भी असम्बद्ध ही है।

इसी बात को प्रकारान्तर से सांख्याचार्यों ने लिखा है—

'असत्त्वाद्वादित् सम्बन्धः कारणैः सत्त्वसङ्गिमिः ।

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥

इसका तात्पर्य यह है कि नैयायिक उत्पत्ति से पहले कार्य की सत्ता नहीं मानते हैं। इससे सत्त्वसङ्गी अर्थात् सत्त्वविशिष्ट मृदादि कारणों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि कार्य से असम्बद्ध कारण को ही कार्योत्पादक मान लें, तो मृदादि कारण से घटादि कार्य की ही उत्पत्ति होगी, पटादि की नहीं; इस प्रकार की जो व्यवस्था है, वह नहीं हो सकती।

इस पर नैयायिकों का यह कहना है कि कार्य के साथ असम्बद्ध वही कारण कार्य का उत्पादक हो सकता है, जिस कार्य के उत्पादन करने में वह समर्थ हो। दूसरे शब्दों में जिस कारण में जिस कार्य के उत्पादन करने की शक्ति रहती है, वही कारण उस कार्य को उत्पन्न कर सकता है, दूसरा नहीं। जैसे, मृदादि कारण में घटादि के ही उत्पादन करने की शक्ति रहती है, पटादि की उत्पन्न करता है, पटादि को नहीं। कारणगत उत्पादकत्व-शक्ति का ज्ञान कार्य देखकर ही होता है। मृदादि कारण से पटादि कार्य की उत्पत्ति कहीं नहीं देखी जाती, इसलिए मृदादि से पटादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

परन्तु, सांख्यकार्यों का यह कहना है कि तैलोत्पत्ति के पहले तिल में विद्यमान जो तैलोत्पादकत्व-शक्ति है, उसका ज्ञान तैल की उत्पत्ति देखकर, पीछे अनुमान से, होता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। किन्तु, उत्पत्ति से पहले तिल में रहनेवाली जो तैलोत्पादकत्व-शक्ति है, वह उत्पत्ति के पहले तैल से सम्बद्ध है, अथवा नहीं, यह विकल्पदोष पूर्ववत् रह जाता है। क्योंकि, यदि सम्बद्ध कहें, तो उत्पत्ति से पहले कार्य की सिद्धि हो जाती है, और यदि असम्बद्ध कहें, तो यह तैलोत्पादकत्व-

शक्ति है, ऐसा निरूपण नहीं कर सकते। कारण यह है कि असम्बद्ध हेतु साध्य का अनुमापक नहीं हो सकता।

एक बात और है कि सांख्य के मत में कार्य-कारण में भेद नहीं माना जाता। अर्थात्, कारणगत जो सत्ता है, उसके अतिरिक्त दूसरी कोई कार्य की सत्ता है, यह नहीं माना जाता। इस अवस्था में तैलादि की उत्पत्ति के पहले कारण की सत्ता रहने से उससे अभिन्न कार्य की भी सत्ता मानना इनके मत में आवश्यक हो जाता है। इसलिए, इनका सत्कार्यवाद सिद्ध हो जाता है।

कार्यकारण-भाव के अभेद होने में अनुमान ही प्रमाण दिया जाता है। जैसे, पट-रूप कार्य (पञ्च) तन्तु से भिन्न नहीं है (साध्य), पट के तन्तु-धर्म होने से (हेतु) जो, जिससे अभिन्न नहीं होता वह उसका धर्म भी नहीं है (व्याप्ति), जैसे अश्व गो का धर्म नहीं होता (दृष्टान्त)। तात्पर्य यह है कि इनके मत में तन्तु आदि कारण के ही धर्म पट आदि कार्य माने जाते हैं। उससे भिन्न कोई कार्य नहीं होता। यदि यह कहें कि तन्तु-स्वरूप ही यदि पट है, तो प्रावरण का कार्य तन्तु से ही क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह होता है कि अवयव-सन्निवेश-विशेष के भेद से जब तन्तु में पटभाव का आविर्भाव हो जाता है, तभी उसमें शीतापनोदन आदि प्रावरण का कार्य होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए, प्रावरण का कार्य तन्तु से नहीं होता। जिस प्रकार, कूर्म का अङ्ग उसके शरीर में प्रविष्ट रहता हुआ तिरोहित रहता है, और बाहर आने पर आविभूत होता है, उसी प्रकार विद्यमान भी तन्तु-रूप कारण तिरोहित रहने से कूर्मज्ञ के समान प्रतीत नहीं होता। इनके मत में वस्तु का आविर्भाव और तिरोभाव ही होता है, नाश नहीं।

इसी बात को प्रकारान्तर से गीता में भी लिखा है—

‘नासतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः।’

इसका तात्पर्य यह है कि असत् वस्तु की उत्पत्ति और सत् वस्तु का विनाश कभी नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो सत्य है, वह सदा सत्य ही रहता है, और जो असत् है, वह सदा असत्य ही रहता है। इस प्रकार, नैयायिकों के मत का खण्डन कर अद्वैत वेदान्तियों के मत का खण्डन करने के लिए उनके मत का दिग्दर्शन कराया जाता है।

वेदान्तियों का मत है कि सत्/व्रह्म में असत् प्रपञ्च का विवर्त होता है। विवर्त उसे कहते हैं कि जो अपने स्वरूप को न छोड़कर भी स्वरूपान्तर से भासित हो। जैसे, शुक्रि में रजत और रज्जु में सर्प। जिस प्रकार शुक्रि और रज्जु अपने स्वरूप को विनाबदले रजत और सर्प के रूप में भासित होता है, उसी प्रकार सद्व्रह्म भी असत्, प्रपञ्च रूप से भासित होता है। यहाँ सांख्यों का कहना है कि यह ठीक नहीं है। कारण यह है कि शुक्रि और रजत का जो दृष्टान्त दिया गया है, वह उपपत्ति नहीं होता। क्योंकि, ‘नेदं रजतम्’, ‘नायं सर्पः’ इस शान ने रजत और सर्प का घोष हो जाता है, इसलिए रजत और सर्प को विवर्त मानना युक्त हो सकता है। परन्तु, ‘नायं प्रपञ्चः’, इस शान से प्रपञ्च का वाप नहीं होता। अतः, प्रपञ्च विवर्त (ग्रम) नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि विवर्च का हेतु सारूप्य ही होता है, वेरूप्य नहीं। जैसे, शुक्ति और रजत में सारूप्य होने से ही विवर्च होता है। कहीं भी वृद्धादि विस्तृप में रजत का विवर्च नहीं होता। प्रकृत में ब्रह्म चित् और प्रपञ्च जड़ है, इसलिए दोनों में सारूप्य न होने से प्रपञ्च भ्रम का अधिष्ठान नहीं हो सकता है। इसलिए 'सतः सज्जायते', यह सांख्य का सिद्ध हो जाता है। सांख्यकारिका में भी यही लिखा है—

'असदकरणदुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् ।

शक्तस्य शक्त्यकरणात् कारणभावात्य सत्कार्यम् ॥'

इस कारिका में सत्कार्य की सिद्धि के लिए जो-जो हेतु दिये हुए हैं, प्रायः उनका निर्दर्शन संक्षेप में पहले ही कर दिया गया है। इसलिए, इसका व्याख्यान यहाँ नहीं किया जाता। अबतक सत्कार्य के विरोधी वौद्ध, नैयायिक और वेदान्ती के मत में दोष दिखाकर सत्कार्यवाद को पुष्ट किया गया। आगे प्रधान (मूलप्रकृति) में प्रमाण दिखाया जाता है। प्रधान की सिद्धि में केवल अनुमान को ही प्रमाण सांख्यों ने माना है। यहाँ अनुमान का प्रकार इस प्रकार होता है—

सकल पदार्थसमूह (पक्ष) सुख-दुःख-मोहात्मक कारण से जन्म है (साध्य), सुख-दुःख-मोह से युक्त होने के कारण (हेतु), जो जिससे युक्त होता है, वह चमत्कारक ही होता है (व्याप्ति), जैसे—सुवर्ण से युक्त कुरुठल का सुवर्ण ही कारण होता है (दृष्टान्त)। तद्वत्, सकल पदार्थ-समूह भी सुख-दुःख-मोहात्मक ही है (उपनय), इसलिए वह सुख-दुःख-मोहात्मक कारण से जन्म है (निगमन)। इस प्रकार, पञ्चावयव अनुमान से सकल पदार्थ-जात का मूलकारण सुख-दुःख-मोहात्मक ही सिद्ध होता है। यदि यहाँ कोई आशङ्का करे कि मूलकारण का, पूर्वोक्त अनुमान से, सुख-दुःख-मोहात्मकत्व सिद्ध हो जानेपर भी वह सत्त्वरजस्तमोगुणात्मक है, यह सिद्ध नहीं होता। इसका उत्तर यह होता है कि मूलकारण में जो सुखात्मकता है, वही सत्त्व है, दुःखात्मकता रजोगुण है और मोहात्मकता ही तमोगुण है। इसलिए, मूलप्रकृति सुख-दुःख-मोहात्मक, सत्त्वरजस्तमोमय तथा त्रिगुणात्मक (प्रधान) सिद्ध हो जाती है।

## मूल प्रकृति की त्रिगुणात्मकता

अब पदार्थमात्र की सुख-दुःख-मोहात्मकता सिद्ध की जाती है। जैसे, कोई खी अपने गुणों से अपने पति को सुख पहुँचाती है; क्योंकि उस पति के प्रति उस खी का सत्त्व-गुण प्रादुर्भूत हो जाता है और वही खी अपनी सपनियों के प्रति दुःख का कारण होती है; क्योंकि उनके प्रति उक्त खीगत रजोगुण प्रकट हो जाता है और वही खी उदासीन के प्रति मोह का कारण बन जाती है। उस समय उसका तमोगुण प्रकट रहता है। उपेक्षाविषयत्व का ही नाम मोह है; क्योंकि 'मुदृ वैचित्र्ये' धातु से मोह बनता है। वैचित्र्य-नाम चित्तवृत्ति-राहित्य का है। उपेक्ष्य विषय में चित्त की वृत्ति नहीं उदित होती। इसलिए, मोह का उपेक्षाविषयत्व सिद्ध होता है। इसी प्रकार, प्रत्येक पदार्थ में सुख-दुःख और मोह का होना सिद्ध होता है और सुख-दुःख-मोह सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही धर्म है। इस कारण, पदार्थमात्र त्रिगुणात्मक

सिद्ध होता है और इसके मूलकारण का त्रिगुणात्मकप्रकृतित्व भी सिद्ध हो जाता है। उक्त सिद्धान्त को पुष्ट करनेवाली एक थुति भी श्वेताश्वतरोपनिषद् में पाई जाती है—

‘अजामेदां लोहितशुक्रघृणां यद्योः प्रजाः सूजमानां सरूपाः ।

यजो ह्येको जुपमाणोऽनुयेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥’

इसका तात्पर्य यह है कि ‘न जायते इति अजा’ इस व्युत्पत्ति से, जिसकी उत्पत्ति नहीं हो, उसको अजा कहते हैं। मूल प्रकृति नित्य होने से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए अजा शब्द से उसीका बोध होता है। वह एक ही है, इसलिए ‘एकाम्’ विशेषण दिया है। ‘लोहितशुक्रघृणाम्’ इस विशेषण से सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का बोध होता है। जैसे, लोहित (रक्त) कुसुमादि पट का रक्षक होता है, वैसे पदार्थ-गत रजोगुण में प्रेक्षकों को रखित करता है। इसलिए, रक्षकत्व-साधार्थ से लोहित शब्द से रजोगुण का ही प्रहण होता है। इसी प्रकार, शुक्र (तेजोद्रव्य सूर्य आदि) प्रकाशक होता है, इसलिए प्रकाशकत्व-साधार्थ से शुक्र शब्द का अर्थ सत्त्व-गुण होता है। इसी प्रकार, कृष्ण मेघादि सूर्य का आवरक होता है, इसलिए आवरकत्व-साधार्थ से कृष्ण शब्द से तमोगुण का ही बोध होता है। इस प्रकार, ‘लोहितशुक्रघृणाम्’ इस विशेषण से सत्त्वरजस्तमोमयी मूलप्रकृति का ही बोध होता है। वह त्रिगुणात्मका मूलप्रकृति, ‘सरूपाः’, स्वसमानजातीय त्रिगुणात्मक, ‘यद्योः प्रजाः’, सकल पदार्थों को उत्पन्न करनेवाली होती है। अर्थात्, वही त्रिगुणात्मक मूलप्रकृति त्रिगुणात्मक सकल चराचर प्रपञ्च को उत्पन्न करती है। ‘अजो ह्येको’, एक वद्ध पुरुष, ‘जुषमाणः’, उस प्रकृति की सेवा करता हुआ, ‘अनुशेते’, अनुशरण करता है। अर्थात्, उन्हीं प्राकृत पदार्थों में रत रहता है। ‘अन्यः अजः’, अन्य मुक्त पुरुष, ‘भुक्तभोगामेनाम्’, जिस प्रकृति का भोग कर लिया है, उस प्रकृति का ‘जहाति’, त्याग कर देता है। इस मन्त्र के पूर्वार्द्ध से मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक सिद्ध होती है और उत्तरार्द्ध से आत्म (पुरुष)-गत मैद सिद्ध किया है। इसी मन्त्र के आधार पर सांख्य-शास्त्र का निर्माण हुआ है।

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि अचेतन प्रकृति विना चेतन की सहायता से महादादि कायोत्पादन में प्रवृत्त नहीं हो सकती; क्योंकि लोक में कहीं भी चेतन की प्रेरणा के विना अचेतन का किसी कार्य के लिए स्वयं प्रवृत्त होना नहीं देखा जाता; जैसे रथ, जहाज आदि अचेतन पदार्थ चेतन की प्रेरणा के विना स्वयं नहीं चलते। इसलिए, उसके प्रेरक अविद्याता, सर्वार्थदर्शी परमेश्वर को मानना आवश्यक हो जाता है।

सांख्य-शास्त्र का कहना है कि यद शङ्का ठीक नहीं है; क्योंकि विना चेतन की सहायता के भी लोक में अचेतन की प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे, वत्स की दृष्टि के निमित्त अचेतन दृष्टि की प्रवृत्ति लोक में देखी जाती है। अचेतन मेघ भी लोकोपकार के लिए किसी चेतन की सहायता के विना ही जल-वर्षण में प्रवृत्त हो जाता है। इसी प्रकार, अचेतन प्रकृति भी पुरुष के मुक्ति के लिए स्वयं प्रवृत्त हो जाती है। सांख्यकारिका में भी लिखा है—

‘वस्तविवृद्धिनिमित्तं शीरस्य यथा प्रवृत्तिनास्य ।

पुरुषविमुक्तिनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥’

माय यह है कि जैसे अश्व अचेतन दुर्घट की, वत्स की पुष्टि के लिए, स्तन में प्रवृत्ति होती है, वैसे अचेतन प्रकृति की भी, पुरुष के मोक्ष के निमित्त, प्रवृत्ति होती है।

## प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष का मोक्ष

यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष का मोक्ष किस प्रकार सिद्ध हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि मोक्ष आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति को कहते हैं और आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति प्रकृति-पुरुष के विवेक-शान से होती है। विवेक-शान प्रकृति के स्वरूप-शान के बिना नहीं हो सकता। सांख्यवादी यह नहीं मानते कि ईश्वर अपनी करणा से सृष्टि का प्रवर्तक होता है।

सांख्यवादी इसमें यह प्रश्न उपस्थित करते हैं कि ईश्वर सृष्टि से पहले अपनी करणा के कारण प्रवृत्त होता है या सृष्टि के बाद? यदि सृष्टि के पहले कहें, तो सिद्ध नहीं होता; क्योंकि परदुःखप्रदाणेन्द्रिया ही करणा है। और दुःख शरीर-सम्बन्ध के बिना नहीं हो सकता। शरीर-सम्बन्ध सृष्टि से पहले नहीं होता। इसलिए, सृष्टि से पहले करणा का होना असम्भव है। यदि सृष्टि के बाद कहा जाय, तो भी ठीक नहीं चेताता; क्योंकि करणा के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद करणा यह परस्पराध्य दोष हो जाता है। इसलिए, करणा से सृष्टि नहीं मान सकते। जैसा पहले कह चुके हैं कि विवेक-शान प्रकृति के स्वरूप-शान के बिना नहीं हो सकता और प्रकृति का स्वरूप भी अत्यन्त सूक्ष्म है, उसका सुलभतया शान नहीं हो सकता। प्रकृति के स्वरूप-शान के बिना केवल पुरुष से भेद का शान होना असम्भव है। इसीलिए, प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। प्रकृति की प्रवृत्ति के बाद भौतिक स्थूल कार्यों का शान विशद रूप से होना सुलभ हो जाता है। उसके बाद भौतिक कार्यों से पुरुष का भेद-शान अवश्य हो सकता है। भूत से पुरुष का भेद-शान होता है। भूत के कारण तन्मात्रा और उसके कारण अद्वितीय से पुरुष का भेद-शान होता है। कारण-परम्परया 'स्थूलाद्वन्द्वी' न्याय से प्रकृति से भी पुरुष का विवेक-शान सुलभ हो जाता है, जिससे पुरुष का मोक्ष होना भी सुलभ हो जाता है।

## प्रकृति-पुरुष की परस्परापेक्षिता

एक बात और भी ज्ञातव्य है कि पुरुष के संयोग से ही प्रकृति में व्यापार होता है, जैसे चुम्बक के संयोग से लोहा में किया-रुक्षि आ जाती है। प्रकृति और पुरुष का संयोग 'पद्मवन्ध' न्याय से परस्परापेक्षाग्रयुक्त ही होता है। जैसे—प्रकृति भौत्य है, वह भौक्ता पुरुष की अपेक्षा करती है और पुरुष भौत्य प्रकृति की अपेक्षा करता है। इस प्रकार, परस्परापेक्षा से दोनों का संयोग होता है, जिससे सृष्टि का विस्तार होता है।

अब यहाँ यह शङ्खा होती है कि पुरुष तो निर्गुण, निलेप और असङ्ग है, वह प्रकृति की अपेक्षा क्यों करेगा ? इसका समाधान यह है कि पुरुष में विद्युति प्रकृति और प्रकृति की कार्य-बुद्धि से मेद विद्यमान है, तथापि उस मेद के अवश्यान से पुरुष अपने को बुद्धिस्वरूप ही मानता है। और, बुद्धि में रहनेवाले सुख-दुःखादि गुणों को अपना ही गुण समझता है। अतः, इसके निवारण करने के लिए कैवल्य की अपेक्षा करता है। कैवल्य केवल प्रकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान वे अधीन है। इसलिए, मेद-ज्ञान की प्रतियोगिनी जो प्रकृति है, उसका ज्ञान पुरुष की अवश्य अपेक्षित है। अर्थात्, प्रकृति के ज्ञान के विना प्रकृति से अपने में मेद-ज्ञान असम्भव है। इसलिए, पुरुष को भी प्रकृति की अपेक्षा अवश्य करनी पड़ती है। इससे प्रकृति-पुरुष में संयोग का हेतु परस्परापेक्षा ही होती है, यह सिद्ध हो जाता है।

प्रकृति और पुरुष का संयोग अन्धे और लैंगड़े का संयोग है। दोनों मिलकर ही रास्ता तय करते हैं। प्रकृति भोग्या और पुरुष भोक्ता है। दोनों का संयोग 'पद्मनन्ध' न्याय से चलाया गया है। एक बार बहुत-से लोग जंगल की राह से जा रहे थे। एक लैंगड़ा और एक अन्धा भी उसी मार्ग से जा रहा था। दैव-संयोग से एकाएक बड़े जोर का तूफान आया। सब लोग भाग चले। बेचारा अन्धा और लैंगड़ा दोनों विवश थे। परन्तु, संयोग से ये दोनों परस्पर आकर मिल गये। अन्धे ने लैंगड़े को अपने कन्धे पर बैठा लिया। लैंगड़ा रास्ता दिखाने लगा और अन्धा चलने लगा। दोनों अपने गन्तव्य स्थान को पहुँच गये। इसी प्रकार, परस्परापेक्षा रखनेवाले इस प्रकृति और पुरुष के द्वारा यह सृष्टि का क्रम चलता रहता है। सांख्यकारिका में लिखा है—

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य ।  
पद्मनन्धवदुभयोरपि सम्यन्धस्तत्कृतः सर्गः ॥

इसका तात्पर्य यह है कि गमन-शक्ति-रहित पद्मु को अपने अभीष्ट देश की प्राप्ति के लिए गमनशक्तिमान् पुरुष की अपेक्षा रहती है। और, दर्शन-शक्ति-रहित अन्धे को दर्शनशक्तिमान् की अपेक्षा रहती है। इसलिए, पद्मु और अन्धे का संयोग होता है। इसी प्रकार, प्रकृति को अपने प्रदर्शन के लिए पुरुष की अपेक्षा रहती है, और पुरुष को कैवल्य के लिए प्रकृति की अपेक्षा रहती है। इसी अपेक्षा के कारण प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है। इसी संयोग से सृष्टि होती है।

यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि पुरुष क्रिया-शक्ति से रहित होने के कारण पद्मु के समान है, और प्रकृति अचेतन होने के कारण अन्ध के समान। जिस प्रकार, पद्मु के सम्बन्ध से अन्धा मार्ग में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति भी पुरुष के संसर्ग से कार्य करने में प्रवृत्त हो जाती है। अन्ध के सम्बन्ध से जैसे पद्मु अपने अभीष्ट देश को जाता है, प्रकृति के सम्बन्ध से पुरुष भी विवेक-ज्ञान द्वारा कैवल्य प्राप्त करता है। यही इसका रहस्य है।

यहाँ एक आशङ्का और भी बनी रहती है कि पुरुष के लिए प्रकृति की सहित करने में प्रवृत्ति युक्त-युक्त हो सकती है, परन्तु निवृत्ति में किसी प्रकार की युक्ति नहीं दीख पड़ती। इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार, नर्तकी गृत्य देखनेवालों ( प्रेत्वकजनों ) को अपनी गृत्य-कला दिखलाकर नृत्य से निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति भी अपने स्वरूप को, महत्त्वादि परिणाम द्वारा शब्दस्थर्णादि विषयरूप से, पुरुष के लिए प्रकाशितकर, निवृत्त हो जाती है। और, जिस प्रकार, व्यमिचारिणी खो यह जान ले कि मेरे पति ने मेरा दोप देख लिया अथवा जान लिया, तो फिर उसके सामने नहीं जाती अथवा उस पति के सामने अपना मुख भी दिखाना नहीं चाहती, उसी प्रकार जब पुरुष प्रकृति के दोपों को देख लेता है, तब प्रकृति उस पुरुष के पास जाने का साइरु नहीं करती। इससे प्रकृति की निवृत्ति सिद्ध होती है। सांख्यकारिका में लिखा है—

‘रहस्य दर्शन्यित्वा निवृत्तंते नर्तकी यथा रहात्।  
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवृत्तंते तथा प्रकृतिः ॥’

## मीमांसा-दर्शन

धर्म के श्रुतियों से ही अभिभव फल की सिद्धि होती है, यह श्रुति, स्मृति, पुराण आदि अनेक धर्म-ग्रन्थों में प्रसिद्ध है। यहाँ जिज्ञासा होती है कि धर्म का लक्षण क्या है? धर्म में प्रमाण क्या है? पूर्वमीमांसा में इसी जिज्ञासा का समाधान किया गया है। मीमांसा-दर्शन के प्रवर्तक महर्पि जैमिनि हैं। यह बारह अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में अनेक पाद हैं।

प्रथम अध्याय में, विधि, अर्थवाद, मन्त्र और स्मृति आदि के प्रामाण्य का विचार किया गया है। इसके प्रथम पाद में केवल विधि के ही प्रामाण्य का विचार है। द्वितीय पाद में अर्थवाद, मन्त्र के तृतीय पाद में मनु आदि स्मृतियों के और आचार के भी प्रामाण्य का विवेचन किया गया है। चतुर्थ में उमिद्व चिन्हादि नामधेयों के प्रामाण्य का विचार किया गया है।

द्वितीय अध्याय में, उपोद्घात, कर्मभेद, प्रमाणापवाद, प्रयोग-भेद स्वरूप अर्थ का विचार किया गया है। उसके प्रथम पाद में कर्मभेद-चिन्ता के उपयुक्त उपोद्घात का और द्वितीय में धातुभेद और पुनरुक्ति आदि से कर्मभेद का वर्णन है। तृतीय पाद में कर्मभेद-प्रामाण्य के अपवाद का और चतुर्थ में नित्य और काम्य प्रयोग में भेद का विचार किया गया है।

तृतीयाध्याय में, श्रुति, लिङ्ग आदि प्रमाणों में पूर्व-पूर्व के प्रावल्य का विचार किया गया है। यहाँ जैमिनि का सत्र है—‘श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां चमवाये पारदीवेत्यमर्थविप्रकर्षात्।’ इसका तात्पर्य यह है कि मन्त्र, देवता, हवि आदि द्रव्यों का अर्थवा अन्य किसी का विनियोग कहाँ करना चाहिए। इस आकांक्षा में श्रुति, लिङ्ग आदि छह प्रमाणों को निर्णायक माना गया है। और, यहाँ दो प्रमाणों का सलिलपात हो, वहाँ पूर्व की अपेक्षा पर को दुर्बल माना जाता है। क्योंकि, पूर्व की अपेक्षा पर-प्रमाण विलम्ब से अर्थ-प्रतीति का जनक होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वत्र सबका निर्णायक भूतिरूप एक ही प्रमाण है, और इसकी अपेक्षा सब प्रमाण दुर्बल हैं।

श्रुति दो प्रकार की है, एक साक्षात् पठित, द्वितीय अनुमिति। प्रथम का उदाहरण—‘ऐन्द्रधा गार्हपत्यमुपतिष्ठते।’ यहाँ इन्द्र देवता-सम्बन्धी जो श्रूक् है, उसका गार्हपत्य अग्नि के उपस्थान में विनियोग साक्षात् श्रुति बताती है। द्वितीय का उदाहरण—‘स्योनं त इति पुरोडाशस्य सदनं करोति।’ यह वाक्य श्रुति में कहाँ भी नहीं मिलती; परन्तु, ‘स्योनं ते सदनं कृणोमि’ यह वाक्य तैत्तिरीय ब्राह्मण के ३१६ में मिलता है। इसी मन्त्र का अर्थ देखकर इसी लिङ्ग, अर्थात् शापक, से मन्त्रार्थ के अनुसार ही मन्त्र का विनियोग करनेवाली इस श्रुति का अनुमान किया जाता है, और उसीसे विनियोग भी।

श्रथ-प्रकाशन में जो समर्थ है, वही लिङ्ग है। वही श्रुति का अनुमापक भी होता है। वह भी दो प्रकार का है—एक साक्षात् दृश्यमान, दूसरा अनुमित। पहले का उदाहरण दिखा लूके हैं। दूसरा यह कि 'देवस्य त्वा उवितुः प्रसवेश्विनो बाहुभ्यां पुण्णे इस्ताभ्यां जुष्टं निर्वपामि' ( तै० सं० ११४ )। यह एक वाक्य है। आकांक्षा-योग्यता आदि के वश से परस्पर अन्वितार्थक पदों का जो समूह है, उसीको वाक्य कहते हैं। 'देवस्य त्वा' इस वाक्य में 'अग्रये जुष्टम्' इस भाग का निर्वाप-रूप श्रथ-प्रकाशन का सामर्थ्य प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसीकी एकवाक्यता होने से अवशिष्ट 'देवस्य त्वा' इत्यादि जो भाग हैं, उनके वाक्य-प्रमाण के बल से उसी प्रकार निर्वाप-रूप श्रथ-प्रकाशन-सामर्थ्य का अनुमान किया जाता है। उसी समुदित लिङ्ग से 'देवस्य त्वेति निर्वपति' इस श्रुति का अनुमान किया जाता है, और उसी अनुमित श्रुति से 'देवस्य त्वा' इस मन्त्र का निर्वाप-कर्म में विनियोग भी किया जाता है।

लिङ्ग का अनुमापक वाक्य भी दो प्रकार का होता है—एक साक्षात्, दूसरा अनुमित। पहले का उदाहरण पूर्वोक्त है। दूसरे का, 'समिधो यजति', इस श्रुति में इष्टविशेष का निर्देश न होने के कारण, समिद्-याग से किसकी भावना करनी चाहिए, इस प्रकार उपकार्य की आकांक्षा बनी रहती है, और दर्शपूर्णमास-सम्बन्धी 'दर्श-पूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत्' इस वाक्य में भी 'कर्थं भावयेत्' इस प्रकार उपकारक की आकांक्षा बनी रहती है। और, दोनों की आकांक्षा करनेवाला जो प्रकरण है, वही प्रमाण कहा जाता है। दोनों की आकांक्षा रहने से ही उन दोनों की एकवाक्यता का अनुमान किया जाता है। उसी अनुमित एकवाक्यता के बल से दर्शपूर्णमास-याग के फलीभूत जो स्वर्ग है, उसके साधनीभूत जो श्रथ-प्रकाशन-सामर्थ्य है, वह 'समिधो यजति' इस वाक्य का है, ऐसा अनुमान होता है। उससे श्रुति का, और उस श्रुति से समिद्-याग का दर्शपूर्णमास-कर्म में विनियोग होता है।

प्रकरण-शब्द-वाच्य जो उभयाकांक्षा है, वह भी दो प्रकार की है—एक साक्षात् श्रुत, दूसरा अनुमित। पहले का उदाहरण पूर्वोक्त है; दूसरे का 'ऐन्द्रमेकादशकपालं निर्वपेत्' ( तै० सं० २२११ ) ; 'वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्' ( तै० सं० २२१५ ) ; इत्यादि क्रम से इष्टि का विधान किया गया है। यहाँ 'इन्द्रमी रोचना दिवः' ( तै० सं० ४२११ ) इत्यादि मन्त्रों का यथासंख्य पाठ के अनुरोध से प्रथम का प्रथम और द्वितीय का द्वितीय, इस प्रकार यथासंख्य विनियोग किया गया है। पाठ-स्थान के विशेष होने से ही उभयाकांक्षा का अनुमान, उभयाकांक्षा से एकवाक्यता का, एक-वाक्यता से लिङ्ग का, तथा लिङ्ग से श्रुति का अनुमान और उससे विनियोग होता है।

उभयाकांक्षा का अनुमापक स्थान-प्रमाण भी दो प्रकार का है—एक साक्षात् दृष्ट, दूसरा समाख्या से अनुमित। समाख्या योग-बल, श्रथात् अन्वर्यता, को कहते हैं। पहले का उदाहरण पूर्वोक्त है। दूसरे का उदाहरण 'हौत्रम्', 'श्रीदग्मात्रम्' इत्यादि है। यहाँ होतुरिदं हौत्रम्, इस योग-बल से हौत्रादि समाख्या से लब्ध जो कर्म है, वह होता आदि के ही अनुष्ठान करने योग्य है, यह अनुमान होता है। समाख्या सम्बन्ध-प्रयुक्त ही होती है। असन्निहित के साथ सम्बन्ध न होने के कारण उसकी उिदि के लिए सन्निहि-

पाठल्य क्रम की कल्पना होती है। अनुमान से पाठक्रम के सिद्ध हो जाने पर उससे उभयाकाङ्क्षा का अनुमान होता है। उससे एकवाक्यता और उससे लिङ्ग, लिङ्ग से श्रुति का अनुमान और श्रुति से विनियोग होता है।

तृतीयाध्याय के आठ पाद हैं—प्रथम पाद में अङ्गत्वबोधक छह प्रमाणों में श्रुति का विचार किया गया है। द्वितीय में लिङ्ग का, सृतीय में वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या का विचार है। चतुर्थ पाद में निवीत, उपवीत आदि में अर्थ-वादत्व-विधित्व आदि के निर्णय-हेतु श्रुति आदि के विरोध और परिहार का विचार किया गया है। पञ्चम में प्रतिपत्ति-कर्म का विचार है। प्रतिपत्ति का अर्थ उपयुक्त द्रव्य का विनियोग है। पष्ठ में अनारम्भाधीत और सप्तम में चहुप्रधानोपकारक प्रयाजादि कर्मों का विचार है। अष्टम पाद में यजमान के कर्मों का विचार है।

चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद में, प्रधानभूत आमिळा दध्यानयन की प्रयोजिका है, इत्यादि प्रधान के प्रयोक्तृत्व का विचार किया गया है। द्वितीय में, अप्रधानीभूत जो वस्तु का अपाकरण है, वह शास्त्राच्छेद में प्रयोजक है, इत्यादि अप्रधान का ही प्रयोक्तृत्व दिखाया गया है। तृतीय में 'जुहू पर्णमसी' इत्यादि का अपाप्लोक अवणादि के फल के भावाभाव का विचार है। चतुर्थ में राजसूयगत अक्षयूत आदि गौण अङ्गों का विचार किया गया है।

पञ्चमाध्याय में, श्रुति के क्रम, तदिशेष-बृद्धिअवृद्धि, और प्रावल्य-दौर्बल्य का विचार किया गया है। यहाँ श्रुति आदि का क्रम-विचार भी करना आवश्यक है, इसलिए संक्षेप में दिखाया जाता है। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति ये छह प्रमाण क्रम के बोधन द्वारा प्रयोग-विधि के अङ्ग होते हैं। श्रुति का उदाहरण है : 'वेदं कृत्वा वेदि करोति'। यहाँ वेद दर्मसुष्टि को कहा जाता है। यहाँ वेद, अर्थात् दर्मसुष्टि, बनाने के बाद वेदी बनाने का विधान है। क्योंकि, वेदं कृत्वा में त्वा प्रत्यय से वेदी के पूर्वकाल में ही वेद-विधान प्रतीत होता है। जैसे, 'भुक्त्वा प्रज्ञति' में भोजन के बाद ही गमन-क्रिया होती है। यही श्रुति-क्रम है।

प्रयोजन के वश से क्रम का जो निर्णय किया जाता है, वह अर्थक्रम है। जैसे, 'अग्निहोत्रं जुहोति, 'यवागूपचति'। यद्यपि यहाँ यवागूपाक अग्निहोत्र-इवन के बाद पढ़ा गया है, तथापि यवागूपोम के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए प्रयोजनवश इवन के पहले ही यवागूपकरण का विधान समझा जाता है। पाठक्रम के अनुसार यदि इवन के बाद यवागूपाक का विधान हो, तो यवागूपाक का अद्यत ही फल मानना होगा। इससे यह निश्चित होता है कि जहाँ भीतक्रम या अर्थक्रम न हो, वहाँ ही पाठक्रम लिया जाता है।

उपस्थिति को स्थान कहते हैं, अर्थात् देश और काल से जहाँ जो उपस्थित हो, वहाँ उसी का विधान करना चाहिए, बाद में दूसरे का। प्रधानों के क्रम से जो अङ्गों का क्रम है, वह मुख्य क्रम कहा जाता है। जैसे, जित क्रम से आदित्यादि प्रधान देवताओं की पूजा होती है, उसी क्रम से उनकी अधिदेवताओं की भी पूजा की जाती है।

प्रवृत्ति-क्रम वह है कि एक स्थान में जिस क्रम से उपचार प्रवर्चित हुआ, उसी क्रम से अन्यत्र भी हो। इस प्रकार, पञ्चमाध्याय के प्रथम पाद में श्रुति, अर्थ आदि के क्रम का विचार किया गया है। द्वितीय पाद में क्रमविशेष का और अनेक पशुओं में एक-एक धर्मों के समापन आदि का विचार है। तृतीय पाद में वृद्धि-अवृद्धि का विचार है। जैसे, अग्निधोमीय पशु में 'एकादश म्राजान् यजति' यह पाठ है, यहाँ पञ्च प्रयाजों की दो बार और अन्तिम की एक बार आवृत्ति करने पर एकादश संख्या की पूर्ति होती है। यही वृद्धि है। जिसकी वृद्धि नहीं होती, वही अवृद्धि है।

पञ्चमाध्याय के चतुर्थ पाद में, श्रुति आदि छह प्रमाणों में पूर्व-पूर्व के प्रावल्य और उत्तरोत्तर के दीर्घल्य का विचार किया गया है।

पष्टाध्याय के प्रथम पाद में, कर्म के अधिकार का विचार किया गया है। अर्थात्, अन्धा आदि का कर्म में अधिकार नहीं है, किन्तु चक्षुष्मान् का ही, इसीका निर्णय किया गया है। द्वितीय में अधिकारी के धर्म का और तृतीय में सुख्य के प्रतिनिधि का ग्रहण कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं, इसका विचार है। चतुर्थ में कहाँ किसका लोप है इसका और पञ्चम में कालादि के वैगुण्य में प्रायश्चित्त का विचार है। सप्तम में अदेय का तथा अष्टम में लौकिक अग्नि में कहाँ इवन करना चाहिए, इसका विचार है।

सप्तमाध्याय के प्रथम पाद में, 'समानम्' इत्यादि प्रत्यक्ष वचनों से अतिदेश का और द्वितीय में उस प्रकार के अतिदेशों के शेष का विवेचन किया गया है। तृतीय में अग्निदेव नाम से अतिदेश का निर्णय है। चतुर्थ में लिङ्ग का अतिदेश है।

अष्टमाध्याय के प्रथम पाद में, प्रत्यक्ष वचन के अभाव में भी स्पष्ट लिङ्गों से अतिदेश का तथा द्वितीय में अस्पष्ट लिङ्गों से अतिदेश का विचार किया गया है। तृतीय में प्रबल लिङ्गों में अतिदेश का विचार तथा चतुर्थ में अतिदेशों के अपवाद का वर्णन किया गया है।

नवमाध्याय के प्रथम पाद में, ऊह का प्रारम्भ किया गया है। मन्त्रों में स्थित देवता, लिङ्ग, संख्या आदि के वाचक जो शब्द हैं, उनका उन-उन देवताओं के लिङ्ग-संख्यादि के अनुसार परिवर्तन करने को ऊह कहते हैं। द्वितीय में साम का ऊह, तृतीय में मन्त्रों का ऊह और चतुर्थ में मन्त्रों के ऊह-प्रसङ्ग में जो आया है, उसका विचार किया गया है।

दशमाध्याय के प्रथम पाद में, वाघ के हेतुभूत द्वार-लोप का विधान है। जैसे, यहाँ वेदी के निष्पादन-रूप द्वार नहीं है, वहाँ वेदी के निष्पादन करनेवाले जो उद्धनन आदि कर्म हैं, उनका वाघ होता है। और, यहाँ धान्य का वित्तीकरण नहीं है, वहाँ अवधात का वाघ होता है। द्वितीय पाद में उसी द्वार-लोप का अनेक उदाहरणों से विस्तार किया गया है। तृतीय में वाघ का कारणकार्यकृत्व दिखाया गया है। जैसे, प्रकृतिभूत याग में गो, अश आदि दक्षिणा का कार्य ऋत्विक् का परिग्रह चताया गया है। विकृतिभूत याग में उसी याग के लिए ऐनु दक्षिणा चताई गई है। उस दक्षिणा में 'प्रकृतिवत्' अतिदेश से

प्राप्त जो अश्व श्रादि दक्षिणा है, उसका बाध बताया गया है। चतुर्थ में जहाँ बाध का कारण नहीं है, वहाँ समुच्चय बताया गया है। पञ्चम में बाध के प्रसङ्ग में ग्रह श्रादि का और पष्ठ में बाध-प्रसङ्ग में साम का विचार किया गया है। सप्तम में, बाध-प्रसङ्ग में इतर सामान्य का विचार और अष्टम में बाध के उपयुक्त नर्त्य का विचार किया गया है।

एकादश अध्याय में, तन्त्र के विषय में विचार है। एक बार अनुष्ठान से जो सिद्धि होती है, वह तन्त्र कहा जाता है, अथवा जिसमें बहुतों के उपकार का विस्तार किया जाय, वह तन्त्र है और अनेक के उद्देश्य से एक बार अनुष्ठान का नाम भी तन्त्र ही है। जैसे, अनेक के बीच रखा हुआ दीप। जो आवृत्ति से अर्थात् बार-बार करने से बहुतों का उपकारक हो, वह आवाप कहा जाता है—जैसे, बहुतों का भोजन। अन्य के उद्देश्य से अन्यदीय का भी साथ ही अनुष्ठान करना प्रसङ्ग कहा जाता है। एकादश के प्रथम पाद में तन्त्र का उपोद्घात, द्वितीय में तन्त्र और आवाप का विचार, तृतीय में तन्त्र का और चतुर्थ में आवाप का विस्तार है।

द्वादश अध्याय में, प्रसङ्ग, तन्त्री, निर्णय, समुच्चय और विकल्प का विचार किया गया है। एक के उद्देश्य से किसी एक अङ्ग का, अनुष्ठान देश, काल और कर्त्ता के ऐक्य होने पर यदि अनुष्ठित अङ्ग अनुदेश्य का भी, उपकार करे, तो वह प्रसङ्ग कहा जाता है। इसका विचार द्वादश अध्याय के प्रथम पाद में है। द्वितीय में तन्त्री का निर्णय किया गया है। साधारण धर्म का नाम तन्त्र है, वह जिसमें रहे, वह तन्त्री है। तृतीय में समुच्चय तथा चतुर्थ में विकल्प का विचार है। इस प्रकार, बारहों अध्यायों के विषयों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया। अब आचार्य कुमारिल भट्ट के मत से अधिकरण का विवेचन संक्षेप में किया जायगा।

### कुमारिल भट्ट के मतानुसार अधिकरण का विवेचन

‘अथातो धर्मजिज्ञासा।’ (जै० स०, ११११)

यह प्रथम अधिकरण पूर्वमीमांसा के आरम्भ का उपपादनपरक है। अवान्तर प्रकरण का नाम अधिकरण है। अधिकरण के पांच अवयव होते हैं—विषय, संशय, पूर्वपञ्च, सिद्धान्त और सङ्ख्यति। जिस उद्देश्य से विचार किया जाय वही विषय है। जिस शान का विषय दो कोटी में आन्दोलित रहे, उसको संशय कहते हैं। वह कोटीद्वय कहीं भावरूप और कहीं अभावरूप रहता है। जैसे, यह स्थाणु है अथवा पुरुष। यहाँ स्थाणु या पुरुष दोनों भावरूप ही हैं। मनुष्य है या नहीं। यहाँ है से भावरूप और न से अभावरूप कोटी का विषय समझना चाहिए। यहाँ कोटीद्वय अनेक कोटी का भी उपलक्ष्य है। वाही जिस मत का उपपादन करता है, वह पूर्वपञ्च है। निर्णय का नाम सिद्धान्त है। सङ्ख्यति तीन प्रकार की है—अधिकरण-सङ्ख्यति, पाद-सङ्ख्यति और अध्याय-सङ्ख्यति। इसका स्वरूप यह है कि यह विचार इसी अधिकरण, इसी पाद और इसी अध्याय में करना समुचित है, इस प्रकार के विचार को सङ्ख्यति कहते हैं। भट्ट लोग सङ्ख्यति को अधिकरण का अङ्ग नहीं मानते, वे सङ्ख्यति के स्थान पर उत्तर को अङ्ग

मानते हैं। उत्तर और निर्णय में यही भेद है कि उत्तर वादी के मत का खण्डन-मात्र करता है, परन्तु वह सिद्धान्त नहीं होता, जैसे—जात्युत्तर। और, निर्णय सिद्धान्त है, यही दोनों में भेद है। इसलिए, उत्तर की अपेक्षा निर्णय की गणना पृथक् की गई है—

‘विषयो विशयश्चैव पूर्वपञ्चस्तथोत्तरम् ।

निर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रोऽधिकरणं स्मृतम् ॥’

तात्पर्य यह कि विषय, विशय अर्थात् संशय, पूर्वपञ्च, उत्तर और निर्णय ये ही पाँच अधिकरण के अवयव हैं। ‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ अर्थात् वेद पढ़ना चाहिए, यही वाक्य इस प्रथम अधिकरण का विषय है।

### विचार (मीमांसा)-शास्त्र की प्रयोजनीयता का व्यालोचन

संशय यह है कि ‘चोदनालज्जणोऽर्थो धर्मः’ इस सूत्र से ‘अन्वाहार्ये च दर्शनात्’ इस सूत्र-पर्यन्त जो जैमिनि का धर्मशास्त्र है, वह अनारम्भणीय है अथवा आरम्भणीय ! इस संशय का मूल है—‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’, यह अध्ययन-विधि दृष्टार्थ है या अदृष्टार्थ ? यदि अध्ययन-विधि का अदृष्ट अर्थ मानते हैं, तब तो विचार-शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। कारण यह है कि आचार्य-कृत उच्चारण के अनुसार समानानुपूर्विक उच्चारण को ही अध्ययन कहा जाता है, और उच्चारण-मात्र से किसी दृष्ट अर्थ की सिद्धि होती नहीं, और विधिशास्त्र निरर्थक भी नहीं हो सकता; इसलिए विधिशास्त्र का स्वर्गादि अदृष्ट फल होता है, यह अनुमानादि प्रमाण से कल्पना करते हैं और यह स्वर्ग-रूप अदृष्ट फल केवल पाठमात्र से सिद्ध हो जाता है, इसके लिए विचार-शास्त्र की आवश्यकता नहीं है।

यदि ‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ का तात्पर्य तदर्थशान-रूप दृष्टफल-पर्यन्त मानें, तब तो अर्थशान के लिए विचार-शास्त्र की आवश्यकता हो जाती है; क्योंकि विचार के बिना अर्थशान नहीं हो सकता। इसलिए, जैमिनि-प्रोत्त विचार-शास्त्र आरम्भणीय सिद्ध होता है।

संक्षेप में इसका तात्पर्य यह होता है कि यदि ‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ इस अध्ययन-विधि का अर्थात्वबोध-पर्यन्त दृष्टफल मानते हैं, तब तो विधि की अनुकूलता होने के कारण विचार-शास्त्र आवश्यक हो जाता है, इसलिए वह आरम्भणीय है, यह सिद्ध होता है। यदि अध्ययन-विधि का अर्थात्वबोध-रूप दृष्टफल न मानकर स्वर्ग-रूप अदृष्ट ही फल मानें, तब तो पाठरूप अध्ययन-विधि से स्वर्ग की सिद्धि हो जायगी, इसके लिए विचार-शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, अतः विचार-शास्त्र अनारम्भणीय है, यह पूर्वपञ्च सिद्ध होता है।

अर्थात्वबोधपर्यन्त अध्ययन-विधि का तात्पर्य मानकर जो विचार-शास्त्र की आवश्यकता बताते हैं, उनके प्रति पूर्वपञ्ची का यह प्रश्न होता है कि ‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ इस अध्ययन-विधि से क्या अत्यन्त अप्राप्त अध्ययन का विधान है, अथवा पात्रिक अवघात के सृष्टि नियम किया जाता है ? दूसरे शब्दों में, क्या

अध्ययन-विधि अपूर्वविधि है या नियम-विधि ? जिसका जो अर्थ प्रमाणान्तर से अप्राप्त है, उसका उसी अर्थ में विधान का नाम अपूर्वविधि है ।

उदाहरण के लिए—‘स्वर्गकामो यजेत्’, यहाँ याग का फल स्वर्ग है, यह दूसरे किसी भी अनुमानादि प्रमाण से प्राप्त नहीं है, किन्तु उक्त श्रुति से ही याग का फल स्वर्ग है, यह सिद्ध होता है; इसलिए अप्राप्त का विधान करने से यह अपूर्वविधि कहलाता है। पक्ष में अप्राप्त जो विधि है, वह नियम-विधि है। जैसे, ‘वीहीन् अवहन्ति’ को नियम-विधि कहते हैं। इस श्रुति से धान के अवधात (छाँटना) का प्रयोजन धान को तुपरहित करना ही वोषित होता है। और, अवधात से धान का तुपरहित होना लोक से भी सिद्ध (प्राप्त) है, इसलिए यह नियम-विधि है। अप्राप्त अंश का पूरण करना ही नियम का फल है। धान को तुपरहित करना नख-विदलन आदि अनेक उपायों से साध्य है। इसलिए, अवधात को छोड़कर यदि दूसरा उपाय का आश्रयण करें, तो अवधात अप्राप्त हो जाता है। अतः, अवधात-श्रुति से अवधात के विधान का प्रयोजन अप्राप्त अंश का पूरण करना ही सिद्ध होता है। इस अवस्था में अध्ययन-विधि क्या अपूर्वविधि है या नियम-विधि, यह पूर्वोक्त प्रक्ष ज्यो-का-त्यों रह जाता है।

इस अवस्था में अध्ययन-विधि को अपूर्वविधि तो मान नहीं सकते; क्योंकि अनुमान-प्रमाण से भी अर्थावबोध के लिए अध्ययन प्राप्त है, और प्रमाणान्तर से अप्राप्त का ही विधान अपूर्वविधि माना गया है। यहाँ अनुमान का स्वरूप इस प्रकार होता है—विवादास्पद वेदाध्ययन (पक्ष), अर्थावबोध के लिए ही होता है (साध्य), अध्ययन होने के कारण (हेतु), जो अध्ययन है, वह अर्थावबोध के लिए ही होता है (व्याप्ति), भारताध्ययन के सदरा (दृष्टान्त)। इस अनुमान से विधि के बिना भी अर्थावबोध के लिए अध्ययन प्राप्त ही है, इसलिए अप्राप्त विधि नहीं होने से अपूर्वविधि नहीं हो सकती। अतएव, द्वितीय, अर्थात् नियमविधि, पक्ष को मानना चाहिए। जिस प्रकार, नखविदलन और अवधात आदि से तरण्हुल-निष्पत्ति सिद्ध है, इसलिए पात्तिक अवधात का विधान अवश्य करना चाहिए, यह विघिशास्त्र से नियम किया जाता है, उसी प्रकार गुरु के उपदेश के बिना भी केवल लिखित पाठ से अर्थज्ञान के लिए यदि कोई प्रवृत्त हो, तब तो अध्ययन अप्राप्त है; इसलिए अप्राप्त अध्ययन की यह नियम-विधि है, यह सिद्ध हो जाता है।

परन्तु, पूर्व-पक्षी का कहना है कि यह भी युक्त नहीं है, कारण यह है कि अवधात-श्रुति, जो अध्ययन-विधि का दृष्टान्त है, दृष्टान्त और दार्शनिक में साधर्म्य न होने से युक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि अवधात से निष्पत्ति जो तरण्हुल है, उसीके पुरोडाश बनाने पर अवान्तर अपूर्व उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा दर्शपूर्णमाप्त परमापूर्व को उत्पन्न करता है, जो स्वर्ग का साक्षात् साधन होता है। अवधात के बिना अवान्तरपूर्व नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग का साक्षात् साधन जो परमापूर्व है, वह याग से उत्पन्न होता है, और परमापूर्व की उत्पत्ति में सहायक अवान्तरपूर्व ही है, जो अवधात से उत्पन्न होता है। अपूर्व, परमापूर्व आदि

जो अद्वैत वस्तु है, उनकी उत्पत्ति में कार्यकारणभाव केवल शास्त्र-प्रमाण से ही सिद्ध होता है।

यदि अवधात-नियम से अपूर्व की कल्पना न की जाय, या कल्पित अवान्तरापूर्व को परमापूर्व की उत्पत्ति में सहायक न माना जाय, तब तो अवधात का विधान करनेवाली श्रुति ही व्यर्थ हो जायगी। धान के तुपरहित करने के लिए तो विधान की आवश्यकता कह नहीं सकते; क्योंकि वह तो लोक से ही सिद्ध है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रुति से जो अवधात का नियम किया है, उसमें दर्शपूर्णमात्र से उत्पन्न परमापूर्व ही हेतु है। और, 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' से जो अध्ययन-विधि का नियम संकेतित है, वह अर्थज्ञान के लिए है, ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि विना अध्ययन के भी लिखित पाठ से अर्थज्ञान होना लोक में देखा जाता है। अर्थज्ञान होने पर यज्ञादि का अनुष्ठान भी सुकर हो जाता है। इस स्थिति में, विद्युपीकरण के लिए अवधात-विधि का जो नियम है, उसमें उत्पन्न अवान्तरापूर्व के स्वीकार न करने पर परमापूर्व की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, इसलिए मुख्यापूर्व ही अवान्तरापूर्व के स्वीकार करने में हेतु होता है।

इसी प्रकार, 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' से अर्थज्ञान के लिए जो अध्ययन-विधि का नियम है, उससे उत्पन्न अवान्तरापूर्व के स्वीकार करने में कोई भी हेतु नहीं है। यदि कहें कि अवान्तरापूर्व के स्वीकार न करने पर अध्ययन-विधान ही व्यर्थ हो जायगा। यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि 'विश्वजित्' न्याय से पाठमात्र का स्वर्ग-फल कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार, स्वर्ग-फल स्वीकार करने पर अध्ययन-विधि का अपूर्वविधि होना भी सिद्ध हो जाता है। क्योंकि, अध्ययन स्वर्गार्थ है, यह बात इस श्रुति के विना सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए, अप्राप्त के विधान करने से यह अपूर्वविधि सिद्ध हो जाती है। अध्ययन-विधि का फल स्वर्ग ही है, अर्थज्ञान नहीं, यह भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए, अध्ययन-विधान करने का उद्देश्य अर्थज्ञान न होने से अर्थज्ञान वैध नहीं होता; इसके वैध न होने से अर्थज्ञान के उपयोगी मीमांसा-शास्त्र भी अवैध हो जाता है, इसलिए अवैध होने के कारण मीमांसा-शास्त्र अनारम्भणीय है, यह पूर्वपद्म सिद्ध हो जाता है।

पूर्व में 'विश्वजित्' न्याय का जो दृष्टान्त दिया है, उसका क्या तात्पर्य है! इस आकांक्षा में उसका स्वरूप दिखाया जाता है—विश्वजित्-याग का फल स्वयं सूत्रकार जैमिनि ने स्वर्ग बताया है—'स स्वर्गः सर्वान् प्रत्यविशेषात्' (जै०स०, छ।३।१३)। इसका तात्पर्य यह है कि दुःख से अमिथित निरतिशय सुख का आस्पद जो स्वर्ग है, वही विश्वजित् याग का फल है। इसमें हेतु है—'सर्वान् प्रत्यविशेषात्', अर्थात् कामनायुक्त सकल मनुष्यों के प्रति अविशेष होने से। तात्पर्य यह है कि 'विश्वजिता यजेत्' इस श्रुति से याग का विधान किया गया है, उसमें असुक कामनायाते याग करें, इस प्रकार अधिकारी का नियम सूत्रकार ने नहीं बताया। इसलिए, विश्वजित् याग का कौन अधिकारी है, इस प्रकार की आकांक्षा में किसी फल की कल्पना कर उसे चाहनेवाला अधिकारी होगा। जिसकी कल्पना की गई है, वही कल्प्यमान विश्वजित्

याग का फल होगा, और उस फल को ऐसा होना चाहिए, जो सबका अभीष्ट हो। दुःख से रहित निरतिशय सुख ही, जिसे स्वर्ग कहते हैं, सबका अभीष्ट है। इसलिए, स्वर्ग ही विश्वजित् याग का फल है, यह सिद्ध होता है। यही 'विश्वजित्' न्याय है।

इसी तात्पर्य से कुमारिल भट्ट ने कहा है—

'विनापि विधिना दृष्टाभावहि तदथंता ।'

कल्पस्तु विधिसामर्थ्यात् स्वगो विश्वजिदादिवत् ॥'

स्वर्ग-रूप फल की कल्पना करने पर अध्ययन-विधि का तात्पर्य अर्थशान-पयेत्त न होने के कारण ही 'वेदमधीत्य स्नायात्' श्रुति भी अनुगृहीत होती है। तात्पर्य यह है कि वेदाध्ययन करने के बाद (अव्यवहित उत्तरकाल में) स्नायात्—समावर्त्तन-संस्कार करे। अध्ययन के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो संस्कारविशेष है, उसको समावर्त्तन कहते हैं, उसीका बोधक श्रुति में 'स्नायात्' पद है। इस समावर्त्तन-विधि में 'अधीत्य' में त्वा विधि से अध्ययन और समावर्त्तन में अव्यवधान प्रतीत होता है। यदि अध्ययन के बाद धर्म-विचार के लिए पुनः गुरुकुल में रहना हो, तब तो अध्ययन और समावर्त्तन में अव्यवधान का बोध हो जाता है। इसलिए, विचार-शास्त्र के वैध न होने, केवल पाठमात्र से ही स्वर्ग-फल की सिद्धि हो जाने से तथा समावर्त्तन-शास्त्र के विरोध होने पर भी विचार-शास्त्र की आवश्यकता नहीं होने से धर्मविचार-शास्त्र अनारम्भणीय है, यह पूर्वपक्ष सिद्ध होता है।

यद्दीं सिद्धान्ती का यह कहना है कि यह सब पूर्वपक्षी का कहना युक्त नहीं है। कारण यह है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतत्व्यः' इस अध्ययन-विधि को जो पूर्वपक्षी कहते हैं कि न यह अपूर्वविधि है और न नियम-विधि ही, यह बिलकुल असुक्त है। यद्यपि अप्राप्त विधि न होने से अपूर्वविधि नहीं हो सकती, तथापि नियम-विधि का अपलाप नहीं कर सकते। कारण यह है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतत्व्यः' के 'अध्येतत्व्यः' में जो तथ्य है, वह अभिधा-भावना का बोध कराता है। अभिधा-भावना को ही शान्दी भावना कहते हैं। इसीका नाम प्रेरणा भी है। जिसका उद्देश्य पुण्यप्रवृत्ति-रूप आर्थी भावना है। तात्पर्य यह है कि तब्य का विधान विधि-शर्थ में होता है। विधि का शर्थ है भावना। यदि दो प्रकार की होती है—अभिधा-भावना और आर्थी भावना। अभिधा शब्द को ही कहते हैं। अभिधोयते शर्थः अनेन—जिसमें शर्थ का अभिधान किया जाय, इस व्युत्पत्ति से शब्द को ही अभिधा कहते हैं; वयोऽपि शब्द से ही शर्थ का अभिधान किया जाता है। शब्द में रहनेवाली जो भावना है, वही शान्दी भावना है। व्यापारविशेष का ही नाम भावना है। यह भावना तब्य प्रत्यय का वाच्य है; वयोऽपि स्वाध्यायोऽध्येतत्व्यः, वाच्य में जो तब्य है, उसके अवण-मात्र से 'यह तब्य अध्ययन के लिए मुझको प्रेरित करता है' इह प्रकार की प्रतीति स्वयं होती है। और, जिसके मुनने से जो शर्थ नियमेन प्रतीत हो, यह उसका वाच्य होता है। तब्य मुनने से प्रेरणा की प्रतीति होती है, इसलिए तब्य का ही वाच्य भावना है, यह सिद्ध होता है। लोक में प्रेरणा पुण्य के ही रहती है, इसलिए प्रकृत में भी भावना का आभय पुण्य ही है, इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कारण यदि यह कि वेद अनादि है, इसका बनानेयाला

कोई नहीं है। इसलिए, अभिधा-भावना का आश्रय 'तत्त्व' शब्द ही ही सकता है, और वही तत्त्व भावना का वाचक भी है, यह सिद्ध होता है।

इसी शब्दी भावना से अध्ययन, याग इत्यादि में पुरुष की प्रवृत्ति कराई जाती है। इसी प्रवृत्ति का नाम आर्थी भावना है; क्योंकि यह पुरुष-रूप अर्थ में ही रहनेवाली है। इस आर्थी भावना का भी वाचक तत्त्व प्रत्यय ही है; क्योंकि धातु अध्ययन-मात्र का ही वाचक है। इससे यह सिद्ध हुआ कि शब्दी भावना और आर्थी भावना—इन दोनों का वाचक तत्त्व प्रत्यय है। और शब्दी भावना का आश्रय तत्त्व प्रत्यय है, और आर्थी भावना का पुरुष। अब एक आकृत्ता और होती है कि पुरुषप्रवृत्ति-रूप जो आर्थी भावना है, उसका उद्देश्य क्या है? इसके दो ही उद्देश्य हो सकते हैं—समान पद का वाच्य, या समान वाक्य का वाच्य। समान पद से प्राप्त अध्ययन है, और समान वाक्य से प्राप्त स्वाध्याय (वेदराशि)। अध्ययन तो पुरुष-प्रवृत्ति का उद्देश्य हो नहीं सकता, कारण यह है कि अध्ययन वलेशावह होता है, और उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, जो सुखकारक हो; क्योंकि सुख ही सबका उद्देश्य रहता है। यदि स्वाध्याय (वेद) को आर्थी भावना का उद्देश्य मानें, तो भी ठीक नहीं होता। कारण यह है कि प्रकृत में उद्देश्य का अर्थ है साध्य, अर्थात् जिसमें क्रिया का फल रहता है। वेद अनादि, नित्य और सिद्ध है। इसलिए, यह साध्य अर्थात् उद्देश्य नहीं हो सकता।

तात्पर्य यह है कि जिसमें क्रिया का फल रहता है, वही उद्देश्य होता है। क्रिया का फल चार प्रकार का होता है—उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार और संस्कार। जैसे, कुलाल की क्रिया से घट की उत्पत्ति होती है। गमन-क्रिया से देशान्तर-प्राप्ति होती है, पाक-क्रिया से तरणुल का विकार होता है और लाज्जा-रस के सेक से कपाठ के बीज में गुणाधान द्वारा संस्कार होता है, अथवा मणि या दर्पण में निधर्षण के द्वारा दोष निकल जाने से संस्कार होता है। इन चार क्रिया-फलों में कोई भी वेद में नहीं आता। अध्ययन में प्रवृत्ति होने से वेद की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि वह नित्य है। विभु होने से उसकी प्राप्ति भी नहीं होती। अध्ययन करने से किसी प्रकार का वेद में विकार भी नहीं आता और अध्ययन से वेद का संस्कार भी नहीं होता। कारण यह है कि कार्यान्तर की योग्यता का आधान करने का नाम संस्कार है, और निर्विकार स्फोट-स्वरूप शब्द-ग्रन्थरूप वेद में कोई भी ऐसा विशेष गुण नहीं है, जिसका आधान क्रिया जाय। कोई दोष भी नहीं है, जिसका अपकरण-रूप संस्कार क्रिया जाय। इसलिए, यह सिद्ध होता है कि अध्ययन या वेद दोनों में कोई भी आर्थी भावना का उद्देश्य नहीं हो सकता। उद्देश्य के बिना भावना अर्थ हो जाती है, इसलिए अर्थावचोध को उद्देश्य मानना आवश्यक है। ऐसा न मानने से अध्ययन-विधि अर्थ हो जायगी।

अतः, अध्ययन-विधि के सामर्थ्य से उसका फल अर्थशान ही है, यह कल्पना की जाती है। अध्ययन के द्वारा ही अर्थशान का समादान करे, यही 'स्वाध्यायोऽध्येतत्त्वः' इस अध्ययन-विधि का तात्पर्य है। यद्यपि अध्ययन-विधि का फल स्वर्ग भी हो सकता है, और यह 'विश्वजित्' न्याय से अनुग्रहीत भी है, तथापि

स्वर्ग इसका अर्थ नहीं होता; क्योंकि स्वर्ग अदृष्ट फल है, और दृष्ट फल के रहते अदृष्ट फल को कल्पना अन्याय होती है—‘सम्मतिदृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनाया अन्यायत्वम् ।’

यदि यह कहें कि दृष्टफल तो लिखित पाठ से भी सिद्ध हो जाता है, इसके लिए विधि करने की क्या आवश्यकता है ? तो इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं कि अपूर्वविधि के न होने पर भी नियम-विधि के होने में कोई वाघक नहीं है । अध्ययन-विधि के नियम होने से यह भाव सिद्ध होता है कि अर्थज्ञान-रूप दृष्टफल भी गुरुमुख से अध्ययनपूर्वक ही होना चाहिए, लिखित पाठ आदि से नहीं । इसी नियम के बल से अध्ययन-नियम के दृष्टफल न होने के कारण अगत्या अवान्तरापूर्व-रूप अदृष्ट फल की कल्पना की जाती है । इस प्रकार की कल्पना में समस्त क्रतुजन्य अपूर्व ही हेतु होता है । क्योंकि, अर्थज्ञान के विना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता । इसीलिए, महर्षि जैमिनि ने पष्ठ अध्याय में कहा है कि जिसको अर्थज्ञान नहीं है, उसका भी यज्ञ में अधिकार नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि स्वाध्याय भी अध्ययन से संस्कृत होना चाहिए । यही अध्ययन-विधि का तात्पर्य है । इससे सिद्ध होता है कि जिस प्रकार दर्शपूर्णमात्र यज्ञ से उत्पन्न होनेवाला जो परमापूर्व है, वही अवघातादि से उत्पन्न अवान्तरापूर्व का शापक होता है, उसी प्रकार समस्त क्रतुजन्य जो परमापूर्व है, वही अध्ययन-विधि से उत्पन्न अवान्तरापूर्व का शापक होता है । यदि अध्ययन-नियम से उत्पन्न अवान्तरापूर्व को न मानें, तो अध्ययनविधायक श्रुति ही निरर्थक हो जायगी । यदि ‘विश्वजित्’ न्याय से अदृष्ट फल स्वर्गादि की कल्पना करें, तो भी ठीक नहीं होता, इसका कारण पहले ही बता चुके हैं । दृष्टफल की सम्भावना में अदृष्ट फल की कल्पना अयुक्त है । इसीको दूसरे शब्दों में लिखा है—

‘लभ्यमाने फक्ते दृष्टे नादृष्टपरिकल्पना ।

विधेस्तु नियमार्थत्वाच्चानर्थक्षयं भविष्यति ॥’

अर्थात्, दृष्टफल के लाभ होने की सम्भावना में अदृष्ट फल की कल्पना नहीं होती, और विधि भी व्यर्थ नहीं होता; क्योंकि नियम के लिए वह चरितार्थ है ।

पूर्व में जो स्वाध्याय को अध्ययन से संस्कृत होना बताया गया है, उसका तात्पर्य स्वाध्याय को फल के अभिमुख करना ही है, गुणाधान या दोषापनयन नहीं । क्योंकि, ऐसा मानने में वेद अनित्य हो जायगा । इसलिए, फल के अभिमुख करना ही स्वाध्याय का संस्कार समझना चाहिए । इससे वेद में उक्त दोष भी नहीं आते ।

एक शङ्का और होती है कि केवल वेदमात्र के अध्ययन से अर्थ का ज्ञान न हो, परन्तु लो व्याकरण आदि अङ्गों के साथ वेद का अध्ययन करता है, उसके लिए अर्थज्ञान होना सुकर है, पुनः इसके लिए विचार-शास्त्र की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर यह है कि यद्यपि साङ्गवेद पढ़नेवालों के लिए अर्थज्ञान होना मुलम है, तथापि केवल अर्थज्ञान-मात्र से किसी विषय का निर्णय नहीं हो सकता; क्योंकि निर्णय विचार-शास्त्र के ही अधीन होता है । जैसे—‘अकाः शर्करा उपदधाति’ ( तै० ब्रा० ३।१२।५ ) इस मन्त्र में अक्त शर्करा का उपधान बताया है । अक्त का

अर्थ है धृत या तेल मिलाया हुआ। अब यहाँ सन्देह होता है कि किससे अक्ष (मिथित) शर्करा का उपधान किया जाय? धृत या तेल से? केवल अर्थज्ञान से यह निर्णय नहीं हो सकता कि धृत से ही मिथित शर्करा होनी चाहिए, तेल से नहीं। विचार-शास्त्र से यह निर्णय मुलभ हो जाता है। जैसे—‘अक्षाः शर्करा उपधाति’ मन्त्र के वाक्यशेष में ‘तेजो वै धृतम्’ इस वाक्य से धृत की प्रशंसा की गई है; इससे इस निर्णय पर आते हैं कि धृत से ही शर्करा को अक्ष (मिथित) करना मन्त्र का अभिप्राय है। इस प्रकार, निर्णय के लिए विचार-शास्त्र की आवश्यकता होती है।

अब यहाँ एक और भी सन्देह होता है कि वेदाध्ययन के बाद भी धर्म-विचार के लिए गुरुकुल में यदि रहना हो, तब तो ‘वेदमधीत्य ज्ञायात्’, इस श्रुति का बाध हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वेदाध्ययन के अव्यवहित उत्तरकाल में समावर्त्तन, अर्थात् गृहस्थाध्यम में प्रवेश करना श्रुति बताती है। यदि अध्ययन के बाद गुरुकुल में रहना हो, तब तो श्रुति का अवश्य बाध हो जाता है। ‘अधीत्य’ पद में जो (त्वाल्यप्) है, उसका अव्यवहित उत्तरकाल ही अर्थ होता है।

इसका उत्तर यह होता है कि ‘समानकर्तृक्योः पूर्वकासे’, इस सूत्र में ‘अधीत्य’ में जो त्वा (ल्यप्) प्रत्यय का विधान है, वह एक कर्त्तावाले दो धात्वर्थों के बीच पूर्वकाल में विद्यमान धातु से ही होता है। यहाँ त्वा प्रत्यय का, निमित्त-क्रिया का, अव्यवधान होना पाणिनि ने कहीं नहीं बताया। इसलिए, ‘ज्ञात्वा भुद्भक्ते’—ज्ञान कर भोजन करता है, यहाँ ज्ञान के बाद भोजन करने में सन्ध्या-पूजा आदि के व्यवधान होने पर भी त्वा प्रत्यय होता है। यदि त्वा प्रत्यय का निमित्त-क्रिया में व्यवधान भी माना जाय, तब तो ज्ञान के बाद वस्त्र पहनने में भी भोजन का व्यवधान हो जाता है। सन्ध्या-पूजा आदि करने में तो और अधिक व्यवधान है।

इस स्थिति में, ‘वेदमधीत्य ज्ञायात्’, यहाँ त्वा प्रत्यय से अध्ययन और समावर्त्तन में अव्यवधान की प्रतीति किसी प्रकार भी नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार, एक हजार अधिकरणवाला मीमांसा-शास्त्र अवश्य आरम्भणीय है, यह चिद्रान्त स्थिर हो जाता है।

यह आचार्य कुमारिलमट्ट के मतानुसार अधिकरण का स्वरूप दिखाया गया। इसीको भट्ट-मत या आचार्य-मत कहते हैं। मीमांसा-शास्त्र के दो प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं—एक कुमारिलमट्ट, दूसरा प्रभाकर। परन्तु, आचार्य-मत कहने से कुमारिलमट्ट का ही मीमांसा-शास्त्र में बोध होता है और गुरु-मत कहने से प्रभाकर का ही मत समझा जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि किसी समय प्रभाकर को उनके गुरुजी पढ़ा रहे थे। पढ़ाते समय गुरुजी को एक फ़क्किका के विषय में कुछ सन्देह हुआ। वह विषय यही था कि—‘तत्र तु नोक्तम्, अभापि नोक्तमतः पीनरक्तम्’। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ तो नहीं कहा, और यहाँ भी नहीं कहा, इसलिए पुनरुक्त हुआ। गुरुजी के मन में शह्दा हुई कि पुनरुक्त वह कहा जाता है, जिसको पहले कह दुके हो, उसीको पुनः कहा जाय। यहाँ तो यहाँ भी नहीं कहा यहाँ भी नहीं कहा, किर पुनरुक्त कैसा! इस प्रकार संशय होने से गुरुजी का चिच आन्दोलित होने लगा।

वे शीघ्र बाहर जाकर सोचने लगे। प्रभाकर को यह बात मालूम हो गई, उन्होंने कठ कलम उठाकर पुस्तक में इस प्रकार पदच्छेद कर दिया—‘तत्र तुना (तुशब्देन) उक्तम्, अत्र अपिना (अपिशब्देन) उक्तम्, अतः पौनरुक्तम्’—वहाँ तु शब्द से कहा और यहाँ अपिशब्द से इसलिए पुनरुक्त है। इस प्रकार, पदच्छेद को देखते ही गुरुजी का सन्देह निवृत्त हो गया, और वे ह्यात्री से पूछने लगे कि किसने पदच्छेद किया है? विद्याधियों ने कहा, प्रभाकर ने। इस पर प्रसन्न होकर गुरुजी ने प्रभाकर में कहा—‘त्वं मे गुरुः’। उसी समय से प्रभाकर को आज तक गुरु कहा जाता है और उनका मत गुरु-मत माना जाता है। अब गुरु-मत से भी अधिकरण का स्वरूप दिखाया जायगा।

### प्रभाकर (गुरु) के मतानुसार अधिकरण-स्वरूप

‘श्रद्धर्वं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत’—आठ वर्ष में ब्रह्मण का उपनयन करे, और उसे पढ़ावे, इस श्रुति का विषेय विषय अध्यापन ही प्रतीत होता है, दूसरे शब्दों में, श्रुति अध्यापन का ही विधान करती है। विधि को ही नियोग कहते हैं। जिसके प्रति नियोग, अर्थात् विधान, किया जाय, वह नियोज्य कहा जाता है। नियोग नियोज्य की अपेक्षा करता है। प्रकृत में कौन नियोज्य है? इस आकांक्षा में, जिसको आचार्यत्व-प्राप्ति की कामना होगी, वही नियोज्य समझा जायगा। कारण यह है कि मन्त्र में ‘उपनयीत’ जो पद है, उसमें ‘उप’ उपर्गपूर्वक ‘नी’ धातु का विधिपूर्वक अथवे समीप में ले आना ही अर्थ होता है, और ले आने का फल माणवक का संस्कार ही है, और वह संस्कार माणवक में ही होता है, आचार्य में नहीं। इसलिए, उपनयन-रूप किया का फल जो माणवक-वृत्ति-संस्कार है, वह आचार्य-रूप कर्ता में नहीं रहता, इसलिए कियाफल के कक्तुंगामी नहीं होने से ‘स्वरित जितः कर्त्तभिप्राये कियाफले’, इस सूत्र से आत्मनेपद सिद्ध नहीं होगा, इसलिए ‘सम्माननोत्सङ्घनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः’, इस सूत्र से आचार्यकरण-अर्थ में आत्मनेपद का विधान किया जाता है। यहाँ आचार्यकरण का तात्पर्य है—आचार्य का कर्म। यह आचार्य-कर्म धातु-प्रयोग की उपाधि और आत्मनेपद का निमित्त है।

इस अवस्था में ‘उपनयीत’ यहाँ आत्मनेपद से आचार्य-कर्म की ही प्रतीत होती है। इसलिए, आचार्य-कर्म को चाहनेवाला ही प्रकृत में नियोज्य हो सकता है। उपनयन में जो नियोज्य है, वही अध्यापन में भी नियोज्य होगा; क्योंकि उपनयन और अध्यापन इन दोनों क्रियाओं का एक ही प्रयोजन होता है। तात्पर्य यह है कि इन दोनों सम्मिलित क्रियाओं से ही आचार्यत्व-प्राप्ति-रूप एक प्रयोजन सिद्ध होता है।

मनु ने भी कहा है—

‘उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः।

साङ्गत्यं सरहस्यद्वा तमाचार्यं प्रचक्षते ॥’

अर्थात्, जो ब्राह्मण शिष्य को उपनीत कर अङ्ग और रहस्य के सहित वेद पढ़ाता है, उसीको पूर्वाचार्य लोग आचार्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि उपनयनपूर्वक



अर्थ की अविवक्षा की जाय, तो विचार का कोई विषय नहीं रह जायगा। इस अवस्था में पूर्वोक्त विषयाभाव-रूप दोप पुनः गलेपतित हो जाता है।

इस पर सिद्धान्ति का कहना है कि यह प्रश्न भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि वेदवाक्य के साथ 'विषं शुद्धक्ष' का दृष्टान्त लागू नहीं होता; क्योंकि माता पुत्र को विष खाने के लिए कभी आशा नहीं दे सकती, इसलिए माता के तात्पर्य से विष-मत्त्वा-रूप मुख्य अर्थ के बाहित होने से प्रतीयमान शत्रु-गृह में भोजन का निषेध ही अर्थ की विवक्षा की जाती है, किन्तु उस प्रकार वेदवाक्य में अर्थ की अविवक्षा नहीं कर सकते; क्योंकि वेद अपौरुषेय है। इसका रचयिता कोई नहीं है। यदि वेद का भी कोई कर्ता होता, तो उसके तात्पर्य से मुख्यार्थ का बाघ हो सकता था, परन्तु ऐसा नहीं है। अपौरुषेय होने से वेदवाक्य में प्रतीयमान अर्थ की अविवक्षा नहीं हो सकती। प्रतीयमान अर्थ की विवक्षा मानने में जहाँ-जहाँ पुरुष को सन्देह होगा, वे सब विचार-शास्त्र के विषय होंगे और उसका प्रयोजन निर्णय होगा। निर्णय के लिए ही विचार-शास्त्र आवश्यक होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अध्यापन विधि से सिद्ध जो अध्ययन-विधि है, उससे होनेवाला जो अर्थ है, वह विचार के योग्य है, इसलिए विचार के वैध होने से विचार-शास्त्र आरम्भणीय है, यह सिद्धान्त सिद्ध हो जाता है।

## वेद के अपौरुषेयत्व का विचार

अब यहाँ नैयायिकों का आचेप होता है कि यदि वेद का अपौरुषेयत्व सिद्ध हो, तब तो यह सिद्धान्त माना जा सकता है। परन्तु, वेद के अपौरुषेयत्व में कोई भी प्रमाण नहीं है, इसलिए यह पौरुषेय है, अर्थात् पुरुष-प्रणीत है। यहाँ पुरुष शब्द से ईश्वर का प्रदृश्य किया जाता है। ईश्वर-प्रणीत जो आनुपूर्वीविशेष विशिष्ट शब्द-राशि है, वही वेद है, ऐसी इनकी मान्यता है। ईश्वर-प्रणीत होने से यह पौरुषेय सिद्ध होता है।

इस पर मीमांसकों का कहना है कि अनुमान-प्रमाण से ही वेद का अपौरुषेयत्व सिद्ध होता है। अनुमान का स्वरूप यह है—वेद (पञ्च) अपौरुषेय है (साध्य), सम्प्रदाय के विच्छेद न होने पर भी कर्ता के स्मरण न होने से (हेतु), आत्मा के सदृश (दृष्टान्त)। इस प्रकार के अनुमान से वेद का अपौरुषेय होना सिद्ध होता है। यहाँ सिद्धान्ति का अभिप्राय यह है कि जिस प्रन्थ के आदि, मध्य या अन्त में अथवा अवान्तर प्रकरण में कहीं भी अन्यकार अपना नाम लिख देता है, तो वहाँ सकर्तृक होने में कोई भी सन्देह या विवाद नहीं होता, जैसे महाभाष्य, प्रदीप, रघुवंश, कौमुदी आदि। और, जहाँ सम्प्रदाय के अविच्छेद में भी गुरु-परम्परणा कर्ता का स्मरण रहता है, वहाँ भी सकर्तृक होने में सन्देह या विवाद नहीं होता, जैसे पाणिनि, पतञ्जलि, व्यास आदि के रचित व्याकरण, योग, वेदान्त आदि ग्रन्थों में। और, जहाँ ग्रन्थकर्ता ने कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखा और सम्प्रदाय का भी विच्छेद हो गया, और सम्प्रदाय के विच्छेद होने में कर्ता का भी स्मरण नहीं रहा, वहाँ पौरुषेय होने में सन्देह हो सकता है। परन्तु, सम्प्रदाय के अविच्छिन्न रूप से, निरन्तर

धारा-प्रवाह-रूप से चलते रहने पर भी यदि कर्ता का स्मरण न हो, तब तो वहाँ कर्ता का अभाव ही कारण हो सकता है। इस प्रकार, सम्प्रदाय का विच्छेद न होने पर भी कर्ता का स्मरण न होने से वेद को अपौरुषेय माना जाता है।

यहाँ पूर्वपढ़ी का कहना है कि यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि सम्प्रदाय का अविच्छेद होने पर भी यह जो विशेषण हेतु दल में दिया गया, वह असिद्ध है; क्योंकि वेद को पौरुषेय माननेवाले प्रलय-काल में सम्प्रदाय का विच्छेद मानते हैं, इसलिए हेतु स्वरूपासिद्ध हो जाता है, इससे अनुमान का प्रयोजक नहीं होता। जिस प्रकार, शब्द नित्य है, द्रव्य होने पर भी स्पर्श-रहित होने से आकाश के सदृश। इस अनुमान में पञ्चभूत जो शब्द है, उसमें द्रव्यत्व नहीं है; इसलिए द्रव्यत्व विशेषण के असिद्ध होने से शब्द के नित्यत्वानुमान का वह प्रयोजक नहीं हो सकता। उसी प्रकार, प्रकृत में भी सम्प्रदाय का अविच्छेद होने पर, यह जो हेतु का विशेषण है, उसके असिद्ध होने से अनुमान का प्रयोजक नहीं हो सकता। दूसरा कारण यह है कि अपौरुषेयत्व होने में अस्मर्यमाण कर्त्तव्य अर्थात् कर्ता का अस्मरण-रूप जो हेतु दिया गया है, उसका तात्पर्य क्या है? वेद का कर्ता प्रमाण से सिद्ध नहीं, यह अथवा वेद का कर्ता स्मरण का विषय नहीं, यह है!

प्रमाण से सिद्ध नहीं है, यह तो कह नहीं सकते; क्योंकि 'अस्य महतो भूतस्य निश्चितमिदं यद् शूग्वेदः यजुर्वेदः'; 'तस्माद् यशात्सर्वहुतं शूचः सामानि जड्विरे'; 'इदं सर्वमसृजत शूचो यजूँपि सामानि' इत्यादि अनेक श्रुतियों के प्रमाण से वेद का कर्ता सिद्ध है। यदि दूसरा पञ्च, अर्थात् स्मरण के विषय न होने से यह कहें, तो भी ठीक नहीं बनता। कारण यह है कि इसमें विकल्प का समाधान नहीं होता। विकल्प यह होता है कि एक का स्मरण अथवा सबका?

पहला पक्ष तो मान नहीं सकते; क्योंकि मुक्तकोक्ति में व्यभिचार हो जाता है। परस्पर असम्बद्ध एकत्र संग्रहीत जो स्कुट श्लोक है, उन्हींका नाम मुक्तक है। यह पौरुषेय होता है। प्रथम विकल्प मानने में इसमें भी अपौरुषेय का लक्षण चला जाता है। इसलिए, अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। यदि द्वितीय पक्ष मानें, तो भी ठीक नहीं होता। कारण यह है कि सबके स्मरण का विषय नहीं है, यह सर्वश ही जान सकता है। क्योंकि, वेद के कर्ता का किसी ने कहीं भी कदापि निश्चय नहीं किया। यह निश्चय करना अल्पश मनुष्यों के लिए सर्वदा असम्भव है। इसके अतिरिक्त पौरुषेयत्व का साधक अनुमान-प्रमाण भी है—वेदवाक्य (पक्ष) पौरुषेय है (साध्य), वाक्य होने के कारण (हेतु), व्यासादि वाक्य के समान (दृष्टान्त)। इस अनुमान से भी वेद का पुरुष-प्रणीत होना निश्चित हो जाता है।

इस प्रकार, वेद का पौरुषेयत्व-साधन करने पर सिद्धान्ती कहते हैं कि यह भी अनुमान ठीक नहीं है; क्योंकि इसके विपरीत अपौरुषेयत्व का साधक प्रबल अनुमान विद्यमान है—

‘वेदस्याभ्ययनं सर्वं गुरुं व्ययनपूर्वकम् ।  
वेदाभ्ययनसामान्यादुपुनाभ्ययनं यथा ॥’

अर्थात्, समस्त वेदाध्ययन (पक्ष) गुरु के अध्ययनपूर्वक ही होता है (साध्य), वेदाध्ययन होने के कारण (हेतु), वर्तमान वेदाध्ययन के उद्देश (दृष्टान्त)। तात्पर्य यह है कि वेद का अध्ययन और अध्ययनों से विलक्षण है। और अध्ययन बिना गुरु के लिखित पाठ आदि से भी सम्भव है, परन्तु वेद का अध्ययन ऐसा नहीं है। बिना गुरु के वेद नहीं पढ़ा जाता, यह नियम है। यदि वेद का कर्त्ता मानें, तो उसके बनानेवाले ने भी किसी गुरु से पढ़ा होगा, यह मानना होगा। और, वह गुरु भी किसी अन्य गुरु से। इस प्रकार, वेद का पौरुषेय मानने में अनवस्था-दोष हो जाता है। इसलिए, अपौरुषेय मानना ही युक्त है।

इसपर पूर्वपक्षी का कहना है कि इस प्रकार का अनुमान करने से तो महाभारतादि भी अपौरुषेय होने लगेंगे। जैसे—

‘भारताध्ययनं सर्वं गुरुव्ययनपूर्वकम् ।

भारताध्ययनत्वेन साम्प्रताध्ययनं यथा ॥’

भारताध्ययन भी गुरु से अध्ययनपूर्वक है, भारताध्ययन होने से इस समय के अध्ययन के समान। इस प्रकार के अनुमान से महाभारत भी अपौरुषेय होने लगेगा। इसलिए, वेद को पौरुषेय मानना ही युक्त है। इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि यह आप (पूर्वपक्षी) का अनुमान, ‘जिससे वेद का पौरुषेयत्व-साधन करते हैं, अनुमानामात्र है; क्योंकि ‘कोऽन्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकृद्धवेत्’, इत्यादि स्मृति-वचनों से महाभारत का कर्त्ता सिद्ध है। इसपर पूर्वपक्षी का कहना है कि ‘भूचः सामानि जश्चिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत्’, इत्यादि श्रुति-प्रमाण से वेद का भी कर्त्ता सिद्ध है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सिद्धान्ती भारताध्ययनत्व-हेतु से महाभारत के पौरुषेयत्व का अनुमान आभासी मानते हैं, उसी प्रकार वेदाध्ययनत्व-हेतु से वेद के अपौरुषेयत्व का अनुमान भी आभासी हो जाता है; क्योंकि इस अनुमान में भी कोई अनुकूल तर्क नहीं है। जो-जो अध्ययन है, वे सब गुरु से अध्ययनपूर्वक ही हैं, इसमें कोई भी हेतु नहीं है। इसलिए, वेद को पौरुषेय ही मानना उचित है।

### वेद का अनित्यत्व-साधन

एक बात और है, जिससे वेद का पौरुषेय होना चिद्र होता है—यथार्थ ज्ञान का साधक और विशेष प्रकार की रचनाविशिष्ट जो शब्द-राशि है, उसीको वेद कहते हैं। शब्द अनित्य होता है, और जो अनित्य है, वह उत्पन्न होने के कारण अपौरुषेय नहीं हो सकता। और, शब्द के अनित्य होने में अनुमान ही प्रमाण होता है। अनुमान का स्वरूप—शब्द, (पक्ष) अनित्य है (साध्य), जातिमान होकर वास्तेन्द्रिय से प्राप्त होने के कारण (हेतु), घट के समान (दृष्टान्त)। अर्थात्, जिस प्रकार घट, घटत्व जाति का आधय होकर वास्तेन्द्रिय, अर्थात् चक्षु-इन्द्रिय, से प्राप्त होने के कारण अनित्य होता है, उसी प्रकार शब्द भी शब्दत्व जाति का आधय और वास्तेन्द्रिय से उत्र से प्राप्त होने से अनित्य है।

इस पर मीमांसक कहते हैं कि शब्द यदि अनित्य हो, तो देवदत्त से उच्चरित जो 'ग' शब्द है, उसके अनित्य होने से उचारण के बाद ही उसका नाश हो जायगा, फिर यशदत्त से उच्चरित 'ग' में वही यह गकार है, इस प्रकार की जो प्रत्यभिशा होती है, वह नहीं हो सकती।

प्रत्यभिशा एक प्रकार का प्रत्यक्षविशेष ही है। इन्द्रिय-उद्दकृत संस्कार से जन्म, यही इसकी परिभाषा है। इस प्रत्यभिशा में बाधित होने के कारण शब्द के अनित्यत्व का अनुमान नहीं हो सकता। इसलिए, वेद मी पौरुषेय नहीं हो सकता, यह मीमांसकों का तात्पर्य है। इस पर नैयायिकों का कहना है कि 'सोऽयं गकारः', यही यह गकार है, इस प्रकार की जो प्रत्यभिशा है, उसका विषय गकार नहीं है; किन्तु, गत्य जाति है। अर्थात्, उस गकार के नष्ट हो जाने पर भी उसका सजातीय जो अन्य गकार है, उसीमें 'सोऽयं गकारः', यह प्रत्यभिशा होती है। जिस प्रकार, शिर के केश काटने पर दूसरे जो केश जमते हैं, उनमें वे ही यह केश हैं, इस प्रकार की प्रत्यभिशा होती है। उसी प्रकार, यहाँ पर भी उसके समान जातिवाले दूसरे गकार में ही 'सोऽयं गकारः' यह प्रत्यभिशा होती है। इसलिए, इस प्रत्यभिशा से शब्द के अनित्यत्व का बाध नहीं हो सकता। अतः, शब्द के अनित्य होने से वेद का पौरुषेय होना सिद्ध हो जाता है।

अब यहाँ यह आशङ्का होती है कि वेद के पौरुषेयत्व का तात्पर्य क्या है? यदि पुरुष का तात्पर्य ईश्वर है, और उससे रचित ग्रन्थ-विशेष पौरुषेय है, ऐसा अर्थ मानें, तब सो पुरुष नहीं होता। कारण यह है कि ईश्वर निराकार है, उसके करण, तालु आदि अवयव भी नहीं हैं; क्योंकि निराकार का अवयव नहीं होता। जैसे—आकाश, काल आदि निराकार पदार्थ के अवयव नहीं होते। शब्द की उत्पत्ति करण, तालु आदि के अभिधात से ही होती है। ईश्वर को करण, तालु आदि नहीं हैं, तो वह वेद को किस प्रकार बना सकता है? इस शङ्का के उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि ईश्वर यद्यपि निराकार है, तथापि लीला से शरीर धारण करना सम्भव है; क्योंकि वह सर्वशक्तिमान् है और भक्तों के अनुग्रहार्थ शरीर धारण करता है। यह श्रुति, सृति, पुराण और इतिहास आदि प्रमाणों से सिद्ध है। इस प्रकार, शरीर की कल्पना से ही वेद ईश्वर-कृत माना जाता है। इसलिए, यह पौरुषेय भी है, यह पूर्वपक्षी का तात्पर्य है।

यहाँ सिद्धान्ती का पुनः यह प्रश्न होता है कि पौरुषेय का तात्पर्य क्या है? क्या पुरुष से उच्चरित होना ही पौरुषेय है, जैसे हमलोगों से प्रतिदिन उच्चरित वेद अथवा प्रमाणान्तर से अर्थ को जानकर उसके प्रकाशन के लिए रचित आधुनिक विद्वानों के निवन्ध? प्रथम पक्ष में सो कोई विवाद नहीं है; क्योंकि हमलोगों के सदृश ही पुरुष से उच्चरित होने के कारण पुरुषनिर्मित नहीं कहा जा सकता, इसलिए पौरुषेयत्व की चिद्धि नहीं हो सकती, वेद का अपौरुषेयत्व स्वस्थ रह जाता है। यदि यह कहें कि प्रमाणान्तर से अर्थ जानकर उसके प्रकाशन के लिए रचना की गई, सो भी ठीक नहीं होता। क्योंकि, इसमें दो विकल्पों का समाधान नहीं होता। यथा,

प्रमाणान्तर से जानकर, इसमें प्रमाणान्तर पद से क्या अनुमान का ग्रहण है, अथवा आगम का ? यदि अनुमान का ग्रहण मानें, तो अर्थ होगा कि अनुमान-प्रमाण से जानकर प्रकाशन के लिए ग्रन्थ बनाना। इस अवस्था में पौरुषेयत्व का अनुमापक जो वाक्यत्व-हेतु दिया था, वह मालतीमाधव, दशकुमारचरित आदि काल्पनिक ग्रन्थों में व्यभिचरित हो जायगा। क्योंकि, मालतीमाधव, दशकुमारचरित आदि काल्पनिक ग्रन्थ अनुमान-प्रमाण से अर्थ निश्चयकर नहीं लिखे गये हैं, इसलिए वे पौरुषेय नहीं कहे जा सकते। और, वहाँ वाक्यत्व है, अतः पौरुषेयत्व-रूप साध्य के अभावस्थल उक्त काल्पनिक ग्रन्थों में वाक्यत्व-हेतु के रहने से हेतु व्यभिचरित हो जाता है, और व्यभिचरित होने से साध्य का साधक नहीं हो सकता। क्योंकि, व्यभिचरित होने से हेत्वाभास हो जाता है। इस पर पूर्वपक्षी का कहना है कि केवल वाक्यत्व-हेतु नहीं है, किन्तु—प्रमाणत्वे सति वाक्यत्वात्—प्रमाण होकर वाक्य होने से, इतना हेतु है। प्रकृत काल्पनिक ग्रन्थों में प्रमाणत्व नहीं रहने से विशेषण के अभाव में विशिष्ट का भी अभाव होता है, इस सिद्धान्त से उक्त ग्रन्थों में व्यभिचार नहीं होता।

परन्तु, यह भी पूर्वपक्षी का कहना समुचित नहीं है, कारण यह है कि वेद-वाक्य वही होता है, जो अन्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं होनेवाले अर्थ का प्रकाशक हो। दूसरे शब्दों में, प्रमाणान्तर के अविषय जो अर्थ हैं, उनका प्रतिपादन करनेवाले जो वाक्य हैं, वे ही वेदवाक्य कहे जाते हैं। और, वे ही वेदवाक्य यदि अनुमान-प्रमाण से सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करें, तब तो 'मम माता बन्ध्या' वाक्य के सदृश व्याघात-दोष हो जायगा।

इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदवाक्य का पौरुषेयत्व-साधन करनेवाला जो वाक्यत्व-हेतु है, वह सिद्ध नहीं होता; क्योंकि पौरुषेयत्व के तात्पर्य में कहा गया है कि अनुमानादि प्रमाण से सिद्ध जो अर्थ है, उसको जानकर जिसकी रचना की गई है, वही पौरुषेय है, और यह लक्षण वेद-वाक्य में घटता नहीं; क्योंकि प्रमाणान्तर के अविषयीभूत अर्थ के प्रतिपादक वाक्य ही वेद-वाक्य हैं। एक बात और भी है कि आप (पूर्वपक्षी) ने जो कहा कि परमात्मा के शरीर न होने पर भी भक्तों के ऊपर अनुग्रह के लिए लीला-शरीर का ग्रहण करते हैं, इसलिए वेद की रचना कर सकते हैं, सो भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि लीला-शरीर धारण करने पर भी अतीनिद्रिय अर्थ को देखना सज्जत नहीं होता। जो अर्थ देश, काल और स्वभाव से दूर है, उसके ग्रहण करने का कोई उपाय नहीं है। देशान्तर या लोकान्तर में विद्यमान जो वस्तु है, वह देश से विप्रकृष्ट अर्थात् दूर कहा जाता है। भूत और भविष्य में होनेवाला वस्तु-काल तो विप्रकृष्ट कहा जाता है, इन सबका इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध न होने से प्रत्यक्ष नहीं होता। स्वभावतः विप्रकृष्ट वह है, जिसमें स्वभाव से ही उस वस्तु के ग्रहण करने का सामर्थ्य न हो। जैसे, चक्षु-इन्द्रिय का सामर्थ्य स्वभाव से ही उस वस्तु के ग्रहण करने में नहीं है। चक्षु केवल रूप का ही ग्रहण करता है। चक्षु के साथ पुष्प के सन्निकप होने पर भी पुष्प में विद्यमान ग्रन्थ का ग्रहण नहीं करता; क्योंकि केवल रूप का ही ग्रहण करना उसका स्वभाव है। इसी प्रकार, हर एक

इन्द्रियाँ एक विशेष गुण का ही प्रदण करती हैं, अन्य का नहीं, यह उनका स्वभाव है। इसलिए, शरीर-धारण करने पर भी ईश्वर देश, काल और स्वभाव से विप्रकृष्ट अर्थ का शान नहीं कर सकता। इसपर पूर्वपक्षी का कहना है कि ईश्वर अचिन्त्यशक्ति है, उसकी इन्द्रियों की शक्ति भी विलक्षण है। उसकी इन्द्रियाँ देश, काल और स्वभाव से विप्रकृष्ट वस्तुओं का भी प्रदण कर सकती हैं। यही ईश्वर की विशेषता है। परन्तु, सिद्धान्ती मीमांसक इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि इष्ट के अनुसार ही कल्पना का आभयण युक्त होता है। कुमारिलभट्ट ने लिखा है—

‘यथाप्यतिशयो इष्टः सस्वार्यान्तिलक्ष्मनात् ।

दूरसूक्ष्मादिष्टौ स्याद्यस्ये थोग्रवृत्तिता ॥’

अपने विषय का अतिक्रमण कर कहीं भी अतिशय नहीं देखा गया है। केवल दूरस्थ पर्यंतादि में रहनेवाले सूक्ष्मतर परमाणु आदि का भी शान कर सकता है, यही अतिशय का फल है। परन्तु, रूप के प्रदण करने में थोत्र-ईन्द्रिय का व्यापार कभी समर्थ नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की इन्द्रियों में अतिशय सामर्थ्य होने पर भी दूरस्थ पर्यंतादि में रहनेवाले जो अध्यवहित सूक्ष्म परमाणु आदि हैं, उनका वह शान कर सकता है, परन्तु देश, काल और स्वभाव से जो विप्रकृष्ट है, उनका शान नहीं कर सकता; यद्योंकि यह युक्ति से विकद हो जाता है। इसलिए, मीमांसक के मत में कोई सर्वश्च ईश्वर नहीं माना जाता। अतएव, ‘आगम से जानकर’ यह जो द्वितीय विकल्प किया है, वह भी युक्त नहीं होता; यद्योंकि युक्ति से कोई सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता है। ‘यः सर्वज्ञः सर्ववित्’ इत्यादि श्रुतियों में जो सर्वज्ञत्व दिखाया गया है, वह सर्वमूलभूत आगम का प्रवर्तक होने के कारण ही आरोपित है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रुति में जो सर्वज्ञत्व दिखाया गया है, वह आरोपित है, इसलिए कोई यथार्थ ईश्वर इनके मत में नहीं है, जो वेद-जैसे ज्ञान-भागडार की रचना कर सके। इसलिए, वेद को श्रूपीरूपेय मानना ही समुचित है।

अब यद्यां नैयायिकों का यह प्रश्न होता है कि यदि वेद को श्रूपीरूपेय मानते हैं, तब तो काठकः, कालापः, तैत्तिरीयः आदि जो यौगिक शब्द हैं, उनकी क्या गति होगी? इन प्रयोगों में, प्रोक्त अर्थ में ‘तेन प्रोक्तम्’ से अर्णु आदि प्रत्यय होते हैं। प्रोक्त का अर्थ कृत, निर्मित या रचित, यही हो सकता है। इससे यही अर्थ निकलता है कि कठ, कलाप और तित्तिरि से बनाया गया निवन्ध काठक, कालाप और तैत्तिरीय कहा जायगा। इस स्थिति में, वेद का पौरूषेय होना स्वयंसिद्ध हो जाता है। इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि ‘तेन प्रोक्तम्’ में प्रोक्त का कृत या रचित अर्थ नहीं है, किन्तु प्रचारक या प्रवर्तक यही अर्थ युक्त होता है। इसका सात्पर्य है कि जिसका प्रचार अध्यापन द्वारा कठ ने किया, वह काठक कहा गया, जिसका अध्यापन द्वारा कलाप ने प्रचार किया, वह कालाप और जिसका तित्तिरि ने किया, वह तैत्तिरीय कहा गया।

इसमें प्रमाण यह है कि प्रोक्त का अर्थ यदि कृत मानें, तब तो ‘कृते ग्रन्थे’ इस सूत्र से प्रत्यय सिद्ध ही था, पुनः उसी अर्थ में विधान करने के लिए ‘तेन प्रोक्तम्’ की क्या आवश्यकता है! इसलिए, सूत्र के आरम्भ-सामर्थ्य से प्रोक्त का अर्थ अध्यापन

या प्रकाशन के द्वारा प्रचार ही होता है। यही अर्थ समुचित और सिद्ध भी है। इसलिए, मन्त्रदण्ड को ही ऋषि कहा गया है, 'ऋषयो मन्त्रदण्डार'। इससे सिद्ध हो जाता है कि उक्त दृष्टान्त से वेद को पौरुषेय सिद्ध नहीं कर सकते। बल्कि, उससे अपौरुषेय ही सिद्ध होता है।

पहले अनुमान के बल से शब्द में जो अनित्यत्व का साधन किया था, उसका उत्तर तो, 'सोऽयं गकारः' इस प्रत्यभिज्ञा के विरोध से शब्द अनित्य नहीं हो सकता यह, पहले ही दिया जा चुका है। इस पर नैवायिकों ने, 'वही यह गकार है, इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा होती है, उसका विषय गत्व जाति है, ग व्यक्ति नहीं।' इसी प्रकार, छिन्नपुनर्जात केश में भी केशत्व जाति वही है, जो छिन्न केश में। तदृत् 'सोऽयं गकारः' इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा-रूप जो प्रत्यक्ष है, उसका मूल कारण गत्व-रूप जाति का ऐक्य ही है, इसलिए प्रत्यभिज्ञा का विरोध हो जायगा, यह जो उत्तर पूर्व में कहा था, वह ठीक नहीं है।

अब यहाँ यह विचार करना है कि जातिमूलक प्रत्यभिज्ञा कहाँ होती है। एक तो बलवान् बाधक के होने से, दूसरा व्यभिचार के देखने से। दृढ़तर प्रमाण से यहाँ व्यक्ति के भेद का निश्चय हो जाय, वहाँ बलवद् बाधक होता है। 'सोऽयम्', वही यह है, इस प्रकार का नियम ऐक्य के रहने पर ही होता है, और कहीं ऐक्य के न रहने पर भी, जैसे छिन्न पुनर्जात केश में, वही यह है, इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा देखी जाती है, वह उसी उक्त नियम का व्यभिचार-दर्शन है। इस प्रकार, कहीं पर किसी प्रकार का व्यभिचार देखकर यदि सर्वत्र उसी की सम्मावना करें, तब तो सकल व्यवहार ही लुप्त हो जायगा। इसमें स्वतः प्रमाणवादी का कहना है—

'उत्पेषेत हि यो मोहादज्जातमपि धाधनम् ।

स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा विनश्यति ॥'

अर्थात्, जो मनुष्य अज्ञान से अज्ञात बाधा की सम्मावना करता है, वह समस्त सांसारिक व्यवहार में संशयग्रस्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह कि, कोई मनुष्य किसी काम के लिए जाता हुआ मोटर से दबकर मर गया, या कहीं रेल आदि की दुर्घटना से मर गया, तो उसको देख या मुनकर कोई शङ्खा करें कि कदाचित् में भी इन कारणों से मर जाएंगा, तब तो सकल व्यवहार ही लुप्त हो जायगा। क्योंकि, वह संशय से किसी काम में प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए, कहीं व्यभिचार देखने से ही सर्वत्र उसकी आशङ्का नहीं करनी चाहिए। इसलिए, प्रत्यभिज्ञा के सामान्यविषयक होने में जो द्वितीय हेतु व्यभिचार-दर्शन दिया है, वह युक्त नहीं है, यह सिद्ध होता है।

बलवद् बाधक होने से सामान्यनिवन्धन प्रत्यभिज्ञा होती है, यह जो प्रथम हेतु दिया है, उसका विचार किया जाता है—पूर्वपक्षी का तात्पर्य है कि वही यह गकार है, इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा होती है, उसका विषय गत्व जाति है, ग व्यक्ति नहीं, परन्तु यह भी युक्त नहीं है; क्योंकि अनेक ग व्यक्ति के न होने के कारण गत्व जाति की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है। जाति का लक्षण है, 'नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्' (जातिः)।

श्रथात्, नित्य और अनेक व्यक्ति में रहनेवाला जो सामान्य है, वही जाति है। ग व्यक्ति यदि अनेक होता, तो उसमें रहनेवाली गत्व जाति की कल्पना ही सकती थी, परन्तु ऐसा नहीं है, ग व्यक्ति एक ही है, इसलिए गत्व जाति की कल्पना नहीं ही सकती।

## जाति-विचार

नेयायिकों का कहना है कि यह गकार द्रुत है, यह मध्यम है, यह विलम्बित है, इत्यादि अनेक प्रकार ग व्यक्ति की प्रतीति अवाधरूप से होती है, इसलिए अनेक ग व्यक्ति में रहनेवाली गत्व जाति की कल्पना में कोई वाधक नहीं है। इस पर सिदान्ती का कहना है कि इस प्रकार गकारादि व्यक्ति का अनेकत्व सिद्ध नहीं हो सकता, और 'सोऽयं गकारः' यह प्रत्यभिष्ठा भी नहीं बन सकती। कारण यह है कि द्रुतत्व आदि की ग में जो प्रतीति होती है, वह द्रुतादि अवस्थामूलक है, गकारादि व्यक्ति का भेदमूलक नहीं। इसलिए द्रुतत्वादि के अवस्थामूलक होने से वे गकारादि व्यक्ति के भेद का साधक नहीं हो सकते। और, व्यक्ति के अनेक न होने से अनेक में अनुगत जाति की भी सिद्धि नहीं हो सकती।

यहाँ पूर्वपक्षी का प्रश्न होता है कि, वर्णों में भेद द्रुतत्वादि अवस्था-प्रयुक्त है, व्यक्ति का भेदनिमित्तक नहीं, इसमें क्या प्रमाण है?

एक बात और है कि मीमांसक के मत में तो भेदभेद दोनों माने जाते हैं, सर्वधा भेद ही नहीं माना जाता, जिससे द्रुतत्व आदि के भेद होने पर भी गकारादि धर्मों में भेद न माना जाय। इसलिए जिस प्रकार कृष्ण, रक्त, पीतादि धर्म के भेद होने से तत्त्वमन्धी गो, घट आदि धर्मों (व्यक्ति) में भी परस्पर भेद होता है, और व्यक्ति-भेद होने से घटत्व, गोत्व आदि जाति की सिद्धि होती है, उसी प्रकार द्रुतत्व, विलम्बित्य आदि धर्मों के भेद होने से धर्मों जो गकार आदि वर्ण हैं, उन-भी परस्पर भेद सिद्ध हो जाता है, और भेद होने से गत्वादि जाति की कल्पना भी क्यों नहीं होती।

इसके समाधान में मीमांसकों का कहना है कि भेदभेदपक्ष के स्वीकर करने पर द्रुतत्व आदि धर्म के भेद होने से भी गकारादि व्यक्ति में भेद नहीं हो सकता। कारण यह है कि भेद और अभेद का अवभास साङ्केतिक नहीं होता है। कहीं भेदांश धर्मों के आलम्बन से होता है और अभेदांश धर्म के आलम्बन से। और, कहीं भेदांश ही धर्म के आलम्बन से और अभेदांश धर्मों के आलम्बन म होता है। दूसरे शब्दों में, कहीं भेद धर्मविषयक और अभेद धर्मविषयक, और कहीं अभेद ही धर्मविषयक और भेद धर्मविषयक होता है। उदाहरण के लिए: मुण्ड गी, चित्र गी, रक्त गी इत्यादि स्थलों में मुण्ड-चित्रादि गोधर्मों के परस्पर भेद होने के कारण उन सब में रहनेवाला जो गोत्व धर्म है, उसमें भेद न होने से उसका जातित्व युक्त है; क्योंकि वह एक और अनेकानुगत है।

और, यहाँ धर्मों में भेद नहीं है, धर्म में ही भेद है, यहाँ जाति की कल्पना युक्त नहीं है। उदाहरण के लिए: देवदत्त मुखा है, दृढ़ है, स्थूल है, कृश है—यहाँ

युवत्वादि धर्म के भिन्न-भिन्न होने पर भी धर्मा देवदत्त के एक होने के फारण देवदत्तव को जाति नहीं माना जाता; क्योंकि चृदत्त्व, युवत्व-प्रयुक्त देवदत्त में जो भेद प्रतीत होता है, वह युवत्वादि अवस्था-प्रयुक्त है, वास्तविक नहीं। इसी प्रकार, यह गकार द्रुत है, यह विलम्बित है, इत्यादि जो भेद गकारादि वर्णों में प्रतीत होता है, वह द्रुतत्वादि धर्मों के भेद से ही। वस्तुतः धर्मा गकारादि वर्णों में कोई भेद नहीं है, इसलिए गत्वादि जाति की कल्पना असुक्त है। दूसरे शब्दों में, वर्ण में जो द्रुतत्वादि का अवभास होता है, वह उच्चारण-क्रिया का ही है, वर्ण का नहीं। जैसे, यह अकार द्रुत उच्चरित है, यह अकार विलम्बित उच्चरित है, इसी प्रकार का अवभास होता है। यह अकार द्रुत है या विलम्बित है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म में भेद होने पर भी धर्मा वर्ण में भेद नहीं होता है। वर्ण में भेद न होने से गत्वादि जाति की भी सिद्धि नहीं होती।

अब पुनः पूर्वपृष्ठी की आशङ्का होती है कि कृशत्व, स्थूलत्व आदि जो धर्म हैं, वे क्रमशः आनेवाले हैं, ये दोनों धर्म समान काल में एक व्यक्ति में नहीं रहते; परन्तु काल-भेद से एक देवदत्त में भी कृशत्व और स्थूलत्व धर्म क्रमशः रह सकते हैं। परन्तु, अनुनासिकत्व, उदाचत्त्व आदि जो धर्म हैं, वे क्रमवर्ती नहीं हैं; क्योंकि समान काल में भी अनेक वक्ता से उच्चरित अकारादि वर्णों में अनुनासिकत्व, उदाचत्त्व आदि अनेक वर्णों का समावेश देखा जाता है, यदि एक ही वर्ण माना जाय, तो विशद अनुनासिकत्व आदि अनेक धर्मों का एक आकार में, जो अनेक वक्ता से समान काल में उच्चरित है, समावेश नहीं बनता। इसलिए, भिन्न-भिन्न अकारादि वर्णों को मानना आवश्यक हो जाता है। अकारादि वर्णों को भिन्न-भिन्न मानने से अत्य, गत्वादि जाति की भी सिद्धि अवश्य हो जाती है।

इसके उत्तर में भीमांसकों का कहना है कि यह बात तभी ठीक हो सकती है, जब उदाचत्त्व, अनुनासिकत्व आदि धर्म अकारादि वर्णों के यथार्थ हों। परन्तु, ऐसा नहीं है। वास्तव में अनुनासिकत्वादि धर्म, अकारादि वर्णों की अभिव्यक्ति जो ध्वनि है, उच्चार के बीचल वर्णों में अवभासित होते हैं। जिस प्रकार छोटे, बड़े दो दर्पणों में एक काल में यदि मुख देखा जाय, तो एक काल में ही मुख में छोटापन, बड़ापन दोनों प्रतीत होगे। यहाँ दर्पण के भेद होने से ही एक ही मुख में विशद नाना धर्म छोटापन, बड़ापन आदि भासित होते हैं। इसी प्रकार, वर्णों के एक होने पर भी वर्ण की अभिव्यक्ति जो ध्वनि है, उसमें अनुनासिकत्व आदि अनेक धर्म के रहने से उससे अभिव्यक्त होनेवाले वर्णों में भी वे धर्म भासित होते हैं। वास्तव में वे वर्ण के धर्म नहीं हैं। इसलिए, वर्ण एक ही है, यह सिद्ध होता है। वर्ण के एक होने से गत्वादि जाति की भी सिद्धि नहीं हो सकती। जाति को सिद्धि न होने से जातिविषयक प्रत्यभिज्ञा भी नहीं हो सकती। और, वही यह गकार है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा अवाध रूप से होती है। वह प्रत्यभिज्ञा वर्ण के नित्य और एक मानने में ही सम्भवित है। इसलिए, वर्णों को नित्य और एक मानना आवश्यक है। इससे वर्ण एक और नित्य है, ऐसा भीमांसकों का पद्ध सिद्ध हो जाता है।

इसी विषय को प्रकारान्तर से भी आचार्यों ने लिखा है। पूर्वपक्षी का यही कहना है कि विश्व अनेक धर्मों के अध्यात्म से वर्णों का अनेक होना सिद्ध है। उसके उत्तर में सिद्धान्ती उनसे पूछते हैं—वर्ण में तारत्व, मन्दत्व अनुनासिकत्व आदि धर्म भासित होते हैं, क्या वे वर्ण के वास्तविक धर्म हैं या आरोपित ? वास्तविक तो कह नहीं सकते; क्योंकि वास्तविक मानने से वर्णभेद मानना आवश्यक हो जायगा। इस स्थिति में, दस बार गकार का उच्चारण किया, इस प्रकार का जो सार्वजनीन व्यवहार लोक में देखा जाता है, वह नहीं हो सकता। वल्कि, दस गकार का उच्चारण किया, इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, परन्तु ऐसा व्यवहार होता नहीं। इसलिए, गकारादि वर्णों को एक और नित्य मानना आवश्यक हो जाता है।

**द्वितीय विकल्प—अकारादि वर्णों में अनुनासिकत्वादि धर्मों को आरोपित मानें,** तो वर्णों का वास्तविक भेद सिद्ध नहीं होता; क्योंकि उपाधि के भेद होने से स्वाभाविक ऐक्य का विवात नहीं हो सकता। जैसे, दर्पण के भेद होने से वास्तविक मुख में भेद नहीं होता। इसलिए, वर्णों में जो भेद की प्रतीति होती है, वह अभिव्यञ्जक ध्वनि में भेद के कारण ही है, वर्णों में स्वाभाविक भेद होने से नहीं, यह सिद्धान्त सिद्ध हो जाता है।

इसी प्रकार जाति के खण्डन-प्रस्ताव में आचार्य कुमारिलभट्ट ने कहा है—

‘प्रयोजनन्तु पञ्चतेस्तद्वर्णादेव खप्त्यते ।

ब्यक्तिलभ्यन्तु नदेभ्य इति गत्वादिधीयुंथा ॥’

तात्पर्य यही है कि गकारादि व्यक्ति के एक होने के कारण गकारादि वर्णों में गत्वादि जाति नहीं रह सकती; क्योंकि जाति अनेकानुगत होती है, यह पहले ही बता चुके हैं। दूसरा कारण यह है कि जाति के स्वीकार करने का प्रयोजन यही है कि ‘यह घट है, यह पट है’, इस प्रकार की प्रतीति को उत्पन्न करे, वर्ण के एक मान लेने पर भी इस प्रकार की प्रतीति होती ही है, इसलिए पृथक् जाति की कल्पना व्यर्थ ही है। इसी प्रकार दूसरा भी न्योक है—

‘प्रत्यभिज्ञा यदा शब्दे जागर्ति निरवग्रहा ।

यन्नित्यवानुमानानि सैव सर्वाणि वाधते ॥’

जबतक ‘वही यह गकार है’, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा अवाध-रूप से वर्तमान है, तबतक वही अनित्यत्व के सकल अनुमानों का बाध करता रहेगा। तात्पर्य यह है कि शब्द के अनित्यत्व-साधन करने के लिए जितने प्रकार के अनुमान हो सकते हैं, उन सबका बाध वही यह गकार है, इस प्रत्यभिज्ञा से हो जायगा। यदि शब्द को अनित्य मानें, तो प्रतिक्षण उसकी उत्पत्ति और नाश मानना होगा। इस स्थिति में, जो गकार आदि शब्द पूर्व में उच्चरित होकर नष्ट हो गया, और पुनः दूसरे क्षण में जो गकार उच्चरित होता है, वह पूर्व गकार से भिन्न ही होगा। इस अवस्था में, वही यह गकार है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा कदापि नहीं हो सकती; क्योंकि वह उससे भिन्न है। और, प्रत्यभिज्ञा अवाध रूप से अवश्य होती है, इसलिए शब्द को नित्य मानना आवश्यक है।

## नित्यानित्यत्व-विचार

बागीक्षणाचार्य ने मानमनोहर नाम के ग्रन्थ में शब्द के अनित्य होने में यह अनुमान दिखाया है—शब्द (पञ्च) अनित्य है (साध्य), इन्द्रिय से भ्रष्ट करने योग्य विशेष गुण होने के कारण (हेतु), रूप क सहश (दृष्टान्त)। जिस प्रकार, चक्षु-इन्द्रिय से भ्रष्ट करने योग्य रूप अनित्य है, उसी प्रकार शोष-इन्द्रिय से भ्रष्ट करने योग्य शब्द गुण भी अनित्य होगा। परन्तु इस प्रकार के सब अनुमानों का उक्त प्रत्यभिज्ञा से बाध हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि मीर्मांसक लोग शब्द को गुण मानते ही नहीं, वे शब्द को द्रव्य मानते हैं। इस स्थिति में, यदि शब्द गुण ही नहीं है, तो विशेष गुण किस प्रकार हो सकता है। अतः, पञ्चभूत शब्द में विशेषगुणत्व-रूप हेतु के न रहने में स्वरूपासिद्धि नाम का हेत्वाभास हो जाता है। एक कारण और भी है कि अश्वावणत्व उपाधि से यह अनित्यत्वानुमान दूषित भी हो जाता है। जैसा पहले ही कह चुके हैं, जो साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक है, वही उपाधि है। प्रकृत में, जहाँ-जहाँ अनित्यत्व-रूप साध्य है, वहाँ-वहाँ अश्वावणत्व अवश्य है, जैसे घटादि में। और, जहाँ-जहाँ इन्द्रियप्राणी विशेषगुणवत्त्व-रूप हेतु है, वहाँ नियमेन अश्वावणत्व नहीं रहता; क्योंकि शब्द में ही व्यभिचार हो जाता है। शब्द अश्वावण नहीं, किन्तु श्वावण ही है। साध्य के व्यापक और साधन के अव्यापक होने से अश्वावणत्व उपाधि हो जाती है। सौपाधिक हेतु के हेत्वाभास होने से अनित्यत्व का अनुमान नहीं हो सकता। इसलिए, शब्द नित्य है, ऐसा भी मीर्मांसकों का सिद्धान्त है। इसी प्रकार, उदयनाचार्य ने भी कहा है कि शब्द का अनित्यत्व तो प्रत्यक्ष-प्रमाण से ही सिद्ध होता है—‘उत्पन्नः कोलाहलः, विनष्टः कोलाहलः’; इस प्रकार कोलाहल, अर्थात् शब्द, में उत्पत्ति और नाश का प्रत्यक्षतः अनुभव होता है।

यहाँ उदयनाचार्य, जो शब्द की उत्पत्ति और विनाश को प्रत्यक्ष मानते हैं, से यह प्रश्न होता है कि शब्द के विनाश का प्रत्यक्ष किस प्रकार हो सकता है; क्योंकि शब्द का विनाश शब्द का ध्वंसाभाव ही होगा, और अभाव का प्रत्यक्ष उसके आधय के प्रत्यक्ष के अधीन होगा; क्योंकि अभाव-श्वान में उसके आधय का श्वान कारण होता है। और, शब्द का आधय जो श्वाकाश है, वह अतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्ष नहीं है। इस स्थिति में, शब्द के अभाव-रूप विनाश का प्रत्यक्ष कैसे होगा?

इसके समाधान में उदयनाचार्य का कहना है कि अभाव के प्रत्यक्ष में आधय का श्वान कारण है, इस प्रकार का नियम सुक नहीं है; क्योंकि वायु में रूपाभाव का चाहुप प्रत्यक्ष होता है, और उसका आधय जो वायु है, उसका चाहुप प्रत्यक्ष नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि अभाव-प्रत्यक्ष में आधय कारण नहीं होता, इसलिए शब्द में उत्पत्ति और विनाश के प्रत्यक्ष अनुभव होने से शब्द अनित्य है, यह सिद्ध होता है।

इसके उत्तर में भीर्मांसकों का कहना है कि शब्द में जो उत्पत्ति और विनाश की प्रतीति होती है, वह श्रीपाधिक है, वास्तविक नहीं। जिस प्रकार, दर्पण में विद्यमान

लघुत्व, महस्य, स्थूलत्व, कृशत्व आदि जो धर्म हैं, वे वस्तुतः मुख के धर्म नहीं हैं, किन्तु सम्बन्ध से मुख में भासित होते हैं, उसी प्रकार अभिव्यक्तक ध्वनि में रहनेवाले जो उत्पत्ति विनाश, आदि धर्म हैं, वे शब्द में भी भासित होते हैं। वस्तुतः, ये शब्द के धर्म नहीं हैं, इसलिए शब्द के नित्य होने में ये वाधक नहीं हो सकते।

अब दूसरी शहा यह होती है कि शब्द को यदि नित्य और व्यापक मानते हैं, तो सर्वदा सब शब्दों का मान होना चाहिए। क्योंकि, व्यापक और नित्य होने से सर्वत्र सर्वदा उसकी सत्ता रहती है, क्वल अभिव्यक्तक ध्वनि की सहायता से सर्वदा सब शब्दों का मान होना आवश्यक है। परन्तु, ऐसा होता नहीं है। यदि शब्द को व्यापक मानें, तब तो जिस देश में शब्द नहीं है, वहाँ अभिव्यक्तक के रहने पर भी शब्द नहीं होना चाहिए। अतः, शब्द को व्यापक या अव्यापक कुछ भी नहीं मान सकते।

इस पर मीमांसकों का उत्तर यह है कि यद्यपि शब्द व्यापक ही है, तथापि वह सर्वदा सब जगह उत्पन्न नहीं होता, कारण यह है कि यद्यपि शब्द व्यापक होने से सब जगह रहता है, तथापि जहाँ अभिव्यक्तक ध्वनि से संस्कृत होता है, वही अभिव्यक्त होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए, शब्द के व्यापक होने में भी कोई आपत्ति नहीं होती।

इस प्रकार, वर्णात्मक शब्द के नित्यत्व और व्यापकत्व-व्यवस्थापनपूर्वक वेद का अपीरुपेत्त्व स्थापित किया गया। वेद के अपीरुपेय होने से पुरुष-कृत दोष की सम्मावना वेद में नहीं रही, इसी कारण वेद का स्वतःप्रामाण्य भी इनके मत में सिद्ध होता है।

## प्रामाण्यवाद का विवेचन

अब प्रामाण्य का तात्पर्य क्या है ? प्रामाण्य स्वतः है या परतः ? स्वतः और परतः का अर्थ क्या है ? इत्यादि विषयों का विवेचन किया जा रहा है। प्रमाणों का जो भाव अर्थात् धर्मविशेष है, उसीको प्रामाण्य कहते हैं। यथार्थ अनुभव का नाम प्रमाण है। इसीको प्रमा भी कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यथार्थ अनुभव में रहनेवाला जो विशेष धर्म है, उसी का नाम प्रामाण्य है। इसीको प्रमात्व और प्रमाणत्व भी कहते हैं। इसी प्रकार, अयथार्थ अनुभव में रहनेवाला जो विशेष धर्म है, वही अप्रमाण्य है। इसीको अप्रमात्व और अप्रमाणत्व भी कहते हैं।

इस प्रामाण्य के कारण-विषय में जो वाद है, वही प्रामाण्यवाद कहलाता है। यह प्रामाण्यवाद दो प्रकार का होता है—एक जनककारणविषयक, दूसरा शापक-कारणविषयक। जनक कारण उसको कहते हैं, जिससे कार्य उत्पन्न होता है। शापक कारण वह है, जिससे कार्य का ज्ञान होता हो। प्रामाण्य का कारण स्व है, अधिवा पर ! इस प्रकार का जो संशय होता है, वही वाद का बीज है। यही स्व शब्द से प्रामाण्य, प्रामाण्य का आश्रय-ज्ञान और ज्ञान-कारण की सामग्री, इन तीनों का ग्रहण किया जाता है। पर शब्द से इन तीनों से

मित्र का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार, अप्रामाण्य के विषय में भी स्व और पर शब्द का अर्थ विचारणीय है।

जिनके मत में प्रामाण्य या अप्रामाण्य की उत्पत्ति पर, अर्थात् दूसरे, से होती है, वे परतःप्रामाण्यवादी कहे जाते हैं। जिनके मत में प्रामाण्य स्वयम्, अर्थात् अपने आध्य-शान से अथवा शान-सामग्री से उत्पन्न होता है, वे स्वतःप्रामाण्यवादी कहे जाते हैं। कौन स्वतःप्रामाण्य मानता है और कौन परतः, इस विषय में पूर्वाचार्यों ने लिखा है—

‘प्रमाणत्वाऽप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः ।

नैयायिकारते परतः सौगताश्चरमं स्वतः ॥

प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः ।

प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्चाप्रमाणताम् ॥’

तात्पर्य यह है कि सांख्यों के मत में प्रमाणत्व और अप्रमाणत्व, दोनों का जन्म स्वतः होता है। नैयायिक दोनों का जन्म परतः मानते हैं। चौदों के मत में अप्रामाण्य का जन्म स्वतः और प्रामाण्य का परतः माना जाता है। वेदवादी मीमांसिकों के मत में प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाण्य परतः माना जाता है। इस प्रकार सब आचार्यों के परस्पर मतभेद होने पर भी मीमांसक स्वतःप्रामाण्य को ही सुक्त मानते हैं। नैयायिक इस बात को नहीं मानते। वे परतःप्रामाण्य मानते हैं। अतः, मीमांसिकों में इनका प्रश्न होता है—स्वतःप्रामाण्य का तात्पर्य क्या है? क्या प्रामाण्य का स्वतः जन्म होता है, अर्थात् शानगत जो प्रामाण्यरूप धर्म है, क्या वह स्वयं उत्पन्न हो जाता है अथवा अपने आध्य-शान से, या शान की कारण-सामग्री से उत्पन्न होता है? ये तीन विकल्प हैं। चौथा विकल्प है कि शान के जितने साधारण कारण हैं, उनसे उत्पन्न जो शान-विशेष है, क्या उसीमें प्रामाण्य रहता है?

शानगत प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न होता है, यह पहला पक्ष तो मान नहीं सकते; क्योंकि कार्य-कारण में भेद का रहना वास्तव में स्वाभाविक है। यदि कार्य अपने से ही उत्पन्न होने लगे, तब तो कार्य-कारण में भेद नहीं रहेगा, और भेद-सामानाधिकरण का नियम भङ्ग हो जायगा। यदि स्वाध्य शान से प्रामाण्य की उत्पत्ति मानें, तो भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि शान से यदि उत्पत्ति मानेंगे, तो शान को समवायी कारण मानना होगा। शान गुण है, यह समवायी कारण हो नहीं सकता; क्योंकि समवायी कारण द्रव्य ही होता है, यह नियम है—‘समवायि-कारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विशेषम्’।

तात्पर्य यह है कि शान आत्मा का गुण है, यह कियी का समवायी कारण नहीं होता। यदि प्रामाण्य का कारण मानते हैं, तो ऐदान्त-भूमि ही जायगा। अतः, द्वितीय पक्ष भी सुक्त नहीं हुआ। शान-सामग्री से जन्म यह गृहीय पक्ष भी सुक्त नहीं है, कारण यह है कि प्रामाण्य को जाति या उपायि कुछ भी मानें, तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि यह नियम है। तात्पर्य यह है कि प्रमाणभूत अनेक शान में रहनेयाला जो उपायि का समवायी कारण है, वही प्रामाण्य है। इसी प्रकार के

धर्मविशेष का नाम सामान्य भी है। सामान्य दो प्रकार का होता है—एक जाति, दूसरा उपाधि। इसमें यह सिद्ध होता है कि प्रामाण्य जाति-स्वरूप होगा, अथवा उपाधि-स्वरूप। यदि प्रामाण्य को जाति-स्वरूप मानते हैं, तब तो उसके नित्य होने से उत्पत्ति नहीं बनती; क्योंकि जाति नित्य है। यदि प्रत्यक्ष के साथ सांकर्य, जो जाति का बाधक है, होने से प्रामाण्य को जाति न माना जाय, तो उपाधि ही मानना होगा। उपाधि भी दो प्रकार की होती है—अखण्ड और सखण्ड। प्रामाण्य को यदि अखण्डोपाधि मानें, तो भी वह नित्य होगा, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। सखण्डोपाधि नित्य और अनित्य दोनों होती है; क्योंकि वह द्रव्य आदि का अन्यतम रूप ही है। उदाहरण के लिए : शरीरत्व जाति नहीं होता; क्योंकि पृथिवीत्व के साथ सांकर्य हो जाता है। सांकर्य जाति का बाधक होता है। इसलिए, शरीरत्व उपाधि है। शरीर में जो चेष्टाभ्रयत्व है, वही शरीरत्व है, दूसरा नहीं। चेष्टाभ्रयत्व का अर्थ है—चेष्टाभ्रय का भाव। और, वह चेष्टाभ्रय-स्वरूप ही होगा; क्योंकि प्रकृति-जन्य बोध में प्रकारीभूत धर्म का नाम भाव है। हित-प्राप्ति और अहित-परिदार के लिए जो क्रिया होती है, वही चेष्टा कहलाती है।

इस स्थिति में, शरीरत्व के क्रियारूप उपाधि-स्वरूप होने से उसका अनित्यत्व सिद्ध होता है। परन्तु, यहाँ प्रामाण्य के विषय में यह बात नहीं है। कारण यह है कि प्रामाण्य यथार्थानुभवत्व-रूप ही है, यह पहले कह चुके हैं। इसका अर्थ है, यथार्थानुभव में रहनेवाली यथार्थता। और, स्मृति से भिन्न जो शान है, उसको अनुभव कहते हैं। अनुभव की यथार्थता बाध के अत्यन्ता-भाव का रूप ही है। अर्थात्, जिसका कभी बाध न हो, वही यथार्थ है। जो शान बाधित होता है, वह अयथार्थ है। इस स्थिति में, यही सिद्ध होता है कि अनुभवात्मक जो शान है, उसका बाधात्यन्ता-भाव ही उपाधि है, इसलिए प्रामाण्य का स्वरूप बाधात्यन्ताभाव सिद्ध होता है। अत्यन्ताभाव नित्य है, इसलिए प्रामाण्य के उपाधि-स्वरूप होने पर भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रामाण्य को जाति-स्वरूप मानें, अथवा उपाधि-स्वरूप, दोनों अवस्थाओं में उसकी उत्पत्ति नहीं बनती, इसीलिए तृतीय विकल्प भी ठीक नहीं होता। यह उत्तर प्रथम और द्वितीय विकल्प का भी ही सकता है। क्योंकि, दोनों में प्रामाण्य का जन्म नित्य होने से असम्भव है।

ज्ञान-सामान्य-सामग्री से उत्पन्न जो शान-विशेष है, उसका आधित प्रामाण्य है, यह जो चतुर्थ विकल्प किया है, वह भी युक्त नहीं होता; क्योंकि अयथार्थ ज्ञान में भी उक्त प्रामाण्य-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए : दूषित इन्द्रियवाले पुरुष को वास्तविक शुक्र में, यह रजत है, इस प्रकार का जो शान होता है, वह अयथार्थ ज्ञान है। यह ज्ञान भी ज्ञान की सामान्य-सामग्री से ही उत्पन्न हुआ है। ज्ञान की सामान्य-सामग्री, इन्द्रिय-अर्थ के सन्तुलित और प्रकाश आदि है। यह रजत है, इस प्रकार का जो अयथार्थ ज्ञान है, वह यद्यपि दोषयुक्त इन्द्रिय से उत्पन्न होता है, तथापि दोषयुक्त इन्द्रिय, इन्द्रिय नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जिस प्रकार, काण मनुष्य में भी मनुष्यत्व रहता है, उसी प्रकार दुष्ट इन्द्रियों में भी

भिन्न का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार, अप्रामाण्य के विषय में भी स्व और पर शब्द का अर्थ विचारणीय है।

जिनके मत में प्रामाण्य या अप्रामाण्य की उत्पत्ति पर, अर्थात् दूसरे, से होती है, वे परतःप्रामाण्यवादी कहे जाते हैं। जिनके मत में प्रामाण्य स्वयम्, अर्थात् अपने आश्रय-ज्ञान से अथवा ज्ञान-सामग्री से उत्पन्न होता है, वे स्वतःप्रामाण्यवादी कहे जाते हैं। कौन स्वतःप्रामाण्य मानता है और कौन परतः, इस विषय में पूर्वचार्यों ने लिखा है—

‘प्रमाणत्वाऽप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाधिताः ।

नैयायिकास्ते परतः सौमित्राश्रमं स्वतः ॥

प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः ।

प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्चाप्रमाणताम् ॥’

तात्पर्य यह है कि सांख्यों के मत में प्रमाणत्व और अप्रमाणत्व, दोनों का जन्म स्वतः होता है। नैयायिक दोनों का जन्म परतः मानते हैं। बौद्धों के मत में अप्रामाण्य का जन्म स्वतः और प्रामाण्य का परतः माना जाता है। वेदवादी मीमांसकों के मत में प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाण्य परतः माना जाता है। इस प्रकार सब आचार्यों के परस्पर मतभेद होने पर भी मीमांसक स्वतःप्रामाण्य को ही युक्त मानते हैं। नैयायिक इस बात को नहीं मानते। वे परतःप्रामाण्य मानते हैं। अतः, मीमांसकों से इनका प्रश्न होता है—स्वतःप्रामाण्य का तात्पर्य क्या है? क्या प्रामाण्य का स्वतः जन्म होता है, अर्थात् ज्ञानगत जो प्रामाण्यरूप धर्म है, क्या वह स्वयं उत्पन्न हो जाता है अथवा अपने आश्रय-ज्ञान से, या ज्ञान की कारण-सामग्री से उत्पन्न होता है? ये तीन विकल्प हैं। खौद्या विकल्प है कि ज्ञान के जितने साधारण कारण है, उनसे उत्पन्न जो ज्ञान-विशेष है, क्या उसीमें प्रामाण्य रहता है?

ज्ञानगत प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न होता है, यह पहला पक्ष तो मान नहीं सकते; क्योंकि कार्य-कारण में भेद का रहना वास्तव में स्वामायिक है। यदि कार्य अपने से ही उत्पन्न होने लगे, तब तो कार्य-कारण में भेद नहीं रहेगा, और भेद-सामानाधिकरण का नियम भङ्ग हो जायगा। यदि स्वाध्य ज्ञान से प्रामाण्य की उत्पत्ति मानें, तो भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि ज्ञान से यदि उत्पत्ति मानेंगे, तो ज्ञान को समवायी कारण मानना होगा। ज्ञान गुण है, यह समवायी कारण हो नहीं सकता; क्योंकि समवायी कारण द्वय द्वी ही होता है, यह नियम है—‘समवाय-कारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विशेषम्’।

तात्पर्य यह है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, यह किसी का समवायी कारण नहीं होता। यदि प्रामाण्य का कारण मानते हैं, तो सिद्धान्त-भङ्ग हो जायगा। अतः, द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं हुआ। ज्ञान-सामग्री से जन्म यह सूतीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण यह है कि प्रामाण्य को जाति या उपाधि कुछ भी मानें, तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि वह नित्य है। तात्पर्य यह है कि प्रमाणभूत अनेक ज्ञान में रहनेवाला जो सर्वानुग्रह धर्मविशेष है, वही प्रामाण्य है। इसी प्रकार के

जिस प्रकार भाव कारण और कार्य दोनों होता है, उसी प्रकार अभाव भी कार्य के सदृश ही कारण भी होता है। यद्यपि अभाव किसीका समवायी कारण नहीं होता, तथापि निमित्त कारण होने में कोई वाधक नहीं है। अतः, अभाव निमित्त कारण होता है, यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार, स्वतःप्रामाण्य के पाँच प्रकार के जो निर्वचन किये ये, उनमें एक के भी ठीक नहीं होने से स्वतःप्रामाण्य-पक्ष सिद्ध नहीं होता, बल्कि नैयायिकों का परतःप्रामाण्य सिद्धान्त ही सिद्ध होता है। परतःप्रामाण्य अनुमान से भी सिद्ध होता है—विवादास्पद प्रामाण्य (पक्ष)-ज्ञान का हेतु अतिरिक्त हेतु के अधीन है (साथ्य) कार्य होकर ज्ञानविशेष के आश्रित होने के कारण (हेतु), अप्रामाण्य के सदृश (दृष्टान्त)। प्रकृत में, ज्ञान के कारण जो इन्द्रिय आदि हैं, उनसे भिन्न दोपाभाव-रूप कारण भी प्रामाण्य की उत्पत्ति में विद्यमान है, इस कारण परतःप्रामाण्यवाद नैयायिकों का सिद्ध हो जाता है।

जिस प्रकार, प्रामाण्य की उत्पत्ति परतः होती है, उसी प्रकार उसका ज्ञान भी परतः होता है; इसमें भी अनुमान-प्रमाण दिया जाता है—प्रामाण्य, परतः ज्ञान का विषय है, अनन्याच-दशा में संशययुक्त होने के कारण, अप्रामाण्य के सदृश। इसका तात्पर्य यह है कि जिन इन्द्रियादि के द्वारा ज्ञान का व्यष्टि होता है, उन्हींके द्वारा उसके प्रामाण्य का बोध नहीं होता, उसके लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे अज्ञात मार्ग से जाता हुआ मनुष्य दूर से ही कहीं जल का ज्ञान करता है, जल का ज्ञान होने पर बाद में यह जल-ज्ञान यथार्थ है या नहीं, इस प्रकार का संशय उत्पन्न होता है। अनन्तर, समीप में जाकर जब जल प्राप्त करता है, तब उसका संशय निवृत्त होता है। और, पूर्व में उत्पन्न जल-ज्ञान प्रमा था, सफल प्रवृत्ति के जनक होने के कारण। जो प्रमा नहीं है, वह सफल प्रवृत्ति का जनक नहीं है, जैसे अप्रमा। इस अनुमान से जलज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय करता है। यदि ज्ञान की ज्ञापक सामग्री से ही प्रामाण्य का ज्ञान मानें, तब तो ज्ञान के उत्पत्ति-काल में ही, उसमें रहनेवाला प्रामाण्य का भी ज्ञान होना अनिवार्य होगा। इस स्थिति में, संशय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए, प्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञाति (ज्ञान) दोनों में ही परतः प्रामाण्य है, यह नैयायिकों का मत सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक नैयायिकों का आचेप है।

इसके उत्तर में मीमांसक कहते हैं कि नैयायिकों का यह 'कहना कि स्वतःप्रामाण्य का निर्वचन नहीं बनता, इसलिए परतः प्रामाण्य मानना चाहिए, यह सब व्यर्थ का बाद है। स्वतःप्रामाण्य का निर्वचन भली भाँति युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है। प्रामाण्य का स्वतःसिद्धत्व यह है कि जो विज्ञान-सामग्री से जन्य और उससे भिन्न हेतु से अजन्य हो, वही प्रामाण्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस सामग्री से विज्ञान उत्पन्न होता है, उसीसे उस विज्ञान में रहनेवाला प्रामाण्य भी उत्पन्न होता है, प्रामाण्य की उत्पत्ति में गुण या दोपाभाव कोई भी दूसरा हेतु नहीं होता है। दोप तो केवल प्रमा का प्रतिबन्धक-मात्र है। यह मीमांसकों का मत है। स्वतःप्रामाण्य में,

इन्द्रियत्व रहता ही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अयथार्थ ज्ञान में भी ज्ञान-सामान्य-सामग्री-जन्यत्व रहती है, उसका विधात नहीं होता। इस स्थिति में, उक्त जो अयथार्थ ज्ञान है, वह ज्ञान की सामान्य-सामग्री से उत्पन्न और ज्ञानविशेष ही है, और इसके आश्रित अप्रामाण्य है। इस अप्रामाण्य में भी उक्त प्रामाण्य-लक्षण की प्रसक्ति होने से अतिव्यासि-दोष हो जाता है। इसलिए चतुर्थ विकल्प भी युक्त नहीं होता है, यह सिद्ध हुआ।

यद्यपि अयथार्थ ज्ञान ज्ञान-सामान्य-सामग्री से उत्पन्न है, तथापि उस अयथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति में एक दोष भी अधिक कारण हो जाता है, इसलिए ज्ञान-सामान्य-सामग्री-मात्र से जन्य नहीं है, इसलिए अतिव्यासि-दोष नहीं होगा, इसी अभिप्राय से प्रथम विकल्प किया है, जिसमें ज्ञान की सामान्य-सामग्री-मात्र से उत्पन्न ज्ञानविशेष का स्वतः प्रामाण्य का आश्रित होना, बताया गया है। परन्तु, यह पक्ष भी युक्त नहीं है; क्योंकि इसमें भी दो विकल्पों का समाधान नहीं होता है। जैसे, उक्त पक्ष विकल्पों में ज्ञान-सामग्री-मात्र से जन्य का क्या तात्पर्य है, दोपाभाव से सहकृत ज्ञान-सामग्री से जन्य उसका तात्पर्य है अथवा दोपाभाव से असहकृत ज्ञान-सामग्री से जन्य। जिस प्रकार, अयथार्थ ज्ञान-स्थल में ज्ञान की सामान्य-सामग्री की अपेक्षा एक दोष भी अधिक कारण रहता है, जिसकी व्यावृत्ति-मात्र पद से करते हैं; उसी प्रकार यथार्थ ज्ञान-स्थल में भी सामान्य-कारण-सामग्री की अपेक्षा एक दोषाभाव भी अधिक कारण रहता है, उसकी व्यावृत्ति पद मात्र से करते हैं, या नहीं। यदि पद मात्र से उसकी व्यावृत्ति करते हैं, तब तो प्रामाण्य-लक्षण का कोई भी उदाहरण नहीं मिल सकता, इसलिए असम्भव-दोष हो जाता है। दोपाभाव की व्यावृत्ति नहीं होती, इसी अभिप्राय से प्रथम पक्ष का उपन्यास किया और यथार्थ ज्ञान-स्थल में दोपाभाव कारण होता ही नहीं, इसलिए उसकी व्यावृत्ति करने पर भी कोई ज्ञाति नहीं है, इस अभिप्राय ने द्वितीय पक्ष का उपन्यास किया।

दूसरे शब्दों में, यथार्थ ज्ञान-स्थल ने दोपाभाव कारण नहीं होता, इसका क्या तात्पर्य है? क्या दोपाभाव ज्ञान के उत्पन्न करने में इन्द्रियों का सहायक-मात्र होता है, स्वतन्त्र कारण नहीं, यह अभिप्राय है? या स्वरूप रहित होने से दोपाभाव किसीका कारण होता ही नहीं!

पहला पक्ष तो कह नहीं सकते; क्योंकि ज्ञानोत्पत्ति में इन्द्रियों की सहायता दोपाभाव अवश्य करता है; क्योंकि दोपाभाव के रहने पर यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, और दोपाभाव के न रहने पर यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इस अन्वयव्यतिरेक से यथार्थ ज्ञान के प्रति दोपाभाव कारण अवश्य होता है, यह छिद्र होता है। यदि स्वरूपरहित होने से दोपाभाव कारण नहीं होता, यह कहें, तो उनसे यह प्रश्न होता है कि अभाव कार्य होता है या नहीं? यदि अभाव कार्य नहीं होता, यह कहें, तब तो घट के स्वंसाभाव-रूप कार्य के न होने से घट नित्य होने लगेगा। यदि अभाव को कार्य मानते हैं, तब तो कार्य के सदृश कारण भी अवश्य होगा। उदयनाचार्य ने भी कुमुमाङ्कलि में लिखा है कि 'भावो यथा तथाऽभावः कारणं कार्यवन्मतः', अर्थात्

इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि ज्ञान को सम्पूर्ण कारण-प्रामाणी के रहने पर भी यदि संशय उत्पन्न होता है, तो यही समझना चाहिए कि प्रामाण्य के प्रतिवन्धक दोष का समवधान कुछ अवश्य है। दोष का समवधान ही प्रामाण्य-ज्ञान का प्रतिवन्धक हो जाता है, जिससे संशय उत्पन्न होता है। इसलिए, प्रामाण्य के स्वतःसिद्ध होने में कोई साधक नहीं है, अतः स्वतःप्रामाण्य सिद्ध हो जाता है।

अब नैयायिकों के ग्रन्थ सिद्धान्ती का यह अन्तिम प्रश्न होता है—परतःप्रामाण्य का साधक जो आपका अनुमान है, वह स्वतः ऐ, अथवा परतः ? यदि स्वतः कहें, तो ठीक नहीं होता; क्योंकि आपके सिद्धान्त के प्रतिकूल है। और, प्रामाण्य परतः प्राप्त है, यह जो आपका नियम है, वह व्यभिचरित हो जाता है, इसलिए, आपके अनुमान में अनैकानिक नाम का द्वेष्वाभास हो जाता है। यदि परतः कहें, सो भी ठीक नहीं होता, कारण यह है कि उक्त अनुमान के प्रामाण्य के लिए अनुमानान्तर की आवश्यकता होगी, पुनः उसके प्रामाण्य के लिए अन्य की। इस प्रकार, अनवस्था-दोष परतःप्रामाण्यवादी के गलेपतित है, इसलिए स्वतःप्रामाण्यवाद ही युक्त और मान्य है, यह सिद्धान्ती मीमांसक का मत है।

एक बात और है कि किसी अत्यन्त अभिलिखित पदार्थ को देखते ही उसे प्राप्त करने के लिए फटिति प्रवृत्ति हो जाती है। किन्तु परतः प्रामाण्य के लिए अनुमानादि किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा होगी। इससे शीघ्र प्रवृत्ति जो होती है, वह नहीं बनती, अतः स्वतःप्रामाण्य मानना समुचित होता है।

नैयायिकों का कहना है कि प्रवृत्ति में ज्ञान-प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु प्रामाण्य-निष्ठय के बिना ही इच्छामात्र से फटिति प्रवृत्ति हो जाती है। जितनी अधिक इच्छा होगी, उतनी ही शीघ्र प्रवृत्ति भी होगी, इसमें प्रामाण्य की आवश्यकता नहीं है। उद्यनाचार्य ने कुमुखालि में लिखा है—‘प्रवृत्तिर्हीच्छामपेक्षते, तत्पात्रुर्यद्वच्छाप्रातुर्यम्, इच्छा चेष्टसाधनताज्ञानम्, तच्चेष्टजातीयत्वलिङ्गानुभवम्, सोऽपीन्द्रियार्थसन्निकर्षम्, प्रामाण्यग्रहणन्तु न क्षचिदुपयुज्यते।’ अर्थात्, प्रवृत्ति इच्छा की अपेक्षा करती है, प्रवृत्ति का प्रातुर्य इच्छा की प्रचुरता की अपेक्षा करता है, अर्थात् जैसे-जैसे इच्छा वलवती होगी, वैसे ही अधिक तीव्रगति से प्रवृत्ति होगी। इच्छा का कारण इष्टसाधनता का ज्ञान है, अर्थात् यस्तु में इष्टसाधनता का ज्ञान जितना अधिक होगा, उतनी ही इच्छा भी वलवती होगी। इष्टसाधनता के ज्ञान में इष्ट जातीयता के लिङ्ग का अनुभव कारण होता है, प्रामाण्य-ज्ञान का उपयोग कहीं पर भी नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रवृत्ति में प्रामाण्य-ज्ञान का कहीं भी उपयोग नहीं है, वेवल इच्छा की अधिकता होने से ही प्रवृत्ति में तीव्रता होती है, इसलिए स्वतःप्रामाण्य नहीं बनता; किन्तु परतःप्रामाण्यवाद ही सिद्ध होता है।

इसके उत्तर में मीमांसक कहते हैं कि उद्यनाचार्य का यह कहना कि प्रवृत्ति में प्रामाण्य-ज्ञान का कहीं उपयोग नहीं है, सर्वपा असत्य और पूलि-प्रक्षेपमात्र है। कारण यह है कि इच्छा के प्रति इष्टसाधनता का ज्ञान कारण

इनके मत में अनुमान का स्वरूप—विवादास्पद प्रामाण्य (पक्ष) विज्ञान-सामग्री से जन्य और उससे भिन्न हेतु से अजन्य है (साध्य) अप्रमा के अनाशय होने के कारण (हेतु), घटादि प्रमा के सदृश (दृष्टान्त)।

यहाँ एक बात और जान लेना चाहिए कि पक्ष का एक देश भी जहाँ साध्यत्वेन निश्चित है, दृष्टान्त में दिया जाता है। जिस प्रकार सकल प्रपञ्च को पक्ष मानकर कार्यत्व-हेतु से सकर्त्तृकत्व सिद्ध करने में घट को दृष्टान्त दिया जाता है, जो पक्ष का एक देश ही है। इसलिए, प्रकृत में जो प्रमा का दृष्टान्त घट दिया है, वह युक्त ही है। यदि यह कहें कि पूर्वोक्त उदयनाचार्य के अनुमान से प्रामाण्य का स्वतःसिद्ध होना निश्चित ही चुका है, इसलिए परतःप्रामाण्य ही युक्त मानना चाहिए, तो इसके उत्तर में मीमांसकों का कहना है कि उदयनाचार्य का जो अनुमान है, वह सत्प्रतिपक्ष दोष से दूषित होने से अग्राह्य है। प्रमा (पक्ष) दोषहेतु के और ज्ञान के सामान्य हेतु के जो अतिरिक्त है, उससे जन्य नहीं है (साध्य) ज्ञानत्व होने से (हेतु), अप्रमा के सदृश (दृष्टान्त)। यहाँ दोष हेतु के अतिरिक्त विशेषण इसलिए दिया है कि अप्रमा-ज्ञान ज्ञानहेतु के अतिरिक्त दोष से भी जन्य होता है, अतः दृष्टान्त नहीं हो सकता। यह अनुमान उदयनाचार्य के अनुमान का प्रतिपक्ष है, इसलिए साध्याभाव के साधक होने से सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभाव हो जाता है, अतएव उनका अनुमान ठीक नहीं है। अतः, परतःप्रामाण्य युक्तियुक्त न होने से स्वतःप्रामाण्य ही मान्य है, यह मीमांसकों का सिद्धान्त है।

अब यह आशङ्का होती है कि दोष यदि अप्रमा का हेतु होता है, तो दोषाभाव भी प्रमा के प्रति हेतु अवश्य होगा, अतः परतःप्रामाण्य मानना युक्त होता है। इसके उत्तर में मीमांसकों का कहना है कि यह शङ्का युक्त नहीं है, कारण यह है कि दोषाभाव अप्रमा का प्रतिबन्धकमात्र है, इसलिए वह अन्यथासिद्ध है। और, अन्यथा-सिद्ध कारण नहीं होता, यह नैयायिकों को भी मान्य है, जिस प्रकार दण्डत्व या दण्डरूप अन्यथासिद्ध होने से नियत पूर्ववर्ती रहने पर भी घट के प्रति कारण नहीं होता। यदि यह कहें कि कारण नहीं है, तो दण्डरूप कार्य से घट नियत पूर्ववर्ती कैसे हुआ? इसका उत्तर यह है कि घट के प्रति कारणत्वेन अभिमत जो दण्ड है, वह दण्डत्व या दण्डरूप के बिना रह नहीं सकता, इसलिए दण्डत्व और दण्डरूप ये दोनों अन्यथासिद्ध हैं।

इसी प्रकार, प्रमा-ज्ञान के प्रति दोषाभाव नियत पूर्ववर्ती होने पर भी प्रमा का कारण नहीं होता। दोषाभाव प्रमा के प्रति नियत पूर्ववर्ती इसलिए है कि दोष अप्रमा का हेतु है। इसी कारण, दोष रहने पर प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए, प्रमा-ज्ञान-स्थल में नियत पूर्ववर्ती जो दोषाभाव है, उससे अप्रमा का प्रतिबन्धमात्र होता है। प्रमा के उत्पादन में दोषाभाव का कोई उपयोगी व्यापार नहीं होता है, इसलिए दोषाभाव, प्रमा के प्रति अन्यथासिद्ध होने से, कारण नहीं हो सकता। एक शङ्का और होती है कि ज्ञान के उदयकाल में ही यदि प्रामाण्य की उत्पत्ति मान लैं, तब तो संशय का अवकाश ही नहीं होता। और, संशय होता है, इससे यह समझा जाता है कि प्रामाण्य का ज्ञान स्वतः नहीं, किन्तु परतः है।

इसके उत्तर में सिद्धान्तों का कहना है कि ज्ञान को सम्पूर्ण कारण-सामग्री के रहने पर भी यदि संशय उत्पन्न होता है, तो वही समझना चाहिए कि प्रामाण्य के प्रतिवन्धक दोष का समवधान कुछ अवश्य है। दोष का समवधान ही प्रामाण्य-ज्ञान का प्रतिवन्धक हो जाता है, जिससे संशय उत्पन्न होता है। इसलिए, प्रामाण्य के स्वतःसिद्ध होने में कोई बाधक नहीं है, अतः स्वतःप्रामाण्य सिद्ध हो जाता है।

अब नैयायिकों के प्रति सिद्धान्तों का यह अन्तिम प्रश्न होता है—परतःप्रामाण्य का बाधक जो आपका अनुमान है, वह स्वतः ऐ, अथवा परतः? यदि स्वतः कहें, तो ठीक नहीं होता; क्योंकि आपके सिद्धान्त के प्रतिकूल है। और, प्रामाण्य परतः प्राप्त है, यह जो आपका नियम है, वह अभिचरित हो जाता है, इसलिए, आपके अनुमान में अनैकान्तिक नाम का हेतुभाव हो जाता है। यदि परतः कहें, तो भी ठीक नहीं होता, कारण यह है कि उक्त अनुमान के प्रामाण्य के लिए अनुमानान्तर की आवश्यकता होगी, पुनः उसके प्रामाण्य के लिए अन्य की। इस प्रकार, अनवस्था-दोष परतःप्रामाण्यवादी के गलेपतित है, इसलिए स्वतःप्रामाण्यवाद ही युक्त और मान्य है, यह सिद्धान्ती मीमांसक का भत है।

एक दात और है कि किसी अत्यन्त अभिलिप्ति पदार्थ को देखते ही उसे प्राप्त करने के लिए कठिनि प्रवृत्ति हो जाती है। किन्तु परतः प्रामाण्य के लिए अनुमानादि किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा होगी। इससे शीघ्र प्रवृत्ति जो होती है, वह नहीं बनती, अतः स्वतः प्रामाण्य मानना समुचित होता है।

नैयायिकों का कहना है कि प्रवृत्ति में ज्ञान-प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु प्रामाण्य-निश्चय के बिना ही इच्छामात्र से कठिनि प्रवृत्ति हो जाती है। जितनी अधिक इच्छा होगी, उतनी ही शीघ्र प्रवृत्ति भी होगी, इसमें प्रामाण्य की आवश्यकता नहीं है। उदयनाचार्य ने कुसुमाङ्कलि में लिखा है—‘प्रवृत्तिर्द्वच्छामपेत्तते, तत्प्राचुर्यव्यवेच्छाप्राचुर्यम्, इच्छा चेष्टाधनताशानम्, तच्चेष्टजातीयत्वलिङ्गानुभवम्, चोऽपीन्द्रियार्थसञ्चिकर्पम्, प्रामाण्यग्रहणन्तु न क्वचिदुपयुज्यते।’ अर्थात्, प्रवृत्ति इच्छा की अपेक्षा करती है, प्रवृत्ति का प्राचुर्य इच्छा की प्रचुरता की अपेक्षा करता है, अर्थात् जैसे-जैसे इच्छा बलवती होगी, वैसे ही अधिक तीव्रता से प्रवृत्ति होगी। इच्छा का कारण इष्टाधनता का ज्ञान है, अर्थात् वस्तु में इष्टाधनता का ज्ञान जितना अधिक होगा, उतनी ही इच्छा भी बलवती होगी। इष्टाधनता के ज्ञान में इष्ट जातीयता के लिङ्ग का अनुभव कारण होता है, और इस अनुभव में इन्द्रिय और विषय का सत्तिकर्प कारण होता है, प्रामाण्य-ज्ञान का उपयोग कहीं पर भी नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रवृत्ति में प्रामाण्य-ज्ञान का कहीं भी उपयोग नहीं है, वेवल इच्छा की अधिकता होने से ही प्रवृत्ति में तीव्रता होती है, इसलिए स्वतःप्रामाण्य नहीं बनता; किन्तु परतः प्रामाण्यवाद ही सिद्ध होता है।

इसके उत्तर में भीमांसक कहते हैं कि उदयनाचार्य का यह कहना कि प्रवृत्ति में प्रामाण्य-ज्ञान का कहीं उपयोग नहीं है, सर्वथा असत्य और धूलि-प्रक्षेपमात्र है। कारण यह है कि इच्छा के प्रति इष्टाधनता का ज्ञान कारण

होता है, यह उन्होंने कहा है। अब उनसे यह पूछना है कि वह इष्टसाधनता का ज्ञान, जिसे इच्छा का कारण मानते हैं, प्रामाणिक होना चाहिए या अप्रामाणिक! अप्रामाणिक तो कह नहीं सकते; क्योंकि युक्ति और न्याय से वह असङ्गत है। यदि प्रामाणिक मानते हैं, तब तो उस प्रामाण्य को स्वतः सिद्ध मानना ही होगा; क्योंकि अनुमान से उसका निश्चय नहीं होता। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति तभी होती है, जब उस वस्तु की इच्छा हो, और इच्छा तभी होगी, जब यह ज्ञान हो कि यह वस्तु हमारे इष्ट का साधन है, और यह इष्ट-साधन होने का ज्ञान, प्रामाणिक होना चाहिए, नहीं तो उन्देहात्मक ज्ञान से इच्छा या प्रवृत्ति कुछ भी नहीं हो सकती। किन्तु, प्रवृत्ति होती है, इससे सिद्ध होता है कि इष्टसाधनता का ज्ञान प्रामाणिक है, और वह प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न हुआ है।

एक बात और भी है कि संशय से निश्चित प्रवृत्ति यदि कहीं भी एक जगह हो, तब तो प्रमाण-निश्चय के बिना ही सर्वत्र प्रवृत्ति होने लगेगी, इस स्थिति में प्रमाण का निश्चय भी व्यर्थ हो जायगा। इससे सिद्ध होता है कि संशय से कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होती, इसीलिए कहा गया है कि अनिश्चित वस्तु का सत्त्व दुर्लभ है, यदि अनिश्चित का भी सत्त्व सुलभ होता, तब तो प्रामाण्य का उपयोग ही कुछ नहीं होता। इसलिए, सदृवस्तु का बोधक होने के कारण ही बुद्धि का प्रामाण्य होता है। युक्ति आदि वस्तुओं के रजतादि रूप से जो अवभास है, उससे उत्पन्न दोषज्ञान प्रामाण्य का प्रतिवन्धक होता है—

‘तस्मात्सद्बोधकवेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता ।

अर्थात् यथात्वहेत्यथदोपज्ञानादपोद्धारे ॥’

इस प्रकार, विधि, अर्थवाद, भन्त्र और नामधेय इन चार भागों में विभक्त जो वेद है, वह धर्म के विषय में स्वतः प्रमाण है, यह सिद्ध हो जाता है। अज्ञात अर्थ का ज्ञापक जो वेदवाक्य है, वह विधि है—‘अग्निहोत्रं ज्ञायात्स्वर्गकामः’, यह वाक्य अन्य प्रमाण से अप्राप्त स्वर्गफलवाले होम का विधान करता है, इसलिए विधि है। प्रशंसा या निन्दाप्रक वेदवाक्य को अर्थवाद कहते हैं। ‘वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता’, वायु-देवता की इस स्तुति द्वारा ‘वायव्यं श्वेतमालमेत्’, इस विधि की प्रशंसा करता है। ‘सोरोदीन्तद्वद्रस्य ददत्यम्’, इससे रजत की निन्दा का बोधन करता है। प्रयोग में, समवेत अर्थ के स्मारक वेदवाक्य को मन्त्र कहते हैं। ‘स्थोनं ते सदनं कृणोमि’, इस मन्त्र का, पुरोडाश के सुखकर अशन द्वारा, यज्ञादि कर्म में उपयोग होता है। अर्थ का स्मरण मन्त्र संही करना चाहिए, इसलिए मन्त्रों का आमनाय होता है। नामनिर्देशपूर्वक याग के विधान को नामधेय कहते हैं—‘श्वेतेनाभिचरन् यजेत्’, ‘उद्दिमदा यजेत् पशुकामः’ इत्यादि नामधेय कहलाने हैं।



अपने मत को श्रेष्ठ बताना। दूसरे के भतो का खण्डन और अपने सिद्धान्तों का व्यवस्थापन ही 'विचार' कहा जाता है। तृतीय पाद में, पञ्चमहाभूतपरक और जीवपरक श्रुतियों में जो परस्पर-विरोध है, उनका परिहार किया गया है। चतुर्थ पाद में, लिङ्ग-शरीर के विषय में जो श्रुतियाँ हैं, उनमें परस्पर-विरोध का परिहार किया गया है। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में, जीव के परलोक-गमनागमन के विचार के साथ वैराग्य का विचार किया गया है। द्वितीय पाद में, 'तत्त्वमस्ति' वाक्य में 'तत्' और 'त्वम्' का अनुसन्धान किया गया है। तृतीय पाद में, सगुण विद्याओं के विषय में गुणोपसंहार किया गया है। विभिन्न स्थानों में प्रतिपादित लो उपास्य गुण हैं, उनके एक स्थान पर संग्रह करने का नाम गुणोपसंहार है। चतुर्थ पाद में, निर्गुण ब्रह्म-विद्या का जो अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग साधन है—जैसे, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आदि आश्रम हैं और यज्ञ आदि बहिरङ्ग साधन हैं तथा शम, दम आदि अन्तरङ्ग साधन हैं—उन पर विचार किया गया है। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में, पाप-पुण्य के अभावरूप मुक्ति का विचार किया गया है। इसीको 'जीवन्मुक्ति' कहते हैं। द्वितीय पाद में, मरण के उत्करण का प्रकार दिखाया गया है। तृतीय पाद में सगुण ब्रह्म की उपासना के उत्तर-मार्ग का वर्णन है। चतुर्थ पाद में, विदेह-कैवल्य, ब्रह्मलोकावस्थान आदि मुक्तियों का वर्णन है। निर्गुण ब्रह्मज्ञानियों की विदेह-मुक्ति और सगुण ब्रह्मज्ञानियों का ब्रह्मलोक में अवस्थान बताया गया है। ब्रह्म-सूत्र के प्रतिपाद्य विषयों का यह संक्षेप में निर्दर्शन हुआ।

प्रत्येक पाद में अनेक अधिकरण हैं। उनके विषयों में भी लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण के अन्तर्गत एक अवान्तर प्रकरण होता है, जिसमें एक विषय को लेकर 'संशय-पूर्वपक्ष' के प्रदर्शनपूर्वक सिद्धान्त का व्यवस्थापन किया जाता है, उसीको अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में पाँच अवयव होते हैं—(१) विषय, (२) संशय, (३) पूर्वपक्ष, (४) निर्णय और (५) संगति। इस प्रकार, वेदान्त-सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ग्यारह अधिकरण हैं। द्वितीय पाद में सात, तृतीय पाद में चौदह और चतुर्थ में आठ हैं। कुल मिलाकर प्रथम अध्याय में ४० अधिकरण हैं। द्वितीय अध्याय में ४६, तृतीय में ६७ और चतुर्थ में ३८। कुल मिलाकर चारों अध्यायों में १६१ अधिकरण हैं। प्रत्येक अधिकरण में संशय और पूर्वपक्ष के प्रदर्शनपूर्वक सिद्धान्त का व्यवस्थापन किया गया है। उदाहरण के लिए प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र लीजिए—'अथातो ब्रह्मज्ञासा', इस अधिकरण का विषय है—'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः शोत्रब्यो मन्त्रब्यो निदिध्यासितश्च'। यह वृहदारण्यक-श्रुति का मन्त्र है, जिसका तात्पर्य है—थवण, मनन, निदिध्यासन-रूप ब्रह्म का विचार करना चाहिए या नहीं? इस संशय का कारण यह है कि जानने की इच्छा असन्दिग्ध वस्तु के सम्बन्ध में नहीं होती और न उस वस्तु के सम्बन्ध में ही होती है, जिससे कोई प्रयोजन न हो। उदाहरणार्थः कौए के कितने दाँत होते हैं, यह जानने की इच्छा किसीको नहीं होती। उसके जानने से कोई लाभ नहीं होता; पर्याप्ति, उस प्रकार का ज्ञान निरर्थक होता है।

## ब्रह्म की जिज्ञासा तथा ब्रह्म-विचार-शास्त्र की प्रयोजनीयता

ब्रह्म-जिज्ञासा में यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्म शात है अथवा अशात ? यदि शात है, तो सन्देह होगा ही नहीं, तो फिर जिज्ञासा कैसी ? किंवा, यदि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो भी कोई जिज्ञासा सिद्ध नहीं हो सकती। अब ब्रह्म जिज्ञास्य है या नहीं, यह पूर्वपक्ष है। यह असंदिग्ध है; क्योंकि 'अयमात्मा ब्रह्म', इसमें 'मैं' का प्रत्यक्षात्मक अनुभव प्राणिमात्र को ही है। 'मैं हूँ अथवा नहीं', यह किसीको सन्देह नहीं होता। इस पर यह शङ्का होती है कि 'मैं गोरा हूँ, काला हूँ, दुबला हूँ, मोटा हूँ', यदी क्या 'मैं' का स्वरूप है ? उत्तर में निवेदन है कि गोरा, काला या दुबला, पतला होना तो देह का धर्म है, आत्मा का नहीं। देह के अतिरिक्त आत्मा का भान बड़ी कठिनाई से होता है। शरीर से अहम् का जो बोध है, उसमें बाल्यावस्था में प्राप्त क्रीड़ा-रस का अनुभव, युवावस्था में प्राप्त विषय-रस का अनुभव और वृद्धावस्था में प्राप्त विरक्ति का अनुभव, इन सबका स्मरण होने के कारण यह स्पष्ट है कि यह इन बदलते हुए तत्त्वों के भीतर से अपने आपमें अद्य और अखण्ड है। बाल्यकाल में जो शरीर था, वह युवावस्था में नहीं है। जो आज है, वह कल बदल जायगा। यह हम सभी को अनुभव है और अन्य का जो अनुभूत है, उसका अन्य स्मरण नहीं करता, यह नियम सर्वसिद्धान्त है। कुसुमाळिलि में आया है—'नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यः', अर्थात् दूसरे का अनुभव दूसरे को स्मरण नहीं होता। इस अवस्था में देह आदि के अतिरिक्त आत्मा ही 'अहम्' है, ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए, आत्मा असंदिग्ध है। उसकी जिज्ञासा नहीं हो सकती। यह पूर्वपक्ष सिद्ध होता है।

पुनः दूसरी शङ्का है कि जिस प्रकार वीलुपाक-प्रक्रिया और पिठरपाक-प्रक्रिया इन दोनों पक्षों में एक घटादि वस्तु में भी काल-मेद से परिमाण का मेद युक्त माना गया है, उसी प्रकार एक शरीर नामक वस्तु में भी काल-मेद से परिमाण-मेद के मान लेने पर भी बाल्यावस्था, युवावस्था वृद्धावस्था के शरीर के एक होने में कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात्, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि परिणाम-मेद होने पर भी देह एक ही है और वही 'अहम्' है। चार्वाक-मत में देह आत्मा से अभिन्न है। जब देह अहम् का विषय होता है, तब आत्मा सन्दिग्ध ही रहता है, इसलिए उसकी जिज्ञासा हो सकती है और उसके लिए शास्त्र का आरम्भ भी आवश्यक हो जाता है, यह शङ्का करनेवालों का सात्यर्थ है। इसके उत्तर में पूर्वपक्षी कहते हैं कि यह भी ठीक नहीं है। जैसे, योगी या मान्त्रिक योगवल या मन्त्रवल से अनेक शरीर धारण करता है, वैसे जीवात्मा भी कर्मवल से अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। यहाँ आत्मा से देह भिन्न है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिए, देह से भिन्न आत्मा ही 'अहम्'-प्रतीति का विषय है, यह स्पष्ट है।

जिस प्रकार, शरीर 'अहम्'-प्रतीति का विषय नहीं होता, उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी 'अहम्'-प्रतीति का विषय नहीं होतीं। कारण यह है कि यदि इन्द्रियों को 'अहम्' मानें, तो चक्षुरन्दिय के नष्ट हो जाने पर जो रूप की प्रतीति होती है, वह नहीं हो सकती।

क्योंकि, अन्य की जो हट वस्तु है, उसका अन्य स्मरण नहीं करता, यह नियम प्रतिद्वंद्व है। जिस प्रकार, चैत्र ने जिस वस्तु को देखा, उसका स्मरण मैत्र नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिस वस्तु को चक्षु ने देखा है, उस वस्तु का स्मरण चक्षु के नष्ट हो जाने पर नहीं हो सकता। क्योंकि, देखनेवाला चक्षु अब नहीं है और चक्षु के न रहने पर उस रूप का स्मरण होता है। इससे सिद्ध है कि इन्द्रिय भी अहम् का विषय नहीं है। इसी प्रकार, मन आदि जो अन्तःकरण हैं, वे भी अहम् का विषय नहीं होते। क्योंकि, साधन का, विश्व धर्म के आश्रय होने से, कर्त्ता से भिन्न होना निश्चित है। मन आदि अन्तःकरण भी कर्त्ता के शान का साधन होने से शान के प्रति साधन है। इसलिए, शान का कर्त्ता जो अहम् शब्दार्थ है, उसमें भिन्न अन्तःकरण है, यह सिद्ध है। जैसे, आरी आदि इधियार बढ़दृढ़ के साधन हैं, फिर भी वे बढ़दृढ़ से भिन्न ही रहते हैं, वैसे ही आत्मा से अन्तःकरण भिन्न ही रहता है। इसलिए, आत्मा और अन्तःकरण के तादात्म्य न होने से अहम् का अर्थ अन्तःकरण भी नहीं होता।

अब यहाँ एक सन्देह रह जाता है कि यदि शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण से आत्मा को अत्यन्त भिन्न मानते हैं, तो 'मैं स्थूल हूँ, कृष्ण हूँ, अन्ध हूँ, बधिर हूँ, कामी हूँ, लोमी हूँ', इत्यादि व्यवहार जो लोक में होता है, उसका उच्छेद ही हो जायगा। इसके उत्तर में पूर्वपक्षी का कहना है कि व्यवहार का उच्छेद नहीं होगा। कारण यह है कि लोक और शास्त्र में दो प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक अभिधावृत्ति से और दूसरी लक्षणावृत्ति से। लक्षणावृत्ति को ही गौणी वृत्ति कहते हैं। जहाँ मुख्य अर्थ अनुपन्न रहता है, वहाँ गौण अर्थ की ही विवरण की जाती है। जैसे, 'मञ्चाः कोशन्ति', मचान चिङ्गाते हैं, यहाँ क्रोशन (चिङ्गाना)-रूप किया, जो चेतन का धर्म है, अचेतन मन्त्र में अनुपन्न है, इसलिए मन्त्र शब्द का मन्त्रस्थ, अर्थात् मचान पर रहनेवाले पुरुष में लक्षण की जाती है। इसलिए, 'मञ्चाः कोशन्ति' का अर्थ, मचान पर रहनेवाले चिङ्गाते हैं, किया जाता है। वैसे ही, यहाँ प्रकृत में भी अहम् शब्द से जिस जीवात्मा की प्रतीति होती है, उसमें स्थूलत्व, कृशत्व, गौरत्व, कृष्णत्व आदि धर्म का होना असम्भव है, इसलिए स्थूलत्व आदि धर्म से युक्त जो शरीर है, उससे युक्त अर्थ में लक्षण मानी जाती है। अतएव, 'गौरोऽहम्' 'स्थूलोऽहम्' इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। व्यवहार का उच्छेद नहीं होता।

यदि कहें कि अहम्-प्रत्यय से गम्य (प्रतीयमान) जो आत्मा है, उसकी जिज्ञासा नहीं करते, किन्तु श्रुति से जिस आत्मा का बोध होता है, उसकी जिज्ञासा कर रहे हैं और वह आत्मा अहम्-प्रत्यय से प्रतीत नहीं होता, इसलिए जिज्ञासा करनी चाहिए और जिज्ञासा होने से शास्त्र भी आरभणीय सिद्ध हो जाता है। इसके उत्तर में पूर्वपक्षी का कहना है कि श्रुति से जिस आत्मा की प्रतीति होती है, वही आत्मा अहम्-प्रत्यय से भी प्रतीत होता है। अर्थात्, 'अहम्'-प्रत्यय से प्रतीयमान जीवात्मा और श्रुति से प्रतीयमान परमात्मा में कुछ भेद नहीं है, यह पूर्वपक्षी का सिद्धान्त है। इस उक्ति में श्रुति का ही प्रमाण दिया जाता है। जैसे, 'सत्यं

शानमनन्तं ब्रह्म' इस तीक्ष्णिरीय श्रुति से ब्रह्म का बोध होता है। और, 'अहमात्मा ब्रह्म', इस बृहदारण्यक-श्रुति और 'तत्त्वमसि' इस छान्दोग्य-श्रुति से अहम्-प्रत्ययगम्य जो जीवात्मा है, उसीका बोध होता है, उससे मिज़ का नहीं। इसलिए, अहम्-प्रत्ययगम्य आत्मा के प्रत्यक्षतः सिद्ध होने से जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ शङ्का होती है कि जीवात्मा तो सांसारिक दुःख का भागी है और श्रुतिगम्य ब्रह्म को 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्', 'अप्राणोऽहमनाः', 'सदेव सौमेदमग्र आर्थीत्' (छान्दोग्य) इत्यादि श्रुतियों से निष्कल, निष्क्रिय, नित्य, शुद्ध और बुद्ध बताया गया है। यदि जीवात्मा और परमात्मा में अभेद मानें, तब तो उक्त श्रुतियों से विरोध हो जाता है। इसके उचर में पूर्वपक्षी का कहना है कि 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्' इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति अर्थवाद होने के कारण जीवात्मा का वेगल प्रशंसापरक है, स्वरूपबोधक नहीं, इसलिए विरोध नहीं हो सकता। इसमें यह सिद्ध होता है कि श्रुति से भी प्रतीयमान जो आत्मा है, उसका भी अहम्-प्रतीति से प्रत्यक्ष हो ही जाता है। इसके लिए, जिज्ञासा के निष्कल होने से, विचार-शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, ब्रह्मविचार-शास्त्र अनारम्भणीय है, यह सिद्ध होता है।

यहाँ पूर्वपक्षी का अनुमान भी इस प्रकार होता है—सन्देहास्पद ब्रह्म (पक्ष) अजिज्ञास्य है (साध्य) असन्दिग्ध होने से (हेतु), इस्ततल में स्थित आँखेले के सहश (दृष्टान्त)। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हाथ में स्थित आँखेले के विषय में किसीको जिज्ञासा नहीं होती; क्योंकि उसमें किसीको सन्देह ही नहीं है कि आँखेला है या अन्य कोई वस्तु, वरन् निश्चित आँखेला का स्पष्ट ज्ञान है; उसी प्रकार, अहम् (मैं), इस प्रत्यय से देहादि के अतिरिक्त जीवात्मा का बोध अवाधित रूप से प्राणिमात्र को विदित है, किसीको भी सन्देह नहीं है। इसलिए, ब्रह्म-जिज्ञासा के हेतु आत्म-विचार-शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, यह पूर्वपक्ष सिद्ध हो जाता है। जिज्ञासा के न होने का दूसरा कारण यह है कि जिज्ञासा का व्यापकर्थम् प्रयोजनत्व भी है। अर्थात्, जहाँ-जहाँ जिज्ञासा है, वहाँ-वहाँ जिज्ञासा का सप्रयोजन होना भी अनिवार्य है; क्योंकि व्यापक सप्रयोजनत्व धर्म के रहने से व्यापक जो जिज्ञास्यत्व धर्म है, यह कभी नहीं रह सकता। जैसे, अपि के बिना धूम नहीं रहता। प्रकृत में, जिज्ञासा का फल, जिसको अद्वैतवादी वेदान्ती मानते हैं, वस्तुतः फल ही नहीं है। क्योंकि, इनका कहना है कि पुण्यार्थ वही है, जिसको विद्वान् चाहें। विवेकशील विद्वान् निरपम और निरतिशय सुख को ही पुण्यार्थ मानते हैं। ऐहिक या पारलौकिक जो सुख है, उसको विवेकशील विद्वान् पुण्यार्थ नहीं मानते। अनेक प्रकार के जो सांसारिक सुख हैं, वे सब तारतम्य माव से अनुभूत होते हैं, अर्थात् किसीकी अपेक्षा अधिक होने पर भी किसी सुखविशेष की अपेक्षा वे अपकृष्ट भी होते हैं। इसमें कोई सुख भी सर्वोच्चम नहीं है। राज्य-सुख भी स्वर्ग-सुख की अपेक्षा अल्प है। इसी दृष्टान्त से स्वर्ग-सुख भी किसीकी अपेक्षा अपकृष्ट ही है। पारलौकिक सुख सांसारिक सुख की अपेक्षा कुछ ही विलक्षण है, इसलिए सांसारिक सुख के सहश ही पारलौकिक सुख भी सातिशय ही है, निरतिशय नहीं। जो निरतिशय सुख है, वही सब सुख से विलक्षण होने के

कारण निरूपम भी है, इसलिए विचारशीलों की दृष्टि से वही पुरुषार्थ माना जाता है। वह ऐसा सुख है कि उसमें किसी प्रकार के दुःख का भी लेश नहीं रहता। अर्थात्, वह ऐसा है, जिसमें दुःख की सम्भावना भी नहीं रहती, इसलिए वह सुखमय है। इससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं है, इसलिए वह पुरुषार्थ कहा जाता है। जिसमें दुःख का लेश-मात्र भी रहता है, वह पुरुषार्थ नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ का विरोधी वास्तविक दुःख ही है और दुःख का मूल भी विवेक-दृष्टि से दुःख ही है। इसलिए, दुःखों के मूल का ही त्याग करना विवेक-दृष्टि से समुचित प्रतीत होता है। इससे दुःख का मूल ही त्याज्य है, यह सिद्ध होता है। दुःख का मूल अविद्या ही है। अविद्या का ही पर्याय 'संसार' या 'अज्ञान' है। यही कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि सकल अन्यों के उत्पादक होने से दुःखों का मूल कहा जाता है। इसीका नाम मूलाज्ञान भी है। इसी मूलाज्ञान या अविद्या-शब्द का जो अर्थ है, वही वेदान्त-दृष्टि से 'संसार' है।

संसार शब्द में जो सम् उपर्युक्त है, उसका अर्थ एकीकरण होता है। 'आत्मानं देहेन एकीकृत्य स्वर्गनरकयोर्मार्गं सरति पुमान् येन संसारः', अर्थात् मनुष्य आत्मा को देह के साथ एककर स्वर्ग या नरक ( अच्छा या बुरा ) के मार्ग पर जिसके द्वारा जाता है, वही संसार है। संसार के ही द्वारा मनुष्य देह में श्रात्म-बुद्धि मानकर सकल सांसारिक व्यवहार का सम्पादन करता है। संसार का ही पर्यायवाचक शब्द सम्प्रेद या सङ्घम है। इससे सिद्ध होता है कि संसार अज्ञान, अविद्या इत्यादि शब्द का वाच्य जो दुःख है, उसीका त्याग करना ब्रह्म-जिज्ञासा का प्रयोजन है। इसी अभिप्राय से आचार्यों ने लिखा है—

‘अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च धन्ध उदाहृतः।’

अर्थात्, अविद्या का नाश होना ही मोक्ष है और अविद्या धन्ध को कहते हैं। संसार ही धन्ध है। इससे कृटकारा पाना ही मोक्ष है। यह इसका रहस्य है। यही ब्रह्म-विचार का फल है, ऐसा वेदान्तियों का सिद्धान्त है। इस पर पूर्वपक्षी का कहना है कि यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि, आत्मा के यथार्थ साक्षात्कार से ही संसार की निवृत्ति होती है, यह जो वेदान्तियों का कहना है, वह युक्त नहीं है। कारण यह है कि आत्मयात्म्यानुभव ( आत्मा जिस प्रकार की है, उसी प्रकार का अनुभव ) के साथ ही यह संसार अनुवर्त्तमान है। अर्थात्, संसार और आत्मानुभव ये दोनों धर्म अविद्य भाव से साथ-साथ रहते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म नहीं हैं, इसलिए इनमें परस्पर व्याप्त-व्यापक ( निवर्त्य-निवर्तक ) भाव नहीं होने से आत्मयात्म्यानुभव से संसार का भाग नहीं हो सकता। इसलिए, आत्मविचार का फल अविद्या शब्द-व्याच्य जो संसार है, उसकी निवृत्ति होना है, यह भी समुचित नहीं प्रतीत होता।

यदि यह कहें कि श्रद्ध-अनुभव से गम्य जो जीवात्मा है, वह संसार के अनुभव के साथ-साथ अनुवर्त्तमान है, इसलिए दोनों में अविरोध होने से निवर्त्य-निवर्तक भाव न हो, किन्तु वेदान्तगम्य जो शुद्ध अद्वय ब्रह्म का ज्ञान है ( जो संसार के साथ अनुवर्त्तमान नहीं है ), उसके साथ निवर्त्य-निवर्तक भाव हो सकता है; क्योंकि पै

दोनों तम और प्रकाश के सहशा परस्पर-विश्व धर्म हैं। इसलिए, आत्मविचार-शास्त्र का शुद्ध अद्वय ब्रह्म-स्वरूप का शान ही फल है, यह सिद्ध होता है। परन्तु, यह भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि अहम्-अनुभव से गम्य जो आत्म-तत्त्व है, उससे अतिरिक्त कोई ब्रह्म-तत्त्व है ही नहीं।

यदि यह कहें कि अहम्-अनुभवगम्य के अतिरिक्त शुद्ध अद्वितीय आत्म-तत्त्व का शान यथापि मूखों को न हो, परन्तु 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' इत्यादि वेदान्त-शास्त्रों के अनुशीलन करनेवाले जो विद्वान् हैं, उनको शुद्ध अद्वितीय आत्म-तत्त्व का अनुभव होना सम्भव है, वह भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि 'अहम्, इदम्' इत्यादि जो द्वैत का प्रत्यक्ष होता है, उसका वाच श्रुति-वाक्यों से नहीं हो सकता। इसलिए, द्वैत के प्रत्यक्ष से श्रुति का वाच मानना ही युक्त है, अर्थात् प्रत्यक्षतः अनुभूयमान जो द्वैत प्रत्यक्ष है, उसका श्रुति के बल पर किसी प्रकार भी अपलाप नहीं कर सकते। इसी अभिप्राय से भगवान् शङ्खराचार्य ने लिखा है—'नह्यागमाः सहस्रमणि घटं पट्यितुमीशते', अर्थात् हजारों श्रुतियाँ मिलकर भी घट को पट-रूप नहीं बना सकती। इससे यह सिद्ध होता है कि अद्वैत-प्रतिपादक श्रुति प्रत्यक्ष द्वैत-प्रतिभाष को निवृत्त नहीं कर सकती। इसलिए, वह अप्रमाण ही है। जिस प्रकार 'ग्रावा ल्लवन्ते', पत्थर तैरते हैं, यह वाक्य अप्रमाण होता है, उसी प्रकार अद्वैत-प्रतिपादक श्रुति भी अप्रमाण मानी जा सकती है। क्योंकि, जिस प्रकार पत्थर का तैरना असम्भव है, उसी प्रकार अद्वैत आत्मा का अनुभव भी असम्भव ही है और असम्भव अर्थ के प्रतिपादक जो वाक्य है, वे भी अप्रमाण ही हैं।

अब यहाँ दूसरी शङ्खा होती है कि यदि अद्वैत-प्रतिपादक जो श्रुतियाँ हैं, उनको अप्रमाण माना जाय, तब तो इस विषय में 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः', इस अध्ययन-विधि का व्याकोप हो जायेगा। तात्पर्य यह है कि अध्ययन का अर्थ, शान के द्वारा कर्म में उपयोग माना गया है, और असम्भव अर्थ के प्रतिपादक जो वाक्य हैं, उनका तो उस प्रकार का उपयोग नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे वाक्यों के विषयों में जो अध्ययन का विधान है, वह व्यर्थ ही हो जायगा।

इसके उत्तर में पूर्वपक्षी का कहना है कि गुरु (प्रमाकर) के मत से ऐसे वाक्यों का कर्म में उपयोग नहीं होने पर भी 'हुं फट्' इत्यादि के सहशा जप आदि में उपयोग होता ही है। तात्पर्य यह है कि प्रमाकर के मत में 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' यह वाक्य अपूर्व-विधि नहीं है। किन्तु, अध्यापन-विधि से सिद्ध अध्ययन का अनुवाद माना है। यह पूर्वमीमांसा में लिख नुके हैं और अध्ययन-विधि पाठ-मात्र का ही आक्षेप करता है, अर्थ का अवयोध नहीं। इसलिए, अर्थ-ज्ञान की, विधि के अनुसार, सर्वत्र आवश्यकता नहीं होती। जहाँ सम्भव अर्थ हो, वहाँ प्रहण करना चाहिए और जहाँ असम्भव अर्थ हो, उसको त्वाग देना चाहिए। और, उन मन्त्रों का उपयोग 'हुं फट्' इत्यादि मन्त्रों के सहशा जप-मात्र में ही समझना चाहिए।

आचार्य के मत में अर्थज्ञान-रूप दृष्टकल के उद्देश्य से अध्ययन-विधि की प्रवृत्ति होती है। इनके मत में जहाँ वाच्य अर्थ सम्भव न हो, वहाँ 'यजमानः प्रस्तरः'

वाक्य के सदृश अर्थवाद अथवा लक्षणावृत्ति से प्रशंसापरक मानकर उपयोग समझना चाहिए। इस स्थिति में, उसका अप्रामाण्य भी नहीं होगा। अतः, ब्रह्मप्रतिपादक जितने वेदान्त-वाक्य हैं, उनका जीव की प्रशंसा में तात्पर्य मानकर उपयोग हो जायगा। इसलिए, अध्ययन-विधि भी व्यर्थ नहीं होती। इस प्रकार, प्रयोजन के अभाव होने से ब्रह्मविचार-शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है। इसका अनुमान भी इस प्रकार होता है—विवादास्पद ब्रह्म (पह) विचार के योग्य नहीं है (साध्य) निष्फल होने के कारण (हेतु), काकदन्त-परीक्षा के सदृश (दृष्टान्त)। भगवान् शङ्कराचार्य ने भी कहा है—

‘अहं पियात्मनः सिद्धेत्तस्यैव ब्रह्मावतः।

तज्ज्ञानान्मुक्त्यभावाद्य जिज्ञासा नावकलपते ॥’

तात्पर्य यह है कि अहम् (मैं)-बुद्धि से आत्मा की सिद्धि स्पष्ट हो जाती है और वही आत्मा ब्रह्म भी है। और, इस अहम्-ज्ञान से मुक्ति भी नहीं होती, इसलिए जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं है।

अब यहीं यह भी एक शङ्का होती है कि उक्त अनुमान में अफलत्व जो हेतु है, वह असिद्ध है; क्योंकि भेदेन अध्यस्त जो देह है, उसका निवृत्ति होना ही ब्रह्म-जिज्ञासा का फल चिद्र है। अर्थात्, अद्वितीय ब्रह्म में मिन्न रूप से जो आरोपित देह आदि प्रपञ्च-समूह हैं, उनकी निवृत्ति अद्वितीय ब्रह्म-विचार से होती है। इसलिए, यह ब्रह्म-विचार का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, अतएव अफलत्व-हेतु असिद्ध है। इस शङ्का के उत्तर में पूर्वपक्षी का कहना है कि व्यापक की निवृत्ति से व्याप्त की निवृत्ति होती है, इस न्याय से भेद का जो शान है, वह भेद के अशान का प्रतिबन्धक जो भेद का संस्कार है, उसकी अपेक्षा करता है। क्योंकि, भेद-ज्ञान का व्यापक भेद-संस्कार है। जिस प्रकार, व्यापक अग्नि के अभाव में व्याप्त धूम का उदय नहीं होता, उसी प्रकार, व्यापक जो भेद-संस्कार है, उसके अभाव में भेद के अध्यास का भी उदय नहीं हो सकता। अतः, भेदाध्यास भेद के संस्कार की अपेक्षा करता है। भेद का संस्कार ही भेद के अशान का नाश करता हुआ भेदाध्यास को उत्पन्न करता है। जैसे, इस प्रकार का रजत होता है, ऐसा जायमान जो रजत-संस्कार है, वह रजत के अशान का नाश करता हुआ ‘यह रजत है’, इस प्रकार की यथार्थ या अयथार्थ रजत-प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। जिसको रजत का संस्कार नहीं है, उसको यह शान नहीं होता और संस्कार भी विना यथार्थ अनुभव के उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि अयथार्थ अनुभव से भी कहीं संस्कार उत्पन्न देखा जाता है, तथापि वह अर्थार्थ अनुभव भी संस्कारपूर्वक ही होगा, यह निष्प्रित है। इसलिए, कहीं पर यथार्थ अनुभव का होना संस्कारोत्पत्ति के लिए अनिवार्य है। इसलिए, भेद-संस्कार का जनक प्रायमिक (पहला) भेद का यथार्थ अनुभव अवश्य स्वीकरणीय है। यदि भेद का यथार्थ अनुभव सत्य है, तो ब्रह्म-विचार से भी उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए ब्रह्म-विचार असफल है, यह बात सिद्ध हो जाती है। अतः ब्रह्मविचारात्मक वेदान्त-शास्त्र अनारम्भणीय है, यह सिद्ध हो जाता है।

यहाँ अनुमाम का स्वरूप भी इस प्रकार है—विवादास्पद आत्मा और अनात्मा (पञ्च) मेदेन प्रमित हैं (साध्य), अर्थात् दोनों में जो परस्पर मेद है, वह यथार्थ है, दोनों में अभेद की योग्यता न रहने से (हेतु), अर्थात् आत्मा और अनात्मा में अभेद नहीं होने के कारण। जैसे, तम और प्रकाश (दृष्टान्त)। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार तम और प्रकाश में अभेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा और अनात्मा में अभेद नहीं हो सकता। यदि कहें कि यहाँ अभेदायोग्यत्व जो हेतु है, वह असिद्ध है, इसलिए दोनों के मेद का साधक नहीं हो सकता, तो अभेदवादी से पूछना चाहिए कि क्या आप दोनों में अभेद की योग्यता मानते हैं, अर्थात् दोनों का अभेद एक में दूसरे का लय होने से समझते हैं। जैसे, जल में सैन्धव का लय होना। तो इस स्थिति में, यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि आत्मा में अनात्मा का लय होगा, अथवा अनात्मा में आत्मा का ? यदि आत्मा में ही अनात्मा का लय मानें, तब तो आत्मा ही अवशिष्ट रहेगा, अनात्मा नहीं। क्योंकि, वह तो आत्मा में ही लीन हो गया है। इस स्थिति में, जिस प्रकार मुक्ति-दशा में जगत् अस्त हो जाता है, उसी प्रकार, संसार-दशा में भी दृश्यमान जगत् का विलय हो जायगा। इसलिए, आत्मा को ही परिशेष नहीं कह सकते।

यदि अनात्मा में ही आत्मा का लय मानें, तो भी ठीक नहीं है; क्योंकि इस अवस्था में आत्मा का लय और जडवर्ग का ही परिशेष रहने से जगत् अन्धवत् हो जायगा; चूँकि आत्मा जडवर्ग में ही लीन हो गया है। इस अवस्था में, जगत् का अन्ध होना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए, आत्मा और अनात्मा में अभेद होने की अयोग्यता अवश्य है, वह स्वीकार करना ही होगा। दूसरी बात यह है कि तम और प्रकाश के सदृश आत्मा अर्थात् द्रष्टा और अनात्मा अर्थात् दृश्य इन दोनों के परस्पर-विश्वद स्वभाव होने से भी दोनों में अभेदायोग्यत्व मानना ही होगा। जब आत्मा और अनात्मा में अभेद की योग्यता नहीं है, अर्थात् दोनों परस्पर यथार्थ में तम और प्रकाश के सदृश मिज्ज-मिज्ज हैं, तब प्रपञ्चरूप जडवर्ग का आत्मा में अध्यास नहीं हो सकता है और प्रपञ्च के वास्तविक होने से तदिष्यक जो आत्मा का शान होता है, वह भी यथार्थ ही होगा। इसलिए, ज्ञान का भी आत्मा में अध्यास नहीं कह सकते। इस प्रकार जब अध्यास ही असम्भव है, तब तो ब्रह्म-विचार का अध्यास देह आदि की निवृत्ति-रूप जो फल बताया गया है, वह भी असम्भव हो जाता है। इस प्रकार, ब्रह्म-विचार के असफल होने के कारण ब्रह्मविचारात्मक जो शारीरिक मीमांसा-शास्त्र है, उसका अनारम्भणीयत्व सिद्ध हो जाता है। यह पूर्वपक्षी का सिद्धान्त है। यहाँ तक पूर्वपक्षी का साधक-वाधक-प्रदर्शनपूर्वक सिद्धान्त का व्यवस्थापन किया गया। इस पर सिद्धान्ती का कहना यह है कि अहम् पद का बाच्य जो आत्मा है, उसके अतिरिक्त कोई आत्म-तत्त्व नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि समस्त उपाधि से रहित अद्वितीय निविशेष आत्म-तत्त्व श्रुति, स्मृति आदि में प्रसिद्ध है। तात्पर्य यह है कि अहम् शब्द से जिस जीवात्मा की प्रतीति होती है, वह उपाधि-रहित नहीं है। इसलिए अहम् (में) ऐसा भावित होता है। अहन्ता आदि जितने धर्म हैं, वे सोपाधिक ही होते हैं, निविशेषक नहीं।

इसलिए, 'सदेव सौम्येदमभ आसीत्' इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध जो व्रह्मपदव्याच्य निरूपाधिक आत्म-तत्त्व है, उसका निश्चय करने के लिए व्रह्मविचार-शास्त्र की आवश्यकता हो जाती है।

## ग्रन्थ-तात्पर्यनिर्णायिक-निरूपण

पूर्वपक्षी ने जो यह कहा है कि 'सदेव सौम्य' इत्यादि वेदान्त-वाक्य गौणाये हैं, और जीव के केवल प्रशंसापरक हैं, वह ठीक नहीं है। कारण यह है कि श्रुति का मनमाना अर्थ करना युक्त नहीं है। उपक्रम, उपसंहार आदि जो छह प्रकार के तात्पर्य के निर्णायिक लिङ्ग हैं, उन्हीं के द्वारा जो निश्चित अर्थ है, वह सर्वमान्य होता है और यही युक्त भी है। उपक्रम आदि छह प्रकार के निर्णायिक लिङ्ग इस प्रकार है—

'उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽप्यंता फलम् ।'

'अर्थंवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णयं ॥'

उपक्रम और उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति—ये छह किसी ग्रन्थ के तात्पर्य के निर्णय में लिङ्ग अर्थात् प्रमाण होते हैं। प्रकरण का प्रतिपाद्य जो अर्थ है, उसका प्रकरण के आदि में निर्देश करने का नाम उपक्रम है। प्रकरण-प्रतिपाद्य अर्थ का अन्त में निर्देश करना उपसंहार है। ये दोनों मिलकर एक लिङ्ग होता है। प्रकरण-प्रतिपाद्य वस्तु का, प्रकरण के धीच-धीच में, पुनः-पुनः प्रतिपादन करना अभ्यास है। प्रकरण-प्रतिपाद्य वस्तु का प्रमाणान्तर से सिद्ध न होना, अर्थात् प्रमाणान्तर का अविषय होना, अपूर्वता कहा जाता है। प्रकरण में यत्र-तत्र श्रूयमाण जो प्रयोजन है, वही फल है। प्रकरण की प्रतिपाद्य जो वस्तु है, उसकी प्रशंसा का नाम अर्थवाद है और प्रकरण-प्रतिपाद्य वस्तु का साधन करनेवाली यत्र-तत्र श्रूयमाण जो युक्ति है, वह उपपत्ति कही जाती है। इन्हीं छह प्रकार के लिङ्गों से किसी भी प्रकरण के तात्पर्य का निर्णय करना युक्त माना जाता है। जैसे, छान्दोग्य-उपनिषद् में 'सदेव सौम्येदमभ आसीत् एकमेवादितीयम्', अर्थात् है सौम्य, गूर्व में एक अद्वितीय सत् ही या। इस प्रकार, प्रकरण के आदि में एक अद्वितीय ब्रह्म का उपक्रम कर अन्त में 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि' इत्यादि उपसंहार किया। मध्य में 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्य से अद्वितीय ब्रह्म का नव बार पुनः-पुनः प्रतिपादन किया, यही अभ्यास है और उक्त ब्रह्म को प्रमाणान्तर से गम्य नहीं बताया, यही अपूर्वता है। 'तन्त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' इत्यादि श्रुति से केवल उपनिषद् से ही ब्रह्म का अधिगम्य होना बताया गया है। दूसरा कोई प्रमाण ब्रह्म के विषय में नहीं कहा गया है। यह अपूर्व है। 'थेनाश्रुतं श्रुतं भवति' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा एक ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान होना बताया गया है, यही फल है। और, उसी अभिव्येष ब्रह्म के द्वारा सृष्टि, स्थिति, नियमन, प्रलय आदि बताये गये हैं, यही अर्थवाद है। जैसे, 'तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय', 'तत्त्वेजोऽसुज्ञत' इत्यादि से सृष्टि बताई गई है। 'सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः', इत्यादि श्रुति से स्थिति और नियमन को बताया गया है। 'तेजः परस्यां देवतायाम्', इससे प्रलय और 'इमास्तिस्त्री'

देवता अनेक जीवेनाल्पनाऽनुचिरिष नामस्ते ज्ञानस्ताति', इस शुचि के प्रबोध में बताया गया है। इस प्रकार, शुद्धि के प्रतिचारित जो स्थैति, निषमन, प्रलय, प्रवेष्ट—यह पांच प्रकार की जो ब्रह्म की प्रसंगता है, वही शर्पद्वाद है। 'पया सौन्दर्येन नृत्तिरडेन रवे दूरनन् विहारं भवति वाचारम्भरे विकारो नामपेदं शूचिरेत्प्रेव सर्वम्', इत्यादि शुतियों के द्वारा शद्विरोग ब्रह्म के साधन में जो शुद्धि बताई गई है, वही उत्तरात्मि है। इसी प्रकार, दृश्यारम्भक, तैर्चरीर, मुरुडक आदि उपनिषदों में भी इन्ही उत्तरात्म आदि घृत लिहों के द्वारा तात्त्व का निर्णय रामर्गीर्य-शर्पद्व वेदान्त-सार की विद्यन्मनोरहणी दीक्षा ने किया गया है। इन पूर्वोल्ल घृत प्रकार के लिहों से समस्त वेदान्तों का तात्त्व नित्य-शुद्ध-दुर्द-नुच्छत्वमाव ब्रह्म में ही निर्धित किया जाता है, इसलिए इसको श्वैरनिष्ठद आल्मन्त्व कहते हैं। इस नित्य-शुद्ध-दुर्द-नुच्छ श्वैरनिष्ठद आल्मन्त्व का मान अहम् (नै)-अनुभव ने नहीं होता है, इसलिए अहम्-शुद्धनुभव का विषय अस्पत्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा नहीं, पह चिद्र होता है।

### 'अहम्'-अनुभव के विषय का विवेचन

तात्त्व यह है कि 'अहम्'-अनुभव का विषय देह होता है, किन्तु उसी देह में आल्मन्त्व का आरोप है। अर्थात्, आरोपित आल्मन्त्वविशिष्ट जो देह है, वही अहम् का विषय होता है। एक बात और भी जान लेना चाहिए कि यहीं आरोप जो होता है, वह अनाहार्य आरोप है। अमनूलक जो आरोप है, वही अनाहार्य आरोप है। जैसे, शुक्रि रजत-रूप से भासित होती है, उसी प्रकार देह भी आत्मा-रूप से अहम्-अनुभव में भासित होता है। इसलिए, अहम्-अनुभव का विषय अस्पत्त आत्मा होता है, शुद्ध आत्मा नहीं। इससे शुद्ध आत्मा के विचार के लिए वेदान्त-शास्त्र आरम्भणीय है, पह चिद्र होता है। क्योंकि, अहम्-अनुभव में शुद्ध ब्रह्म का मान न होने से वह सन्दिग्ध ही रहता है।

अब इसमें भी यह सन्देह होता है कि अहम्-अनुभव का विषय जो आरोपित आल्मन्त्वविशिष्ट देह को बताया गया है, वह ठीक नहीं है। कारण यह है कि यद्यपि निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म का अवभाव अहम्-अनुभव में नहीं होता, तथापि जीवात्मा का तो अवभाव अहम्-अनुभव में अवश्य होता है। नैदायिकों और वैशेषिकों के मत में ब्रह्म के अतिरिक्त प्रति शरीर में मिल-भिल जीवात्मा को माना ही गया है, इसलिए वहीं जीवात्मा अहम्-अनुभव का विषय होगा। पुनः अस्पत्त आल्मन्त्वविशिष्ट देह को अहम्-अनुभव का विषय मानना अनुचित ही है।

सिद्धान्ती का कहना है कि यह भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि ब्रह्म में मिल जीवात्मा के होने में कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म के अतिरिक्त जीवात्मा को यदि, नैदायिक आदि के समान, मान भी लें, तो ठीक नहीं होता; क्योंकि नैदायिक और वैशेषिक जिस प्रकार आत्मा को मानते हैं, पह 'अहम्'-अनुभव में

यदि कहें कि देह में जिस प्रकार आत्मत्व की कल्पना करते हैं, उसी प्रकार शातृत्व का भी आरोप कर सकते हैं। अर्थात्, देह में आत्मत्व के सदृश शातृत्व को भी काल्पनिक ही मान लेने में कोई आपत्ति नहीं रहती। परन्तु, यह भी कहना ठीक नहीं है। कारण यह है कि प्रयोग करनेवाले को अपने ज्ञान का प्रकाशक प्रयोग करने में शातृत्व का उपचार नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि ज्ञाता जब अपने ज्ञान का प्रकाशन करना चाहता है, तब अपने ज्ञान के अनुसार मुख्यवृत्ति या गौणवृत्ति से वाक्य का प्रयोग करता है। वही प्रयोग करनेवाला जब गौणवृत्ति से प्रयोग करना चाहता है, तब जो धर्म जहाँ नहीं है, उसकी भी वह कल्पना कर लेता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञाता, प्रयोक्ता, और कल्पक एक ही व्यक्ति है और वही अहम् शब्द का वाच्य भी होता है।

यदि अहम्-कल्पित शातृत्वविशिष्ट देह है, तो वही अपने अन्तर्गत शातृत्व का कल्पक किस प्रकार हो सकता है। दूसरी बात यह है कि देह में जो शातृत्व है, वह कल्पित है, वास्तविक नहीं। इसलिए, वस्तुतः शातृत्व नहीं होने से वह प्रयोक्ता भी नहीं हो सकता। क्योंकि, कल्पित वस्तु परमार्थ कार्य करनेवाला नहीं होता। जैसे, 'अग्निर्यं माणवकः', यह माणवक अग्नि है, यहाँ माणवक में आरोपित जो अग्नि है, वह यथार्थ दाह का जनक नहीं होता।

यदि द्वितीय पक्ष, अर्थात् देह का जो प्रादेशिकत्व धर्म है, उसका आत्मा में आरोप मानकर उक्त व्यवहार की उपपत्ति मानें, तो भी ठीक नहीं होता। कारण यह है कि जहाँ बुद्धिमूर्ख का अन्यधर्म का अन्यत्र आरोप किया जाता है, वहाँ आरोप्यमाणा (जिसका आरोप किया जाता है) और आरोप-विषय (जहाँ आरोप किया जाता है) इन दोनों का भेद-ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे, 'सिंहोऽयं माणवकः', यहाँ माणवक में सिंहत्व का आरोप करते हैं। क्योंकि, आरोप का विषय जो माणवक है और आरोप्यमाण जो सिंहत्व है, इन दोनों में परस्पर भेद का ज्ञान प्रसिद्ध है। इस भेद-ज्ञान के रहने से ही माणवक में सिंहत्व का आरोप कर 'सिंहोऽयं माणवकः', ऐसा व्यवहार होता है। यह आरोप साम्प्रतिक (कादाचित्क) है, निरुल्ल गौणत्व नहीं है। क्योंकि, इस प्रकार माणवक में सिंह शब्द का प्रयोग बराबर नहीं होता।

निरुल्ल गौण वह होता है, जहाँ गौण शब्द भी विशेष प्रयोग होने के कारण मुख्यार्थ शब्द के समान ही सर्वदा प्रयुक्त होता है। जैसे, तैल शब्द 'तिले भवः', इस योग-बल से तिल-रस का वाचक है, परन्तु सरसों के रस में भी निरन्तर प्रयुक्त होता है। यहाँ तिल-रस और सर्प-रस में विद्यमान जो भेद है, उसके छिप जाने के कारण गौणी वृत्ति से सर्प-रस में तैल शब्द का प्रयोग निरन्तर होता है। यहाँ सार्वप रस में प्रयुज्यमान तैल शब्द गौण है। इस प्रकार की प्रतीति भी किसी भेद-ज्ञानवाले को ही होती है, सबको नहीं; क्योंकि यह रूढतुल्य है। इसलिए, यह तैल शब्द निरुल्ल है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आहारायोप-स्थल में सर्वत्र आरोप्यमाण और आरोप-विषय इन दोनों में भेद होना आवश्यक है। इसलिए, जहाँ-जहाँ गौणत्व है, वहाँ-वहाँ भेद मानना आवश्यक है, यह व्याप्ति भी सिद्ध

मेद सिद्ध हो ही जाता है। क्योंकि, 'स' शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया गया है, और 'अहम्' से जीवात्मा का; श्रुति से इन दोनों का अमेद माना गया है। यदि जीवात्मा को देह से भिन्न न माना जाय, तो किसी प्रकार भी देह परमात्मा-स्वरूप नहीं हो सकता। क्योंकि, परमात्मा में जो नित्यत्व, व्यापकत्व आदि धर्म हैं, वे देह में नहीं रहते, इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न होने में देह से भिन्न होना भी आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार, प्रत्यभिज्ञा से, देह से जीवात्मा में भेद सिद्ध हो जाने पर देह के, स्थूलता आदि, जो गुण हैं, उनका जीवात्मा में, आहार्यरीप से अद्व-प्रत्यय के गौण होने में कोई बाधक नहीं हो सकता। यह पूर्वपक्षी का तात्पर्य है।

सिद्धान्ती का कहना है कि यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि इसमें दो विकल्पों का समाधान नहीं होता। जैसे, पूर्वपक्षी के प्रति यह प्रश्न होता है कि यह जो प्रत्यभिज्ञा आपने घताई, वह अज्ञानियों को होती है अथवा अवण-मननादि में कुशल परीक्षकों को? अज्ञानियों को तो कह नहीं सकते; क्योंकि उनको देह के अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान नहीं है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का अभेद प्रत्यभिज्ञा में भासित होता है और वह प्रत्यभिज्ञा पामरों को हो नहीं सकती। कारण यह है कि उन पामरों को देह से भिन्न किसी अन्य जीवात्मा की प्रतीति होती ही नहीं। बल्कि उनको यह ज्ञान होना सम्भव है कि जिस प्रकार श्याम घटादि द्रव्य तेजःसंयोग से कालान्तर में रक्त हो जाता है, और अल्प परिमाण का भी वट-बीज मिट्टी और जल के संयोग से महत् परिमाण का हो जाता है, उसी प्रकार यह देहस्तुत जीवात्मा भी कारणविशेष से परमात्मा हो सकता है। इस प्रकार की सम्भावना होने के कारण 'सोऽहम्' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा सम्भव भी है। इसके लिए देह से भिन्न जीवात्मा के होने की कोई आवश्यकता भी नहीं। इसलिए, अज्ञानियों को कह नहीं सकते हैं। यदि कहें कि अवण-मननादि-कुशल परीक्षकों को प्रत्यभिज्ञा होती है, सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि व्यवहार-काल में पामर और परीक्षक में कोई भेद प्रतीत नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जो अवण-मनन में कुशल है और ब्रह्म-साक्षात्कार जिएको न हुआ है, वही परीक्षक कहा जाता है। इसको देह के अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान रहने पर भी व्यवहार-काल में, अर्थात् प्रमाण-प्रमेयादि के व्यवहार में, वे परीक्षक भी पामरों के समान ही व्यवहार करते हैं। अर्थात्, आप कौन हैं? इस प्रकार पूछे जाने पर 'मैं यह हूँ', इस प्रकार शरीर को ही आत्मा समझकर अहूल्या निर्देश से शरीर को ही बताते हैं। अर्थात्, जिस प्रकार देह में आत्मा के भ्रम-ज्ञान से पामरों का लोक में व्यवहार देखा जाता है, उसी प्रकार इन परीक्षकों का भी सकल लौकिक व्यवहार देह में आत्मभ्रमावृक्ष ही देखा जाता है।

यदि इन परीक्षकों की, 'वही ब्रह्म मैं हूँ', इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा मान लें, तो उनका जो व्यवहार पामरों के सदृश लोक में देखा जाता है, वह कभी नहीं हो सकता। इसलिए, इनको प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है। और, जो प्रतिपत्ता है, अर्थात् जिनको आत्मज्ञात्कार हो गया है, उनको तो ज्ञान, शेय, ज्ञाता इस त्रिपुटी का उदय नहीं होता,

इसलिए उनको प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती और प्रत्यभिज्ञा के न रहने से भेद की सिद्धि भी नहीं हो सकती।

एक बात और है कि 'सोऽहमस्मि', इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होने पर भी भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। कारण यह है कि परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे, रज्जु में जो सर्प-प्रत्यक्ष का भ्रम होता है, उसकी निवृत्ति 'यह सर्प नहीं है', इस आत्म वाक्य से नहीं होती। आत्म वाक्य से केवल यह ज्ञान होता है कि यह सर्प-ज्ञान भ्रम है। भ्रमत्वेन भ्रम के ज्ञान होने पर भी भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। भ्रम की निवृत्ति तो तब होती है, जब 'यह रज्जु है', इस प्रकार रज्जु का साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार, देह में जो आत्मभ्रम प्रत्यक्ष है, उसकी निवृत्ति 'सोऽहमस्मि', इस प्रत्यभिज्ञा-वाक्य से नहीं हो सकती।

देहात्मभ्रम की निवृत्ति तो तब होती है, जब ब्रह्म का साक्षात्कार, होने लगता है। इसी अभिप्राय से भगवान् भास्कर ने लिखा है—'पश्वादिभिश्चिवेषात्', (ब्र० श० १११ भा०)। इस पर वाचस्पति मिश्र ने भी लिखा है—'शास्त्रचिन्तकाः खल्वेवं विचारयन्ति न प्रतिपत्तारः'। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्रों के मनन में जो कुशल हैं, और जिनको आत्मसाक्षात्कार नहीं हुआ है, उनका व्यवहार भी लोक में पशुओं के सदृश ही होता है। जिस प्रकार, पशु किसी मारनेवाले पुष्प को लट्ठ लेकर अपनी ओर आता हुआ देखकर भाग जाता है और हाथ में धार लेकर आता हुआ अपने स्वामी को अथवा खिलानेवाले को देखकर उसके समीप आ जाता है, उसी प्रकार शास्त्रीय ज्ञानसम्पन्न विद्वान् या महात्मा पुष्प हिंसक, क्रूर आदि प्रतिकूल तत्त्वों को देखकर उससे पृथक् दृट जाते हैं, और अनुकूल भक्त को देखकर उसके समीप चले जाते हैं। इस प्रकार के प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार में पशु और पामर के तुल्य ही शास्त्रचिन्तकों का व्यवहार लोक में देखा जाता है। इसलिए, प्रत्यभिज्ञा से, देह से भिन्न जीवात्मा को सिद्ध कर, अहम्-प्रत्यय का विषय जीवात्मा को मानकर, असन्दिग्ध और अफल होने से आत्मा को अनिश्चास्य बताया है, वह युक्त नहीं है। और, अहम्-अनुभव का विषय अध्यस्त आत्मत्वविशिष्ट देह ही होता है, यह सिद्ध होता है।

### जैनदर्शन के मतानुसार आत्मस्वरूप-विवेचन

अब जैनदर्शन के मतानुसार आत्मस्वरूप का विवेचन किया जाता है। जैनों के मत में जीव को व्यापक नहीं माना जाता। किन्तु, आत्मा का परिमाण देह के तुल्य होता है, यह माना जाता है। अर्थात्, देह का परिमाण जितना छोटा या बड़ा होता है, उतना ही छोटा या बड़ा जीवात्मा का भी परिमाण होता है, ऐसा स्वीकार करने से 'मैं इस पर में जानता हुआ हूँ', इस प्रकार के पूर्वोक्त अनुभव में जीवात्मा के एक देश में रहने का जो अनुभव होता है, वह युक्त है। इसलिए, उस उक्त प्रादेशिकत्व-अनुभव का प्रामाण्य भी सिद्ध हो जाता है। परन्तु, जैनों का यह कहना युक्त नहीं होता। कारण, यह है कि आत्मा को यदि देह-परिमाण मानें, तो देह जिस प्रकार सावयव होने से अनित्य होता है, उसी प्रकार जीव भी सावयव होने से अनित्य होने लगेगा।

इस अवस्था में, 'कृतहान' और 'अकृताभ्यागम' दोप हो जाते हैं। अर्थात्, जो आत्मा इस जन्म में शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल वही आत्मा दूसरे जन्म में भोगता है। यदि आत्मा को, मध्यमपरिमाण होने से, अनित्य मानें, तो आत्मा ने जो कर्म किया, उसका फल उसे न मिला। क्योंकि, अनित्य होने से वह नष्ट हो गया। यही कृतहान-दोष है, और शुभाशुभ कर्म का फल जो सुख-दुःख है, उसका भोग करनेवाला जो जीवात्मा है, वह विना कुछ कर्म किये ही भोग करता है, यह अकृताभ्यागम-दोष है। यदि इस दोष के परिहार के लिए अवयवों के संघात को आत्मा मानें, तो उनके प्रति यह प्रश्न होता है कि क्या प्रत्येक अवयव चैतन्य है? अथवा संघात का चैतन्य है? यदि प्रत्येक अवयव को चेतन माना जाय, तब तो अनेक चेतनों के तुल्यसामर्थ्य होने से, स्वभाव में विलक्षणता होने के कारण, परस्पर वैमनस्य होना अनिवार्य हो जाता है। इस स्थिति में, एक ही शरीर में एक जीवात्मा यदि पूर्व की ओर जाना चाहता है, तो दूसरा पश्चिम की ओर। और, एक शरीर से एक काल में अनेक देशों में जाना असम्भव है, इसलिए अनेक चेतनों से विश्व देश में आकर्षण होने के कारण शरीर ही विदीर्घ हो जायगा। अथवा, अनेक चेतनों के आकर्षण-विकर्षण से प्रतिबन्ध होने के कारण शरीर का कहीं भी गमन न हो सकेगा। इस स्थिति में, शरीर किया-रहित ही हो जायगा।

यदि संघात को चेतना मानें, तो यहाँ भी विकल्प उपस्थित होता है कि संघातापत्ति क्या शरीरोपाधिकी है या स्वाभाविकी, अथवा यादचिछकी? ये तीन विकल्प होते हैं। यदि शरीरोपाधिकी मानें, तब तो हाथ या पैर या अङ्गुली या उससे भी किसी छोटे शरीरावयव के छिन्न हो जाने पर, जीव के उतने अवयव कट जाने से, जीव का विनाश ही हो जायगा। अर्थात्, चेतन-सत्त्व ही नष्ट हो जायगा। संघात को स्वाभाविक या यादचिछक मान लेने से यह दोष नहीं होता। कारण यह है कि शरीरावयव का छेद जीव के अवयवच्छेद का प्रयोजक नहीं होता।

द्वितीय पक्ष, अर्थात् संघात, को स्वाभाविक मानें, वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि यदि संघात को स्वाभाविक मानते हैं, तो स्वभाव से किसीका भ्रंशा नहीं होता, इस कारण किसी स्वल्प भी अवयव का विश्वेद नहीं हो सकता। क्योंकि, स्वभाव के अविनाशी होने से नियमेन एक प्रकार से अवयवों का सदा संक्लिष्ट रहना अनिवार्य है। परन्तु, जैन दार्शनिक ऐसा मानते नहीं हैं। चालन, सुवल्त आदि अवस्था के भेद से या जन्मान्तर के भेद से शरीर में भेद होने पर उतने ही भेद जीव के होते हैं, ऐसा जैनों का सिद्धान्त है।

तृतीय (आकस्मिक) मानने पर भी नहीं ठीक होता। क्योंकि, संश्लेष के उद्द्या विश्लेष को भी यादचिछक (आकस्मिक) मानने से सुखपूर्वक बैठा हुआ आदमी भी अकस्मात् अचेतन हो सकता है। इसलिए, जीव को शरीरपरिमाण मानना युक्त नहीं होता। यदि यह कहें कि 'इस घर में जानता हुआ हूँ', इस प्रकार जीव की प्रादेशिकत्व-सिद्धि के लिए जीव को अगुपरिमाण मान लेना ही युक्त है। विभु मानने से जीव का किसी प्रदेश में होना युक्त नहीं होता। परन्तु, यह मत भी

ठीक नहीं है ! कारण यह है कि जीव के अणु मान लेने से प्रादेशिकत्व का ग्रहण यद्यपि उपपत्ति हो जाता है, परन्तु 'स्थूलोऽहम्', 'कृतोऽहम्' इत्यादि जीव में जो स्थूलता आदि की प्रतीति होती है, उसकी उपपत्ति अणु मानने से कदाचि नहीं हो सकती। इसलिए, अणु मानना युक्त नहीं है।

## बौद्धों के मतानुसार आत्मस्वरूप-विवेचन

अब यहाँ आत्मा को विज्ञान-स्वरूप माननेवाले बौद्धों के मत में आत्मा के विशुद्ध सावयवत्त्व न होने के कारण यह पूर्वोक्त दोष नहीं आता, यह दिखाया जाता है। भाष यह है कि बौद्धों के मत में विज्ञान को ही आत्मा माना जाता है। वही विज्ञान-स्वरूप आत्मा आध्यात्मिक देहादि के आकार में अहम् (मैं) के रूप में मासित होता है। इनके मत में ज्ञान के साकार होने से इस प्रकार का प्रतिमात्र युक्त होता है। इस अवस्था में, जीवात्मा में जो प्रादेशिकत्व और स्थूलत्व आदि की प्रतीति होती है, वह सब उपपत्ति हो जाता है। अर्थात्, प्रादेशिकत्व और स्थूलत्व की उपपत्ति नहीं होती। यह दोष, जो पूर्व में दिखाया गया है, इनके मत में युक्त नहीं होता। और, शरीर के अवयवच्छेद होने से आत्मा का छेद होना भी, जो पूर्व में दोष दिखाया गया है, युक्त नहीं है। कारण यह है कि बौद्धों के मत में विज्ञान प्रतिक्षण भिन्न मासित होता रहता है। अर्थात्, जिस समय जैसा शरीर का संस्थान होता है, उस समय उसी प्रकार विज्ञान भी मासित होता है। अर्थात्, विज्ञान के अवयव शरीर के अवयवों के सदृश ही हो जाता है। विज्ञान का विशुद्ध अवयव कोई भी नहीं है। विशुद्ध अवयव उसीको कहते हैं; जिसकी उत्पत्ति अवयवान्तर के अधीन न हो। यहाँ तो विज्ञानावयव की उत्पत्ति शरीरावयव के अधीन ही है, इसलिए विशुद्ध नहीं है। यहाँ मूर्त्ति परमाणुओं के संघात का नाम शरीर है और जो आन्तर विज्ञान है, वह स्कन्धों का समवाय है। और, वह भी कल्पनामय स्वप्न-वस्तु के सदृश है। इसी कारण, इनके अवयव पृथक् सिद्ध नहीं होते। यह विज्ञानवादी बौद्धों का तात्पर्य है। परन्तु, यह भी युक्त नहीं है। कारण यह है कि इनके मत में भी अहम् (मैं)-प्रतीति का मुख्य विषय कोई नहीं होता। तात्पर्य यह है कि 'जो मैं सोया था, वही मैं इस समय जगा हूँ', इस प्रकार का जो अनुभव होता है, उस अनुभव में अहम् (मैं)-अनुभव का विषय कोई स्थिर वस्तु प्रतीत होती है और ज्ञानमङ्गी बौद्धों के मत में कोई स्थिर वस्तु नहीं है। किन्तु, ज्ञानिक होने से ही अस्थिर में स्थिरत्व के भ्रम होने के कारण इनके मत में भी अध्यात्म अवर्गणीय हो जाता है। क्योंकि, भ्रम का ही नाम अध्यात्म है।

यद्यपि बौद्ध लोग विज्ञान-सन्तान को आत्मा मानते हैं, परन्तु यह भी युक्त नहीं होता। कारण यह है कि वह सन्तान सन्तानी से भिन्न है, अथवा अभिन्न। इस विकल्प का उत्तर इनके यहाँ नहीं है। कारण यह है कि भिन्न तो कह नहीं सकते; क्योंकि विज्ञान से भिन्न इनके मत में कुछ है नहीं। भिन्न मान लेने से अपसिद्धान्त हो जाता है। यदि अभिन्न मानते हैं, तो पूर्वोक्त दूषण गलेपतित हो जाता है। बौद्धों के

मत में विज्ञान के अतिरिक्त कोई भी तत्त्व नहीं माना जाता। बुद्धिस्वरूप विज्ञान ही पने ग्राह्य और ग्राहक, इन दोनों आकारों में परिणत होकर अपने से भिन्न और असदृश ही सदृश ही बाह्य घट-पटादि पदार्थों की कल्पना कर लेता है। इस स्थिति में, 'मैं स्थूल हूँ', इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, उसको श्रौपचारिक मानना अनिवार्य हो जाता है। परन्तु, श्रौपचारिक मानना भी युक्त नहीं होता। कारण यह है कि श्रौपचारिक-स्थल में मेद का भान होना आवश्यक है, और यहाँ मेद का भान होता नहीं। क्योंकि, इनके मत में विज्ञान से भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं माना जाता। और मेद का भान होने पर श्रौपचारिक होता है, यह पहले ही कहा जा चुका है।

## आत्मस्वरूप-विचार-समन्वय

इस सन्दर्भ से यह सिद्ध हुआ कि 'अहम्' (मैं), इस प्रकार की जो प्रतीति होती है। उसका विषय शुद्ध निलेप आत्मा नहीं है, किन्तु अध्यस्त आत्मा ही अहम् का विषय है। इसलिए, अध्यास की निवृत्ति ही वेदान्त-शास्त्र का प्रयोजन और सन्दिग्ध आत्मा ही इसका विषय भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए, वेदान्त-शास्त्र आरम्भणीय है, यह विद्ध हो जाता है। इसमें अनुमान इष्ट प्रकार का होता है—विवादात्प वेदान्त-शास्त्र (पत्र) विषय और प्रयोजन-सहित है (साध्य) अनादि अविद्यापरिकल्प जो बन्ध है, उसके निवर्त्तक होने के कारण (ऐतु), सुसोत्तित बोध के सदृश (दृष्टान्त), तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में अपनी इष्ट वस्तु नाश आदि अनेक अनिष्ट स्वप्नों को देखकर अपने को दुःखार्च मानता है और जग जाने पर उमस्त स्वप्नजन्य दुःखों से अपने को मुक्त और स्वस्य मुख्य समझता है, उसी प्रकार अनादि अविद्यारूप संसार-चक्र से ग्रस्त पाणी स्वप्न के सदृश अनेक प्रकार के दुःखों से अपने को आक्रान्त समझता है। जब वेदान्त-वाक्यों से यथा आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब अविद्या से उत्तम होनेवाले सकल दुःखों से रहित अपने को पाता है। जिस प्रकार, स्वप्नावस्था में मायापरिकल्पित अनेक प्रकार दुःखों के निवर्त्तक सुसोत्तित का जो बोध है, उसका विषय सुखपूर्वक बैठे हुए सुसोत्तित पुण्य का देह ही है। स्वप्नावस्था में जो बोध है, उसका विषय वह देह नहीं होता। स्वप्नावस्था के बोध का विषय स्वप्नावस्था का परिकल्पित शरीर ही होता है। और, स्वप्नावस्था में जो मायापरिकल्पित अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, उसकी निवृत्ति ही सुसोत्तित पुण्य के बोध का प्रयोजन है। इसी प्रकार, अवण, मनन आदि से उत्पन्न होनेवाला जो परोक्ष ज्ञान है, उसके द्वारा अध्यास-परिकल्पित जो कर्त्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनेक अनर्थ हैं, उनका निवर्त्तक जो वेदान्त-शास्त्र है, उसका विषय जीवात्मभूत सचिदानन्द-स्वरूप ब्रह्म ही है। क्योंकि, उस आत्मस्वरूप सचिदानन्द ब्रह्म की प्रतीति अहम् शब्द से नहीं होती। इसलिए, शुद्ध ब्रह्म ही वेदान्त-शास्त्र का विषय है और अध्यास की निवृत्ति उसका फल। इसलिए, 'अफलत्वात्', इस हेतु से पूर्वपक्षी द्वारा निर्दिष्ट शास्त्र की अनारम्भणीयता असिद्ध हो जाती है। लिखा भी है—

ठीक नहीं है ! कारण यह है कि जीव के अणु मान लेने से प्रादेशिकत्व का ग्रहण यद्यपि उपपत्त हो जाता है, परन्तु 'स्थूलोऽहम्', 'कृशोऽहम्' इत्यादि जीव में जो स्थूलता आदि की प्रतीति होती है, उसकी उपपत्ति अणु मानने से कदापि नहीं हो सकती। इसलिए, अणु मानना युक्त नहीं है।

### बौद्धों के मतानुसार आत्मस्वरूप-विवेचन

अब यहाँ आत्मा को विज्ञान-स्वरूप माननेवाले बौद्धों के मत में आत्मा के विशुद्ध सावयवत्व न होने के कारण यह पूर्वोक्त दोष नहीं आता, यह दिखाया जाता है। भाव यह है कि बौद्धों के मत में विज्ञान को ही आत्मा माना जाता है। वही विज्ञान-स्वरूप आत्मा आध्यात्मिक देहादि के आकार में अहम् (मैं) के रूप में मासित होता है। इनके मत में शान के साकार होने से इस प्रकार का प्रतिमास युक्त होता है। इस अवस्था में, जीवात्मा में जो प्रादेशिकत्व और स्थूलत्व आदि की प्रतीति होती है, वह सब उपपत्त हो जाता है। अर्थात्, प्रादेशिकत्व और स्थूलत्व की उपपत्ति नहीं होती। यह दोष, जो पूर्व में दिखाया गया है, इनके मत में युक्त नहीं होता। और, शरीर के अवयवच्छेद होने से आत्मा का छेद होना भी, जो पूर्व में दोष बताया गया है, युक्त नहीं है। कारण यह है कि बौद्धों के मत में विज्ञान प्रतिज्ञाण भिन्न मासित होता रहता है। अर्थात्, जिस समय जैसा शरीर का संस्थान होता है, उस समय उसी प्रकार विज्ञान भी मासित होता है। अर्थात्, विज्ञान के अवयव शरीर के अवयवों के सदृश ही हो जाता है। विज्ञान का विशुद्ध अवयव कोई भी नहीं है। विशुद्ध अवयव उसीको कहते हैं; जिसकी उत्पत्ति अवयवान्तर के अधीन न हो। यहाँ तो विज्ञानावयव की उत्पत्ति शरीरावयव के अधीन ही है, इसलिए विशुद्ध नहीं है। यहाँ मूर्त्ति परमाणुओं के संघात का नाम शरीर है और जो आन्तर विज्ञान है, वह स्कन्धों का समवाय है। और, वह भी कल्पनामय स्वभ-वस्तु के सदृश है। इसी कारण, इनके अवयव पृथक् सिद्ध नहीं होते। यह विज्ञानवादी बौद्धों का तात्पर्य है। परन्तु, यह भी युक्त नहीं है। कारण यह है कि इनके मत में भी अहम् (मैं)-प्रतीति का मुख्य विषय कोई नहीं होता। तात्पर्य यह है कि 'जो मैं सोया था, वही मैं इस समय जगा हूँ', इस प्रकार का जो अनुभव होता है, उस अनुभव में अहम् (मैं)-अनुभव का विषय कोई स्थिर वस्तु प्रतीत होती है और इसमें बौद्धों के मत में कोई स्थिर वस्तु नहीं है। किन्तु, क्षणिक होने से ही अस्थिर में स्थिरत्व के भ्रम होने के कारण इनके मत में भी अध्यात्म अवर्गणीय हो जाता है। क्योंकि, भ्रम का ही नाम अध्यात्म है।

यद्यपि बौद्ध लोग विज्ञान-सन्तान को आत्मा मानते हैं, परन्तु यह भी युक्त नहीं होता। कारण यह है कि वह सन्तान सन्तानी से भिन्न है, अथवा अभिन्न। इस विकल्प का उत्तर इनके यहाँ नहीं है। कारण यह है कि भिन्न तो कह नहीं सकते; क्षेत्रिक विज्ञान से भिन्न इनके मत में कुछ है नहीं। भिन्न मान लेने से अपविद्वान्त हो जाता है। यदि अभिन्न मानते हैं, तो पूर्वोक्त दृप्यण गलेपतित हो जाता है। बौद्धों के

मत में विज्ञान के अतिरिक्त कोई भी तत्त्व नहीं माना जाता। बुद्धिस्वरूप विज्ञान ही ग्राह्य और ग्राहक, इन दोनों आकारों में परिणत होकर अपने से भिन्न और अपने सदृश ही वाह्य घटभटादि पदार्थों की कल्पना कर लेता है। इस स्थिति में, ‘मैं स्थूल हूँ’, इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, उसको औपचारिक मानना अनिवार्य हो जाता है। परन्तु, औपचारिक मानना भी मुक्त नहीं होता। कारण यह है कि औपचारिक-स्थल में भेद का भान होना आवश्यक है, और यहाँ भेद का भान होता नहीं। क्योंकि, इनके मत में विज्ञान से भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं माना जाता। और भेद का भान होने पर ही औपचारिक होता है, यह पहले ही कहा जा चुका है।

### आत्मस्वरूप-विचार-समन्वय

इस सन्दर्भ से यह सिद्ध हुआ कि ‘अहम्’ (मैं), इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, उसका विषय शुद्ध निलेंप आत्मा नहीं है, किन्तु अध्यस्त आत्मा ही अहम् का विषय है। इसलिए, अध्यास की निवृत्ति ही वेदान्त-शास्त्र का प्रयोजन और सन्दिग्ध आत्मा ही इसका विषय भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए, वेदान्त-शास्त्र आरम्भणीय है, यह सिद्ध हो जाता है। इसमें अनुमान इष्ट प्रकार का होता है—विवादास्पद वेदान्त-शास्त्र (पक्ष) विषय और प्रयोजन-सहित है (साध्य) अनादि अविद्यापरिकल्पित जो बन्ध है, उसके निवर्तक होने के कारण (हेतु), सुस्तोत्रित बोध के सदृश (दृष्टान्त)। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में अपनी इष्ट वस्तु के नाश आदि अनेक अनिष्ट स्वप्नों को देखकर अपने को दुःखार्त मानता है और जग जाने पर समस्त स्वप्नजन्य दुःखों से अपने को मुक्त और स्वस्थ मुखी समझता है, उसी प्रकार अनादि अविद्यारूप संसार-चक्र से ग्रस्त पाणी स्वप्न के सदृश अनेक प्रकार के दुःखों से अपने को आकान्त समझता है। जब वेदान्त-वाक्यों से यथार्थ आत्मा का साज्जात्कार हो जाता है, तब अविद्या से उत्पन्न होनेवाले सकल दुःखों से रहित अपने को पाता है। जिस प्रकार, स्वप्नावस्था में मायापरिकल्पित अनेक प्रकार के दुःखों के निवर्तक सुस्तोत्रित का जो बोध है, उसका विषय सुखपूर्वक वैठे हुए सुस्तोत्रित पुरुष का देह ही है। स्वप्नावस्था में जो बोध है, उसका विषय वह देह नहीं होता। स्वप्नावस्था के बोध का विषय स्वप्नावस्था का परिकल्पित शरीर ही होता है। और, स्वप्नावस्था में जो मायापरिकल्पित अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, उसकी निवृत्ति ही सुस्तोत्रित पुरुष के बोध का प्रयोजन है। इसी प्रकार, अवश्य, मनन आदि से उत्पन्न होनेवाला जो परोक्ष ज्ञान है, उसके द्वारा अध्यास-परिकल्पित जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनेक अनर्थ हैं, उनका निवर्तक जो वेदान्त-शास्त्र है, उसका विषय जीवात्मभूत सचिदानन्द-स्वरूप ब्रह्म ही है। क्योंकि, उस आत्मस्वरूप सचिदानन्द ब्रह्म की प्रतीति अहम् शब्द से नहीं होती। इसलिए, शुद्ध ब्रह्म ही वेदान्त-शास्त्र का विषय है और अध्यास की निवृत्ति उसका फल। इसलिए, ‘अफलत्वात्’, इष्ट हेतु से पूर्वपक्षी द्वारा निर्दिष्ट शास्त्र की अनारम्भणीयता असिद्ध हो जाती है। लिखा भी है—

‘श्रुतिगम्यात्मतत्वन्तु नार्हं शुद्धायगम्यते ।

यथा कामतो मोहानारम्भस्तविष्यते ॥’

इसका तात्पर्य यह है कि बेवल श्रुतिमात्र से अधिगम्य (जानने योग्य) जो आत्मतत्त्व है, वह अद्म-प्रतीति का विषय नहीं होता । यदोकि, ‘अहम्’, इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, उसमें अद्वक्त्वा और आत्मा का तादात्म्याभ्यास ही कारण होता है । शुद्ध आत्मा अहम् का विषय नहीं होता । शुद्ध आत्मा के अप्रत्यक्ष दोने पर भी आकाश के सदृश यदृच्छा से उसमें मोह होना सम्भव है । परन्तु, मिथ्याक्षानन्दरहित शुद्ध आत्मा में किसी प्रकार भी मोह होना असम्भव है । इसी कारण, ‘असन्दिग्धत्वात्’, यह जो हेतु पूर्वपक्षी ने दिखाया है, वह भी असिद्ध हो जाता है ।

यदि यह कहें कि जीवात्मा की प्रतीति तो प्राणी-मात्र को अवाधित रूप से होती है—जैसे, ‘मैं हूँ’ । इस प्रकार की प्रतीति सबको होती है, और, ‘मैं नहीं हूँ’ इस प्रकार की प्रतीति किसीको भी नहीं होती । इससे जीवात्मा की प्रतीति असन्दिग्ध सिद्ध हो जाती है । और, ‘वह ब्रह्म तुम्हीं हो’, इत्यादि वेदान्त-न्यायों से ‘जीवात्मा ही ब्रह्म है’, यह सिद्ध हो जाता है । इसलिए, यद्यपि आत्मतत्त्व असन्दिग्ध है, ऐसा सिद्ध हो जाता है, तथापि सामान्यतः जीवात्मा के ज्ञान होने पर भी विशेष ज्ञान के लिए जिज्ञासा होना अनिवार्य है । कारण यह है कि प्रत्येक आचार्य आत्मा के भिन्न-भिन्न स्वरूप मानते हैं । जैसे, चार्वाक लोग चैतन्यविशिष्ट देह को ही आत्मा मानते हैं और उसमें से कुछ लोग इन्द्रियों को ही और कुछ लोग अन्तःकरण को ही । ये सब चार्वाक के अन्तर्गत हैं । बौद्ध लोग ज्ञानमझूर विज्ञान-सन्तान को ही आत्मा मानते हैं । जैन आत्मा को देहपरिमाण मानते हैं । नैयायिक आत्मा को ब्रह्म से भिन्न कर्तृत्वादि धर्मों से युक्त मानते हैं और भीमांसकों का कहना है कि द्रव्य तथा बोध ये दोनों आत्मा के स्वभाव हैं । इनके कहने का तात्पर्य यह है कि ‘आत्मानन्दमयः’ इस तैत्तिरीय-श्रुति में जो ‘आनन्दमय’ शब्द है, उसमें प्राचुर्य-अर्थ में मथृ-प्रत्यय है । इसलिए, आनन्द के अधिक होने पर भी इसके विरोधी द्रव्य-अंश का आत्मा में अंशतः भी विद्यमान रहना आवश्यक हो जाता है । इसलिए, सुसेत्थित पुरुष का ऐसा जो ज्ञान होता है कि ‘सुखमहस्याप्संन किञ्चिद्वेदिष्म्’, अर्थात् मैं सुखपूर्वक ऐसा सोया कि कुछ भी नहीं जाना । इस ज्ञान में दो प्रकार का परामर्श प्रतीत होता है । एक तो, ‘मैं सुखपूर्वक सोया’ । इस ज्ञान में प्रकाश-अंश प्रतीत होता है । यदि प्रकाश-अंश को न मानें, तो सुषुप्ति में कोई साक्षी नहीं है । इस प्रकार का जो परामर्श है, वह नहीं बनता । अर्थात्, सुषुप्ति विना साक्षी की है, यह परामर्श अनुपम हो जायगा । इसलिए, प्रकाशांश मानना आवश्यक है । और, दूसरी प्रतीति है, ‘न किञ्चिद्वेदिष्म्’, अर्थात् कुछ भी नहीं जाना, इस परामर्श से अप्रकाश-रूप द्रव्य-अंश की भी सिद्धि हो जाती है । इसलिए, इनके मत में द्रव्य और बोध उभयस्वरूप आत्मा माना जाता है । सांख्यों के मत में केवल मोक्षा ही आत्मा है, कर्त्ता नहीं, ऐसा माना जाता है । वेदान्ती लोगों का कहना है कि कर्त्तव्य-मोक्षत्वादि से रहित और जीव से अभिन्न चित्-स्वरूप आत्मा है । इस प्रकार, घर्मी आत्मा के प्रसिद्ध होने पर भी कौन आत्मा है, इस विशेष ज्ञान में संशय रहता ही है ।

इसलिए, संशय होने से ब्रह्म जिज्ञास्य, अर्थात् विचार करने के योग्य है, यह सिद्ध होता है और ब्रह्म के विचार करने योग्य होने के कारण, ब्रह्म का विचारक जो ब्रह्म-मीर्मांसा-शास्त्र है, उसका आरम्भणीय होना मी निर्वाध सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार, 'जन्माद्यस्य यतः', यहाँ से अन्त-पर्यन्त समस्त शास्त्र विचार के ही अधीन है, इसलिए, इस अधिकरण का सबसे पहले लिखना सज्जत भी हो जाता है।

## ब्रह्म में प्रमाण

अब दूसरा विचार यह होता है कि इस प्रकार के ब्रह्म के होने में प्रमाण क्या है। प्रत्यक्ष तो कह नहीं सकते; क्योंकि ब्रह्म अतीन्द्रिय पदार्थ है। और, अतीन्द्रिय पदार्थ का प्रत्यक्ष होता नहीं। अनुमान को भी प्रमाण नहीं कह सकते। कारण यह है कि जहाँ साध्य का व्याप्त लिङ्ग रहता है, वही अनुमान होता है। जैसे, अभिका व्याप्त जो धूम है, वही अभिका अनुमापक होता है। प्रकृत में ऐसा कोई भी ब्रह्म का व्याप्त लिङ्ग नहीं है, जिससे ब्रह्म का अनुमान कर सकें। उपमान आदि प्रमाण तो नियत विषय हैं। इसलिए, उनको तो शङ्खा भी नहीं हो सकती। आगम भी ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि 'यतो वाचो निवर्त्तन्ते', इत्यादि श्रुति से ही ब्रह्म को आगम से अगम्य बताया गया है। इसलिए, ब्रह्म में प्रमाण सिद्ध नहीं होता, यह पूर्वपक्षी शङ्खा का तात्पर्य है।

यहाँ सिद्धान्ती का कहना है कि यह ठीक नहीं है; क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के विषय नहीं होने पर भी ब्रह्म के बोधन में श्रुति का ही प्रमाण पर्याप्त है। अतीन्द्रिय पदार्थ के ही बोधन में श्रुति का सार्थक्य भी है। यदि कहें कि 'यतो वाचो निवर्त्तन्ते', इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म का श्रुति-गम्य होना मी निषेध करती हैं, तो उनसे यह कहना चाहिए कि श्रुति ही निषेध करती है और श्रुति ही आगमगम्य होने का विधान भी करती है। जैसे, 'तं त्वैपनिषदं पुरुषं पृच्छामि', 'सदेव सीमेऽसम्प्र आसीत्', 'आनन्दो ब्रह्म', इत्यादि अनेक श्रुतियों से ब्रह्म का श्रुतिगम्य होना भी बताया गया है। श्रुतिप्रतिपादित अर्थ के अनुपगम्य होने पर भी वैदिकों की बुद्धि लिज्ज नहीं होती, बल्कि उनके उपपादन के मार्ग का ही विचार करते हैं। इसलिए, निषेधक और विधायक दोनों प्रकार के वाक्यों का समन्वय समुचित है। यहाँ निषेधक और विधायक दोनों वाक्यों की एकवाक्यता इस प्रकार होती है कि वाक्यजन्य स्पष्ट स्फुरणरूप अर्थ के निषेध में निषेध-श्रुति की चरितार्थता है, और अशान-रूप आवरण के भङ्ग करने में विधायक-श्रुति की। इसलिए, दोनों प्रकार को श्रुतियाँ चरितार्थ होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिस समय घट आदि का ज्ञान होता है, उस समय अन्तःकरण-विशेषरूप जो बुद्धि-तत्त्व है, जिसमें स्वान्तर्गत चिदाभास भी है, वह घट को व्याप्त करता है। वहाँ बुद्धि-रूप व्याप्ति से घट का अशानरूप जो आवरण है, उसका नाश होता है। और, चिदाभास की जो व्याप्ति है, उससे घट का स्फुरण होता है। क्योंकि, घट तो जड़ है, उसका स्वयम्भ्रकाश हो नहीं सकता। इसलिए, चिदाभास की व्याप्ति मानना अनिवार्य हो जाता है। स्वामी विद्यारण्य आचार्य ने भी लिखा है—

‘बुद्धितरस्थचिदाभासी द्रावपि श्याप्नुतो घटम् ।  
तग्राजानं धिया पश्चेत् आभासेन घटः स्फुरेत् ॥’

इसका तात्पर्य यही है कि बुद्धि और उसमें स्थित चिदाभास—ये दोनों घट को व्याप्त करते हैं, यहाँ बुद्धि की व्याप्ति से अशान का नाश होता है, और चिदाभास की व्याप्ति से घट का स्फुरण। यहाँ स्फुरण शब्द से शान में अपने आकार का समर्पण ही विवक्षित है। ‘जानाति’ में शा पातु का अर्थ (फल) आवरण-भङ्ग और स्फुरण दोनों सिद्ध होते हैं। आवरण-भङ्ग-रूप फल के मानने से ही ‘घटं जानाति’ में घट का कर्मत्व सिद्ध होता है। अन्यथा, शान-रूप फल के घट में न रहने से घट की कर्मता सिद्ध नहीं होगी।

प्रकृत में ‘तत्त्वमसि’, इत्यादि वाक्यों से आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ बुद्धि-वृत्ति की व्याप्ति से अशान-रूप आवरण का नाश-रूप फल उत्पन्न होता है। आवरण के भङ्ग होने पर शीम ही स्वयम्भ्रकाश-स्वरूप आत्मा का स्फुरण होने लगता है। इसलिए, स्फुरण के स्वयं सिद्ध होने से वाक्य-जन्य ज्ञान का वह फल नहीं हो सकता। इसी अभिप्राय से ब्रह्म का ज्ञान का विषय होना भी श्रुति बताती है। इस तरह दोनों प्रकार की श्रुतियाँ चरितार्थ होती हैं। इसी अभिप्राय से आचार्यों ने भी कहा है—

‘अनाधेयफलरवेन श्रुतेवंक्ष न गोचरः ।  
प्रमेयं प्रमितौ तु स्यादात्माकारसमर्पणात् ॥  
न प्रकाश्यं प्रमाणेण प्रकाशो भवाण्यः स्वयम् ।  
तज्जन्याऽऽवृत्तिभङ्गे न प्रमेयमिति गीयते ॥’

इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म श्रुति का विषय नहीं होता; वयोंकि स्वयं स्फुरण-रूप जो ब्रह्म है, उसमें श्रुति स्फुरण-रूप फल उत्पन्न नहीं कर सकती। किन्तु, ब्रह्म की जो प्रमेय कहा जाता है, वह ज्ञान में अपने आकार के समर्पण करने के हेतु से ही है। जिस कारण ब्रह्म स्वयम्भ्रकाश है, उसी कारण प्रमाणान्तर से वह प्रकाश्य नहीं होता। किन्तु, प्रमाण से आवरण का भङ्ग होता है। इसलिए, प्रमेय कहा जाता है।

इस सन्दर्भ से सत् चित् आनन्द एकरस जीवात्मभूत ब्रह्म ही प्रकृत शास्त्र का विषय है, यह व्यवस्थापन किया गया। इसके बाद पहले जो लिखा है कि अध्यास-निवृत्ति शास्त्र का प्रयोजन है, इसमें अध्यास व्या वस्तु है। और, वह क्यों माना जाता है? इत्यादि विषयों का विवेचन किया जाता है।

### अध्यासवाद-विवेचन

यहाँ एक बात जानना चाहिए कि जो अनेक प्रकार के बाद विभिन्न आचार्यों ने माने हैं, उनमें प्रधान तीन ही बाद हैं—जैसे, आरम्भवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। आरम्भवाद नैयायिकों और वैशेषिकों का है, तथा परिणामवाद सांख्यों का और विवर्तवाद वेदान्तियों का है। विवर्तवाद का ही नाम अध्यासवाद है।

आरम्भवादी लोगों का कहना है कि पूर्व में असत् जो घट, पट आदि अवयवी पदार्थ हैं, वे अपने अवयवों से ही आरब्ध होते हैं, इसलिए आरम्भवाद माना जाता है। जैसे, परमाणु-संयोग से द्वयणुक की और द्वयणुक के संयोग से त्र्यणुक की उत्पत्ति होती है। इसी क्रम से पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाशादि पञ्चभूतों की उत्पत्ति और उसके द्वारा इस दृश्यमान सकल प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है, यही आरम्भवाद है। इसलिए, यह प्रपञ्च सत्य है, अध्यस्त नहीं, ऐसा नैयायिकों और वैशेषिकों का कहना है। अध्यास के न होने से अध्यास की निवृत्ति-रूप जो शास्त्र का प्रयोजन माना गया है, वह सिद्ध नहीं होता, यह आरम्भवाद का सिद्धान्त है। परन्तु, यह युक्त नहीं है। कारण यह है कि परमाणु निरवयव होता है और संयोग सावयव पदार्थों के अवयव के साथ ही होता है। क्योंकि, संयोग अव्याप्यवृत्ति धर्म है, यह अवयव के साथ ही होता है। और, परमाणु का कोई अवयव है नहीं। इसलिए, परमाणु का संयोग न होने से द्वयणुकादिक क्रम से जो प्रपञ्च की उत्पत्ति कही गई है, वह सिद्ध नहीं होती है, इसलिए आरम्भवाद युक्त नहीं है।

इसी प्रकार, सांख्यों का अभिमत जो परिणामवाद है, उसके विषय में भी समक्कना चाहिए। परिणाम उसको कहते हैं, जो अपने स्वरूप का त्याग कर स्वरूपान्दर में परिणत हो जाता है। जैसे, दुर्घ अपने स्वप्रद्रवत्व का छोड़कर कठिन दधि के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए, दुर्घ का परिणाम दधि कहा जाता है। सांख्यों के मत में प्रपञ्च को ही प्रकृति का परिणाम माना जाता है। प्रकृति महतत्व के रूप में परिणत होकर तथा बुद्धि अहङ्कार के रूप में, और अहङ्कार पञ्चतन्मात्रा के रूप में परिणत होकर पञ्चभूतों के द्वारा सकल प्रपञ्च का कारण बनता है। यही परिणामवाद है। परन्तु, यह भी युक्त नहीं है। कारण यह है कि सांख्यों के मत में प्रकृति अचेतन पदार्थ है, इसलिए चेतन के साथ सम्बन्ध के बिना उसमें परिणाम होना असम्भव है। और, चेतन जो पुरुष है, उसको सांख्य लोग सर्वथा उदासीन मानते हैं। इस अवस्था में, उसका अचेतन के साथ सम्बन्ध हो नहीं सकता। इसलिए, परिणामवाद भी युक्त नहीं होता।

यदि यह कहें कि आरम्भवाद और परिणामवाद के असम्भव होने पर संसार को नित्य ही मान लें, तो क्या हानि है? यह ठीक नहीं है। क्योंकि, संसार की प्रतीति होती है। इसलिए, इसका अपलाप भी नहीं कर सकते। यदि प्रतीति होने से इसको सत् ही मान लें, तो भी ठीक नहीं होता। क्योंकि, ज्ञानी की दृष्टि से आत्मा के आत्मात्कार होने पर सकल प्रपञ्च मिथ्या प्रतीत होता है। अर्थात्, आत्मसात्मात्कार होने पर संसार का बाध हो जाता है और सत्य पदार्थ का बाध होता नहीं। इसलिए, ख्याति और बाध दोनों की उपपत्ति के लिए अध्यासवाद को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए, प्रपञ्च अध्यस्त है, ऐसा सिद्ध होता है और अध्यास की निवृत्ति ही शास्त्र का प्रयोजन है, यह भी सिद्ध हो जाता है।

यह विवर्च सत् और असत् दोनों से विलक्षण अनिवर्चनीय माना गया है। यदि सत् मानें, तो उसका बाध नहीं होगा, और यदि असत् मानें, तो उसकी

‘ुदितरस्यचिदाभासी द्वाषपि ध्याप्तुतो घटम् ।  
तत्राशानं धिया नश्चेत् आभासेन घटः स्फुरेत् ॥’

इसका तात्पर्य यही है कि बुद्धि और उसमें स्थित चिदाभास—ये दोनों घट को व्याप्त करते हैं, वहाँ बुद्धि की व्याप्ति से अशान का नाश होता है, और चिदाभास की व्याप्ति से घट का स्फुरण। यहाँ स्फुरण शब्द से शान में अपने आकार का समर्पण ही विवक्षित है। ‘जानाति’ में शा धातु का अर्थ (फल) आवरण-मङ्ग और स्फुरण दोनों सिद्ध होते हैं। आवरण-मङ्ग-रूप फल के मानने से ही ‘घटं जानाति’ में घट का कर्मत्व सिद्ध होता है। अन्यथा, शान-रूप फल के घट में न रहने से घट की कर्मता सिद्ध नहीं होगी।

प्रकृत में ‘तत्त्वमसि’, इत्यादि वाक्यों से आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ बुद्धि-नृत्ति की व्याप्ति से अशान-रूप आवरण का नाश-रूप फल उत्पन्न होता है। आवरण के मङ्ग होने पर शीघ्र ही स्वयम्प्रकाश-स्वरूप आत्मा का स्फुरण होने लगता है। इसलिए, स्फुरण के स्वयं सिद्ध होने से वाक्य-जन्य ज्ञान का वह फल नहीं हो सकता। इसी अभिप्राय से ब्रह्म का ज्ञान का विषय होना भी श्रुति बताती है। इस तरह दोनों प्रकार की श्रुतियाँ चरितार्थ होती हैं। इसी अभिप्राय से आचार्यों ने भी कहा है—

‘धनाधेयफलस्त्वेन श्रुतेवंष्ट न गोचरः ।  
प्रमेयं प्रमिती तु स्यादात्माकारसमर्पणात् ॥  
न प्रकाश्यं प्रमाणेन प्रकाशो प्रद्वयः स्वयम् ।  
तजन्याऽऽवृत्तिभङ्गे न प्रमेयमिति गीयते ॥’

इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म श्रुति का विषय नहीं होता; क्योंकि स्वयं स्फुरण-रूप जो ब्रह्म है, उसमें श्रुति स्फुरण-रूप फल उत्पन्न नहीं कर सकती। किन्तु, ब्रह्म को जो प्रमेय कहा जाता है, वह ज्ञान में अपने आकार के समर्पण करने के हेतु से ही है। जिस कारण ब्रह्म स्वयम्प्रकाश है, उसी कारण प्रमाणान्तर से वह प्रकाश्य नहीं होता। किन्तु, प्रमाण से आवरण का मङ्ग होता है। इसलिए, प्रमेय कहा जाता है।

इस सन्दर्भ से सत् चित् आनन्द एकरस जीवात्मभूत ब्रह्म ही प्रकृत शास्त्र का विषय है, यह व्यवस्थापन किया गया। इसके बाद पहले जो लिखा है कि अध्यास-निवृत्ति शास्त्र का प्रयोजन है, इसमें अध्यास क्या बस्तु है? और, वह क्यों माना जाता है? इत्यादि विषयों का विवेचन किया जाता है।

### अध्यासवाद-विवेचन

यहाँ एक बात जानना चाहिए कि जो अनेक प्रकार के वाद विभिन्न आचार्यों ने माने हैं, उनमें प्रधान तीन ही वाद हैं—जैसे, आरम्भवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। आरम्भवाद नैयायिकों और वैरोधिकों का है, तथा परिणामवाद सांख्यों का और विवर्तवाद वेदान्तियों का है। विवर्तवाद का ही नाम अध्यासवाद है।

आरम्भवादी लोगों का कहना है कि पूर्व में असत् जो घट, पट आदि अवयवी पदार्थ हैं, वे अपने अवयवों से ही आरब्ध होते हैं, इसलिए आरम्भवाद माना जाता है। जैसे, परमाणु-संयोग से द्रव्यणुक की और द्रव्यणुक के संयोग से ज्यणुक की उत्पत्ति होती है। इसी क्रम से पृथिवी, जल, तेज, वायु, ग्राकाशादि पञ्चभूतों की उत्पत्ति और उसके द्वारा इस दृश्यमान सकल प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है, यही आरम्भवाद है। इसलिए, यह प्रपञ्च सत्य है, अध्यस्त नहीं, ऐसा नैयायिकों और वैशेषिकों का कहना है। अध्यास के न होने से अध्यास की निवृत्ति-रूप जो शास्त्र का प्रयोजन माना गया है, यह सिद्ध नहीं होता, यह आरम्भवाद का सिद्धान्त है। परन्तु, यह युक्त नहीं है। कारण यह है कि परमाणु निरवयव होता है और संयोग सावयव पदार्थों के अवयव के साथ ही होता है। यद्योकि, संयोग अव्याप्यवृत्ति धर्म है, यह अवयव के साथ ही होता है। और, परमाणु का कोई अवयव है नहीं। इसलिए, परमाणु का संयोग न होने से द्रव्यणुकादिक क्रम से जो प्रपञ्च की उत्पत्ति कही गई है, वह सिद्ध नहीं होती है, इसलिए आरम्भवाद युक्त नहीं है।

इसी प्रकार, सांख्यों का अभिमत जो परिणामवाद है, उसके विषय में भी समझना चाहिए। परिणाम उसको कहते हैं, जो अपने स्वरूप का त्याग कर स्वरूपान्तर में परिणत हो जाता है। जैसे, दुर्घ अपने रूप द्रव्यत्व का छोड़कर कठिन दधि के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए, दुर्घ का परिणाम दधि कहा जाता है। सांख्यों के मत में प्रपञ्च को ही प्रकृति का परिणाम माना जाता है। प्रकृति महत्व के रूप में परिणत होकर तथा बुद्धि अहङ्कार के रूप में, और अहङ्कार पञ्चतन्मात्रा के रूप में परिणत होकर तथा द्रव्यभूतों के द्वारा सकल प्रपञ्च का कारण बनता है। यही परिणामवाद है। परन्तु, यह भी युक्त नहीं है। कारण यह है कि सांख्यों के मत में प्रकृति अचेतन पदार्थ है, इसलिए चेतन के साथ सम्बन्ध के बिना उसमें परिणाम होना असम्भव है। और, चेतन जो पुरुष है, उसको संबंध लोग सर्वथा उदासीन मानते हैं। इस अवस्था में, उसका अचेतन के साथ सम्बन्ध हो नहीं सकता। इसलिए, परिणामवाद भी युक्त नहीं होता।

यदि यह कहें कि आरम्भवाद और परिणामवाद के असम्भव होने पर संसार को नित्य ही मान लें, तो क्या हानि है? यह ठीक नहीं है। यद्योकि, संसार की प्रतीति होती है। इसलिए, इसका अपलाप भी नहीं कर सकते। यदि प्रतीति होने से इसको सत् ही मान लें, तो भी ठीक नहीं होता। यद्योकि, ज्ञानी की दृष्टि से आत्मा के साक्षात्कार होने पर सकल प्रपञ्च मिथ्या प्रकृति होता है। अर्थात्, आत्मसाक्षात्कार होने पर संसार का बाध हो जाता है और सत्य पदार्थ का बाध होता नहीं। इसलिए, ख्याति और बाध दोनों की उपपत्ति के लिए अध्यासवाद को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए, प्रपञ्च अध्यस्त है, ऐसा सिद्ध होता है और अध्यास की निवृत्ति ही शास्त्र का प्रयोजन है, यह भी सिद्ध हो जाता है।

यह विवर्त सत् और असत् दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय माना गया है। यदि सत् मानें, तो उसका बाध नहीं होगा, और यदि असत् मानें, तो उसकी

प्रतीति नहीं होगी। इसलिए, विवर्त दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय सिद्ध होता है। जिसका शान से वाघ हो, उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। विवर्त का लक्षण यह माना गया है कि जो अपने स्वरूप का त्याग न कर दूसरे के स्वरूप से भासित हो, वह विवर्त है। जैसे, शुक्ति का, अपने स्वरूप को नछोड़कर, रजत रूप से भासित होना।

जिस प्रकार, शुक्ति में रजत और रज्जु में सर्व विवर्त अर्थात् कल्पित है, उसी प्रकार व्रह में सकल प्रपञ्च कल्पित है। उसीको सत्यमिथ्याख्यावभास और अध्यास भी कहते हैं। यहाँ अध्यास और अवभास पर्यायवाचक शब्द हैं।

प्रकृत में आत्मा सत् है और अहङ्कारादि सकल प्रपञ्च मिथ्या। एक बात और है कि अहङ्कार आदि जो आत्मा से मिन पदार्थ हैं, उनमें आत्मा के स्वरूप का अध्यास नहीं होता, किन्तु आत्मा के सम्बन्ध का अध्यास होता है। और, आत्मा में मिथ्याभूत अनात्मप्रपञ्च के स्वरूप का ही अध्यास होता है। इसीका नाम सत्यमिथ्याख्यावभास है। शुक्ति में जो रजत का अध्यास है, वह भी इसी प्रकार का उमरक्ता चाहिए। अर्थात्, रजत में शुक्ति के सम्बन्ध का अध्यास और शुक्ति में रजत के स्वरूप का अध्यास होता है।

अध्यास दो प्रकार का होता है। एक अर्थाध्यास और दूसरा शानाध्यास। शुक्ति में मिथ्याभूत रजत का जो अध्यास है, वह अर्थाध्यास है; और मिथ्याभूत शान का आत्मा में जो अध्यास है, वह शानाध्यास है। शास्त्रकारों ने भी लिखा है—

‘प्रमाणदोषसंस्कारजन्मान्यस्य परार्थता ।

तद्वीशाध्यास इति हि द्वयमित्यं मनीषिभिः ॥’

इसका तात्पर्य यह है कि प्रमाण, दोष और संस्कार इन तीनों से उत्पन्न होनेवाली जो अन्य वस्तु की अन्यात्मता है, अर्थात् वस्त्वन्य के स्वरूप में परिणत होना है, व्रह और ऐसी वस्तु का जो शान है, ये दोनों अध्यास कहे जाते हैं। यहाँ प्रमाण शब्द से चहुं आदि इन्द्रियों का ग्रहण है, और दोष दूरत्व आदि का। संस्कार यह है, जो पूर्व में रजत आदि के अनुभव से आत्मा में उत्पन्न हुआ है। इन तीनों के रहने पर ही शुक्ति में ‘यह रजत है’, इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। इन तीनों में एक के भी नहीं रहने से अध्यास नहीं हो सकता। और भी अध्यास दो प्रकार का होता है—एक निष्पाधिक दूसरा सोपाधिक। यथा—

‘दोषेण कर्मणा वापि ज्ञोभिताज्जनसम्बद्धः ।

तत्त्वविद्याविरोधी च भ्रमोऽयं निरुपाधिकः ॥

उपाधिसत्त्विप्राप्ताज्ञोभाविद्याविजृभितम् ।

उपाध्यपगमापोद्यमाहुः सोपाधिकं भ्रमम् ॥’

भाव यह है कि दोष अथवा कर्म से ज्ञोभित जो अशान है, उसे उत्पन्न होनेवाला तत्त्वशान का विरोधी जो भ्रम है, उसे निष्पाधिक भ्रम कहते हैं। उपाधि के संनिधान से ग्रास है ज्ञोभ जिसमें, उस अविद्या से उत्पन्न होनेवाला और उपाधि के नष्ट होने से नष्ट हो जानेवाला जो भ्रम है, उसे सोपाधिक कहते हैं।

आत्मा में अद्वार का जो स्वरूपेण अध्यास है, वह निश्चापाधिक भ्रम है। जैसे, उपाधिरहित इदम् अंश में रजत-संस्कार के सहित, अविद्या के कारण, रजत का अध्यास होता है। तद्वत्, पूर्ववर्ती अद्वार आदि अथवा कर्म से ज्ञोभित जो अविद्या है, उसीसे उपाधिरहित चिद्-रूप आत्मा में अहंकार का जो अध्यास होता है, वही निश्चापाधिक भ्रम है। और, एक ही अखण्ड ब्रह्म में उपाधि के भेद से जीव, ईश्वर आदि भेद का जो अवभास होता है, वही सोपाधिक भ्रम कहा जाता है। और, उसी ब्रह्म में स्वरूप से जो अहंकार का अध्यास होता है, उसे निश्चापाधिक अध्यास कहा गया है। अन्य आचार्यों ने भी कहा है—

‘नीलिमेव विषयत्येषा भ्रान्त्या ब्रह्मणि संसृतिः ।

घटाघोमेव भोक्ताऽयं भ्रान्तो भेदेन न स्थितः ॥’

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आकाश में नीलिमा की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ब्रह्म में, भ्रान्ति के कारण, संसार की प्रतीति होती है। और, जिस प्रकार महाकाश में घट उपाधि से घटाकाश का भेद प्रतीत होता है, उसी प्रकार अखण्ड आत्मा में, शरीर आदि उपाधि के कारण भ्रान्ति से ही, भोक्ता आदि का भेद प्रतीत होता है। वस्तुतः, स्वतः भेद नहीं है।

इसी अभिप्राय से शङ्कराचार्य ने अपने शारीरक-भाष्य के अध्यास-निरूपण-प्रसङ्ग में लोकानुभव के दो ही उदाहरण, दृष्टान्त-रूप से, दिये हैं—जैसे ‘शुक्किका रजतवद्वभासते एकश्वन्दः स द्वितीयवदिति ।’ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शुक्किका रजत के रूप में भासित होती है, उसी प्रकार ब्रह्म इस प्रपञ्च के आकार में भासित होता है और जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा दो प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म में जीव-ईश्वरादि अनेक प्रकार के भेद प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार, वेदान्तियों के मतानुसार दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। एक द्रष्टा, दूसरा दृश्य। इसीका ‘सत्यानृत’ या ‘सत्यमित्या’ इत्यादि शब्दों से आचार्यों ने अनेकघा वर्णन किये हैं। यथा—‘सत्यानृते मिथुनीकृत्य ब्रह्म सत्यं जगन्मित्या’ इत्यादि। विस्तार के भय से यहाँ विशेष नहीं लिखा जा रहा है, जिज्ञासाविशेष के लिए शाङ्करभाष्य द्रष्टव्य है।

### अख्यातिवादी मीमांसक (प्रभाकर) के मतानुसार अध्यास-निरूपण

इस प्रकार, अध्यासवादी शाङ्कर वेदान्त का मत-प्रदर्शन संक्षेप में किया गया। अब अख्यातिवादी मीमांसक, विशेषतया प्रभाकर, का मत थोड़े में दिखाया जाता है। प्रभाकर अध्यासवाद को नहीं मानते। इनका कहना है कि ‘शुक्किका रजतवद्वभासते’, यह जो शङ्कराचार्य का दृष्टान्त है, यह युक्त नहीं है। कारण यह है कि शुक्कि में होनेवाला ‘यह रजत है’, इस प्रकार का जो ज्ञान है, वह भ्रम नहीं है, किन्तु यथार्थ ही है। ‘इदम् रजतम्’, इस प्रकार का जो ज्ञान है, वह एक नहीं है। यहाँ ‘इदम्’ शब्द से जो ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है, और ‘रजतम्’ इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, वह पूर्व में हृष्ट जो रजत है, उसकी स्मृति के आकार का प्रदर्शनमात्र है। यहाँ ‘इदम्’,

इस प्रत्यक्ष में आगे रहनेवाला (पुरोवर्ती) द्रव्य-मात्र का ग्रहण होता है। और, इस द्रव्य में रहनेवाला जो शुक्तिव है, उसका दूरत्वादि दोष से ग्रहण नहीं होता। यहाँ गृहीत जो द्रव्य-मात्र है, वह रजत के सहशा होने के कारण रजत के संस्कार वा उद्घोषन द्वारा रजत-स्मृति को उत्पन्न कर देता है। वह स्मृति यद्यपि गृहीत-ग्रहण स्वभाववाली है, तथापि दोष के बश से गृहीतत्व अंश का त्याग हो जाता है। केवल ग्रहण-मात्र अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात् उस स्मृति में दूरत्वादि दोष से शुक्ति-अंश का भान नहीं होता, केवल ज्ञान-मात्र रहता है। इस स्थिति में, प्रत्यक्ष और स्मरण ये दोनों ज्ञान स्वरूप से या विषय से परस्पर भिन्न होते हुए भी, दोपवश, भेद के ज्ञान न होने के कारण, 'इदम् रजतम्', यह रजत है, इस अभेद-ज्ञान को प्रवृत्त करा देते हैं। और, रजतार्थों की जो प्रवृत्ति उसमें होती है, वह पुरोवर्ती पदार्थ में, यह रजत नहीं है, इस प्रकार के रजत-भेद के ज्ञान न होने के कारण ही। एक बात और भी है कि 'इदम् रजतम्', ऐसी जो रजत की प्रतीति है, उस रजत-प्रतीति का आलम्बन, अर्थात् विषय, शुक्ति नहीं हो सकती। कारण यह है कि जिस ज्ञान में जो भावित होता है, वही उसका आलम्बन (विषय) होता है। प्रकृत में, यदि रजत के अनुभव का विषय शुक्ति को मानते हैं, तो नियमविमुद्ध हो जाता है।

इसलिए, शाङ्कर-वेदान्तियों का यह कहना कि शुक्ति रजत रूप से भावित होती है, अर्थात् अन्य का अन्य रूप से भान होता है, युक्त नहीं है। प्रभाकरमतानुसारी पण्डित शालिकनाथ ने भी प्रकरण-पञ्चिका के न्यायबीधी नामक चतुर्थ प्रकरण में लिखा है—

‘अत्र वूमो य एवार्थो पस्यां संविदि भासते ।  
वेदः स एव नान्यद्वि वेदावेदावलक्षणम् ॥  
इदं रजतमित्यत्र रजतन्वदभासते ।  
सदेव तेन वेदः स्याद्यतु शुक्तिरवेदनात् ॥  
तेनान्यश्यान्यथाभावः प्रतीत्यैव पराहतः ।  
अन्यस्मिन् भासमाने हि न परं भासते यतः ॥’

तात्पर्य यह है कि जिस ज्ञान में जो अर्थ भावित होता है, वही अर्थ उस ज्ञान का विषय होता है। अन्य कोई भी पदार्थ उस ज्ञान का विषय नहीं होता। 'इदम् रजतम्', इस ज्ञान में रजत ही भावित होता है, इसलिए इस ज्ञान का विषय रजत ही हो सकता है, दूसरा नहीं। अर्थात्, 'रजतम्', इस ज्ञान का विषय शुक्ति नहीं हो सकती। वयोकि, उसका ज्ञान नहीं होता। इसी कारण, अन्य का अन्य प्रकार से अवभास होना प्रतीति से ही तिरस्कृत हो जाता है; वयोकि दूसरे का भान होने पर दूयरा भावित नहीं होता।

इसलिए, वेदान्तियों का जो अध्यास्याद-सिद्धान्त है, यह किसी प्रकार युक्त नहीं होता। यही योड़े में प्रभाकर का सिद्धान्त है।

वेदान्तियों का इसके उच्चर में कहना है कि मीमांसक लोग जो यह कहते हैं कि अथधार्थ ज्ञान होता ही नहीं। 'इदम्', इस प्रत्यक्ष और रजत के स्मरण इन दोनों

ज्ञानों से ही रजतार्थी की प्रवृत्ति होती है, श्वयथार्थ ज्ञान के कारण नहीं, यह सर्वधा अमुक है। कारण यह है कि किसी भी बुद्धिमान् आदमी की प्रवृत्ति दो ही चीजों के लिए होती है। एक तो अभीष्ट वस्तु के लिए, दूसरी समीहित वस्तु के साधन के लिए। रजतार्थी की प्रवृत्ति तभी ही सकती है, जब समीहित रजत का उसे ज्ञान हो। केवल शुक्तिका-खण्ड रजतार्थी को रजत का अनुभव कभी नहीं करा सकता और शुक्तिका-खण्ड न तो रजतार्थी को समीहित है और न वह समीहित रजत का साधन ही है। समीहित के साधन-ज्ञान के बिना किसी बुद्धिमान् की प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती और पुरास्थित शुक्ति में ही रजत बुद्धि से मनुष्य की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए, यह सिद्ध होता है कि रजत का ज्ञान उसे होता है। यदि यह कहें कि रजत के स्मरण से ही उसकी प्रवृत्ति होती है, तो भी ठीक नहीं होता। कारण यह है कि स्मरण अनुभव के परतन्त्र होता है। जिस देश में अनुभव हुआ है, उसी देश में वह प्रवृत्ति का कारण हो सकता है। क्योंकि, स्मरण अनुभव का ही अनुकारी होता है। इसलिए, अप्रेस्थित शुक्ति में रजत का अनुभव नहीं करा सकते। अतः रजत के स्मरण-मात्र से प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

यदि कहें कि पुरोवर्ती शुक्ति और स्मृत रजत के भेद का अज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण होता है, तो भी युक्त नहीं है। कारण यह है कि किसी चेतन के व्यवहार का कारण ज्ञान ही होता है, अज्ञान नहीं। लोक में ज्ञानप्रयुक्त व्यवहार ही सर्वत्र देखा जाता है। अज्ञान से कोई भी किसी व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए, भेद का अज्ञान प्रयुक्ति का कारण है, यह नहीं कह सकते। तात्पर्य यह है कि मीमांसक लोगों के मत में, शुक्ति में जो रजत का व्यवहार होता है, वह अध्यात्म, अर्थात् आरोपपूर्वक नहीं है, किन्तु प्रत्यक्षात्मक और स्मरणात्मक इन दोनों ज्ञानों के परस्पर-भिन्नत्वेन जो अज्ञान है, अर्थात् दोनों में जो भेद-ज्ञान का अभाव है, तत्पूर्वक ही शुक्ति में रजत का व्यवहार होता है, और उसके लिए मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है। यही भीमांसकों का परम सिद्धान्त है। परन्तु, इनका यह सिद्धान्त किसी प्रकार भी युक्त नहीं हो सकता। कारण यह है कि रजतार्थी की जो शुक्ति के विषय में प्रवृत्ति होती है, वह नहीं बनती; क्योंकि शुक्ति रजतार्थी का समीहित नहीं। अन्वय-व्यतिरेक से रजत ही रजतार्थी का समीहित है। समीहित इष्ट वस्तु का नाम है। इष्ट वस्तु के ज्ञान होने पर ही प्रवृत्ति होती है, और इष्ट वस्तु के ज्ञान के अभाव में प्रवृत्ति नहीं होती। यही अन्वय-व्यतिरेक है। इस अन्वय-व्यतिरेक से समीहित जो रजत है, उसीका ज्ञान होना प्रवृत्ति का कारण है, यह अवश्य स्वीकार करना होगा। इसलिए, प्रकृत में रजत का स्मरणात्मक जो ज्ञान है, वही भीमांसकों को मानना होगा। परन्तु, यह युक्त नहीं होता। कारण यह है कि ज्ञान और इच्छा के समानविषयत्व सिद्ध होने पर भी इच्छा और प्रवृत्ति के समानविषयत्व-नियम का भङ्ग हो जायगा। तात्पर्य यह है कि 'जानाति, इच्छति, सतः प्रवर्त्तते', अर्थात् पहले ज्ञान होता है, बाद में इच्छा, तब प्रवृत्ति। अर्थात्, ज्ञान, इच्छा और प्रवृत्ति इन तीनों का समान-विषय होना आवश्यक नियम है। अर्थात्, जिस विषय का ज्ञान होगा, उसीकी

इच्छा होगी और जिसकी इच्छा होगी, उसीमें प्रवृत्ति, वह नियम है। जिसका ज्ञान नहीं होता, उसकी इच्छा भी नहीं होती और जिसकी इच्छा नहीं होती, उसकी और प्रवृत्ति भी नहीं होती। प्रकृत में इच्छा का विषय रजत है, वह प्रवृत्ति का विषय नहीं है। यद्योकि, प्रवृत्ति तो 'इदम्' का अर्थ जो श्रमेस्थित शुक्ति है, उसकी और होती है। इस अवस्था में, जिसके प्रति प्रवृत्ति होती है, उसीको ज्ञान और इच्छा का विषय किसी भी प्रकार मानना ही होगा, नहीं तो ज्ञान, इच्छा और प्रवृत्ति का जो समानविषयक होना नियम है, वह भंग हो जायगा। और, इदमर्थ जो पुरोवर्ती शुक्ति है, वह इच्छा और प्रवृत्ति का विषय तभी हो सकती है, जब उसमें रजत का आरोप मानें। इदमर्थ शुक्ति में इच्छा के विषयीभूत रजत के आरोप के बिना शुक्ति की ओर जो प्रवृत्ति होती है, वह कभी सिद्ध नहीं हो सकती। यदि भीमांसिक, पुरोवर्ती वस्तु रजत-भिन्न है, ऐसा ज्ञान न होने के कारण प्रवृत्ति होती है, यह मानते हैं, तो उन्हींके मतानुसार पुरोवर्ती वस्तु रजत है, ऐसा भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए, उसमें रजतार्थी की प्रवृत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। इसलिए, रजतार्थी की प्रवृत्ति के लिए पुरोवर्ती शुक्ति में रजत का आरोप अवश्य मानना ही होगा। इसीलिए, अख्यातिवादी भीमांसिकों का मत अयुक्त है।

### बौद्धमतानुसार अध्यास का विवेचन

यहाँ शून्यवादी माध्यमिकों का कहना है कि रजत का जो भ्रम शुक्ति में होता है, उस भ्रम का आलम्बन शून्य ही है, कोई सत् नहीं। इनके मत का विवेचन पृथक् बौद्धदर्शन में किया गया है। इनके मत में सकल पदार्थ-मात्र शून्य है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इनके मत में शुक्ति भी कोई परमार्थ वस्तु नहीं है, किन्तु शून्य ही है, इसलिए रजत-भ्रम का आलम्बन असत् ही है, वह सिद्ध होता है। इनका कहना है कि 'असत्-प्रकाशनशक्तिमती' जो वासना है, वह स्वयं असत्-स्वरूप होने पर भी सत् के सदृश भासित होती है। यह प्रकाश अनादिकाल से ही निरन्तर धारा-प्रवाह-रूप से चला आ रहा है। असत्-प्रकाशनशक्तिमती जो वासना है, वह असत्-विश्वान को भी सत् के सदृश प्रकाशित करती है और अपने सदृश असत्-प्रकाशन-शक्ति को भी प्रकाशित करती है। इनके वासना-विश्वान में जो असत्-प्रकाशन-शक्ति है, वह स्वप्न के दृष्टान्त से सिद्ध होती है। जिस प्रकार, स्वप्न में असत् पदार्थ का ही मान होता है, उसी प्रकार संसार में असत् पदार्थ का ही सदा मान होता रहता है। इसी असत्-प्रकाशन-शक्ति को अविद्या और संवृत्ति भी कहते हैं। इसलिए, असत्-प्रकाशनशक्तिमती अविद्या से ही असत् जो यह प्रपञ्च है, वह सत् के सदृश भासित होता है। इसलिए, प्रकृत में भ्रम का आलम्बन जो शुक्ति है, वह भी असत् ही है, यह सिद्ध हो जाता है। परन्तु, बौद्धों का यह शून्यवाद-सिद्धान्त भी युक्त नहीं होता। कारण यह है कि असत् किसीका कारण नहीं होता। और, दूसरी बात यह है कि असत् को प्राप्त करने की इच्छा से उसमें किसीकी प्रवृत्ति भी नहीं होती और प्रकृत में रजतार्थी की शुक्ति के अभिमुख प्रवृत्ति देखी जाती है।

यदि यह कहें कि विज्ञान में, वासनादि स्वकारणवश और स्वप्रादि दृष्टान्त से, एक प्रकार का विशेष धर्म आ जाता है, जिससे असत् शुक्ति आदि भी सत् के ही सदृश भासित होते हैं, इसलिए रजत-बुद्धि से उसमें प्रवृत्ति अनिवार्य है, चो भी युक्त नहीं है। कारण यह है कि इससे शक्य का निरूपण नहीं होता।

तात्पर्य यह कि असत्यकाशनशक्तिमात् जो विज्ञान है, उसीको शक्ति माना गया है। और, उस विज्ञान से अपनी शक्ति द्वारा प्रकाशित घट आदि वस्तुओं को शक्य कहा जाता है। अब यहाँ यह विकल्प होता है कि वह शक्य विज्ञान का कार्य है अथवा ज्ञाप्य ? जन्य, अर्थात् उत्पन्न होनेवाली वस्तु का नाम कार्य है। जैसे, दण्ड-चक्र आदि कारणों से उत्पन्न होनेवाली घट आदि वस्तुएँ कार्य कही जाती हैं। और, जन्य ज्ञान का जो विषय है, उसको ज्ञाप्य कहते हैं। प्रकृत में घट आदि वस्तुओं को कार्य नहीं कह सकते। क्योंकि, कार्य तभी हो सकता है, जब उसका कोई उपादान कारण हो। और, बीद्रो का अभिमत जो विज्ञान है, वह स्वयं शून्य है, वह किसीका उपादान नहीं हो सकता। इसलिए, शक्य को कार्य नहीं कह सकते।

यदि ज्ञाप्य कहें, तो भी नहीं बनता। कारण यह है कि शक्य को कार्ये उनके मत में स्वीकार किया गया है। वह ज्ञाप्य हो नहीं सकता। दूसरी बात यह कि घटादि शक्य को यदि ज्ञाप्य मानें, तो उस विज्ञान का ज्ञापकत्व अर्थतः सिद्ध हो जाता है। और, ज्ञापक का ज्ञाप्य के साथ साहात् सम्बन्ध होता नहीं। किन्तु, स्वजन्य ज्ञान के द्वारा ही सम्बन्ध होता है। जिस प्रकार, ज्ञापक जो प्रदीपादि है, वे घटादि ज्ञान के जनक हैं, यह मानना होगा। और, उस विज्ञान से उत्पन्न घटादिविषयक दूसरा कोई ज्ञान विज्ञान से भिन्न उपलब्ध नहीं होता। यदि द्वितीय ज्ञान की उपलब्धि मानें, तो द्वितीय ज्ञान का शक्य जो घटादि अर्थ है, उनको कार्य मान नहीं सकते। क्योंकि, उसका कारण असत् विज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए, ज्ञाप्य मानना होगा। इस प्रकार, स्वीकृत जो द्वितीय ज्ञान है, उसका भी घटादि का ज्ञापक होना अर्थतः सिद्ध हो जाता है। ज्ञापक भी ज्ञान का जनक ही होता है; क्योंकि ज्ञापक का साहात् सम्बन्ध ज्ञाप्य के साथ नहीं होता, किन्तु वह ज्ञान के द्वारा ही होता है, यह पहले ही कह चुके हैं। इसलिए, द्वितीय ज्ञान से जन्य एक भिन्न तृतीय ज्ञान को स्वीकार करना होगा। और, उसका भी पूर्वोक्त रीति से ज्ञापक होने से उससे जन्य चतुर्थ ज्ञान को मानना होगा। इस प्रकार, पञ्चमादि ज्ञान के मानते रहने से अनवस्था-दोष हो जाता है। इसलिए, असत्-विज्ञानवादी बीद्रो का मत भी असत्-प्रलाप ही प्रतीत होता है। इस प्रकार, वेदान्तियों के मत से बीद्रमत का संक्षेप में निराकरण किया गया। अब अन्यथा-ख्यातिवादी नैयायिकों के मत का संक्षेप में निर्दर्शन किया जाता है।

### नैयायिकों के मत से अध्यास-निरूपण

नैयायिकों का यह कहना है कि 'नेदं रजतम्', यह रजत नहीं है, इस प्रकार का रजत का जो निषेध होता है, इससे आन्तर विज्ञानाकार रजत की सिद्धि यद्यपि नहीं होती, तथापि असचिह्नित रजतमें वर्चमान रजत की सिद्धि उक्त निषेध से हो जाती है।

तात्पर्य यह है कि नैयायिक लोग अन्यथाख्यातिवाद को मानते हैं। अन्य वस्तु की अन्य रूप से प्रतीति को ही अन्यथाख्याति कहते हैं। अन्य वस्तु की अन्य रूप से प्रतीति अन्यत्र कहीं सच्चा रहने पर ही हो सकती है। अत्यन्त असत् वस्तु की प्रतीति होती ही नहीं; क्योंकि प्रतीति का विषय सत् पदार्थ ही होता है, असत् नहीं। इसलिए, असन्निहित रजत की अन्यत्र सच्चा अवश्य सिद्ध हो जाती है, अर्थात् अत्यन्त असत् वस्तु का निषेध नहीं होता; परन्तु जो सत् वस्तु है, उसीका निषेध होता है। इसी अभिप्राय से न्यायकुमुमाङ्गलि में उदयनाचार्य ने लिखा है—

‘व्यावर्त्यभाववत्सैव भाविकी हि विशेष्यता ।

अभावविरहात्मत्वं वस्तुः प्रतियोगिता ॥’

यहाँ व्यावर्त्य का अर्थ है प्रतियोगी। जिसका निषेध किया जाता है, वही प्रतियोगी है। और, प्रतियोगी वह होता है, जिसमें अभाव रहे। इसका भाव यह है कि अत्यन्त तुच्छ जो शश-भृङ्ग आदि असत् वस्तुएँ हैं, और आभास-प्रतिपक्ष शुक्ति में जो रजत आदि हैं, वे अत्यन्त निकृष्ट, अर्थात् असत् हैं। सत् वस्तु नहीं है, यह प्रसिद्ध है, और तुच्छ वस्तु न किसीका विशेष्य होता है और न प्रतियोगी, अर्थात् विशेषण ही होता है। यह क्षोकार्थ है। इसका तात्पर्य यह है कि सम्बन्ध किसी दो पदार्थों का होता है; उनमें एक विशेषण है, जिसको प्रतियोगी कहते हैं और एक विशेष है, जिसको अनुयोगी कहते हैं। ये ही दोनों सम्बन्धी हैं, जिनका सम्बन्ध होता है। प्रतियोगी को विशेषण और अनुयोगी को विशेष्य कहते हैं। ‘घटवद्गूतलम्’, अर्थात् घटयुक्त भूतल, इस प्रयोग में घट विशेषण और भूतल विशेष्य और इन दोनों का संयोग-सम्बन्ध है। यहाँ घटवत् कहने से भूतल में घट के अभाव की व्यावृत्ति होती है। व्यावर्त्य का विरोधी व्यावर्तक होता है। घटाभाव के निषेध से घट की सच्चा सिद्ध हो जाती है। घटाभाव के अभाव की प्रतीति घट पद से ही होती है। इसलिए, घट घटाभाव का अभाव-स्वल्प है, यह सिद्ध हो जाता है। यहाँ घटाभाव का व्यावर्त्य जो घटाभाव है, इसका व्यावर्तक जो घटाभाव का अभाव है, उस अभाव से युक्त होना ही भूतल में विशेष्यता है। अर्थात्, भूतल में घटाभाव के अभाव का रहना ही भूतल की विशेषता-स्वल्प है और घटाभाव का जो विरह, अर्थात् अभाव है, तस्वरूपत्व ही, अर्थात् तस्वरूप ही पारमार्थिक वस्तु प्रतियोगी होती है। इस हिंगति में, प्रकृत स्थल में ‘यह रजत नहीं है’, इस प्रकार जो निषेध होता है, इस निषेध का प्रतियोगी जो रजत है, उसका पारमार्थिक होना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात्, शुक्ति में रजत के निषेध होने से अन्यत्र कहीं रजत का रहना सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार, ब्रह्म में जो प्रपञ्च का आरोप है, उसका ‘नेतिनेति’ इत्यादि प्रपञ्चनिषेधक वाक्यों से प्रपञ्च का जो निषेध होता है, उस निषेध का प्रतियोगी जो प्रपञ्च है, उसका भी कहीं पारमार्थिक घट होना अनिवार्य हो जाता है। इस स्थिति में, वेदान्तियों के मत से द्वैतापत्ति-दोष हो जाता है। यह अन्यथाख्यातिवादी नैयायिकों का मत है। इस मत से जगत् का मित्यात्म भी उद्द नहीं होता रे।

परन्तु, यह ठीक नहीं है। वेदान्तियों का कहना है कि जिस प्रकार असत्-संसर्गं निषेध का प्रतियोगी होता है, अर्थात् असत्-संसर्गं का भी निषेध होता है, उसी प्रकार असत् रजत का भी निषेध होने में कोई आपत्ति नहीं है। तात्पर्य यह है कि रूप रस से संयुक्त नहीं है। यहीं रूप और रस के उमानाधिकरण के बल से कल्पित जो संयोग है, वही निषेध का प्रतियोगी होता है, अर्थात् उसी कल्पित संयोग का निषेध किया जाता है; पर्योक्ति अन्यत्र कहीं भी रूप का संयोग नहीं देखा जाता है। इसी प्रकार, प्रकृत में 'नेदं रजतम्', इस निषेध का प्रतियोगी कल्पित रजत के होने में कोई आपत्ति नहीं है।

अब यहाँ दूसरी आशङ्का यह होती है कि 'इदं रजतम्', इस प्रकार का ज्ञान होता है, वह ज्ञान एक है, अथवा अनेक ? एक तो कह नहीं सकते; क्योंकि वेदान्तियों के मत में चिदान्त में दो ज्ञान माने गये हैं। यह आगे दिखाया जायगा। और, एक ज्ञान वहाँ असम्भव भी है। जैसे, शुक्रि में 'इदं रजतम्', इस प्रकार का ज्ञान होता है। यहाँ वस्तुतः शुक्रि-रूप जो इदम् का अंश है, वही चच्छु-इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध है, इसलिए चच्छु-इन्द्रिय के द्वारा वहाँ गया हुआ जो अन्तःकरण है, उसी अन्तःकरण का इदम् के आकार में परिणाम होता है। इसी विषयाकार में परिणत जो अन्तःकरण है, उसीको वृत्ति या ज्ञान कहते हैं। रजत इस ज्ञान का विषय नहीं होता। कारण यह है कि रजत के उस शुक्रि-देश में वस्तुतः नहीं रहने से इन्द्रिय का सम्बन्ध उसके साथ नहीं है। यदि कहें कि इन्द्रिय के सत्तिकर्प नहीं रहने पर भी वह ज्ञान का विषय होता है, सो ठीक नहीं है। कारण यह है कि इन्द्रिय से अस्तिकृष्ट वस्तु भी यदि ज्ञान का विषय होता है, यह मान लें, तो सब-कं-सब सर्वश दोने लगेंगे। पर्योक्ति, सकल अस्तिकृष्ट पदार्थ उनके ज्ञान का विषय हो जाता है, इसलिए अस्तिकृष्ट रजत को ज्ञान का विषय कियी प्रकार नहीं कह सकते।

यदि यहाँ यह शङ्का करें कि शुक्रि-देश में चच्छु-इन्द्रिय के सत्तिकर्प होने के पहले रजत का ज्ञान नहीं होता है और चच्छु के उत्तिकर्प के बाद ही रजत का ज्ञान होता है, इस अन्वय-व्यतिरेक से रजत का ज्ञान चच्छु-इन्द्रिय से जन्म है, ऐसी कल्पना की जा सकती है। यह भी ठीक नहीं। क्योंकि, इदम् अंश के ज्ञान के विषय होने में चच्छु-इन्द्रिय का उपयोग हो जाता है। यदि यह कहें कि रजत का जो संस्कार है, उसीसे रजत-ज्ञान का जन्म होता है, तो यह भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि संस्कार से जन्म होने से स्मृति-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। इसलिए, रजत-ज्ञान को संस्कारजन्म भी नहीं कह सकते।

यदि यह कहें कि इन्द्रिय-दोष ही इसमें कारण है, अर्थात् इदम् अंश के प्रत्यक्ष अनुभव में गृहगत मंजूरा में रहनेवाले रजत की जो विषयत्वेन प्रतीति होती है, उसमें दोष ही कारण होता है। यह भी युक्त नहीं है। कारण यह है कि दोष-ज्ञान का स्वतन्त्र कारणत्व नहीं होता। जैसे, देवदत्त में रहनेवाला व्यसन आदि जो दोष हैं, वे देवदत्त के द्वारा ही देवदत्त से संसर्ग रखनेवाले यशदत्त को दूषित करते हैं। संसर्ग नहीं रखनेवाले अन्य मनुष्यों को दूषित नहीं करते। इसी प्रकार, प्रकृत में

इन्द्रिय-दोष भी इन्द्रिय के द्वारा ही किसी कार्य के प्रति कारण हो सकता है, स्वतन्त्र नहीं। इसलिए, इन्द्रिय से असंसुष्ट रजत के ज्ञान का विषय होने में दोष किसी प्रकार कारण नहीं हो सकता। और, प्रदणात्मक तथा स्मरणात्मक ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान होता भी नहीं। इन्द्रियजन्य ज्ञान को ग्रहण कहते हैं और संस्कारजन्य ज्ञान को स्मरण। इसके अतिरिक्त दोषजन्य कोई ज्ञान नहीं है। इदम्-अंश का जो प्रत्यक्ष होता है, उसमें रजत का किसी प्रकार भी विषयतया प्रवेश नहीं होता। इसी कारण, इदम् अंश और रजत के तादात्मविषयक एक विज्ञान किसी प्रकार भी सङ्गत नहीं होता है। इसलिए, पूर्वोक एक ज्ञान नहीं कह सकते। यदि द्वितीय विकल्प अनेक ज्ञान मानें, तो वह भी युक्त नहीं होता। अख्यातिवाद की आपत्ति हो जाती है, अर्थात् मीमांसकों का मत ही स्वीकार्य हो जाता है।

वेदान्तियों का समाधान इस प्रकार होता है कि पहले पुरोवर्ती शुक्ल-खण्ड में दोषकलुषित चक्षु-इन्द्रिय का जो सम्बन्ध होता है, उससे दोष का कारण शुक्ल-अंश का ग्रहण नहीं होता है। किन्तु, इदन्ताकार ही अन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है और वही वृत्ति इदन्त्वावच्छिन्न चैतन्य की अभिव्यक्ति का प्रतिबन्धक जो आवरण है, उसे दूर कर देती है। तत्पश्चात् इदन्ता में, और इदन्ता का ग्राहक जो वृत्ति है, उसमें चैतन्य प्रतिबिम्बित होकर उसी रूप में अभिव्यक्त होता है। परन्तु, शुक्ल-अंश से चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। कारण यह है कि दोष के कारण शुक्ल के अंश से अवच्छिन्न चैतन्य को आवृत करनेवाला जो चैतन्यावरण है, उसका भंग नहीं होता। इदम् अंश से युक्त चैतन्य का शुक्लिल्प से जो अनवभास है, अर्थात् इदम् अंश शुक्लिल्प से जो अभिव्यक्त नहीं होता है वह, और इसी कारण तदाकार वृत्तिरूप से उस चैतन्य का जो अनवभास है वह, अविद्या है। उस अविद्या का आधय इदम् अंश से अवच्छिन्न और इदमाकार वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य ही है। उसमें प्रथम, अर्थात् इदम् अंश से अवच्छिन्न चैतन्य का शुक्लिल्प से अनवभास-रूप जो अविद्या है, उसका आधय इदमंश से अवच्छिन्न चैतन्य है, और तदाकार वृत्तिरूप से चैतन्य का अनवभास-रूप जो अविद्या है, उसका इदमाकार वृत्तिरूप चैतन्य आधय है।

ये दोनों प्रकार की अविद्याएँ दोषवश संकुमित होती हैं। यहाँ इदम्-अंश से अवच्छिन्न चैतन्य में रहनेवाली जो अविद्या है, वह संकुमित होकर चाकचिक्य आदि देखकर रजत के संस्कार का उद्दोषन करती है, और उसकी सहायता से रजत के आकार में परिणत भी हो जाती है और वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य में रहनेवाली जो अविद्या है, यह रजत का ग्रहण करनेवाली वृत्ति के संस्कार का उद्दोषन द्वारा उसकी सहायता से वृत्तिरूपेण परिणत हो जाती है। ये दोनों परिणाम अपने-अपने आधयभूत साक्षि-चैतन्य मासित होते हैं। इसीको क्रमणः अर्थात्याप और ज्ञानाप्याप कहते हैं।

यहाँ यह मी यहाँ होती है कि विद्य प्रकार विषय के आकार में परिणत अन्तःकरणवृत्ति से विषय का अवभास होता है, उसी प्रकार, उस वृत्ति का भी

अवभास उस वृत्ति के आकार में परिणत अन्तःकरण के वृत्यन्तर से होगा, और पुनः उस वृत्ति के वृत्यन्तर से। इस प्रकार, अनवस्था-दोप हो जाता है। यह शङ्खा का तात्पर्य है।

इसके उत्तर में वेदान्तियों का कहना है कि जिस प्रकार घटादि पदार्थों का प्रकाशक नो प्रदीप है, वह घटादि का जिस प्रकार प्रकाशक होता है, उसी प्रकार, अपना भी प्रकाशक होता है। प्रकाशान्तर की अपेक्षा नहीं रखता। प्रदीप स्वयं प्रकाशक, अर्थात् स्वविषयक भी है। इसी प्रकार, प्रकृत वृत्तिस्थल में भी वृत्ति के वृत्यन्तर की अपेक्षा नहीं होने पर भी स्वविषयक मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होती, अर्थात् वृत्ति (शान) जिस प्रकार विषय का अवभासक होती है, उसी प्रकार अपना भी अवभासक होती है, प्रदीप के सदृश। इससे सिद्ध हुआ कि सवृत्ति अविद्या भी चालिमास्य है; वयांकि अविद्या तो सालिमास्य ही है। इससे प्रकृत में यह सिद्ध हुआ कि इदमाकार जो वृत्ति है, वह अन्तःकरण के परिणामस्वरूप है और रजताकार जो वृत्ति है, वह अविद्या की है, अर्थात् अविद्या के परिणामस्वरूप है। ये ही दो वृत्तियाँ हैं। वृत्ति को ही शान कहते हैं, इसलिए वेदान्तियों के यहाँ भी दो शान सिद्ध हो जाते हैं।

यदि कहें कि शान यहाँ दो हैं, तो 'इदं रजतम्' इस स्थल में एक ही शान होता है और इस प्रकार का वेदान्तियों का जो व्यवहार होता है, वह अनुपपन्न हो जाता है। इसका उत्तर यह होता है कि शान के दो होने पर भी फल के एक होने से ज्ञान के एक होने का आरोप किया जाता है। इसलिए, एक शान है, इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। तात्पर्य यह है कि शान तो वृत्तिस्वरूप है और उसका फल विषय का अवभास है और वह अवभास तथा विषय विषय के अनुसार ही होता है। इसलिए, अवभास विषय के ही अधीन होता है, और वह विषय 'इदम् रजतम्', इस प्रकृत स्थल में सत्य जो इदम्-अंश है, और अनृत जो रजत है, इन दोनों का अन्योन्यात्मक, अर्थात् परस्परात्मक होने के कारण एकत्र-भाव हो गया है। इसी कारण, विषय के अवभास-रूप फल ऐसे स्थलों में एक ही निष्ठ प्रतीत होता है। इसलिए, फलेक्य का व्यवहार किया जाता है। आचार्यों ने भी लिखा है—

'शुक्तिदमेणैतन्यस्थिताविद्या विजूभते ।  
रागादिदोपसंस्कारसचिवा रजतात्मना ॥  
इदमाकारवृथ्यन्तैतन्यस्था तथाविद्या ।  
विवर्त्तते तद्रजतशानाभासात्मनाप्यसौ ॥  
सत्यमिद्यात्मनोरैवयादेकस्तद्विषयो भनः ।  
तदापत्तफलैकत्वाऽन्नैव्यमुपचयंते ॥'

इसका भाव पूर्वोक्त ही है। शुक्ति के इदम्-अंश से युक्त चैतन्य में स्थित जो अविद्या है, वह रागादि दोप के संस्कार की सहायता से रजत के आकार में परिणत हो जाती है। इन दोनों शान का विषय सत्य और मिद्या के अन्योन्यात्मासमूलक,

अर्थात् परस्परात्मरूप होने के कारण एकत्वरूप को प्राप्त ही है, अर्थात् दोनों का विषय एक ही है, और विषय के एक होने से उसके अधीन जो अवभास फल है, वह भी एक ही है, इस प्रकार का उपचार होता है। इसी अभिप्राय से पञ्चपादिका नामक शाङ्कर भाष्य की टीका में पद्मनाभाचार्य ने लिखा है कि 'सा चैकमेव ज्ञानमेकफलं जनयति', अर्थात् वह अविद्या एक ही अवभास-रूप फल को उत्पन्न करती है।

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि शुक्ति के प्रदेश में प्रतीयमान जो रजत है, उसको वहीं यदि सत्य मान लिया जाय, तब तो 'नेदं रजतम्' (यह रजत नहीं है), यह जो निषेध होता है, वह कैसे होगा। क्योंकि, सत्य का तो निषेध होता नहीं।

इसका उत्तर यह होता है कि यद्यपि शुक्ति-प्रदेश में रजत का प्रतिभास होने से प्रातिभासिक सत्यत्व है, तथापि व्यावहारिक सत्यत्व न होने के कारण सोपाधिक में उसका निषेध होना युक्त ही है। अर्थात्, शुक्ति के प्रदेश में ही 'नेदं रजतम्' ऐसा, निषेध होता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि इस प्रकार के निषेध का प्रतियोगी शुक्ति में भासमान रजत नहीं हो सकता। कारण यह है कि अविद्या के परिणामभूत जो रजत है, वह किञ्चित्काल पर्यन्त ही स्थायी है, और निषेध तो 'यह कभी रजत नहीं है', इस प्रकार काल से अवच्छिन्न ही प्रतीत होता है, फिर भी व्यावहारिक सत्यत्वविशिष्ट जो रजत है, उसका तो यहाँ आभाव ही है। इसलिए, व्यावहारिक सत्यत्वविशिष्ट जो आपाधिक रजत है, उसका निषेध होने में कोई आपत्ति नहीं है। तीन प्रकार की सत्ताओं का विवरण पञ्चपादिका-विवरण में किया गया है।

ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिकी है। वह श्रिकालाबाध्य है, अर्थात् उसका वाघ तीनों काल में भी नहीं होता। आकाशादि प्रपञ्च का जो सत्त्व है, वह व्यावहारिक है। व्यावहारिक का तात्पर्य है अर्थक्रियाकारी, अर्थात् जिससे कुछ व्यवहार होता है। यह आकाशादि प्रपञ्च मायोपाधिक है। अर्थात्, माया की उपाधि से ही इस प्रपञ्च की सत्ता प्रतीत होती है और अविद्योपाधिक जो सत्त्व है, यही प्रातिभासिक है। इन तीन प्रकार की सत्ताओं का विवेचन अन्यान्य वेदान्त-ग्रन्थों में भी किया गया है। जैसे—

'कालग्रे शत्रुकाले प्रतीतिसमये तथा ।  
वाधाभावात् पदार्थानीं सर्वन्मैविभ्यमिष्यते ॥  
तारिकं द्रष्टव्या सर्वं द्योमादेव्यावहारिकम् ।  
शुक्त्यादेरर्थजातस्य प्रातिभासिकमिष्यते ॥  
लौकिकेन प्रमाणेन यद्यपाद्यं लौकिके विधौ ।  
तद् प्रातिभासिकं सर्वं बाध्यं सत्येव मातरि ॥  
वैदिकेन प्रमाणेन यद्याध्यं वैदिके विधौ ।  
तद् व्यावहारिकं सर्वं बाध्यं मात्रा सदैष तद् ॥'

माव यह है कि पदार्थों की सत्ता तीन प्रकार की होती है—कालग्रे में वाघ न होने से, शत्रुकाल में, अर्थात् व्यवहार काल में वाघ न होने से, और प्रतीति समय में वाघ न होने से।

प्रक्ष की सत्ता तात्त्विक, अर्थात् पारमार्थिक है। आकाश आदि की सत्ता व्यावहारिक है। शुक्ति आदि में रजत आदि की जो प्रतीति होती हैं, वह प्रतिभासिक है।

व्यवहार-काल में ही लौकिक प्रमाण से जिसका बाध हो और उस समय प्रमाता का बाध न हो वह प्रतिभासिक सत्त्व है। शुक्ति आदि में जो रजत की प्रतीति होती है, उसका बाध प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से व्यवहार-काल में ही, यह रजत नहीं है, इस प्रकार का बाध हो जाता है। उस समय औपाधिक भी देवदत्त आदि प्रमाता का बाध नहीं होता।

वैदिक काल में वैदिक प्रमाण के द्वारा जिसका बाध होता है और जिस काल में प्रमाता का भी बाध हो जाता है, वह व्यावहारिक सत्ता है। तात्पर्य यह है कि आकाशादि प्रपञ्च की सत्ता व्यावहारिक है; क्योंकि व्यवहार-काल में उसका बाध नहीं होता। किन्तु 'तत्त्वमसि' इत्यादि वैदिक धार्मियों के द्वारा जब भवण-मननादि से सम्पन्न अधिकारी को आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब आकाशादि प्रपञ्च का भी बाध हो जाता है। और, उस समय प्रमाता का प्रमातृत्व भी प्रतीत नहीं होता। इसलिए, प्रमाता भी बाधित हो जाता है। यहाँ प्रतीति का अभाव ही बाध है, निषेध नहीं।

इस सन्दर्भ से यह सिद्ध होता है कि शुक्ति में रजत की ख्याति और बाध तबतक सिद्ध नहीं होता, जबतक सत्-असत् से विलक्षण अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति न मानें। तात्पर्य यह है कि शुक्ति में रजत की जो प्रतीति होती है, वह असत् नहीं है; क्योंकि उसकी प्रतीति होती है और सत् भी नहीं कह सकते; क्योंकि उसका प्रत्यक्षादि प्रमाण से यह रजत नहीं है, इस प्रकार का भी बाध होता है और ख्याति और बाध इन दोनों का एकत्र समावेश तभी हो सकता है, जब उसका अनिर्वचनीयत्व स्वीकार करें। अन्यथा ख्याति और बाध दोनों अनुपपत्त हो जाता है। इसलिए, अनिर्वचनीय ख्याति मानना आवश्यक हो जाता है। सत् और असत् से जो विलक्षण है, उसीको अनिर्वचनीय कहते हैं और ऐसा अनिर्वचनीय माया का ही परिणाम हो सकता है। इसलिए, इसका मायामय होना भी सिद्ध हो जाता है।

अनिर्वचनीय की परिभाषा चित्सुखाचार्य ने लिखी है—

‘प्रत्येकं सदस्थाभ्यां विचारपद्वीं नयत् ।  
गाहते तदनिर्वचन्यमाहुर्वेदान्तयादिनः ॥’

तात्पर्य यह है कि जो सत्त्वेन, असत्त्वेन और सद्-असद् उभयत्वेन विचार का विषय न हो, वही अनिर्वचनीय कहा जाता है। अर्थात्, जो सत् नहीं है और असत् भी नहीं है। सत्-असत् उभयरूप भी नहीं है, वही अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माया का यही स्वरूप वेदान्तियों ने स्वीकार किया है।

वही अविद्या में प्रमाण है। इस अनुभव में आत्मा के ग्राभित और वाहानक व्याप्ति एक जडातिमिका अविद्या-शक्ति अनुभूत होती है और यह अनुपमान शान शान का अमावस्यरूप नहीं है। किन्तु, ज्ञान से भिन्न भावस्वरूप एक अतिरिक्त सत्त्व है। यद्योंकी यह भावस्वरूप दृश्यमान जगत् का उपादान होता है। यदि ज्ञानामावस्तु इसको मानें, तो दृश्यमान भावस्वरूप जगत् का उपादान नहीं हो सकता; क्योंकि इसके किंचिका उपादान नहीं होता है, यह सर्वतन्त्रसिद्धान्तसिद्धि है। यहाँ नैशाविद्वा भूत चाल्यों का कहना है कि 'अहमज्ञः' इस अनुभव का विषय ज्ञानामाव ही है। अतः भावस्वरूप कोई पदार्थ नहीं है। और, दृश्यमान जगत् का उपादान कारण तो यहाँ अथवा परमाणु ही है, अशान नहीं। इसलिए, उक्त अनुभव से भावस्वरूप अवान भी सिद्धि नहीं हो सकती। वेदान्तियों का कहना है कि यह युक्त नहीं है, क्वन्तु अभाव को ग्रहण करनेवाला एक अनुपलब्धि नाम का अतिरिक्त ही प्रमाण है। भूतवेष्टने घट नहीं है, इस प्रकार का जायमान जो घटाभाव का ज्ञान है, वह अनुपलब्धि-प्रमाण का ही जन्य है और अनुपलब्धि-प्रमाण से जन्य जो अभाव का ज्ञान है, वह परोक्ष ही रहता है। 'भूतले घटो नास्ति', यह ज्ञान परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं और 'अहमज्ञः', इस प्रकार का जो अनुभव है, वह प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं। इसलिए, इसके अभावस्वरूप नहीं मान सकते। एक बात और है कि अनुमान आदि प्रमाणों से मी अभाव का ज्ञान माना गया है, परन्तु उनके मत में मी अभाव का प्रत्यक्ष कभी नहीं माना जाता। इसलिए, 'अहमज्ञः' इस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ज्ञानामाव कभी नहीं हो सकता।

यदि यह कहें कि 'अहमज्ञः' यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही है, तो यह भी युक्त नहीं है। कारण यह है कि यदि परोक्ष मानेंगे, तो अनुमान आदि किंतु प्रमाण से ही उसका ग्रहण मानना होगा। और, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति इन तीनों के किंदिसे मी इसका ज्ञान नहीं हो सकता। कारण यह है कि प्रत्यक्षेतर जितने प्रमाण माने गये हैं, उनके कारण का ज्ञान होने पर ही वे सब ज्ञान के कारण होते हैं। जैसे, अनुमान-प्रमाण का हेतु है लिङ्ग का ज्ञान, अर्थात् जो ज्ञात लिङ्ग है, वही अनुमिति का जनक होता है। अभिं के ज्ञान में धूम जो लिङ्ग है, वह तभी कारण होता है, जब धूम का ज्ञान हो। अशात् धूम स्वरूपतः रहने पर भी अभिं का अनुमापक नहीं होता। इसी प्रकार, शब्दजन्य योध में भी शब्द का ज्ञान और अर्थापत्ति-स्थल में अनुपमान अर्थ का ज्ञान कारण होता है। अशात् शब्द भी शब्दयोध का कारण नहीं होता। इसलिए वशिर को शास्त्रदोष नहीं होता। अर्थापत्ति-स्थल में मी दिन में नहीं खाने पर भी देवदत्त की सूखता का ॥ १ ॥ योषक होता है। 'अहमज्ञः'



## माया और अविद्या में भेदभेद का विचार

इसमें विचार का कारण यह होता है कि कहीं प्रपञ्च को मायामय, कहीं अविद्यामय बताया गया है, इससे यह प्रतीत होता है कि दोनों एक ही पदार्थ हैं। परन्तु, शुक्ति में रजत का जो भान है, वह अविद्या का ही परिणाम है, माया का नहीं। यह भी वेदान्तों में वर्णित है। इसलिए, यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि ये दोनों परस्पर भिन्न हैं अथवा अभिन्न। पञ्चदशी में माया को शुद्धसत्त्वप्रधान और अविद्या को मलिनसत्त्वप्रधान बताया गया है और जीव-ईश्वर में भेद भी माया और अविद्या के उपाधि-भेद से ही बताया गया है। अर्थात्, मायोपाधि से युक्त चेतन को ईश्वर और अविद्योपाधि से युक्त चेतन को जीव कहा गया है। यथा—

‘सद्वशुद्धविशुद्धयां मायाऽविद्ये च तेमते ।

मायाविम्बो वशीकृत्य तौ स्यासर्वज्ञ ईश्वरः ॥

अविद्यावशगस्त्वन्यः तदैवैचित्र्यादनेकथा ।’

भाव यह है कि सद्व की विशुद्धि-अविशुद्धि होने के कारण ही माया और अविद्या ये दोनों परस्पर भिन्न पदार्थ कहे गये हैं। माया में प्रतिविम्बित चेतन माया को अपने वश में करके ईश्वर कहा जाता है और अविद्या के वश में होकर वह जीव कहा जाता है और अविद्या के वैचित्र्य से वह अनेक प्रकार का होता है। इससे माया से भिन्न अविद्या है, यह सिद्ध होता है। और भी, अनेक स्थलों में इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं—

‘स्वाध्यमध्यामोहयन्ती कर्तुरिच्छामनुसरन्ती माया तद्विपरीता अविद्या ।’

अर्थात्, अपने आश्रय को भ्रान्त नहीं करती हुई कर्ता की इच्छा का अनुसरण करनेवाली माया है और इसके विपरीत अविद्या। शुक्ति में प्रतीपमान जो रजत है, उसका उपादान कारण अविद्या ही है; क्योंकि अविद्या का आश्रय जो द्रव्य है, उसको भ्रान्त बना देती है और उसकी इच्छा का अनुसरण भी नहीं करती; क्योंकि उसकी इच्छा नहीं रहने पर भी उसका परिणाम होता ही रहता है। इन लक्षणों से भी माया और अविद्या में भेद प्रतीत होता है; परन्तु यह युक्त नहीं है। कारण यह है कि अनिवचनीय होना, तत्त्व-प्रतीति का प्रतिवन्धक होना और विपर्यय, अर्थात् विपरीत ज्ञान का अवभासक होना—ये तीनों लक्षण माया और अविद्या में समान रूप से रहते हैं, इसलिए माया और अविद्या परमार्थ में एक ही तत्त्व है। एक बात और है कि ‘आश्रय-मध्यामोहयन्ती’ इस लक्षण से जो अविद्या से माया में भेद दिखाया गया है, वहीं यह विकल्प होता है कि आश्रय पद से किसका ग्रहण है—द्रष्टा का अथवा कर्ता का! तात्पर्य यह है कि माया के परिणामीभूत पदार्थों को जो देखता है, वह मायाश्रय है अथवा माया का जो उत्पादनकर्ता है, वह मायाश्रय है। आद्य पक्ष, अर्थात् द्रष्टा, तो कह नहीं सकते; क्योंकि मन्त्र या श्रीपथि आदि से जो माया देखता है, वही उसका देखनेवाला जो जन-समुदाय है, यह भ्रान्त हो जाता है और द्रष्टा को ही माया का आश्रय मानता है, किन्तु लक्षण में माया को आश्रय को अभ्रान्त करनेवाली बताया गया है।

यह विश्व हो जाता है। द्वितीय पक्ष, अर्थात् माया के कर्त्ता को यदि मायाश्रय मानें, तो भी युक्त नहीं होता; क्योंकि भगवान् विष्णु की आश्रिता जो माया है, उससे स्वयं विष्णु को रामावतार में भ्रम हुआ है, जो लक्षण से विश्व होता है। इसलिए, दोनों को एक ही मानना युक्त है। अतएव, 'भूयक्षान्ते विश्वमायानिवृत्तिः' इत्यादि व्यवहार स्वतांश्चतर-श्रुति में भी सम्यग् ज्ञान से निवृत्त होनेवाली अविद्या का ही माया शब्द से व्यवहार किया गया है। और भी—

‘तरत्यविद्यां वितथां हृदि यस्मिन्निवेशिते ।

योगी मायासमेयाय तस्मै विद्याध्मने नमः ॥’

इस स्मृति में अविद्या और माया का एकत्वेन व्यवहार स्पष्ट किया गया है और भाष्य में भी अविद्या माया, अविद्यात्मिका मायाशक्ति इत्यादि व्यवहार स्पष्ट ही है। इसलिए, माया और अविद्या में अभेद ही सिद्ध होता है।

लोक में और कहीं-कहीं वेदान्त-ग्रन्थों में भी जो भेद का वर्णन और व्यवहार मिलता है, वह केवल औपाधिक ही। किसी-किसी ग्रन्थ में तो आवरण-शक्ति और विक्षेप-शक्ति के प्राधान्य से अविद्या और माया में भेद का व्यवहार किया गया है, परन्तु वह भी औपाधिक ही है। यथा—

‘माया विक्षेपदज्ञानमीशेच्छा वशवर्तिता ।

अविद्याच्छादयत्तत्वं स्वातन्त्र्यानुविधायिका ॥’

तात्पर्य यह है कि अज्ञान की शक्ति दो प्रकार की है। एक आवरण-शक्ति और दूसरी विक्षेप-शक्ति। जैसे, शुक्ति में रजत-प्रतिभास-स्थल में आवरण-शक्ति से शुक्ति का सत्-स्वरूप भी आवृत हो जाता है, और विक्षेप-शक्ति से असत् रजत का भी भान होने लगता है। इसी प्रकार, अनादि अज्ञान की जो आवरण-शक्ति है, उससे ब्रह्म का सत्-स्वरूप भी आवृत हो जाता है और विक्षेप शक्ति से असत्-रूप में भी जगत् भासित होता है। यद्याँ आवरण-शक्ति के प्राधान्य में अविद्या और विक्षेप-शक्ति के प्राधान्य में माया शब्द का व्यवहार किया जाता है। यह सब व्यवहार उपाधि के द्वारा ही होता है, इसलिए वह औपाधिक ही है।

ओक का भाव यह हुआ कि विक्षेप-शक्ति विशिष्ट परमात्मा के वशवर्ती जो अज्ञान है, वह माया शब्द से व्यवहृत होता है और आवरणशक्तिविशिष्ट एवं स्वतन्त्र जो अज्ञान है, उसका अविद्या शब्द से व्यवहार किया जाता है। इससे भी निष्कर्ष यही निकलता है कि केवल आवस्था और उपाधि के भेद होने से ही माया और अविद्या में भेद भासित होता है। वस्तुतः, कोई भेद नहीं है। इससे माया और अविद्या एक ही वस्तु है, यह सिद्ध हो जाता है।

### अविद्या में प्रमाण

अब यह प्रश्न होता है कि अविद्या के होने में क्या प्रमाण है। इसका उच्चर यह है कि 'शृदमशः मामन्यज्ञ न जानामि', अर्थात् मैं अज्ञ हूँ, अपने को और दूसरे को भी नहीं जानता हूँ। इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव जो प्राणियों को होता है,

## माया और अविद्या में भेदभेद का विचार

इसमें विचार का कारण यह होता है कि कहीं प्रपञ्च को मायामय, कहीं अविद्यामय बताया गया है, इससे यह प्रतीत होता है कि दोनों एक ही पदार्थ हैं। परन्तु, शुक्ति में रजत का जो भान है, वह अविद्या का ही परिणाम है, माया का नहीं। यह भी वेदान्तों में वर्णित है। इसलिए, यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि ये दोनों परस्पर भिन्न हैं अथवा अभिन्न। पञ्चदशी में माया को शुद्धसत्त्वप्रधान और अविद्या को मलिनसत्त्वप्रधान बताया गया है और जीव-ईश्वर में भेद भी माया और अविद्या के उपाधि-भेद से ही बताया गया है। अर्थात्, मायोपाधि से युक्त चेतन को ईश्वर और अविद्योपाधि से युक्त चेतन को जीव कहा गया है। यथा—

‘सत्त्वशुद्धविशुद्धिर्यां मायाऽविद्ये च तेष्टते ।

मायाविद्यो वशीकृत्य तो स्यास्तवंज्ञ ईश्वरः ॥

अविद्यावशगस्त्वन्यः तदौचित्याद्देकथा ।’

भाव यह है कि सत्त्व को विशुद्धि-अविशुद्धि होने के कारण ही माया और अविद्या ये दोनों परस्पर भिन्न पदार्थ कहे गये हैं। माया में प्रतिविभित्ति चेतन माया को अपने वश में करके ईश्वर कहा जाता है और अविद्या के वश में होकर वह जीव कहा जाता है और अविद्या के वैचित्र्य से वह अनेक प्रकार का होता है। इससे माया से भिन्न अविद्या है, यह सिद्ध होता है। और भी, अनेक स्थलों में इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं—

‘स्वाश्रयमध्यामोहयन्ती कर्तुरिच्छामनुसरन्ती माया तद्विपरीता अविद्या ।’

अर्थात्, अपने आधय को भ्रान्त नहीं करती हुई कर्ता की इच्छा का अनुसरण करनेवाली माया है और इसके विपरीत अविद्या। शुक्ति में प्रतीयमान जो रजत है, उसका उपादान कारण अविद्या ही है; क्योंकि अविद्या का आधय जो द्रव्य है, उसको भ्रान्त बना देती है और उसकी इच्छा का अनुसरण भी नहीं करती; क्योंकि उसकी इच्छा नहीं रहने पर भी उसका परिणाम होता ही रहता है। इन लक्षणों से भी माया और अविद्या में भेद प्रतीत होता है; परन्तु यह युक्त नहीं है। कारण यह है कि अनिवार्यनीय होना, तत्त्व-प्रतीति का प्रतिशन्यक होना और विवर्य, अर्थात् विपरीत शान का अवभासक होना—ये तीनों लक्षण माया और अविद्या में समान रूप से रहते हैं, इसलिए माया और अविद्या परमार्थ में एक ही तत्त्व है। एक बात और है कि ‘आधय-मध्यामोहयन्ती’ इस लक्षण से जो अविद्या से माया में भेद दिखाया गया है, वही यह विकल्प होता है कि आधय पद से किसका ग्रहण है—द्रष्टा का अथवा कर्ता का। तात्पर्य यह है कि माया के परिणामीभूत पदार्थों को जो देखता है, वह मायाधय है अथवा माया का जो उत्पादनकर्ता है, यह मायाधय है। आद्य पक्ष, अर्थात् द्रष्टा, सो कह नहीं सकते; क्योंकि मन या आपि आदि से जो माया देखता है, वही उसका देखनेवाला जो जन-समुदाय है, यह भ्रान्त हो जाता है और द्रष्टा को ही माया का आधय मानता है, किन्तु लक्षण में माया को आधय को अभ्रान्त करनेवाली बताया गया है।

यह विशद हो जाता है। द्वितीय पक्ष, अर्थात् माया के कर्त्ता को यदि मायाश्रय मानें, तो भी युक्त नहीं होता; क्योंकि भगवान् विष्णु की आविता जो माया है, उससे स्वयं विष्णु को रामावतार में भ्रम हुश्चा है, जो लक्षण से विशद होता है। इसलिए, दोनों को एक ही मानना युक्त है। अतएव, 'भूयक्षान्ते विश्वमायानिवृत्तिः' इत्यादि श्वेताश्वतर-श्रुति में भी सम्यग् ज्ञान से निवृत्त होनेवाली अविद्या का ही माया शब्द से व्यवहार किया गया है। और भी—

‘तरत्यविद्यां वितथां हृदि यस्मितिवेशिते ।

योगी मायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः ॥’

इस स्रुति में अविद्या और माया का एकत्रेन व्यवहार स्पष्ट किया गया है और भाष्य में भी अविद्या माया, अविद्यात्मिका मायाशक्ति इत्यादि व्यवहार स्पष्ट ही है। इसलिए, माया और अविद्या में अभेद ही सिद्ध होता है।

लोक में और कहीं-कहीं वेदान्त-ग्रन्थों में भी जो भेद का वर्णन और व्यवहार मिलता है, वह केवल श्रौपाधिक ही। किसी-किसी ग्रन्थ में तो आवरण-शक्ति और विद्येष-शक्ति के प्राधान्य से अविद्या और माया में भेद का व्यवहार किया गया है, परन्तु वह भी श्रौपाधिक ही है। यथा—

‘माया विहिपदशानमीशेच्छा वशवत्तिंता ।

अविद्याच्छादयत्त्वं स्वातन्त्र्यानुविद्याविका ॥’

तात्पर्य यह है कि अशान की शक्ति दो प्रकार की है। एक आवरण-शक्ति और दूसरी विद्येष-शक्ति। जैसे, शुक्ति में रजत-प्रतिमास-स्थल में आवरण-शक्ति से शुक्ति का सत्-स्वरूप भी आवृत हो जाता है, और विद्येष-शक्ति से असत् रजत का भी मान होने लगता है। इसी प्रकार, अशान की जो आवरण-शक्ति है, उससे ब्रह्म का सत्-स्वरूप भी आवृत हो जाता है और विद्येष शक्ति से असत्-रूप में भी जगत् भासित होता है। यहीं आवरण-शक्ति के प्राधान्य में अविद्या और विद्येष-शक्ति के प्राधान्य में माया शब्द का व्यवहार किया जाता है। यह सब व्यवहार उपाधि के द्वारा ही होता है, इसलिए वह श्रौपाधिक ही है।

लोक का भाव यह हुआ कि विद्येष-शक्ति विशिष्ट परमात्मा की इच्छा के वशवत्ती जो अशान है, वह माया शब्द से व्यवहृत होता है और आवरणशक्तिविशिष्ट एवं स्वतन्त्र जो अशान है, उसका अविद्या शब्द से व्यवहार किया जाता है। इससे भी निष्कर्ष यही निकलता है कि केवल अवस्था और उपाधि के भेद होने से ही माया और अविद्या में भेद भासित होता है। वस्तुतः, कोई भेद नहीं है। इससे माया और अविद्या एक ही वस्तु है, यह सिद्ध हो जाता है।

### अविद्या में प्रमाण

अब यह प्रश्न होता है कि अविद्या के होने में क्या प्रमाण है। इसका उत्तर यह है कि 'अहमज्ञः मामन्यज्ञ न जानामि', अर्थात् मैं अज्ञ हूँ, अपने को और दूसरे को भी नहीं जानता हूँ। इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव जो प्राणियों को होता है,

वही अविद्या में प्रमाण है। इस अनुभव में आत्मा के आभित और ज्ञानाध्यात्म में व्याप्त एक जड़ात्मिका अविद्या-शक्ति अनुभूत होती है और यह अनुभूयमान अज्ञान ज्ञान का अभावस्वरूप नहीं है। किन्तु, ज्ञान से भिन्न भावस्वरूप एक अतिरिक्त पदार्थ है; क्योंकि यह भावस्वरूप दृश्यमान जगत् का उपादान होता है। यदि ज्ञानाभावस्वरूप इसको मानें, तो दृश्यमान भावस्वरूप जगत् का उपादान नहीं हो सकता; क्योंकि अभाव किसीका उपादान नहीं होता है, यह सर्वतत्त्वसिद्धात्मसिद्ध है। यहाँ नैयायिकों और सांख्यों का कहना है कि 'अहमज्ञः' इस अनुभव का विषय ज्ञानाभाव ही है। अज्ञान-भावस्वरूप कोई पदार्थ नहीं है। और, दृश्यमान जगत् का उपादान कारण तो प्रकृति अथवा परमाणु ही है, अशान नहीं। इसलिए, उक्त अनुभव से भावस्वरूप अज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। वेदान्तियों का कहना है कि यह युक्त नहीं है; क्योंकि अभाव को ग्रहण करनेवाला एक अनुपलब्धि नाम का अतिरिक्त ही प्रमाण है। भूतल में घट नहीं है, इस प्रकार का जायमान जो घटाभाव का ज्ञान है, वह अनुपलब्धि-प्रमाण का ही जन्य है और अनुपलब्धि-प्रमाण से जन्य जो अभाव का ज्ञान है, वह परोक्ष ही रहता है। 'भूतले घटो नास्ति', यह ज्ञान परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं और 'अहमज्ञः', इस प्रकार का जो अनुभव है, वह प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं। इसलिए, इसको अभावस्वरूप नहीं मान सकते। एक बात और है कि अनुमान आदि प्रमाणों से भी अभाव का ज्ञान माना गया है, परन्तु उनके मत में भी अभाव का प्रत्यक्ष कभी नहीं माना जाता। इसलिए, 'अहमज्ञः' इस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ज्ञानाभाव कभी नहीं हो सकता।

यदि यह कहें कि 'अहमज्ञः' यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही है, तो यह भी युक्त नहीं है। कारण यह है कि यदि परोक्ष मानेंगे, तो अनुमान आदि किसी प्रमाण से ही उसका ग्रहण मानना होगा। और, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति इन तीनों में किसीसे भी इसका ज्ञान नहीं हो सकता। कारण यह है कि प्रत्यक्षेतर जितने प्रमाण माने गये हैं, उनके कारण का ज्ञान होने पर ही वे सब ज्ञान के कारण होते हैं। जैसे, अनुमान-प्रमाण का हेतु है लिङ्ग का ज्ञान, अर्थात् जो ज्ञात लिङ्ग है, वही अनुमिति का जनक होता है। अमि के ज्ञान में धूम जो लिङ्ग है, वह तभी कारण होता है, जब धूम का ज्ञान हो। अज्ञात धूम स्वरूपतः रहने पर भी अमि का अनुमापक नहीं होता। इसी प्रकार, शब्दजन्य बोध में भी शब्द का ज्ञान और अर्थापत्ति-स्थल में अनुपर्यायमान अर्थ का ज्ञान कारण होता है। अज्ञात शब्द भी शब्दबोध का कारण नहीं होता। इसलिए वधिर को शब्दबोध नहीं होता। अर्थापत्ति-स्थल में भी दिन में नहीं खाने पर भी देवदत्त की स्थूलता का ज्ञान ही रात्रि भोजनस्त्र अर्थ का बोधक होता है। 'अहमज्ञः' इस प्रकृत स्थल में लिङ्ग आदि का ज्ञान असम्भव ही है। इसलिए, किसी प्रकार भी इसको परोक्ष प्रतिभास नहीं कह सकते।

यदि यह कहें कि 'अहमज्ञः' इस स्थल में लिङ्ग आदि के ज्ञान न होने पर भी अनुपलब्धि-प्रमाण से उसका ज्ञान उत्पन्न हो जायगा। जैसे, भूतल में घट की अनुपलब्धि से घटाभाव का ज्ञान होता है, वैसे ही ज्ञानाभाव की अनुपलब्धि से

शानामाय का भी शान हो जायगा । परन्तु, यह भी युक्त नहीं होता, कारण यह है कि जिस अनुपलब्धि से शानामाय का शान करते हैं, वह यदि अशत है, तब तो उससे शानामाय का प्रदृष्ट हो नहीं सकता । यदोकि, प्रत्यक्ष से इतर प्रमाण शात होने पर ही दोष का जनक होता है । यदि उसको भी शात मानें, तो यह प्रभ उठता है कि उस अनुपलब्धि का शान फिरते हुए ? यदि उसके शान के लिए अन्य अनुपलब्धि को कारण मानें, तो उसको भी शात होना चाहिए । इस प्रकार का अनवस्था-दोष हो जाता है । तो, पठ की अनुपलब्धि का तात्पर्य यह है कि पठ की उपलब्धि का अभाव । यदि अनुपलब्धि-प्रमाण से ही उसका शान मानें, तब तो उपलब्धि न शानान से उपलब्धि के अभाव का शान होता है, यह मानना होगा । इस अवस्था में, उपलब्धि प्रमाण की अनुपलब्धि भी जान होने पर ही कारण होगा । इसलिए, पुनः उसमें अन्य अनुपलब्धि की इस प्रकार की पुनः-पुनः विशाला होने से अनवस्था-दोष हो जाना स्वामायिक है । एक शङ्खा यद्दी और होती है कि नैयायिक आदि के मत में योग्यानुपलब्धि शात अथवा अशात होनी प्रकार से सहकारियी होती है । इसी प्रकार, हमारे मत में भी ज्ञात अथवा अशात होनी प्रकार की अनुपलब्धियाँ कारण हो सकती हैं । तात्पर्य यह है कि नैयायिकों और वैशेषिकों के मत में अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं माना गया है और भूतल में पठ के अभाव का शान प्रत्यक्ष-प्रमाण से ही माना जाता है । योग्यानुपलब्धि केयल सहकारी-माप्र होती है । यदि यद्दी पठ होता, तो अथवा उपलब्ध होता, इस प्रकार नहीं कहा जा सके, वही योग्यानुपलब्धि है । और, वह अनुपलब्धि ज्ञात हो अथवा अशात, दोनों प्रकार से सहकारियी है, इसलिए अनवस्था नहीं होती । इसी प्रकार, हमारे मत में अनुपलब्धि को प्रमाण मानने पर भी वह ज्ञात-अशात होनी ही प्रकार से कारण हो सकती है । इसलिए, अशात अनुपलब्धि का कारण मान लेने पर दूसरी अनुपलब्धि की अपेक्षा नहीं होती, अतः अन्योन्याभय होने की सम्भावना ही नहीं होती ।

इसका उत्तर यह होता है कि यद्यपि सहकारी ज्ञात होने पर ही बोधक होता है, यह नियम नित्य नहीं है, तथापि जिसको कारण मानते हैं, उसका तो ज्ञात होना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा घटाध्य भूतल में भी अशात घटानुपलब्धि के रहने से घटामाय का शान हो जाना चाहिए । इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि सहकारी का ज्ञात होना नियम नहीं है, तथापि कारण को तो ज्ञात होकर ही बोध का जनक मानना परमायशक है । एक बात और भी है कि अनुपलब्धि को पठ प्रमाण माननेवालों के मत में अशात अनुपलब्धि को कारण मानने पर भी कोई दोष नहीं होता । कारण यह है कि उस अनुपलब्धि से शानातिरिक्त घटादि के अभाव का ही ज्ञान कर सकते हैं । ज्ञान के अभाव का ग्रहण उससे नहीं कर सकते । यह बात आगे स्पष्ट हो जायगी ।

इस सन्दर्भ से यह सिद्ध किया गया कि अनुपलब्धिप्रमाणवादी के मत में 'अहमतः' इस प्रकार का जो शानामाय का अनुभव होता है, वह परोक्ष नहीं है, किन्तु प्रत्यक्ष ही है । इसके बाद नैयायिकों के, जो अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं मानते, और

भाव को प्रत्यक्ष ही मानते हैं और 'अहमज्ञः' इस प्रत्यक्ष अनुभव का विषय ज्ञानाभाव है, भावरूप अज्ञान नहीं, इस प्रकार मानते हैं, मत का विमर्श किया जाता है।

'अहमज्ञः' इस स्थल में जो ज्ञानाभाव को प्रत्यक्ष का विषय नैयायिक आदि मानते हैं, उनके प्रति यह प्रश्न होता है कि 'अहमज्ञः' इस प्रत्यक्ष का विषय ज्ञान-सामान्य का अभाव है, अथवा ज्ञानविशेष का ? ज्ञान-सामान्य का अभाव तो कह नहीं सकते; क्योंकि 'अहम्', इस प्रकार के ज्ञानाभाव के धर्मा-स्त्र से आत्मा का ज्ञान वर्तमान ही है। और, अभाव के प्रतियोगी रूप से ज्ञान का भी बोध है ही। इसलिए, ज्ञान-सामान्य के अवश्य विद्यमान रहने से ज्ञान-सामान्य का अभाव किसी प्रकार भी नहीं कह सकते। यदि यह कहें कि धर्मा और प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है, सो भी ठीक नहीं। कारण यह है कि अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान और अधिकरण का ज्ञान कारण होता है, यह नियम सर्वसिद्धान्तसिद्ध है। भूतल में घट के अभाव का ज्ञान तभी ही सकता है, जब अधिकरण, अर्थात् भूतल और प्रतियोगी, अर्थात् घट का ज्ञान हो, अन्यथा नहीं। इस दिप्ति में धर्मा और प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान नहीं होता, यह मान लेने पर 'अहमज्ञः' इस स्थल में ज्ञानाभाव ज्ञान सामान्याभाव का प्रत्यक्ष किसी प्रकार नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रत्यक्ष या अन्य किसी प्रमाण के द्वारा ज्ञानसामान्याभाव का ग्रहण होना अशक्य ही है। अब द्वितीय पक्ष रहा ज्ञानविशेषाभाव, वह भी युक्त नहीं हो सकता। कारण यह है कि ज्ञानविशेष में दो प्रकार का ज्ञान है, एक स्मृति और दूसरा अनुभव। 'अहमज्ञः' इस प्रत्यक्ष का विषय स्मृति का अभाव तो कह नहीं सकते। क्योंकि, अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का स्मरण कारण होता है। इसलिए, स्मरणाभाव के प्रत्यक्ष होने में अभाव का प्रतियोगी जो स्मरण है, उसका ज्ञान रहना अत्यधिक हो जाता है। स्मरण के रहने पर स्मरण का अभाव हो नहीं सकता। अर्थात्, स्मरणाभाव 'अहमज्ञः' इस प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता, यह सिद्ध हो जाता है। यदि कहें कि अनुभव का अभाव उक्त प्रत्यक्ष का विषय है, वह भी युक्त नहीं है। कारण यह है कि किसी रूप में अनुभव तो वहाँ अवश्य ही रहेगा।

तात्पर्य यह है कि 'अहमज्ञः' इस प्रकार का ज्ञानाभावविषयक जो ज्ञान होता है, वह अनुभवस्वरूप ही है। इसलिए, अनुभव का वहाँ होना अनिवार्य है। और अनुभव के रहने अनुभव का अभाव रह नहीं सकता। इसलिए, 'अहमज्ञः' इस प्रत्यक्ष का विषय अनुभव का अभावरूप ज्ञानविशेष का अभाव है, यह भी नहीं कह सकते। एक बात और है कि आत्मा में घट के अनुभव का अभाव ही प्रत्यक्ष का विषय होता है। तब तो 'अहमज्ञः' इस स्थल में ज्ञानसामान्यवाची जो ज्ञा धातु है, उसका आत्मस्वरूपविशेषविषयक अनुभव अर्थ में प्रयोग तो लक्षण ही से ही सकता है, अभिधावृत्ति से तो ज्ञानसामान्य ही उसका अर्थ है। आत्मस्वरूपविशेष-विषयक अनुभव में लक्षण से ही ज्ञा धातु का प्रयोग करना होगा। परन्तु लक्षण तभी की जाती है, जब सम्बन्ध और अनुपपत्ति का ज्ञान रहे। जैसे, 'गङ्गा में धोप है', इस वाक्यार्थ में 'गङ्गा' पद से गङ्गा-तीर में लक्षण की जाती है। यहाँ गङ्गा शब्द से

प्रवाह और सौर के गाय गहाना का उम्बन्ध, ऐसा शान होता ही है और शब्दार्थतः प्रवाह में पोप व। इना अवधिभर है, इस अनुपर्वति ने प्रवाह एवं उम्बन्ध से सौर का घोष किया जाता है। इसी प्रकार, 'अहमशः' इस प्रकृत रूप में शा घातु का शब्द अर्थ जो शानशामन्य है, और सह शर्य जो आत्मस्वरूपविशेषविषयक अनुभव है, इन दोनों में उपानापिदारण-उम्बन्ध है; परोक्ष पट का प्रत्यक्ष रूप जो एक व्यक्ति है, उसमें उपशर्यं शानत्य और सहार्थ विशेषानुभवत्व दोनों वक्तागान हैं। इसी प्रकार, शानशामन्य और शानविशेष में व्याप्त-व्यापक-भाव उम्बन्ध भी है। यही शानत्य व्यापक और शानविशेष अनुभवत्व व्याप्ति पर्यं है। इस प्रकार, उम्बन्ध का शान तो है, परन्तु विषय प्रकार 'गहार्या पोपः', इस रूप में गहारा का शक्यार्थ प्रवाह में घोप का दोना अवधिभर-रूप जो अनुपर्वति है, यह 'अहमशः' इस रूप में नहीं देखी जाती। इसलिए, अनुपर्वति के अभाव में लक्षणा नहीं हो सकती, और लक्षणा के बिना आत्मस्वरूप-विशेषविषयक अनुभवरूप विशेष शान, जा घातु का, हो नहीं सकता। अतः, लक्षणा का आभयद्वय किसी प्रकार करना ही दोगा और लक्षणा तयतक नहीं हो सकती, जबतक लक्षणा की चीजभूत अनुपर्वति न हो।

यही लक्षणा के लिए अनुपर्वति इस प्रकार दिखाई जाती है, जैसे 'अहमशः' यही नन् जो अम्बय है, इसका अर्थ अभाव है। इस नम्बर्य अभाव से शान के यामाध्यमाव, अर्थात् शानमात्र का अभाव तो कह नहीं सकते; यद्योकि 'मैं अज हूँ', इस प्रकार का प्रत्यक्ष शान आत्मा को हो रहा है। दूसरी बात यह भी है कि शान आत्मा का धर्म है, अतः शानमात्र का अभाव हो नहीं सकता और शानविशेषरूप जो विशेष अनुभव है, उसको भी ऐसा नहीं कह सकते। कारण यह है कि शानशामन्यार्थक शा घातु का शानविशेष अनुभवरूप अर्थ हो नहीं सकता, और शानमात्र का अभाव है नहीं। 'मैं अश हूँ' इस प्रकार का प्रत्यक्ष शान उसको है ही, और 'अहमशः' इस वाक्य को निरर्थक भी नहीं कह सकते; यद्योकि किसी उन्मत्त का यह प्रलाप नहीं है। फिन्तु, शानस्वरूप विद्वान् भी अपने अशान का अनुभव करते रहते हैं। इस स्थिति में, 'अहमशः' इस प्रकार का जो शान होता है, उस शान का विषय क्या है? इसका निर्वचन नहीं कर सकते। इसी अनुपर्वति से लक्षणा मानकर शा घातु का अर्थ शान-विशेष, अर्थात् अनुभव, किया जाय, तो युक्त होता है, परन्तु इस प्रकार की अनुपर्वति मानकर लक्षणा स्वीकार करने से तो वेदान्तियों का अभिमत माध्यरूप अनिवृच्छनीय अशान की ही सिद्धि हो जाती है। तात्पर्य यह है कि लक्षणा की चीजभूत अनुपर्वति दिखाने में जो यह कहा गया कि 'अहमशः' इस प्रत्यक्ष का विषय इस प्रकार का शान है, ऐसा निर्वचन नहीं हो सकता, ऐसा कहकर जो अनिवृच्छनीयत्व दिखाया गया, यही अनुपर्वति अविद्या है और यही नम् का अर्थ है। अभावरूप अर्थ नम् का नहीं है; क्योंकि अभाव रूप अर्थ स्वीकार करने में पूर्वोक्त रीति से अनुपर्वति के अनुसन्धानपूर्वक लक्षणा स्वीकार करने में अतिगौरता हो जाता है।

एक बात और है कि 'अहमशः' इस प्रकार के अनुभव-काल में अविद्यमान जो

शानविशेषरूप अनुभव है, उसका स्मरणरूपक ही शाता का अनुभव होता है और शाता वही है, जो विषय के आकार में परिणत होता है, अर्थात् विषयाकार परिणाम का जो आधय है, वही शाता है और केवल अन्तःकरण का परिणाम होता नहीं। क्योंकि, अन्तःकरण जड़ है, उसका इस प्रकार का परिणाम नहीं हो सकता और केवल आत्मा का भी परिणाम नहीं हो सकता; क्योंकि वह अपरिणामी है। एक बात और है कि धर्मान्तर से आविर्भाव का नाम परिणाम है और आत्मा किन्तु, जब अन्तःकरण में आत्मा के अभेद का भ्रम हो जाता है, उस समय आत्मा और अन्तःकरण में भेद की प्रतीति नहीं होती। जिस अन्तःकरण में आत्मा का अध्यास है, उसी अन्तःकरण का विषयाकार में परिणाम होता है और उस परिणाम का जो आधय है, उसीको शाता कहा जाता है। अध्यास का ही नाम अविद्या है। इसलिए, 'अहमज्ञः' इस प्रत्यक्ष अनुभव से अविद्या की सिद्धि हो जाती है। इससे अविद्या में प्रत्यक्ष-प्रमाण है, यह सिद्ध हो जाता है। अविद्या में अनुमान-प्रमाण भी दिया जाता है, जिसका निर्देश आगे द्रष्टव्य है।

### अविद्या में अनुमान-प्रमाण

विवादास्पद प्रमाण (पञ्च), स्वप्रागभाव से भिन्न स्वविषयावरण, स्वनिवर्त्य और स्वदेश में रहनेवाला जो प्रमाण-ज्ञान से भिन्न वस्तु है, तत्पूर्वक होता है (साध्य), अप्रकाशित अर्थ के प्रकाशक होने के कारण (हेतु), अन्धकार में प्रथम उत्पन्न प्रदीप की प्रमा के सदृश (दृष्टान्त)। यहाँ इस अनुमान से प्रमाण-ज्ञान को बस्त्वन्तरपूर्वक साधन करना है। अर्थात्, प्रमाण-ज्ञान के पहले प्रमाण-ज्ञान से भिन्न एक कोई वस्तु अवश्य है, यह दिखाना है और वह वस्तु प्रमाण-ज्ञान के ही देश में रहनेवाला हो और स्वनिवर्त्य, अर्थात् प्रमाण-ज्ञान से जिसका निवृत्ति होती हो और स्वविषयावरण और अपने प्रागभाव से भिन्न हो, इन चार विशेषणों से युक्त बस्त्वन्तर अविद्या के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। इस अनुमान से अविद्या की सिद्धि होती है। जैसे, यह घट है, इस प्रमाण-ज्ञान-काल में प्रमाण-ज्ञान से पहले अविद्या है। वह अविद्या प्रमाण-ज्ञान की अपेक्षा भिन्न है और प्रमाण-ज्ञान का आधय जो आत्मलूप देश है, उसमें वर्चमान, होने से स्वदेशगत भी है और प्रमाण-ज्ञान से उसका नाश होने से स्वनिवर्त्य भी है और प्रमाण-ज्ञान का विषय जो घट है, उसका आवरण होने से स्वविषयावरण भी है और यह अपने प्रागभाव से भिन्न भी; क्योंकि प्रमाण-ज्ञान का जो प्रागभाव है, उससे अविद्या को भिन्न माना गया है।

यदि इन विशेषणों से युक्त अविद्या से भिन्न कोई भी वस्तु होती, तो उसीमें अनुमान चरितार्थ हो जाता, और अविद्या की सिद्धि नहीं होती। परन्तु, ऐसी कोई भी वस्तु अविद्या से भिन्न नहीं है, जिससे पूर्वोक्त सब विशेषण सार्थक हों। इसलिए, अविद्या की सिद्धि हो जाती है। साध्य अंश में जो अनेक विशेषण दिये गये हैं, उनमें एक विशेषण भी यदि कम कर दें, तो अविद्या से भिन्न वस्तु की सिद्धि हो जाती है।

इसलिए, गुणभूत साध्य का निर्देश किया गया। विस्तार के भय से पदकृत्य नहीं दिखाया गया। यहाँ तक अविद्या में प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाण दिखाये गये हैं।

## अविद्या में शब्द-प्रमाण

‘भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः’ इस श्वेताश्वतर उपनिषद् में विश्वमाया शब्द से अविद्या का ही निर्देश किया गया है। इसका भाव है कि परमात्मा के ध्यान आदि यापनों से मोक्षकाल में विश्वमाया, अर्थात् अविद्या की निवृत्ति हो जाती है।

‘तरत्पविधां पितरां लृदि यस्मिन्निवेदिते ।

योगी मायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः ॥’

अर्थात्, योगी ध्यान के द्वारा हृदय में जिस परमात्मा के निवेश कर लेने पर विद्या से विश्व विस्तृत इस माया को तर जाता है, उस अमेय ज्ञानस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है।

इस भूति से विद्या से विश्व भावरूप अविद्या की सिद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक भूतियाँ हैं, जिससे उक्त अविद्या की सिद्धि हो जाती है। विस्तार-भय से सबका निर्देश नहीं किया जाता। यहाँ तक प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द इन सीनों प्रमाणों से अविद्या की सिद्धि होती है, यह दिखाया गया है।

इसके बाद अविद्या, माया, प्रकृति इनमें भेद है अपवा अभेद। अविद्या का आधय कीन है, इसका भी विचार किया जाता है।

वेदान्त-शास्त्रों के अनुसार प्रकृति, अज्ञान, अविद्या, माया ये सब एक ही पदार्थ हैं। इनमें वास्तविक भेद नहीं है। कार्य के यश से भिन्न-भिन्न नामों से व्यवहार किया जाता है, जैसे ग्रन्थ के उपादान होने से प्रकृति कही जाती है। विद्या के विरोधी होने से अविद्या या अज्ञान कहा जाता है और अघटन-घटना में पटीयसी होने से माया कही जाती है। तात्पर्य यह है कि जो बात घटने लायक नहीं है, अर्थात् असम्भव है, उसका भी सम्पादन कर देने में जो समर्थ है, वही माया है। एक ही वस्तु का विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न नामों से व्यवहार किया जाता है। एक ही त्रिगुणात्मक ब्रह्मशक्ति, जो सत्त्व, रज, तम् इन सीनों गुणों की साम्यावस्था है, का प्रकृति शब्द से व्यवहार वेदान्त-शास्त्रों में किया गया है।

जब उसमें रजोगुण और तमोगुण तिरोहित रहता है और सत्त्वगुण प्रधान होता है, तब शुद्धसत्त्वप्रधान होने से उसे माया कहते हैं और जब सत्त्वगुण तिरोहित रहता है और रजोगुण एवं तमोगुण का आधिक्य होता है, तब मलिनसत्त्वप्रधान होने से उसका अविद्या शब्द से व्यवहार किया जाता है। विद्यारण्यमुनि ने कहा है—

‘सत्त्वशुद्धविशुद्धिम्यां मायाऽविद्ये च ते मते ।’

अर्थात्, सत्त्वगुण की शुद्धि रहने पर माया और सत्त्वगुण की अविशुद्धि रहने पर, अर्थात् मलिनसत्त्व रहने पर अविद्या कही जाती है। किसीका भत है कि आवरण-शक्ति की प्रधानता होने पर अविद्या और विक्षेप-शक्ति की प्रधानता में माया शब्द का

ब्यवहार किया जाता है। वस्तु के स्वरूप को छिपा देना, अर्थात् आवृत कर देना आवरण-शक्ति का काम है और वस्तु के स्वरूप को अन्यरूप से दिखाना विचेप-शक्ति का काम है। जैसे, शुक्ति में आवरण-शक्ति से शुक्ति का ज्ञान नहीं होता और विचेप-शक्ति से रजत के रूप से उसका ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार, अवस्था-मेद से श्रौपाधिक मेद होने पर भी वस्तुतः माया और अविद्या एक ही पदार्थ है, यह सिद्ध होता है।

## अविद्या का आश्रय

वाचस्पतिमिश्र के मतानुसार अविद्या का आश्रय जीव और विषय ब्रह्म होता है। अर्थात्, ब्रह्मविषयक अविद्या जीव के आभित है, यह सिद्ध होता है। इनका कहना यह है कि ब्रह्म को यदि अविद्या का आश्रय मानते हैं, तब तो ब्रह्म भी अश्व होने लगेगा। इसलिए, जीव को ही अविद्या का आश्रय मानना युक्त होता है। परन्तु, संज्ञेपशारीरक और विवरणकार आदि के मत से अविद्या का आश्रय शुद्ध चेतन को ही माना गया है। उनका कहना है कि जीव तो श्रौपाधिक है। अविद्या उपाधि लगने के बाद ही जीव संज्ञा होती है। उसके पहले उसका आश्रय विशुद्ध ब्रह्म ही हो सकता है। इसलिए, संज्ञेपशारीरक में लिखा है—

‘आश्रयत्वविषयत्वमाग्नी निर्विशेषचित्तिरेव केवला।’

पूर्वसिद्धतमसो हि पश्यमो नाशयो भवति नापि गोचरः ॥’

माय यह है कि केवल निर्विशेष ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय और विषय दोनों हैं; क्योंकि पूर्वसिद्ध जो अविद्या है, उससे पश्यम, अर्थात् चाद में उसीकी उपाधि से होनेवाला जीव न अविद्या का आश्रय होता है और न विषय ही होता है। इसलिए, इनके मत में अविद्या का आश्रय ब्रह्म ही होता है, यह सिद्ध होता है।

इसका विशेष विवेचन न्यायमकरन्द में किया गया है। विस्तार के भय से यहाँ अधिक नहीं दिया गया। इसी माया का परिणामभूत भौतिक और अव्याकृत जगत् है।

## अद्वैत मत में तत्त्व और सृष्टि-क्रम

अद्वैत वेदान्तियों के मत में परमार्थ में एक ही द्रृक्-रूप पदार्थ है। इसीको आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। द्वैत तो अविद्या से कल्पित है। इसमें श्रुत्युग्म आत्मा और दृश्य ये दो पदार्थ होते हैं। इनमें द्रृक् तीन प्रकार का होता है—जीव, ईश्वर और साक्षी। कारणीभूत माया-हर उपाधि से विशिष्ट होने से ईश्वर कहा जाता है। अन्तःकरण और उसके संस्कार से युक्त अशान उपाधि से विशिष्ट होने से जीव कहा जाता है। ईश्वर और जीव तत् उपाधि से युक्त है और केवल उसको साक्षी कहते हैं। प्रत्यक्ष की दृश्य पदार्थ कहते हैं।

दृश्य भी तीन प्रकार का होता है। अव्याकृत, मूर्च्च और अमूर्च। अव्याकृत भी चार प्रकार का होता है। (१) अविद्या, (२) अविद्या के साथ चित् का यम्भन्ध। (३) अविद्या में चित् का आमात् और (४) जीवेश्वर-विमाग। इनको अव्याकृत कहते हैं।

श्रविद्या से उत्पन्न जो शब्द, स्वर्ण, रूप, रस और गन्ध ये पञ्चसूक्ष्ममहाभूत हैं, और श्रविद्या से उत्पन्न जो तम है, उनको अमूर्त कहते हैं। पञ्चीकरण के पहले पञ्चसूक्ष्म-महाभूतों की मूर्चावस्था नहीं होती। अन्धकार भी अमूर्त ही है। अमूर्त अवस्था में जो-जो शब्द आदि सूक्ष्मभूत हैं, उन प्रत्येक के सात्त्विक अंश से एक-एक ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है।

इन्हीं सूक्ष्मभूतों को पञ्चतन्मात्र भी कहते हैं। शब्दतन्मात्र से श्वोध-इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। स्पर्शतन्मात्र से त्वक्-इन्द्रिय की और रूपतन्मात्र से चक्षु-इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। रसतन्मात्र से रसना-इन्द्रिय की और गन्धतन्मात्र से प्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। समस्त पञ्चतन्मात्रों के सात्त्विक अंश से मन की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार, सूक्ष्मावस्था में वर्तमान जो शब्दादि पञ्चभूततन्मात्र हैं, उनके प्रत्येक राजस अंश से क्रमशः वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ इन पाँच कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। सुष्टुप्रम का वर्णन विवारण्य मुनि ने 'पञ्चदशी' में इस प्रकार किया है—

'सत्त्वाशैः पञ्चभिस्तेषां क्रमादिन्द्रियपञ्चकम् ।

वाक्पाणिषादपायूस्थाभिधानानि जज्ञिरे ॥'

इसके बाद सूक्ष्म पञ्चमहाभूतों का पञ्चीकरण होता है। परस्पर सम्मिश्रण का नाम पञ्चीकरण है। इसकी परिभाषा विवारण्य मुनि ने इस प्रकार की है—

'द्विषा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रयमं पुनः ।

स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्च पञ्च ते ॥'

इसका भाव यह है कि प्रत्येक सूक्ष्मपञ्चभूत के दो-दो द्विसे कर दें। उनमें प्रत्येक के एक द्विसे को चार भागों में बॉट दें। उन चार भागों को अपने से भिन्न चार सूक्ष्मभूतों में मिला दें। इस प्रकार, प्रत्येक भूत में आधा अंश अपना रहता है और आधा अंश में चार का सम्मिश्रण। और इस प्रकार, पञ्चीकरण से मूर्चावस्था सम्पल होती है। इस पञ्चीकरण से ही समस्त भूमयडल आदि प्रपञ्च उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार, अद्वैत वेदान्त के मत से तत्त्व और सुष्टुप्रम का संचेप में वर्णन किया गया।

## उपसंहार

इसके पूर्य भूत और भौतिक समस्त प्रपञ्च को मूर्त्ति, अमूर्त और अव्याकृत तीन रूपों में जो विभक्त किया गया है, वे सब माया के ही परिणाम हैं। माया के साथ तथा माया के परिणाम के साथ चेतन का जो सम्बन्ध है, वही बन्ध कहलाता है। इसका अनुभव 'मैं अलै हूँ', 'मैं देही हूँ', इस रूप में होता है। एतन्मूलक ही सुख-दुःख का अनुभव होता है, अर्थात् देह में जगतक अहन्ता या ममता का शान रहता है, तभी तक सुख-दुःख का अनुभव होता है। श्रुति भी कहती है—'न इ वै शरीरस्य सतः प्रिय-प्रिययोरपहतिरस्त', अर्थात् शरीर के साथ सम्बन्ध रहते प्रिय और अप्रिय का नाश नहीं होता। प्रिय संसर्ग को ही सुख और अप्रिय संसर्ग को ही दुःख कहा जाता है। यही प्रियाप्रिय का संस्पर्श बन्ध कहा जाता है। इसीसे लुटकारा पाने का नाम

मोक्ष है। प्रिय और अप्रिय का असंस्पर्श, अर्थात् संस्पर्श न होना ही मोक्ष-शब्द का अर्थ है। इस मोक्ष में कुछ अपूर्व वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। किन्तु, अपने मूलरूप से अवस्थान का ही नाम मोक्ष है। यद्यपि वृद्धावस्था में आत्मा का मूलस्वरूप से ही अवस्थान रहता है; क्योंकि निर्विकार आत्मा में कदापि किसी प्रकार विकार नहीं होता, तथापि वृद्धावस्था में अनादि अविद्या के सम्बन्ध होने से उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए अविद्या का विनाश ही मोक्ष है, यह ऐद्ध होता है। लिखा भी है—

‘अविद्याऽस्तमयो मोक्षः सा च वस्त्र उदाहतः।’

अर्थात्, अविद्या का नाश होना ही मोक्ष है और अविद्या ही वन्ध कही जाती है। अविद्या का नाशरूप मोक्ष केवल विद्या के ही द्वारा होता है। आत्मा के साक्षात्कार को ही अद्वैत वेदान्त के भूत में विद्या कहा जाता है। आत्मा के साक्षात्कार हो जाने पर जीवित रहते हुए भी मुक्त ही है। इसीको जीवमुक्त कहा जाता है। इस अवस्था में द्वैत के भान होने पर भी कोई हानि नहीं होती। जैसे, नेत्र-दोष से दो चन्द्रमा का भान होने पर भी यह दूसरा चन्द्र कहाँ से आ गया, इस प्रकार की शङ्खा ही नहीं होती; क्योंकि उसको वास्तविक ज्ञान है कि चन्द्रमा एक ही होता है। यह द्वित्व का भान दोष से है, अतएव मिथ्या है।

इसी प्रकार, जीवन्मुक्तावस्था में संसार का भान होने पर भी कोई हानि नहीं होती। क्योंकि, आत्मसाक्षात्कार होने से उसको वास्तविक ज्ञान हो गया है कि यह सकल द्वैत-प्रपञ्च मिथ्या है। यही आत्मसाक्षात्कार मोक्ष है। यही आनन्दमय है, इससे उच्चम कोई दूसरा आनन्द नहीं है। इसमें किसी प्रकार के दुःख का लेश भी नहीं है। इसमें किसी प्रकार के अन्यत्व का भान नहीं होता। अखण्ड एकरस आनन्दस्वरूप आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। इसको पाकर कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाती। ‘यज्ञबध्या न परं किञ्चिलब्धव्यमवशिष्यते’, ‘तद्बज्ञेत्यन्नरदन्दं मुक्तदद्वमुपास्महे’, अर्थात् जिसको प्राप्त कर अन्य कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाती, वही द्वैत से रहित ब्रह्मतत्त्व आनन्दमय है। ब्रह्माव ही मोक्ष है।

संसार में जितने वैष्यिक मुख हैं, उनके प्राप्त हो जाने पर भी उससे अधिक मुख के लिए आकांक्षा बनी ही रहती है। इसलिए, वे सब वैष्यिक मुख खातिशय कहे जाते हैं। केवल ब्रह्मानन्द का ही मुख नित्य और निरतिशय है। इसके प्राप्त हो जाने पर किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं होती। इस मुख के सामने सब मुख फीका लगने लगता है। इसीको प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े महात्मा तपस्थी निरन्तर तपस्या करने में ही लगे रहते हैं।

आत्मसाक्षात्कार का विषय आत्मा ही होता है। यद्यपि मोक्षप्रतिपादक भूतियों में इस ज्ञान का विषय अनेकार्थ मानित होता है, परन्तु उन सब भूति-वास्त्रों का तात्पर्य परमार्थ में एक ही होता है। जैसे, ‘आत्मविद्’ इत्यादि भूति-वास्त्रों में ज्ञान का विषय आत्मा आत्म शब्द से ही निर्दिष्ट हुआ है। ‘यहिमन् षर्वाणि

भूतात्म्यात्मैवाभूदिजानतः' इत्यादि श्रुतियों में विश्वान से आत्मस्वरूप की सम्पत्ति बताई गई है। यह श्रुति भी वेदन का विषय आत्मा की ही बताती है, बल्कि 'आत्मैवाभूद विजानतः' यहाँ एक शब्द से आत्मा से इतर के ज्ञान का विषय होने का निषेध भी करती है। स्वरूप की सम्पत्ति, ज्ञान के अनुरूप ही होती है। इस श्रुति के अनुरोध से 'एकत्वमनुपश्यतः' में दर्शन का विषय जो एकत्व दिखाया गया है, उसे आत्मैकत्व ही समझना चाहिए। 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति', 'अयमात्मा ब्रह्म' इत्यादि श्रुतियों में भी ब्रह्म शब्द से आत्मा का ही बोध होता है; क्योंकि आत्म शब्द और ब्रह्म शब्द दोनों पर्यायवाची ही वेदान्त में व्यवहृत होते हैं। 'तस्मिन् दृष्टे परावरे' इस मुण्डक-श्रुति में परावर शब्द से आत्मा का ही महण होता है। इसी प्रकार, प्रायः सब मोक्षप्रतिपादक श्रुतियों में वेदन का विषय आत्मा की ही बताया गया है। इसलिए, साक्षात्कार का विषय आत्मा ही सिद्ध होता है।

यहाँ तक जितना वर्णन किया गया है, सबका निष्कर्ष यही है कि शाङ्कर वेदान्त के अनुसार परमार्थ में एक ही ब्रह्मतत्त्व कृटस्थ नित्य पदार्थ है। इसके अतिरिक्त जो चराचरात्मक जगत् प्रतीयमान ही रहा है, वह माया का ही विलास है, अर्थात् अविद्या का ही परिणाम है। जैसे, शुक्ति रजत-रूप से भासित होती है और रज्जु सर्प-रूप से, वैसे ब्रह्म भी प्रपञ्च-रूप से भासित होता है, इसीको अध्यात्म अथवा विवर्त कहते हैं। जिस प्रकार, शुक्ति और रज्जु का ज्ञान हो जाने पर रजत और सर्प का भान विलकुल ही नहीं रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर प्रपञ्च का भान नहीं रहता। और, ब्रह्म ही आत्मा है। शाङ्कर भव में जीवात्मा और परमात्मा एक ही पदार्थ है। इनमें भेद नहीं है। भेद को जो प्रतीति होती है, वह केवल उपाधिकृत है। और, व्यवहार में ही भेद की प्रतीति होने से व्यावहारिक ही भेद है। परमार्थ में दोनों एक ही हैं। 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति', 'अयमात्मा ब्रह्म', 'तत्त्वमसि' इत्यादि अनेक श्रुतियाँ हैं, जिनसे अद्वैतवाद का सिद्धान्त सिद्ध होता है। ये श्रुतियाँ भी इसमें प्रमाण-रूप से विद्यमान हैं।

आत्मसाक्षात्कार कैसे होता है? इसी शङ्का के समाधान के लिए वेदान्त-शास्त्र की रचना हुई है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से ही भ्रम की निवृत्ति होने पर आत्मसाक्षात्कार होता है। अविद्या के अतिरिक्त संसार भी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए विद्या से अविद्या के नाश के द्वारा साक्षात्कार होना सिद्ध होता है। यही ब्रह्म-साक्षात्कार है। मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य, निर्बाण, अपवर्ग आदि शब्दों से इसीका अभिधान किया जाता है। यही चरम लक्ष्य है। इस चरम लक्ष्य तक जिज्ञासुओं को पहुँचाने में यदि कोई शास्त्र सफल हुआ है, तो वह वेदान्त-शास्त्र ही है।



## पारिभाषिकशब्द-विवरणिका

**अकृताभ्यागम-दोष**—नहीं किये हुए कर्मों का फल प्राप्त होना या फल भोगना ।  
**अखण्डोपाधि**—जहाँ जाति का बाध होता है, वहाँ सामान्य का भेद उपाधि माना जाता है; जिसका विमाग न हो, ऐसी नित्य उपाधि ।

**अस्थाति** } —(द० प० सं० ५६)  
**अल्यातिवाद** } —(द० प० सं० ५६)

**अचिद्वागं**—चित्, अर्थात् आत्मा से भिन्न जगत् ( जड़-प्रपञ्च ) ।

**अजपामन्त्र**—ऐसा मन्त्र, जो विना जपे स्वर्य श्वास-प्रश्वास में सञ्चारित रहता है, जिसमें ‘हंसः’ या ‘सोहं’ की भावना की जाती है ।

**अतिदेश**—सदृश वस्तु का बोध करानेवाला वाक्य अतिदेश-वाक्य है (द० प० सं० १२०) ।

**अतिष्ठापि**—शलश्य ( जिसका लक्षण न करते हों ) में लक्षण का जाना ।

**अटष्टवादी**—जो भाग्य, ईश्वर आदि अद्वैत पदार्थ को मानता हो ।

**अधिकरण**—आध्यय, अधिष्ठान ( विचारणीय वस्तु के भाव या अभाव का स्थल ) ।

**अध्यास**—वस्तु का अन्य रूप से भान होना, जैसे रसी का सर्प-रूप से भासित होना ।

**अध्यासवादी**—अध्यास को माननेवाला ।

**अवभास**—मान होना, अर्थात् किसी वस्तु का अन्य रूप से भासित होना ।

**अववस्था-दोष**—परस्पर आक्रित होने से एक के विना दूसरे की कहीं निश्चित स्थिति न होना ।

**अनात्मपञ्च**—आत्मा से भिन्न जड़-जगत् ।

**अनारम्भक संयोग**—जिस संयोग के होने से किसी वस्तु का आरम्भ न हो (द० प० सं० १६२) ।

**अनाहारारोप**—अधिष्ठान के ज्ञानाभाव में होनेवाला भ्रममूलक आरोप (द० प० सं० ३०) ।

**अनुगत समाधि**—चित्त की संस्कारमात्रशेष अनित्म अवस्था, जिसे सास्त्रित समाधि भी कहते हैं ( द० प० सं० १६६ ) ।

**अनुप्राहक**—किसी प्रमाण के स्वीकार करने में सहायता करनेवाला प्रमाणान्तर ( द० प० सं० २३ ) ।

**अनुपलब्धि**—जिससे अभाव का प्रत्यक्ष होता है, वह प्रमाण-विशेष ( द० प० सं० २२ ) ।

**अनुपपत्ति**—यह लक्षण का बीज है। इसका शब्दार्थ ‘युक्ति-विशद’ होता है ( द० प० सं० ३०८ ) ।

**अनुयन्ध**—विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारी, इन चारों की संज्ञा अनुयन्ध है, इसीके शान से ग्रन्थों के पढ़ने में प्रवृत्ति होती है ( द० प० सं० १७६ ) ।

**अनुमानाभास**—जिस अनुमान में असत् है ।

**अनुसिति**—परामर्श या अनुमान से उत्पन्न या चिद द्वारा होनेवाला शान ।

अभ्युयोगी—जिसमें अभाव हो, या जिसमें सादृश्य हो ।

अनुरसृति—अनुभवजन्य गंस्कार से होनेवाला स्मरण ।

अनैकानितक—वह हेतु, जो व्यभिचरित होता है ।

अन्यथालक्षणि—किसी दोष से वस्तु का अन्य रूप में भाँचित होना ( द्र० पृ० सं० ५८ ) ।

अन्यथाभाव—दूसरे रूप में बदल जाना, जैसे—दूष से दही ।

अन्यथासिद्ध—दोष आदि से भी उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ( द्र० पृ० सं० २४ ) ।

अन्योन्याधिष्ठास-प्रन्थि—अध्यस्त रजत आदि में मुर्कि आदि अधिष्ठानगत इदन्त्व आदि का अप्याय ( द्र० पृ० सं० ११० ) ।

अन्योन्याभाव—जो स्वरूपतः एक दूसरे से भिन्न होता है, जैसे—घट पट नहीं है ।

अन्योन्याध्यय-दोष—परस्पर आधित्-रहनेवाला दोष ।

अन्यय-ध्यतिरेक—जो किसी वस्तु के होने पर हो, वह अन्यय है; और जो किसी वस्तु के न होने पर न हो, वह ध्यतिरेक है ।

अन्ययाप्याप्ति—कारण के रहने पर ही कार्य का होना, अन्यथा नहीं, जैसे—जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ आग है ।

अपकरण—निराकरण करना, हटाना ।

अपसिद्धान्त—सिद्धान्तविद्यम् ।

अपरिणामी—बिसका परिणाम न होता हो ।

अपाकरण—निराकरण ।

अपापरक्तोक—पाप के निराकरण के लिए, जो भगवस्तुति आदि के ल्लोक पढ़े जाते हैं ।

अपेक्षाबुद्धि—जिस बुद्धि से द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति होती है या अनेक में एकत्व-बुद्धि ।

अभिनिवेश—मरण का भय । यह योगशास्त्र के क्लेश का एक अङ्ग है ( द्र० पृ० सं० २०० ) ।

अम्युपगम—अपना सिद्धान्त न होने पर भी कुछ देर के लिए मान ली जानेवाली बात ( द्र० पृ० सं० १२३ ) ।

अयोगध्यवच्छेद—अयोग, अर्थात् सम्बन्ध के अभाव का व्यवच्छेद ( व्यावृत्ति ), अर्थात् आवश्यक सम्बन्ध ।

अर्थवाद—अत्यधिक प्रशंसा या निन्दापरक वेदवाक्य ।

अर्थापत्ति—जिसके बिना जो न हो, उससे उसका आस्तैप करना ( द्र० पृ० सं० २२ ) ।

अवधात-नियम—यज्ञ में धान से चावल निकालने का नियम, यथा—मूसल के अवधात से ही चावल निकालना, न ख आदि से नहीं ।

अवयवसमवेत्तव्य—अवयव में समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाला धर्म आदि ।

अवस्थापरिणाम—एक अवस्था को छोड़कर अवस्थान्तर में परिणत होना ( द्र० पृ० सं० १६२ ) ।

अवान्तरमहस्य—जिसमें परम महस्य न रहे और जो महस्य का आशय हो ( द्र० पृ० सं० १४१ ) ।

अवान्तरपूर्व—अङ्ग-सहित यज्ञ के अनुष्ठान से एक परमापूर्व ( अंदृष्ट ) उत्पन्न होता है, जो स्वर्ग का दाहान् साधन है; परमापूर्व के उत्पन्न होने में अपूर्व सहायक ।

**अव्याकृताकाश**—दिशा का ही नाम अव्याकृताकाश है, यह प्रलय में भी विकार-रहित रहता है और जो भूताकाश से भिन्न है।

**अव्याप्त्यवृत्ति**—लक्ष्य के एक देश में रहनेवाला गुण आदि।

**असरकारणवाद**—मूल कारण को असत्-रूप मानने का सिद्धान्त।

**असत्कार्यवाद**—कार्यमात्र को असत् मानना।

**असत्ख्यातिवाद**—शून्यवादी माध्यमिक के मत में कार्य का कोई सत् रूप नहीं है, शून्य ही प्रतिक्षण कार्यरूप से भासित होता है, यही असत्ख्याति है (द० प० सं० ५६)।

**असद्विज्ञानवादी**—विज्ञान को सत् नहीं माननेवाला।

**असमवायिकारण**—जो कारण-कार्य में समवाय-सम्बन्ध से रहे और उसके नाश होने से ही कार्य का नाश हो, जैसे—पट में दो तन्तुओं का संयोग।

**असमवायिकारणासमवेत**—असमवायी कारण में समवाय-सम्बन्ध से न रहनेवाला।

**असमवायिकारणभिन्नसमवेत**—असमवायी कारण से भिन्न में समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाला।

**असमवेत**—समवाय-सम्बन्ध से न रहनेवाला।

**असम्प्रज्ञात समाधि**—योग की अन्तिम समाधि, जिसमें ध्येय के अतिरिक्त ध्यान का भी भान नहीं होता।

**अस्मिताबुद्धि**—अद्विकार्यक बुद्धि।

**अष्टावधानी**—जो आठ काम एक बार करता है।

**आत्मयात्मयानुभव**—आत्मा का यथार्थ अनुभव।

**आत्मैक्यविज्ञान**—सब आत्माओं को एक समझना।

**आत्मचिक**—जो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है।

**आनन्दविकी**—न्याय-विद्या।

**आमिदा**—दुर्घनिर्मित वशीय द्रव्यविशेष ( छेना )।

**आम्नाय**—वेद; किसी भी सम्प्रदाय का मूल शास्त्र।

**आपत्तन**—रहने का स्थान ( यह आदि )।

**आरम्भ अवयव**—जिन अवयवों से कार्य का आरम्भ होता है।

**आरम्भवाद**—कारण अपने से भिन्न कार्य को उत्पन्न करता है, इस प्रकार का न्यायशास्त्रीय सिद्धान्त।

**आवाप**—( द० प० सं० २४० )

**आध्यप्रतियोगी**—जिसका अभाव होता है, वह प्रतियोगी है और जिसका प्रतियोगी आभय हो, वह आध्यप्रतियोगी है ( द० प० सं० १७० )।

**आहार्यरोप**—भ्रममूलक न होने से इठात् किया जानेवाला आरोप ( द० प० सं० ३० )।

**इदन्ता**—इदम् ( यह ), इस प्रकार का भाव।

**इदन्त्याविद्युत्त्व चैतन्य**—इदम् अंश में रहनेवाला चैतन्य।

**इन्द्रियार्थसंब्रिक्तपं**—इन्द्रियों और विषयों का सम्बन्ध।

**इष्टसाधनता**—इष्ट के साधन का भाव।

**इष्टापत्ति**—जो अपना अभिप्रेत है, वही होना ।

**ईश्वरप्रणिधान**—कर्म या उसके फल का ईश्वर में समर्पण ।

**उच्चरितप्रधार्मसी**—उच्चरित होते ही नष्ट हो जानेवाला ।

**उद्धवनन**—यज्ञ में वेदी बनाने का एक प्रकार का साधन ।

**उपजीय**—कारण ।

**उपधान**—यज्ञ में रखने का विधान ।

**उपनय**—हेतु का उपसंहार-वचन ।

**उपनिति**—सादृश्य से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान ।

**उपराग**—एक प्रकार की छाया; चन्द्र-सूर्य का ग्रहण ।

**उपलब्धिप्रसाण**—जो प्रत्यक्ष उपलब्ध हो ।

**उपादानोपादेय-भाव**—उपादान ( कारण ) उपादेय ( कार्य ) का सम्बन्ध ।

**उपाध्युपासना**—प्रतीकोपासना; उँकार, प्रतिमा आदि की उपासना ।

**एकदेशी मार्घमिक**—बौद्धों के एक आचार्यविशेष ।

**औपचारिक पट्टी**—‘राहोः शिरः’ आदि प्रयोगों में सम्बन्ध के अभाव में भी होनेवाली पट्टी विमस्ति ।

**औपाधिक**—उपाधि से युक्त ।

**काकतालीय-न्याय**—संयोग से जो कार्य हो जाता है, फिर भी ऐसा लगता है कि अमुक के कारण वह कार्य हुआ । जैसे—एक कौश्रा उड़ता हुआ एक तालबूँद के ऊपर आ बैठा, ठीक उसके बैठते ही ताल-फल टपक पड़ा ।

**कारणप्रपञ्च**—तन्त्र की एक पुस्तक का नाम ।

**कारणमात्र विभाग**—कारणमात्र के विभाग से उत्पन्न होनेवाला ।

**प्रधानकारणवाद**—प्रधान ( अचेतन प्रकृति ) को ही जगत् का कारण मानने का विद्वान्त ।

**कारणकारणविभाग**—कारण और अकारण दोनों का विभाग ।

**कारणकारणविभागजविभाग**—कारण, अकारण दोनों के विभाग से उत्पन्न होनेवाला । } ( द्र० पृ० सं० १६५ )

**कालारथयापदिष्ट**—हेत्वाभास का एक भेद ( द्र० पृ० सं० १२६ ) ।

**कृतप्रणाश**—किये हुए कर्म का फल नहीं प्राप्त होना ।

**कृतहान**—किये हुए कर्म का फल नहीं प्राप्त होना ।

**गन्धासमवेत**—गन्ध में समवाय-सम्बन्ध से न रहनेवाला ।

**चित्तभूमि**—सम्प्रतात् समाधि में चित्त की एक अवस्था का नाम, जो मधुमती आदि चार भागों में विभक्त है ( द्र० पृ० सं० १६६ ) ।

**चित्तवृत्ति**—चित्त की विषयाकार में परिणति ।

**चिदाभास**—अविद्या पर पहनेवाला चित् का प्रतिविम्ब ( द्र० पृ० सं० १०८ ) ।

**जगन्मिथ्यात्ववाद**—जगत् को मिथ्या मानने का विद्वान्त ।

**जडप्रपञ्च**—अचेतन सृष्टि ।

**तथान्तरारम्भक**—किसी दूसरे तत्त्व का आरम्भ करनेवाला ।

**तादात्म्याध्यास**—तदाकारता का अन्य हप से मान होना ।

**ग्रिपुटी**—ध्यान, ध्येय और ध्याता, इन तीनों की सम्मिलित संज्ञा । प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता की सम्मिलित संज्ञा ।

**द्रव्यारम्भक कर्म**—जिस कर्म से द्रव्य का आरम्भ होता है ।

**द्रव्यारम्भक संयोग**—जिस संयोग से द्रव्य का आरम्भ होता है ।

**द्वारक्षेप**—( द्र० पृ० स० २३६ )

**द्वैतप्रतिभास**—द्वैत का मान होना ।

**द्वयणुकारम्भक संयोग**—जिस संयोग से द्वयणुक का आरम्भ होता है ।

**निष्ठासमवेत**—निष्ठ वस्तु में समवाय-सम्बन्ध से न रहनेवाला ।

**निरुपाधिक अध्यास**—अखण्ड व्रहा में स्वरूपतः रहनेवाले अहङ्कार के अध्यास वी संज्ञा  
( द्र० पृ० स० २६३ ) ।

**निरुद्गमीण**—( द्र० पृ० स० २८१ ) ।

**निरोध**—चित्त की एक अवस्था ( द्र० पृ० स० २०१ ) ।

**निवर्त्य-निवर्त्तक भाव**—जन्य-जनक भाव आदि सम्बन्धों के समान सम्बन्ध-विशेष का नाम ।

**पञ्च-प्रतिपक्ष**—खण्डन-मण्डन ।

**पचासिद्धि**—अनुमान में पञ्च की ही सिद्धि न होनेवाला दोष ।

**पञ्चस्कन्ध**—रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार इन पाँचों की संज्ञा  
( बौद्ध सिद्धान्त ) ।

**पञ्चावयव**—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पाँच न्यायालङ्घ ।

**पञ्चामिविद्या**—छान्दोग्य और वृद्धारण्यक में वर्णित देवयान तथा पितृयान-मार्ग ।

**पञ्चीकरण**—पाँच भूतों का परस्पर सम्बन्धण ।

**परतःज्ञान**—प्रमाणान्तर से होनेवाला ज्ञान ।

**परतःप्रमाण**—प्रमाणान्तर से माना जानेवाला प्रमाण ।

**परतःप्रामाण्य**—प्रमाणान्तर से सिद्ध होनेवाला ।

**परममहत्त्व**—जिससे बड़ा कोई दूसरा न हो ।

**परमापूर्व**—साङ्ग यज्ञानुष्ठान से उत्तम एक प्रकार का संस्कार, जो स्वर्गादि का साक्षात् साधन है ।

**परमन्याय**—मुख्य प्रमाण ( द्र० पृ० स० १३३ ) ।

**परिणामवाद**—परिणाम को मानने का सिद्धान्त ।

**परिणामी**—जिसका परिणाम ( रूपान्तर ) होता है ।

**परिणामी उपादानकारण**—जो उपादान परिणामशील हो, जैसे—प्रकृति, माया आदि ।

**पर्युदास**—निषेध ।

**पिटर**—पिण्डभूत घटादि अवयवी ।

**पिठैपाक**—थ्रवयवी में ही पाक होना ।

**पितृयान**—शरीरान्तर में गमन के लिए छान्दोग्योपनिषद् में वर्णित एक मार्ग ।

**पीलु**—परमाणु ।

**पीलुपाक**—परमाणु में पाक होना ।

**प्रकृति**—जगत् का मूल कारण ।

**प्रकृति-कैवल्य**—प्रकृति का मोक्ष ।

**प्रतितन्त्रसिद्धान्त**—जो समान तन्त्र से सिद्ध हो और दूसरे तन्त्र से असिद्ध हो (प्रत्येक शास्त्रों का स्वतन्त्र सिद्धान्त) ।

**प्रतिपत्ता**—जिसे आत्मसाज्जात्कार हो गया है ।

**प्रतिपत्ति-कर्म**—उपयुक्त द्रष्टव्य का विनियोग ।

**प्रतिथियवाद**—अविद्या या माया में जगत् को चित् का प्रतिचिन्ह मानना ।

**प्रतियोगी**—वह वस्तु जिसका अभाव होता है तथा साइश्य भी ।

**प्रत्यभिज्ञा**—‘सोऽयम्’, वही यह है, इस प्रकार का ज्ञान ।

**प्रत्यस्तमयनिरोध**—वह निरोध, जिसके होने पर परवैराग्य का उदय होकर आयु तथा भोग का बीज समाप्त हो जाता है (द्र० द० सं० २१४) ।

**प्रत्याहार**—विषयासक्त चित्त को अन्तर्मुख करना ।

**प्रध्वंसाभाव**—उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाला अभाव ।

**प्रमाण-प्रमेय भाव**—यह प्रमाण है, यह प्रमेय है, इस प्रकार का व्यवहार ।

**प्रमाणव्यक्ति**—प्रमाण का ही नामान्तर ।

**प्रमातृ-प्रमेय भाव**—प्रमाता (प्रमाण करनेवाला) और प्रमेय (प्रमाण होनेवाला) का भाव ।

**प्रमिति**—प्रमाण से सिद्ध यथार्थ ज्ञान ।

**प्रमेय**—प्रमाण से साध्य ।

**प्रयाज**—यज्ञ का एक विशेष अङ्ग ।

**प्रातिभासिक**—भ्रम से भासित होनेवाला ।

**प्रामाण्यवाद**—प्रामाण्य के विषय में विचार-विमर्श का सिद्धान्त ।

**वाधात्यन्ताभाव**—वाध का अन्त अभाव (वाध न होना) ।

**वाघ्य-वाघक भाव**—यह वाघ्य है, यह वाघक है, इस प्रकार का भाव ।

**भूतार्थानुभव**—यथार्थ अनुभव ।

**भेदसामान्याधिकरण**—भेद के साथ एक आश्रय में रहना ।

**भेदाध्यास**—भेद का भ्रम ।

**महत्त्व**—बुद्धितत्त्व ।

**मायोपाधिक**—जिसमें माया उपाधि लगी है (मायाविशिष्ट) ।

**मूलप्रकृति**—जो किसी से उत्पन्न नहीं है और जिससे समस्त जगत् उत्पन्न है ।

**मूलाज्ञान**—अविद्या ।

**मूलाधार**—योगशास्त्र में प्रसिद्ध, गुदा और लिङ्ग के बीच का स्थान, जहाँ चतुर्दल कमल की भावना की जाती है ।

**यादचिक—श्राकरिमक ।**

**रसेश्वरवादी—पारद आदि के योग से शरीर को अजर-अमर बनाना ही जिनका ध्येय है, वे रहेश्वरवादी हैं ।**

**रूपहानि-दोष—जाति का वाघक दोष ( द्र० पृ० सं० १५१ ) ।**

**लिङ्गशरीर—पञ्चमूल, पञ्चहानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, मन और प्राण इन १५ तत्त्वों को लिङ्ग या सूक्ष्मशरीर कहते हैं ।**

**खोकायरीर—ईश्वर के अवतारिक शरीर का नाम ।**

**विज्ञानवादी—धौंदों की एक संज्ञा ( जो विज्ञान को ही जगत् का कारण मानता है ) ।**

**विज्ञान-सन्तति—विज्ञान की धारा ।**

**विज्ञानस्फूर्त्य—बौद्धों के पञ्चस्फूर्त्यों में एक का नाम ।**

**विज्ञानावयव—विज्ञान का अवयव ।**

**विधिप्रत्ययवेष—जिसका अभावार्थक न थादि शब्दों से उल्लेख न किया जाय ।**

**विप्रतिपत्ति—संशय ।**

**विवर्तनवाद—अध्यात ( भ्रम ) का दूसरे रूप में भासित होना ।**

**विशेषाधिकरण—विशेष का आधार ।**

**वैभाषिक—चार प्रकार के बीद दार्शनिकों में एक, जो मूल विदिटक की विमापा को प्रमाण मानता है ।**

**व्यतिरेक-व्याप्ति—कार्य के अव्याप्त में कारण का अभाव, जैसे—जहाँ आग नहीं है, वहाँ धूम भी नहीं है ।**

**व्यत्यप—वैपरीत्य ।**

**व्यधिकरण—एक अधिकरण ( आधार ) में न रहनेवाला ।**

**व्यभिचार—हेतु का दोष ।**

**व्यष्टिलिङ्गशरीर—प्रत्येक प्राणी का पृथक्-पृथक् लिङ्गशरीर ।**

**व्याधात-दोष—वह दोष, जिसे वस्तु की सत्ता का उसी वस्तु के कथन द्वारा विरोध किया जाय; अपनी बात से अपनी ही बात का विरोध; जैसे—कोई कहे कि मेरे मुँह मे जीभ नहीं है ।**

**व्याप्ति—जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि-अवश्य है, इस प्रकार के साहचर्ये का नियम ।**

**व्याप्तज्ञाति—वह जाति, जो अल्प देश में रहे, जैसे—प्राणिमात्र में रहनेवाली प्राणित्व-जाति वी अपेक्षा बंवल मनुष्य में रहनेवाली मनुष्यत्व-जाति ।**

**व्याप्त-व्यापक भाव—व्याप्त और व्यापक का सम्बन्ध ।**

**व्याप्त्यर्थ—व्यावृति के योग्य ।**

**व्यापृत्ति—निराकरण ।**

**शतावधानी—अनेक कामों को सावधानी से एक समय करनेवाला ।**

**शत्वाच्छ्रेद—एक यशोय कर्म की संज्ञा ।**

**शुष्कप्राद—व्यर्थप्राद ।**

**शून्यवादी—शून्य माननेवाले बीद ।**

**श्रावण प्रत्यक्ष—श्रोत-इन्द्रिय से शब्द का ग्रहण।**

**थौत—थ्रुति को मुख्य प्रमाण माननेवाला; थ्रुति से सिद्ध वस्तु।**

**सखरणोपाधि—जिससे जाति का बाध होता है, वह उपाधि है। वह दो प्रकार की है—  
सखरण और अस्खरण। सखरण नित्य और अनित्य दोनों होता है,  
जैसे—शरीरत्व आदि।**

**सत्कारणवाद—जगत् के मूलकारण को सत् मानने का सिद्धान्त।**

**सत्कार्यवाद—कार्यमात्र को सत् मानने का सिद्धान्त।**

**सत्त्वयातिवाद—समस्त भ्रमस्थलों में सत्पदार्थ का ही आमास मानने का सिद्धान्त,  
( द्र० पृ० सं० ५८ )।**

**सत्प्रतिपक्ष—एक हेत्वामास ( जिस हेतु का प्रतिपक्ष हेतु वर्तमान हो ),  
( द्र० पृ० सं० १२५ )।**

**सत्यमिथ्यात्मकभास—विवर्त ( अध्यात ) का पर्याय ( द्र० पृ० सं० १६२ )।**

**सच्चाजाति—द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में रहनेवाले सामान्य धर्म का नाम।**

**सच्चसङ्गी—जिसकी सच्च वर्तमान है, जैसे—मृत्तिका आदि पदार्थ।**

**सप्रतियोगिक—जिसका कोई प्रतियोगी हो।**

**समवाय-सम्बन्ध—गुण और गुणी; किया और कियावान्; जाति और व्यक्ति के बीच  
होनेवाला सम्बन्ध।**

**समवेत—जो समवाय-सम्बन्ध से कहीं रहता हो या जिसमें दूसरा कोई धर्म समवाय-  
सम्बन्ध से रहता हो।**

**समवायान्तर—अन्य समवाय।**

**समवायिकारण—उपादान-कारण का नाम, जो कार्य के साथ रहता है, जैसे—मृत्तिका  
घट के श्रीर सूत यस्त के साथ।**

**समवायिकारणसमवेत—समवायी कारण में समवाय-सम्बन्ध से न रहनेवाला।**

**समानाधिकरण—एक अधिकरण में रहनेवाला।**

**संवेतन्त्रसिद्धान्त—जो यर्वमान्य है; किसी शास्त्र से विशद नहीं।**

**साक्षात्कृत्याप्य—जो परम्परया व्याप्य न होकर साक्षात् व्याप्य हो।**

**साक्षितन्त्र—द्रष्टा चैतन्य।**

**साक्षिभास्य—साक्षी ( चैतन्य ) से भासित होने योग्य।**

**साक्षी—चैतन्य।**

**साध्य-साधक भाव—साध्य और साधक का सम्बन्ध।**

**साध्य-साधन भाव—साध्य और साधन ( हेतु ) का सम्बन्ध।**

**साध्याभावद्यूति—साध्य के अभाव में रहनेवाला।**

**सामान्याधिकरण—एक अधिकरण में रहनेवाले का भाव ( धर्म )।**

**सामान्यनिवन्धन—सामान्य मानकर होनेवाला।**

**सामान्यविशेष समवाय—नैयायिकी का पदार्थ-विचार ( द्र०-'न्याय-दर्शन'-प्रकरण )।**

**सास्मित समाधि**—जिस समाधि में जीव और ईश्वर-स्वरूप का जड़ से भिन्न आत्माकार-रूप सान्नात्कार होता है, वही सास्मित समाधि है। उस समय 'आस्मि' इसीका भान होता है, इसलिए वह सास्मित है।

**सौत्रान्तिक**—मूल त्रिपिटक-सूत्र को प्रमाण माननेवाला बौद्ध सम्प्रदाय।

**संघातवाद**—कारण अपने से भिन्न कार्य को उत्पन्न करता है, इस प्रकार का चिदान्त।

**संयोग-सम्बन्ध**—दो संयुक्त वस्तुओं का सम्बन्ध।

**संसर्गप्रतियोगी**—सम्बन्ध का प्रतियोगी ( जिसका सम्बन्ध हो )।

**संसार-दशा**—व्यवहार-दशा।

**स्कन्ध**—बौद्धों के पश्च स्कन्ध—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विश्वान।

**स्थूलारूपती-न्याय**—स्थूल पदार्थों के ज्ञान के द्वारा ही सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान कराया जाना, जैसे—गूँहम अरूपती ( तारा ) के ज्ञान कराने के लिए पहले स्थूल वसिष्ठ ( तारा ) को ही दिखाया जाता है। स्थूल के द्वारा सूक्ष्म का ज्ञान कराना न्याय का भाव है।

**स्वतःप्रमाण**—जिसमें प्रमाणान्तर की अपेक्षा न हो।

**स्वमाववादी**—सूष्टि में स्वमाव फो ही कारण माननेवाला।

**स्वारसिक**—यथार्थ यौगिक।

**ज्ञातव्येष भाव**—ज्ञाता और ज्ञेय का सम्बन्ध।

**ज्ञानसञ्चान**—ज्ञान की सञ्चति ( घारा )।

**ज्ञानात्मास**—मिथ्याभूत ज्ञान का आत्मा में अध्यात्म ( द्र० प० सं० २६२ )।

# अनुक्रमणिका

अ

- अकृताभ्यागम-दोष—१३, १३७, २८५
- अल्पाद-दर्शन—१८
- अखण्डोपाधि—२६३
- अख्याति—५८
- अख्यातिवाद—५८, ३००
- अख्यातिवादी—२६३, २६६
- अचिद्गर्भ—५३
- अचिन्त्यशक्ति—७८
- अजपा-मन्त्र—२०८
- अतिदेश—१२०, २३८
- अतिव्याप्ति—१४८, १५०, १५१, १५४,  
१५५, १५६, १६३, १६६,  
१७०, १६३, १६४, २२४,  
२६३, २६४, २८८
- अतीन्द्रिय—१३८, २५४
- अत्यन्ताभाव—६७, ७३, १६६, १७०,  
२२१, २६३
- अथ—१७८, १८०, १८३
- अथो—१७६
- अदृष्ट—१७४
- अदृष्टफल—२४६
- अदृष्टवादी (दर्शन)—१७४
- अद्वैतव्याद—८३, ८४, ३१५
- अद्वैतवादी—२८, ४७, ४८, ८३, ८४,  
२७३
- अद्वैतवेदान्त—२२, ३१४
- अद्वैतवेदान्ती—५३, ५४, ५६, ६४, ७५,  
७७, २३०
- अद्वैतसिद्धान्त—५, ३३, ५७
- अद्वैतात्मसाक्षात्कार—२७, २८, २६, ३४

- अधिकरण—७५, १२३, १६८, २४१,  
२४७, २४८, २७०, ३०८
- अध्ययन-विधि—२४२, २४३, २४४, २४५,  
२४६, २४८, २७५, २७६
- अध्यापन-विधि—२४८, २७५
- अध्यास—२६७, ३१०, ३१५
- अध्यास-परम्परा—११०
- अध्यासवाद—५६, २६०, २६१, २६४
- अध्यासवादी—२६३
- अनभ्यास-देश—२६५
- अनवभास—३००
- अनवस्था-दोष—१६, १४६, १५१, २६७,  
२८७, ३०१, ३०७
- अनागत-दुःख—२
- अनात्मप्रपञ्च—२६२
- अनारम्भक संयोग—१६२
- अनाहार्यरोप—३०, २७६
- अनित्यत्वानुमान—२६०
- अनिर्वचनीय—३०३, ३०४, ३०८
- अनिर्वचनीय ख्याति—५८
- अनुगत समाधि—१६६
- अनुग्राहक—३३, १२४
- अनुपत्ति—३०८, ३०९
- अनुपलब्धि—२२
- अनुपलब्धि-प्रमाण—६०, ३०६, ३०७
- अनुपलब्धि-प्रमाणवादी—३०७
- अनुवन्ध—१७८, १८१, १८३
- अनुमय—७२
- अनुमायक—४८
- अनुमान-प्रमाण—२४, २६, ३८, ४०, ४१,  
४६, ८२, ३०६, ३१०
- अनुमानमास—२५२

- अनुमिति—१२०, १२४  
 अनुयोगी—२२४, २२५, २६८  
 अनुसन्मूलि—२००  
 अनेकतन्त्र—६  
 अनेकान्तर—८६  
 अनैकान्तिक—८२, ८६, १२५, १४१, २६६  
 अन्तर्यामी—७०  
 अन्धकार—११, ७१, ७४, १४८, १६६,  
     १६७, १६८, १७१  
 अन्यथाख्याति—५८, १७६, २६८  
 अन्यथाख्यातिवाद—२६८  
 अन्यथाख्यातिवादी—२६७, २६८  
 अन्यथामाव—१६२  
 अन्यथासिद्ध—२४, २५, २६६  
 अन्योन्याध्यात्म—११०, ३०१  
 अन्योन्याध्यात्म-प्रनिधि—११०  
 अन्योन्यामाव—६७, ७३, १६८, १७०,  
     २२१  
 अन्योन्यामावविरोधी—१५१  
 अन्योन्याश्रय-दोष—१६, ३०७  
 अन्यय—२०  
 अन्ययोग्यता—१८०  
 अन्यय-व्यतिरेक—२०, २६४, २८५, २६८  
 अन्ययव्याति—१२२  
 अपकरण—२४५  
 अपवर्गी—३, ११८, १२२, १३४, १३५,  
     ३१५  
 अपरिणामी—१८८, १८९, १९१, ३१०  
 अपरिणामी भोक्तुशक्ति—१७८, १९१  
 अपतिद्वान्त—१३६  
 अपाकरण—२३८  
 अपापक्षोक—२३८  
 अपूर्वविधि—२४२, २७५  
 अपेक्षाबुद्धि—१५१, १५५, १५६, १५७,  
     १५८, १५९  
 अपर्गीत—२०३  
 अप्रमा—२६६  
 अभाव (पदार्थ)—७१, १४८, १६८, १६९,  
     १७०, १७१, २२१,  
 अभिधा-भावना—२४४, २४५  
 अभिनिवेश—१६७, २००  
 अभेदसाक्षात्कार—४८  
 अभेदायोग्यत्व—२७७  
 अभ्यङ्कर—८८, ६०  
 अभ्यास—२०२, २०३, २१२  
 अभ्युपगम—१२३  
 अयोग्यवच्छेद—११६  
 अरुण—३८  
 अर्चावितार—७०  
 अर्चिर्मांग—१५  
 अर्थ—६४  
 अर्थवाद—२६८, २७३, २७६, २७८  
 अर्थध्यास—२६२, ३००  
 अर्थापत्ति—२२  
 अर्थापत्ति-प्रमाण—२४, २५, ३०६  
 अर्द्धाचीन नैयायिक—२२  
 अवधात—१२२, २४१, २४२, ३४६  
 अवधात-नियम—२४३  
 अवधात विधि—२४३  
 अवभास—३०२  
 अवभासक—३०१, ३०४  
 अवयव—१२३  
 अवयवसमवेतत्व—१४०  
 अवयवसंयोगित्व—१४०  
 अवहथा-परिणाम—१६२  
 अवान्तर-महस्य—१४१  
 अवान्तरापूर्व—२४२, २४३, २४६  
 अविद्या—५७, ७१, ७४, ७५, ८४, १०२,  
     १०६, १०७, १०८, १०९, १११,  
     ११२, ११६, १२४, १७६, ११६,  
     १६७, १६८, १६९, २००, २१०,  
     २११, २१४, २७४, २८७, २८२,

- २६३, २६६, ३००, ३०१, ३०४, आत्मभेदवादी—८४  
 ३०५, ३०६, ३०८, ३१०, ३११, आत्ममीमांसा—६०, ६१  
 ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, आत्मपाथात्मानुभव—२७४  
 अविद्या-शक्ति—३०६  
 अविद्योपाधि—१११, ३०४  
 अविद्योपाधिक—३०२  
 अब्यक्त—११, १३७, २१६  
 अव्याकृत—३१२, ३१३  
 अव्याकृताकाश—७१  
 अव्याप्तवृत्ति—२६१  
 असत्कारणवाद—५५  
 असत्कार्यवाद—१८, ६०  
 असत्त्वयातिवाद—५६  
 असद्विज्ञानवादी—२६७  
 असमवायिकारण—५५, १५०, १५३,  
     १५४, १५५, १६२  
 असमवायिकारणभिन्नसमवेत—१५०  
 असमवायिकारणसमवेत—१५०  
 असमवेत—१५३, १५४  
 असमझात समाधि—१७५, १८६, २१४  
 अस्मिता—१६६, १६७, २००  
 अस्मिता-बुद्धि—२१३  
 अष्टावधानी—६५  
 अहङ्कार—११, ५४, ६३, ६४, ६५, ७०,  
     ७१, ७३, १०६, २२०, २२२,  
     २२३, २२४, २२५, २२६, २३३  
 अहन्ता—२२०  
 अहम्-अनुभव—२७६, २८६  
 अहम्-प्रतीति—२७१, २७३, २८०, २८६,  
     २८८  
 अहम्-प्रत्यय—२७१, २७३, २८८  
     आ  
 आगम—१४४, २०४  
 आगम-प्रामाण्य—१४४  
 आत्मस्वयातिवाद—५६
- आत्मभेदवादी—८४  
 आत्ममीमांसा—६०, ६१  
 आत्मपाथात्मानुभव—२७४  
 आत्मविश्वान—११४  
 आत्मैक्यवादी—५, ८४  
 आत्मैक्यविज्ञान—११४  
 आत्मनिक दुष्क—१, ४, ५, ६, ७, ६८,  
     ७७, १३५, २३३  
 आत्मनिक परमपुरुषार्थ—२६६  
 आत्मनिक मुख—१, २, ४, ५, ६, १३८  
 आधेयशक्ति—७३  
 आध्यक्षिक—२०, ७८, ८२, ८४  
 आनन्द—४६  
 आनुमानिक—४०, ७८  
 आन्वीक्षिकी—१३३  
 आपुरुष—४३  
 आत्मवचन—२४, २२६  
 आस्तवाक्य—१६, २४, २८४  
 आमिका—२३८  
 आम्नाय—२६८  
 आयतन—१३४  
 आरम्भक श्रवयव—१६३  
 आरम्भक कर्म—१६४  
 आरम्भक नाशक—१६२  
 आरम्भकसंयोग—१६२, १६३; १६४  
 आरम्भवाद—१८, ५५, ५७, ५८, ६०,  
     २६०, २६१  
 आरम्भवादी—६०, २६१  
 आर्या भाष्यना—२४४, २४५  
 आर्यसत्य—८२  
 आवरण—१६०  
 आवरण-भङ्ग—१३७, २६०  
 आवरण शक्ति—३०५, ३११, ३१२  
 आवाप—२४०  
 आशय—२०१  
 आश्वयप्रतियोगी—१७०

आसन—१७६, २०६, २०७, २०८, २०९,  
२११

आस्तिक—८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७,  
८८

आहार्यारोप—३०, २८०, २८१, २८२,  
२८३

आहुक—१४६

इ

इच्छाशरीर—१७८

इदंति—२२०

इदन्त्वावच्छिन्न चेतन्य—३००

इन्द्रियार्थसंक्रिप्त—१५६

इष्टाधनता—१४, २६७, २६८

इष्टापत्ति—४६, १३७

ई

ईशोपनिषद—६५

ईश्वरकषण—२२३

ईश्वर-तत्त्व—८८

ईश्वर-प्रणिधान—१७६, १७८, २०३,  
२०४, २०५, २०६

ईश्वर-प्रामाण्य—१४४

ईश्वरवादी—१७७

उ

उच्चरितप्रध्वंसी—१३६

उड्डीयन—२०८

उत्तर—२४१

उत्पत्ति—६१

उत्पत्ति-साधन-शृणवादी—८४

उदयनाचार्य—२०, ११६, १२६, २६०,  
२६४, २६६, २६७, २६८

उद्धघनन—२३६

उद्धालक—३६

४२

उद्योतकराचार्य—१३३

उपकारक—१३३, १८६

उपकार्य—१८६

उपजीव्य—२६, ३३, ३४, ५०

उपजीव्य-विरोध—३५

उपजीव्यविरोधप्रयुक्त—३४

उपधान—२४६, २४७

उपभय—१२३, १३१

उपमिति—१२०, १२४

उपराग—१८८

उपलब्धि-प्रमाण—३०७

उपादानकारण—४६, ४८, ५०, ५५,  
५७, ६०

उपादानोपादेय-भाव—२२८

उपाध्युपाधना—१६

उल्लूक—१४५

उद्दा—१२४

ऋ

ऋक्—२०३

ऋतम्भरा—२१३

ए

एकतन्त्र—६

एकदेशी मार्यमिक—१३५

एकान्त—८२

ऐ

ऐकान्तिक—८२

ऐतरेयोपनिषद—५५

ऐहिक सुख—५

ओ

ओगचारिक पष्ठी—६८

ओपाधिक—५. ३०३, ३१२

ओलुम्यनदर्शन—१४५

क

- कठ—२५५  
 कठश्रुति—१०  
 कठोपानपद—११, १२, ६५, ६६, ११४  
 कणाद—४२, १४५, १४६, १४८, १५१  
     १५२, १५३, १५४ १६८, १७३,  
     १७४  
 कपिल—३८, ४०, ४६, २१६  
 कपोतवृत्ति—१४५  
 कर्म—१५५, १७७, २०१, २२१  
 कर्मकारण—८३  
 कर्मत्वभाति—१५१  
 कर्मनिरपेक्ष ईश्वरवादी—८४  
 कर्मसापेक्ष ईश्वरवादी—८४  
 कला—७३  
 कलाप—२५५  
 काकतालीय न्याय—४५  
 काठक—२५५  
 काठकोपनिषद—८५  
 कारणपञ्चक—२१३  
 कारणपरमाणु—१६१  
 कारणप्रपञ्च—२०४  
 कारणमात्र विमागजविभाग—१६५  
 कारणवाद—४८  
 कारणकारणविभाग—१६५  
 कारणकारणविभाग—१६५  
 कार्तिकावली—२१, १५५, १७१  
 कार्य-कारण-भाव—१०, १७, १८, ५०,  
     ११५, ११६, १३८,  
     २२७, २३०  
 कार्यत्व-हेतु—१४१, १४२  
 काल—७१, १५३  
 कालात्यापदिष्ट—१२६, १४१  
 कालाप—२५५  
 कालिदास—४३  
 किरणावली—१२६

- कुमारिलभट्ट—२२, ५२, ७५, २४०, २४४,  
     २४७, २५५, २५६  
 कूटस्थ—५२, ५७, १८७, १८८, २२१  
 कूटस्थ नित्य—५१, ३१५  
 कूमंपुराण—२१  
 कृतप्रणाश-दोष—१४, १३७  
 कृतदान—२८१  
 वेनापनिषद—८५  
 वेवलविकृति—१७७  
 कैयट—८७  
 कैवल्य—१, १७८, १८३, २३४, ३१५  
 कैवल्योपनिषद—१३, ६६  
 कौमुदी—२५०  
 कौयीतकोपनिषद—१०७  
 कियायोग—१७६, २०२, २०५  
 क्लेश—१७७, १७८, १७९, १८६, १८७,  
     १८८, १८९, २००, २०१, २०३,  
     २१०, २११, २१४

ग

- गन्धासमवेत—१४८, १५०  
 गार्हपत्यार्गिन—२३६  
 गीता—६२, १८२, २०३, २१७, २३०  
 गुण—७०, ७५, १५४, १७४  
 गौडपादाचार्य—११६  
 गौतम—२२, ४२, ११८, ११९, १२२,  
     ११६, १३५, १४४, १४५  
 गौतमसूत्र—१३५

घ

- घटकश्रुति—११२, ११३  
 घटाकाश—१०८, १०९, २८३

च

- चार्वाक—१४, १६, २२, ४५, ५३, ६६,  
     ७५, ७७, ८२, ८४, ८५, ८६,  
     ९१, १३७, २८२, २८८

चित्त—६५

चित्तभूमि—१६६

चित्तद्रव्यत्ति—१८८, १८९

चित्रदीप-प्रकरण—५३

चित्सुखाचार्य—३०३

चिदचिदिशिष्ट परमात्मा—८३

चिदात्मा—१०६, ११०, १११

चिदामास—१०८, २८८, २८०

चिदधन—११३, ११४

चिद्रूप—११३

चेतन्यप्रतिबिम्ब—१७८

### छ

छल—१८, १२४, १२६ १३२

छान्दोग्य-श्रुति—५५, २७३

छान्दोग्योपनिषद्—६, १२, १३, १५, १७,  
२७, २८, ४०, ६४,  
६६, ११३, ११४, १८२,  
२७८

### ज

जगत्प्रपञ्च—११४

जगन्मिश्यात्मवाद—६४

जडप्रपञ्च—१०२

जल्प—६८, १२४

ज्ञानत्र—१६३

जाति—१२७, १३२

जालन्धर—२०८

जिहासा—२००

जीव—७०, ७४, ८८, १३७

जीवन्मुक्त—३१४

जीवन्मुक्ति—८८, २७०

जीवन्मुक्तिवादी—८४

जैमिनि—३६, ३७, ६१, २०३, २३६, २४१,  
२४३, २४६

जैमिनिसंश्ल—२०३; २४०, २४३

ज्योतिषमती—२०१, २१२, २१४

### त

तत्त्व—६, ८१, ८२, १७४, १६४, १६५,

२१६, २१८, २२०, २२२, २२५,

३१२

तत्त्व (सांख्यमत)—७३

तत्त्व (सत्य) चतुष्टय—६६

तत्त्वान्तरारम्भक—२१६

तत्त्वशास्त्र—२०४

तादात्म्याध्यात्म—२८८

तार्किक—८२, ८४, ८७

तित्तिरि—२५४

तैत्तिरीय आरण्यक—१२

तैत्तिरीय ब्राह्मण—५०, २४६  
तैत्तिरीय श्रुति—१७, २७३, २८८

तैत्तिरीय संहिता—१४३, २३६, २७२

तैत्तिरीयोपनिषद्—११, १६, १७, ४०, ४६,  
५४, ६६, १०३, १८२,  
२७६

त्रिकालावाद्य—३०२

त्रिपुरी—२७, २८, २८३

त्रिष्णुक—५४, १५३, १६०, २६१

### द

दशकृमारचरित—२५४

दीपिकाकार—७४

दृक्—३१२

दृश्य—११, ३१२

दृष्टफल—२४६, २७५

देवयान—१५

देहात्मवादी—२८२

दैषिक—८६

दोष—६८

द्रव्य—६८, ७०, १६६, १६७, २२१

द्रव्यत्व—१४६

द्रव्यबुद्धि—१५७

द्रव्यारम्भक कर्म—१६४  
 द्रव्यारम्भक संयोग—१६१  
 द्रष्टा—११  
 द्वारलोप—२३६  
 द्वैतप्रतिभास—२७५  
 द्वैतप्रत्यक्ष—२६  
 द्वैतवाद—८३, ८४  
 द्वैतवादी—२६, ८३, ८४, ९८, १०५,  
     १०७  
 द्वैतवादी वैशेषिक—४७  
 द्वैताद्वैतवादी—८४  
 द्वैतापत्ति—२६८  
 द्रव्यणुक—५४, १५३, १६०, १६१, १६२,  
     १६३, १६४, १६५, २६१  
 द्रव्यणुकारम्भक संयोग—१६१

## न

नकुलीश पाशुपत (दशेन)—४६, ६५, ६६,  
     ७३, ७७, ८४,  
     ८८

नागेशमह—६१, ६५  
 नामधेय—२६८  
 नारायण-पद—२२२  
 नास्तिक—८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७  
 निगमन—१२३, २३१  
 निग्रहस्थान—६८, ६९, ११८, १२४,  
     १२५, १३०, १३२

नित्य—१४६  
 नित्यासमवेत—१५१  
 निदिष्यासन—१४५, १८२  
 निमित्तकारण—५५, ५८, २६५  
 निष्ठाकांचार्य—८४, ८३  
 नियम—१७६, १७७, २०६, २११  
 नियमविधि—२४२  
 निरतिशय—२, ५, १३७, १३८, २७३,  
     ३१४

निरतिशय दुःख—१, २, ३, ५  
 निरतिशय सुख—१, २, ३, ५, १३८,  
     २४४, २७३  
 निरवयव—८५, १४६, २६१  
 निरीक्षर—८४  
 निरीक्षरवादी—८४  
 निरपङ्गव—१३६, १३७  
 निरपम—१३७  
 निरपाधिक—४८, २७७  
 निरपाधिक अध्यास—२६३  
 निरुद्ग गौण—२८१  
 निरोघ—२०१, २०२  
 निरोघ सत्य—६८  
 निरुणात्मवादी—८४  
 निर्णय—२४?  
 निर्णायिक लिङ्ग—२७८  
 निर्माणकाय—१७८  
 निर्वाण—१  
 निर्विकल्प—१००  
 निवर्ध-निवर्त्तक भाव—२७४  
 निष्कर्मवादी—८१  
 निःश्रेयस—१८१, १८२  
 नृसिंहतापिन्युपनिषद—६६, १०६  
 नैष्कर्म्यवाद—८४  
 न्याय—१३३  
 न्यायकुसुमाञ्जलि—२६४, २६७, २७१,  
     २८८  
 न्यायकुमुमावली—११६  
 न्यायमाध्य—१३३  
 न्यायमकरन्द—३१२  
 न्याय-रत्नावली—१८७  
 न्यायवाचिक—१३३  
 न्यायविद्या—१३३  
 न्यायवीथी—२६४  
 न्यायासदान्तमुक्तावली—१५१  
 न्यायसूत्र—१२६

प

- पच्च-प्रतिपद्म—१२४, १३२  
 पच्चाचिदि—१४२  
 पच्चिल स्वामी—१३३  
 पडगवन्ध-न्याय—२३३, २३४  
 पञ्चकमेन्द्रिय—१४, ७०, ७३, २२०, २२२,  
     २२३, २२६  
 पञ्चगव्य—१७६  
 पञ्चशानेन्द्रिय—२४, ७०, ७३, २२०,  
     २२२, २२३, २२६  
 पञ्चतत्त्व ( जैनमत )—६६  
 पञ्चतन्मात्र ( आ )—१०, ११, ७०, ७३,  
     २१६, २२०, २२३,  
     २२४, २२५, २१६,  
     ३१३  
 पञ्चदशी—१४, ५३, १११, ११२, ३०४,  
     ३१३  
 पञ्चन्यायाङ्ग—६८  
 पञ्चपादिका—३०२  
 पञ्चभूत—१०, ११, १४, ७०, ७३, २८१  
 पञ्चभूततन्मात्र—३१३  
 पञ्चमहाभूत—६३, २१६, २२०, २२२,  
     २२३, २२४, २२५, २७०,  
     ३१३  
 पञ्चशिखाचार्य—१७८, १६१  
 पञ्चसूक्ष्मभूत—१४, २२६  
 पञ्चसूक्ष्ममहाभूत—३१३  
 पञ्चस्कन्ध—६८  
 पञ्चावयव—१२४, १३२, १३३, २३१  
 पञ्चगिविद्या—१५  
 पञ्चीकरण—७४, ३१३  
 पतञ्जलि—२, २१, ३७, ४०, ४१, ८६,  
     १३८, १७५, १७६, १७७,  
     १८०, १८३, १८४, १८५,  
     १८६, १८१, १८२, १८६,  
     १८७, १८८, १८६, २००, २०२,
- २०३, २०५, २०६, २०८,  
 २०८, २११, २१२, २१३,  
 २१४, २५०  
 पदकृत्य—१५५  
 पदार्थ—६७, ७१, २१३, २१४  
 पदार्थवादी—८४  
 पदार्थ-संग्रह—७१  
 पद्मनाभाचार्य—३०२  
 पर—७०  
 परतः ज्ञान—२६५  
 परतः प्रमाण—४२  
 परतः प्रामाण्य—४३, २६५, २६६, २६७  
 परतः प्रामाण्यवादी—२६३, २६७  
 परद्वारानपेक्षित्यत—११६  
 परमन्याय—१३३  
 परममहत्त्व—१४१  
 परमाणु—५४, ८५, १६५, १७४, ३०६  
 परमापूर्व—२४२, २४३, २४६  
 परस्परापेक्ष—१४४  
 परस्पराश्रय—१४४  
 परस्पराश्रय-दोष—१३६, १४३, २३३  
 परामर्श—१४४  
 परावृत्ति—१५२, १६०  
 परिच्छित्ति—११६  
 परिणाम—१६१  
 परिणामवाद—१८, ५५, ५६, ५७, ५८,  
     ६०, ६०, २६०, २६१  
 परिणामवादी—६०  
 परिणामी—१८८, १८९, १९१  
 परिणामी उपादान-कारण—६०  
 परीक्षक—१२२  
 परोक्ष—१०१  
 पर्युदास—१६८  
 पाक—१५३, १६०  
 पाकजे—१५२, १५३  
 पाकजोत्यत्ति—१५६

- पाणिनि—३७, २५०  
 पाणिनिसूत्र—८७, २११  
 पाणिनीय—३६, ७३, ७५, ७७, ८३  
 पातङ्जलसूत्र—२१  
 पारमार्थिक सत्ता—४४  
 पारलौकिक मुल—२, ४  
 पाशविमोक—६६, १०२  
 पिठर—१६०  
 पिठरपाक—१६०, १६१  
 पिठरपाकप्रक्रिया—१६०, १७१  
 पितृयान—१५  
 पीलु—१६०  
 पीलुपाक—१६०  
 पीलुपाक-प्रक्रिया—१६०, १६१, १६२,  
     २७१  
 पुनर्जन्म-सिद्धान्त—१४  
 पुरुष-कैवल्य—२१४, २१५  
 पुरुष-तत्त्व—२२०  
 पुरुषार्थ—१७१, २७४  
 पुष्टिमार्ग—८३  
 पूर्णप्रशाचार्य—६५, ८३  
 पूर्यकल्प—१२०  
 पूर्वनुसिद्धतापिन्युपनिषद—६६  
 पूर्वपक्ष—२४८  
 पूर्यमीमांसा—२७५  
 पूर्यवृत्ति—१८८  
 प्रकरण-यज्ञिका—२६४  
 प्रकृति—३११  
 प्रकृति-कैवल्य—२१३, २१४  
 प्रकृतिलय—१६७  
 प्रकृति-यज्ञिका—१७७  
 प्रगीत—२०३  
 प्रच्छन्न तारिक—८४, ८८  
 प्रच्छन्न द्वैतयादी—८४  
 प्रशान्तयोति—२१३  
 प्रतितन्त्रविदान्त—११६, १२३  
 प्रतिपत्ता—२८३  
 प्रतिपत्ति-कर्म—२३८  
 प्रतिप्रसव—२१५  
 प्रतिविम्ब—७२  
 प्रतिविम्बवाद—५७, ५८  
 प्रतियोगी—१६७, २२४, २२५, २६८,  
     २६९, ३०८  
 प्रतीकोपासना—१६  
 प्रत्यक्ष—१०१  
 प्रत्यक्ष-प्रमाण—२६, २८, ३६, ८२, ३०७  
 प्रत्यक्षविशेष—२५३  
 प्रत्यक्षैकप्रमाणवादी—२०  
 प्रत्यभिशा—२५३, २५६, २५८, २५९,  
     २६०, २८२, २८३, २८४  
 प्रत्यभिशा-दर्शन—४७, ७३  
 प्रत्यभिशादर्शी—८४  
 प्रत्यभिशा-वाक्य—२८४  
 प्रत्यभिशावादी—६, ४६, ७७, ८८  
 प्रत्यस्तमय निरोध—२१४  
 प्रत्याहार—१७६, २११, २१२  
 प्रदीप—२५०  
 प्रधान—१३७, २१६, २३१  
 प्रध्वंसाभाव—६७, ७३, १६८, १७०, २२१  
 प्रपञ्च—२६, २८, ५६, ५७, ६६, ७४,  
     ८०, ८८, १०१, १०४, १०८,  
     २१६, २२७, २३०, २६६, २७६,  
     २७७, २८१, २८२, २८३, २८८,  
     ३०२, ३०३, ३०४, ३११, ३१३,  
     ३१५  
 प्रभाकर—५२, १६६, २४७, २४८, २५५,  
     २६३, २६४  
 प्रभा—२६१, २६५  
 प्रमाणप्रमेयमात्र—२८२  
 प्रमाणप्रमेयवदार—२८४  
 प्रमाणुद्यति—३३  
 प्रमाणविवर—२५, २६, २७

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| प्रमाणामास—१४२                     | १०६, ११२, ११४, ११५,                |
| प्रमातृप्रेयभाव—२७, ३४             | १८३, १८१, २७०, २७२,                |
| प्रमिति—१२०, १२४                   | २७६                                |
| प्रमेय—२५, २६, २७, ३५, ४४, ६८, ६९, | ब्रह्मतत्त्व—३१४, ३१५              |
| ११८, १२१, १२२, १३४, १४५            | ब्रह्मप्रशंसा—२७६                  |
| प्रयाज—२३६                         | ब्रह्मभाव—३१४                      |
| प्रवृत्ति—६८, १३४, १३५, २३३        | ब्रह्मलोकावस्थान—२७०               |
| प्रवृत्तिनिमित्त—२४६               | ब्रह्मवाद—८४                       |
| प्रक्षेपनिषद्—११, ६६               | ब्रह्मसूत्र—१०, ८३, १०७, २६६, २७०, |
| प्रस्थानप्रेद—६२                   | ८८४                                |
| प्रागमाय—६७, ७३, १६६, १७०, २२१,    | ब्रह्मसूत्रकार—८५                  |
| ३१०                                | ब्रह्मसूत्रमाध्य—४८                |
| प्राचीननैयाधिक—२१                  | <b>भ</b>                           |
| प्राणायाम—१७६, २०८, २०९, २१०,      | भत्तृहरि—३६, ६०                    |
| २११                                | भासती—१४                           |
| प्रातिभासिक—५३, ३०२, ३०३           | भाव (पदार्थ)—१४८                   |
| प्राप्तिक—६४, ६५                   | भाव्य—१६५                          |
| प्रामाण्य—२१, २३, २५, २६, ४२, ७६,  | भाषकर—२८४                          |
| ८७, २६५                            | भूतार्थानुभव—११६                   |
| प्रामाण्यवाद—७६, २६१               | भूमा—२७                            |
| प्रावरण—२३०                        | मेदणामान्याधिकरण—२६२               |
| प्रेत्यमाव—६८, ११८, १२१, १३२       | मेदाध्यात्र—२७६                    |
| <b>फ</b>                           | मोक्षापुरुष—८, ६१, २३३             |
| फ़िक्का—२४७                        | मोगसाधन-आदृष्टवादी—८४              |
| <b>च</b>                           | <b>म</b>                           |
| चन्द्र—७६, ८१, १०२, २७४            | मठाकाश—१०६                         |
| चहिरङ्गसाधन (योग)—१७६              | मण्डूकोपनिषद्—११                   |
| चारायण—१०, ३७, ६१, ६३, ६४, ६५      | मत्स्येन्द्रनाथ—२०७                |
| चापात्यन्तमाव—२६३                  | मधुप्रतीका—१६६, २०१, २१२, २१३      |
| चाप्यचापक भाव—२४, ३३, ३५, ४४,      | मधुमती—१६६, २०१, २१२, २१३          |
| २७४                                | मधुसूहनसरस्वती—८२                  |
| चुदिवृत्ति—१८८, १८९                | मध्यमण्डिण्याम—५३, १६०, २१८, २८५   |
| चूटदारण्यक—७, १०, १३, १५, १७,      | मन—७१                              |
| २३, ३८, ४३, ५०, ६५,                | मनन—४८, ५०, १४५                    |
| ६६, १००, १०७, १०८,                 |                                    |

मनु—२४८  
 मन्त्र—२६८  
 महत्त्व—५४, ७०, ७१, ७३, २१६,  
     २२०, २२१, २२२, २२३,  
     २२४, २२६, २३५, २६१  
 महाकाव्य—४४  
 महाकाश—२६३  
 महानारायणोपनिषद्—१३, ६६, ११३  
 महाभारत—३७, ४३, २५२  
 महामाध्य—८६, १६२, २५०  
 महामुनि—५४४  
 महोदय—१३६  
 मारण्डूक्यकारिका—११६  
 मारण्डूक्योपनिषद्—६५  
 माध्यमिक—५३, ८५  
 माध्य—४६, ४७, ७५, ८४  
 माध्य-सम्प्रदाय—२?  
 माध्याचार्य—३८, ५३, ६६, ६८, ७५,  
     ७७, ८३, ८८  
 माया—३११, ३१३  
 मायाधाद—६४  
 मायावादी—२२७  
 मायोपाधि—१११, ३०४  
 मायोपाधिक—३०२  
 मालतीमाध्य—२५४  
 मादेशर—४६, ६५, ७३, ७५, ८३, ८८,  
     ८९  
 मिथ—७०  
 मुक्तात्मा—६  
 मुक्तावली—१६०  
 मुक्तिदण्ड—१३८  
 मुरुगापूर्ण—२४४  
 मुरादकथुति—१०३, ३१५  
 मुरुदकोपनिषद्—२१, ६५, ८७, ११७,  
     २७८  
 मूल—२०८

मूलतत्त्व—८१, ८२, ८५, ८६, ८७  
 मूलप्रकृति—५४, ५६, ७३, १७७, २१६,  
     २१७, २१८, २१९, २३०,  
     २२३, २२५, २३१, २३२  
 मूलाज्ञान—२७४  
 मूलाधार—१७७  
 मोक्ष—७७, ८१, १३२, २७४, ३१४, ३१५  
 मोह—२३१  
 य  
 यजुः—२०३  
 यम—१७६, १७७, १११  
 याज्ञवल्क्य—१७५, १८४, १८५, २०३  
 यादच्छिक—२८५  
 योगमाध्य—१६८  
 योगवासिष्ठ—१७५  
 योगसूत्र—८१, १८६, २१३, २१४  
 योगचार—८५  
 योगी—२१३  
 र  
 रघुवंश—४३, २५०  
 रसेश्वर—८४  
 रसेश्वर-दर्शन—७३, १७७  
 रसेश्वरवादी—७७, ८८  
 रामतीर्थ—२७६  
 रामानुजसम्प्रदाय—२१, ८४  
 रामानुजाचार्य—२८, २८, ३८, ४५, ४७,  
     ५३, ५६, ५८, ६६, ६८,  
     ६८, ७०, ७५, ७७, ८३,  
     ८८, ९३, १००, १०७  
 रूपदानि-दोष—१५१  
 ल  
 लक्षण-परिणाम—१६२  
 लक्षित—१४६  
 लिङ्ग—१३८, २३७, २३८, ३०६

लिङ्गशरीर—२१५, २२२  
लीलाशरीर—२५४  
सौकिक—१२२

व

वज्रमार्चार्य—८३  
वाक्षुल—१२६  
वाक्यपदीय—३६, ६०  
वाक्यार्थवादी—८४  
वाचस्पतिमिश्र—१४, १६८, २२४, २८४, ३१२  
वात्स्यायन—१३३  
वासना—७१, २०१  
विकल्प—२५५, २६५, २८५  
विकल्प-दोष—२२८  
विकृति—२१६  
विक्षेपशक्ति—३०५, ३२१, ३१२  
विचार—१८५, २७०  
विज्ञानवादी (वोद्ध) —६६, १३६, २८६  
विज्ञानसन्तति (सन्तान) —५३, २८६, २८८  
विज्ञानस्कन्ध—६६  
विज्ञानवायव—२८६  
वितरणा—१२५, १३२  
विदेह-कैवल्य—२७०  
विदेहसुक्तिवादी—८४  
विद्यारथ युनि—६३, १११, २८८, ३११,  
                          ३१३

विधि—२६८  
विधिप्रत्ययवेद—१६८  
विनाशक विमाग—१६२, १६३  
विनाश्य-विनाशक भाव—१५८  
विपाक—१७७, २०१  
विप्रतिपत्ति—१२२, २२७  
विभव—७०  
विभागजनक कर्म—१६४  
विभागजनक विमाग—१६३  
विभागज विमाग—१६२, १६३, १६४,  
                          १६५

विभु-द्रव्य—१५८, १८८  
विवर्च—५६, २३०, २३१, ३१५  
विवर्चवाद—१८, ५५, ५६, ५७, ५८, ६०,  
                          ८३, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४,  
                          १०२, २६०  
विवर्तवादी—६०  
विवर्तोगादान—४७, ५८, ६०, ६१  
विवेकख्याति—२१४  
विशिष्टाद्वैत—२१  
विशिष्टाद्वैतवादी—८४  
विशेष—१५१, २२१  
विशेषसामान्य—१५५  
विशेषाधिकरण—१५३  
विशेष्य विशेषण भाव—२२४  
विशोका—१६६, २०१, २१२, २१३, २१४  
विश्वजित् न्याय—२४३, २४४, २४५, २४६  
विश्वनाथमह—२१, ४१, १६०, १७१  
विष्णुपुराण—२०५, २०६, २१२  
वेदवादी—२६२  
वेदव्याप—१४, २६८, २७०  
वेदान्तसार—२७६  
वेदान्तसूत्र—१४, २६८  
वैकारिक आद्वार—१७  
वैभाषिक (बोद्ध) —५६, ६६, ६८, ७७, ८५,  
                          १३५

वैराग्य—२०२, २०३, २१२  
वैपम्यावस्था—२१७, २१८  
व्यतिरेक—२०  
व्यतिरेक-व्याप्ति—१२३  
व्यत्यय—१२६  
व्यधिकरण—१५२  
व्यभिचार—१६, २०  
व्यभिचार-दर्शन—२५६  
व्यभिचार-शाङ्का—२१  
व्यष्टिलिङ्गशरीर—२२२  
व्याघ्रात-दोष—१४२, २५४

व्यासि—१६३  
 व्यासिगान—१४५  
 व्याप्त्यजाति—१५४, १५५  
 व्याप्त्यव्यापकभाव-सम्बन्ध—३०६  
 व्याप्त्या-व्यापिका—१५२  
 व्यावचेक—२६८  
 व्यावस्थ्य—२६८  
 व्यावृत्ति—१४८, १५१, १५२, १५३,  
     १५४, २६४  
 व्यास—२३, ४३, २५०, २५१  
 व्यासदेव—३७, ८५, ११८  
 व्यूह—७०, ८१, २१५

## श

शक्ति—७१  
 शङ्कराचार्य—१४, २८, ४६, ४७, ४८, ५१,  
     ६०, ६३, ८३, ८८, ८०,  
     ८१, ८३, ८४, १००, १०६,  
     १०७, १०८, २७५, २७६,  
     २८३

शतावधानी—६५  
 शबरस्वामी—८१  
 शब्द—४५  
 शब्दप्रमाण—८२, ८४, ३११  
 शब्दसुष्ठिविमर्श (स्फोटयाद)—८०  
 शम—२०३  
 शरीर-शरीरी माय—८३  
 शरीराकाश—१६५  
 शरीराजन्यथ देतु—१४१  
 शाश्वाच्छेद—२३८  
 शाहूरमाध्य—२८३, ३०२  
 शाहूरवेदान्त—३१५  
 शान्दप्रमा—२२६  
 शान्दोपीष—२२६  
 शान्दीमायना—२४५, २४५  
 शारदातिलक—२०४

शारीरक भाष्य—५१, ६३, २६३  
 शालिकनाथ—२६४  
 शिवमहिनस्तोत्र—७०  
 शुद्धाद्वैत—८३  
 शुष्कवाद—२३  
 शून्यवादी—१४  
 शून्यवादी माध्यमिक—५६, ७७, २६६  
 श्रावणप्रत्यक्ष—३३, ३४  
 श्रीधराचार्य—७५, १६६, १६७  
 श्रीभाष्य—१०७  
 श्रीवत्सप्राप्ति—७७  
 श्रुतिप्रमाण—२८, २८  
 श्रीत—४२, ७८, ८२, ८३, ८४, ८७  
 श्वेतवेतु—४०  
 श्वेताश्वतरोपनिषद—४१, ६६, १०७, ११२,  
     ११३, २६६, ३०५

## प

पट्टकर्म—२०४, २०८, २०९  
 पोडश पदार्थ (न्यायमत)—६८

## स

सखरडोपाधि—२६३  
 सगुणात्मवादी—८४  
 सङ्गति—२४०  
 सङ्गम—२७४  
 सत्कारणवाद—५५  
 सत्कार्यवाद—१८, ६१, ६२, १६२, २३०,  
     २३१  
 सत्त्वातिवाद—५८, ५९  
 सत्प्रतिपक्ष—१४१  
 सत्प्रतिपात्यावायमाध्य—२६२  
 सत्ता-जाति—१५०  
 सत्त्रसङ्गी—२२६  
 सद्ब्यासि—४२  
 सप्ततात्र (जैनमत)—६८  
 सप्रतियोगिक—६८

- |   |  |
|---|--|
| समन्वयात्म्याय—१५४  | साध्यामावदवृत्ति—१२५                                     |
| समवाय—१४६, १४७, १५१, १६६, २२१   | सानन्द समाधि—१६५   |
| समवायसम्बन्ध—६०, १४०, १४६, १४६,<br>१५०, १५१, १५२, १५३,<br>१५४, १५५, १६६ | सामान्य—११, ७२, ७५, १४७, १५१,<br>१५५, १६६, २२१, २५७, २६३ |
| समवायसमवेत—१५१  | सामान्य-निबन्धन—२५६                                      |
| समवायस्त्र—१५१  | सामान्यविशेषसमवाय—१६८                                    |
| समवायिकारण—५५, १५०, १५१, १५४,<br>१६२, २६२, २६५                          | सामान्यान्तर—१५१   |
| समवायिकारणसमवेत—१५०   | साम्यावस्था—२१७  |
| समवेत—१४६, १५०, १५१, १५२, १५४,<br>१६६                                   | सायण माघवाचार्य—३६, ८४                                   |
| समानाधिकरण—१२२, १५३, १७०, २६६   | सायणाचार्य—६३, ६४  |
| समानाधिकरण निर्देश—६७   | सावयव—८५, १४०, २८४, २८६, २८१                             |
| समानाधिकरण-सम्बन्ध—३०६  | सास्मित समाधि—१६६, २०१                                   |
| सम्प्रशातसमाधि—१७५, १८३, १८६, १८५                                       | साहचर्य—१६   |
| सम्मेद—२७४  | सिद्धान्त-पञ्च—२४८                                       |
| सम्प्रदर्शन—२१५   | सिद्धान्त-विन्दु—१८७                                     |
| सर्वतन्त्रसिद्धान्त—१२३, १८०, १८७, ३०६                                  | सिद्धि—२१३   |
| सर्वदर्शनसंग्रह—८४, ८८, ८०, ८३, ८४                                      | सुपुत्रि—१८३, १८४  |
| सर्वसिद्धान्त न्याय—५१  | सूक्ष्मशरीर—१४, १५                                       |
| सर्वांत्मेक्यदृष्टि—७   | सृष्टिपञ्च—१४०   |
| सर्वार्थावभासक—४३   | सृष्टिवाद—५६   |
| सविकल्प—१००   | सेश्वर—८४  |
| सविचार समाधि—२०१  | सेश्वरवादी—८४  |
| सवितर्क समाधि—२०१   | सेश्वर-सर्वियदर्शन—१७५                                   |
| सहजराज्ञि—७३  | सोपल्लव—१३६, १३७   |
| साक्षात्कारी—११६  | सोपाधिक—४६, २७७  |
| साक्षात्क्यात्म्य—१५०, १५१, १५२, १५३                                    | सौत्रान्तिक—५६, ६६, ७७, ८५                               |
| साक्षिचैतन्य—३००  | संज्ञेश्वारीरक—५५, १०६, ३१२                              |
| साक्षिमात्य—३०१   | संघातवाद—५५, ५६, ५७, ६०                                  |
| साक्षी—७४   | संघातवादी—६०   |
| सातिशय—२, ५, १३६, २७३, ३१४  | संघातापत्ति—२८५  |
| साध्यसाधक भाव—१२८   | संयम—२११   |
| साध्यसाधन भाव—१२८   | संयोग—१८४  |
| साध्यसाधन सम्बन्ध—१८३   | संयोग-सम्बन्ध—१४०  |

संसार—२७४  
 संसार-दशा—१३८  
 संस्कार—७२, २०४  
 संस्कारशेषा—१६६  
 संस्कारशेषा सिद्धि—२१४  
 सांख्यकारिका—२१, २६, ७३, २१८,  
     २२३, २२६, २३१, २३२,  
     २३४, २३५

सांख्यतत्त्वविवेक—२१८  
 सांख्यतत्त्वविवेचन—६४  
 सांख्यप्रवचन—१७५, २१७, २२०

सांख्यदादी—२३३  
 स्फन्दपुराण—१८६

स्कन्थ—२८६  
 स्थूलशरीर—१४, १५  
 स्थूलाहन्धतीन्याय—२३३

स्पष्ट तार्किक—८४  
 स्पष्ट द्वैतवादी—८४  
 स्फुरण—२६०  
 स्पादादी—८२, ८४, ८६

स्वतःप्रमाण—४२  
 स्वतःप्रमाणवादी—२५६  
 स्वतःप्रमाणय—४३, २६१, २६५, २६६,  
     २६७  
 स्वतःप्रमाणयवाद—२६७  
 स्वतःप्रमाणयवादी—२६२  
 स्वदेश—३१०

स्वनिवर्त्य—३१०  
 स्वप्रागभाव—३१०  
 स्वमाववादी—५०  
 स्वयम्—२२१, २२२  
 स्वल्पासिद्धि—२६०  
 स्वविषयावरण—३१०  
 स्वारसिक—५, ८४, ८५

ह

हठयोग प्र०—२०६, २०७  
 हिरण्यगर्भ—१७५  
 हृत्पुण्डरीक—१७३, २१२  
 हेत्वाभास—३७, ६८, ६८, ११८, १२६,  
     १३२, १४१, २४५  
     २६०, २६७  
 हृषि—२०६

क

क्षणभङ्गवादी—१४  
 क्षणिकवादी—५६, ६८, ८४  
 क्षुरिकोपनिषद्—८६

क्ष

क्षातृ-शेष-प्रयुक्त—३३, ३५  
 क्षातृ-शेष-माय—४७  
 क्षानकाएड—८३  
 क्षानसन्तान—१३५, १३६, १३७  
 क्षानात्प्राप्त—२६२, ३००  
 क्षानाधयत्व—२८०

# पठ्दर्शन-रहस्य

## शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
३८	३६	( जीवात्मा ) आसि	( जीवात्मा ) असि
४८	३३	तो	तम्
५५	२३	कण्मक्षपद्मयःधातः	कण्मक्षपन्नः संघातः
५६	१	संघादयात्	संघातवाद्
६३	२०	शारीरिक	शारीरिक
६६	१४	वैमासिक	वैमासिक
७०	२६	और	और
७३	७	मतमें	मत से
७४	६	मत में	मत से
८२	३६	मतिर्थस्य	मतिर्थस्य
८३	२१	ओत	ओत
८४	३०	किया गया है	किया है
८६	१३	चार्वाक	चार्वाक
८८	३१	नैष्ठण्य	नैष्ठण्य
९६	१८	८० प०	८० न०
१०८	२६	उपपादान	उपपादान
११६	१२	सर्व	सर्व
११८	१६	श्रुतियो	श्रुतियो
११९	१८	तादेवय	तादेवय
१२१	२७	हो	हो
१२२	३५	विवर्तोपादान	विवर्तोपादान
१००	१८	मेदावास	मेदावभास
१००	३५	दूसरा	दूसरा
१०२	३४	बाद	बाद
१०३	१	अशाशीरत्व	अशाशीरत्व
१०३	१८	सह । व्रहणा	सह व्रहणा
१०४	१८	वल्कि	वल्कि
१०७	४	कर्मकारयतितं	कर्म कारयति तं

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
११६	१४	मोर्च का स्वरूप	मोर्च का तात्त्विक स्वरूप
११६	२६	न्या० ( कु० ४।५-६ )	न्या० कु० ( ४।५-६ )
११६	३३ (टिं०)	सम्बन्धमाय	सम्बन्धमाय
१२०	२३	अनुमति	अनुमिति
१२५	१४	अनेकानिक	अनेकानिक
१२६	७	साध्यमाय	साध्यमाय
१४०	१७	साध्यत्व	साध्यत्व
१४१	२५	शक्तुंकल्प	शक्तुंकल्प
१५१	३१	रूपदानि	रूपदानि
१५२	३३	तेजत्व	तेजस्त्व
१५४	२७	समयादिकरण	समयादिकरण
१६२	३५	आकृत्यपमदेन	आकृत्यपमदेन
२२१	६	गुण	गुण
२२७	२१	मायवादी	मायवादी
२४७	१२	( लात्प्र० )	त्वा ( ल्प० )
२४८	३५	उपनयनपूर्यक	उपनयनपूर्यक
२५७	२३	स्वीकर	स्वीकार
२६०	१	नित्यानित्यत्व-विचार	शब्द का नित्यानित्यत्व-विचार
२६३	१६	अत्यन्ता-माय	अत्यन्ताभाव
२७७	२८	शारीरिक	शारीरक
२७८	२०	प्रतिपाद	प्रतिपाद
२८३	३६	आत्माचालकार	आत्मसाचालकार
३०१	२५	निरुद्ध	निरुद्ध
३०३	५	प्रतिभासिक	प्रातिभासिक





